

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā

No 42

GENERAL EDITOR : PROFESSOR HIRALAL JAIN



**THE
MAHĀPURĀNA**

OR

**TISATṬHI-MAHĀPURISAGUṆĀLAMĀKĀRA
(A Jain Epic in Apabhramśa of the 10th Century)**

OF

PUṢPADANTA

VOL. III

Critically Edited by

Dr. P. L. Vaidya, M.A. (Cal.); D. Litt (Paris)

Professor of Sanskrit and Allied Languages

Nowrosjee Wadia College, Poona

Published by

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay

1941

Price Rs. Six

Printed by R. D. Desai at his New Bharat Printing Press, 6 Kelewadi, Bombay 4.
and Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary,
Manikchand Digambara Jaina Granthamālā,
Hirabag, Girgaum, Bombay 4.

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालाया द्वाचत्वारिंशत्तमो ग्रन्थः

महाकविपुष्पदन्तविरचितं
त्रि ष ष्टि म हा पु रु ष गु णा लं का रं ना म
अपभ्रंशभाषानिबद्धं

म हा पु रा ण म्

तस्यायं
उत्तरपुराणद्वितीयार्धभूतः
तृतीयः खण्डः

पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरनियुक्तेन
संस्कृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन
वैद्योपाह्वपरशुरामशर्मणा
संपादितः

प्रकाशिका

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रमाब्दाः १९९८]

[ख्रिस्ताब्दाः १९४१

मूल्यं षड् रूपिकाः

TABLE OF CONTENTS

प्रकाशकका निवेदन	vii
GENERAL EDITOR'S NOTE	ix
PREFACE	xi
INTRODUCTION	xiii
1. Critical Apparatus	xiii
2. The poet and his Works	xiv
3. The Date of the Poet	xviii
4. His Patrons	xix
5. Malkhed, the Capital of the Rāṣṭrakūṭas	xxi
6. The Gloss on the Constituted Text	xxiii
7. Summary of Contents of Vol. III	xxv
महाकवि पुष्पदन्त (पं० नाथूराम प्रेमी)	१-२८
TEXT WITH CRITICAL APPARATUS & FOOT-NOTES	१-३००
८१ गेमिजितित्थयरत्तणिबंधणं एक्कासीतिमो संधि	३
८२ वसुएवउप्पत्ती अंधकविद्धिणिव्वाणगमणं दुवासीमो संधि	१७
८३ खेयरभूओयरकुमारीलंभो समुद्दविजयवसुएवसंगमो तेयासीतिमो संधि	३०
८४ वासुएवजम्मणं चउरासीमो संधि	४७
८५ णारायणबालकीलावण्णणं पंचासीमो संधि	६०
८६ कंसच्चाणूरुणिहण्णो छासीतिमो संधि	८२
८७ गेमितिथकरउप्पत्ती सत्तासीतिमो संधि	९०
८८ जरसिंधणिहण्णं अट्टासीतिमो संधि	१०३
८९ देवइआइभवावलिवण्णणं एक्कूणणवदिमो संधि	१२२
९० गोविंदमहादेवीभवावलिवण्णणं णवदिमो संधि	१३९
९१ रुप्पिणिकामएवसंजोउ एक्कणवदिमो संधि	१५४
९२ गेमिणाहणिव्वाणगमणं दुणउदिमो संधि	१७०
९३ मरुभूइकरिंदजम्मावयारो तिणवदिमो संधि	१८५
९४ पासणाहणिव्वाणगमणं चउणउदिमो संधि	१९६
९५ वीरसामिन्नोहिलाभो पंचणवदिमो संधि	२१३
९६ वीरणाहणिक्खवणवण्णणो छण्णउदिमो संधि	२२३
९७ वड्डमाणसामिकेवलणाणुप्पत्ती सत्तणउदिमो संधि	२३२
९८ चंदणभवावण्णणं अट्टणउदिमो संधि	२३७
९९ जीवंधरभवावण्णणं णवणउदिमो संधि	२५३
१०० जंबूसामिदक्खवण्णणं सयमो संधि	२६९
१०१ पीईकरक्खाणं एकोत्तरसयमो संधि	२७७
१०२ जिणिंदणिव्वाणगमणं दुत्तरसयमो संधि	२८९
NOTES	301
ADDENDA ET CORRIGENDA	314

प्रकाशकका निवेदन

इस तीसरे खंडके साथ महाकवि पुष्पदन्तका यह महान् अपभ्रंश ग्रन्थ समाप्त होता है। इसके प्रकाशित होनेमें लगभग पाँच वर्ष लगे और लगभग सात हजार रुपये खर्च हुए।

जैन समाजके लिए अपभ्रंश भाषा इतनी अपरिचित हो गई है और इसके अध्ययन अध्यापनकी ओरसे उसने इतनी उपेक्षा धारण कर रखी है कि उपयोगितावादियोंकी दृष्टिसे इस ग्रन्थके लिए इतनी बड़ी रकमका व्यय करना शायद दुर्व्यय ही समझा जाय और कुछ सज्जनोंने यह कहा भी है परन्तु हमारी समझमें तो इससे बढ़कर सब्य और हो ही नहीं सकता और ग्रन्थमाला इस ग्रन्थ-रत्नको प्रकाशित करके धन्य ही हुई है। ऐसे दुर्लभ ग्रन्थोंको उद्धार करके जनसाधारणके लिए सुलभ कर देना प्राचीनतर मन्दिरों और दूसरे स्मारकोंके जीर्णोद्धार करनेसे किसी भी अंशमें कम पुण्य-बन्धका कारण नहीं है।

पुष्पदन्तके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं और जिनका हमें पता है अब वे सभी प्रकाशित हो चुके और इस तरह जैनसमाज अपने इस महाकविके एक ऋणसे तो कुछ अंशोंमें उऋण हो गया। अब जरूरत इस बातकी है कि ये सब ग्रन्थ देश-विदेशकी यूनीवर्सिटीयों, कालेजों और दूसरे विद्यापीठों तक पहुँचा दिये जायँ, जिससे प्राचीन भाषाओंके पण्डित और संशोधक इनका भलीभाँति उपयोग करने लगे।

यदि जैनसमाजके धनी दाता इस ग्रन्थका एक एक सेट खरीदकर जैन संस्थाओंमें और दूसरे बड़े बड़े विद्यापीठोंमें भेट स्वरूप भेज दें, तो जैनसाहित्यकी बड़ी भारी सेवा और प्रभावना हो । यदि इस तरह दो ढाई सौ सेट ही ले लिये जायँ, तो ग्रन्थमालाको भी बड़ी भारी सहायता मिल जाय जो इस समय आर्थिक कष्टमें है और इस लिए जिसका प्रकाशन-कार्य रुक-सा गया है ।

महाकवि पुष्पदन्तके विषयमें अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक विस्तृत लेख 'अनेकान्त'में लिखा था । इस ग्रन्थके सुयोग्य सम्पादक डा० वैद्य महोदयकी इच्छा हुई कि वह भी इस खण्डके प्रारंभमें दे दिया जाय, तो साधारण हिन्दी भाषा-भाषी पाठक भी इस महाकविसे परिचित हो जायँ और वे भी इस प्रकाशनके महत्त्वको हृदयंगम कर सकें । अतएव वह आगे उ त कर दिया जाता है ।

हीराबाग, बम्बई }
५-१२-४१

विनीत—
नाथूराम प्रेमी
मंत्री

GENERAL EDITOR'S NOTE

It is a matter of great delight and satisfaction to me to find this great work of Puṣpadanta completely edited and published, thanks to the untiring efforts and unflinching zeal of my esteemed friend Dr. P. L. Vaidyā. When I ventured to start and edit the Kārañjā Jaina Series in 1930, Dr. Vaidya was not in my horizon at all; and as to the how and when of the fulfilment of my ambitions, I had little more with me than my intense desire to bring to light the hidden treasures of Apabhramṣa literature, of which the contributions of Puṣpadanta appeared to me the foremost. Destiny, however, soon brought us together and our collaboration proved most valuable, as has been pointed out by Dr. Vaidya. After finishing the edition of Nāyakaumāracarīu, I became engrossed in the more stupendous task of editing the Ṣaṭkhaṇḍāgama (Dhavalasiddhānta), but through the co-operation of Dr. Vaidya the publication of Apabhramṣa works could also be continued and all the three works of Puṣpadanta are now made available in admirable editions.

As Dr. Vaidya has noted in his preface, the Mahāpuraṇa was first intended to be included in the Kārañjā Jaina Series, and with that view the press-copy was financed from the funds of that Series. Later, however, when it was found that the publication could not be immediately undertaken in that Series, the Trustees very charitably allowed the copy to be utilized for the Manikchanda Digambara Jaina Series without minding the costs. For this, Seth Gopal Ambadas Chaware, the founder of the Kārañjā Series, owes our grateful thanks. Dr. Vaidya has already performed the pleasant task of thanking the Trustees of the Manikchand Series as well as those who helped us by securing and loaning out manuscripts. I have only to associate myself fully in the expression of gratefulness.

The times are very hard now for undertakings of this nature. On the one hand, funds available for publishing old texts of this kind have been shrinking, and on the other, the costs are growing enormously. To crown the difficulty, these texts do not command a ready sale, and copies have partly to be distributed free and partly stocked for an indefinitely long period. Under such circumstances, when it is a feat to keep one's

head above water, it is a matter of joy and pride that the MANIKCHAND DIGAMBARA JAINA GRANTHAMĀLĀ is not only able to keep its flags flying, but even to push them up to ever growing height and brilliance as shown by its latest publications. The credit of this, in a very large measure, belongs to Seth Thakordas Bhagwandas, the chief trustee, and Pandit Nathuram Premi, the Secretary of the Series, who have been sparing no personal efforts in that direction. But their resources are now soon getting exhausted. Let us all wish the Series a continuous career of usefulness and advancement.

King Edward College, }
Amraoti, 23-11-41. {

H. L. JAIN.

PREFACE

THE plan of bringing out works of Puṣpadanta, a great Apabhraṃśa poet of the tenth century A. D., was conceived by me as early as 1926 when, as Springer Research Scholar of the University of Bombay, I was working on the Apabhraṃśa literature. Professor Hiralal Jain of King Edward College, Amraoti, whom I met during my visits to Karanja while on search for Apabhraṃśa Mss., suggested to me that, instead of undertaking the voluminous Mahāpurāṇa of the poet first, we should rather start with the smallest of the three known works, viz., the Jasaharacariu, and that I should edit it for the Karanja Jaina Series which he then proposed to start. I accepted his proposal as I then thought that it would give me an idea of the methods that I should adopt in editing Apabhraṃśa works, and of difficulties that I might be required to face. In 1931 my edition of Jasaharacariu was published as Vol. I of the Karanja Jaina Series. The method of printing Apabhraṃśa verses, conceived for the first time by myself so as to clearly bring out rhyme of the two parts of the line, was appreciated by scholars and particularly by the late Professor Dr. Jacobi. This encouraged me to undertake the biggest work of our poet, the Mahāpurāṇa. In the meanwhile, Professor Hiralal Jain brought out his edition of the second smaller work of our poet, the Nāyakumāracariu as Vol. I of the Devendrakīrti Jaina Series of Karanja in 1933. This work was printed in Poona under my supervision. Having thus gained sufficient experience of the editorial work, I thought I would be able to do the job of editing the Mahāpurāṇa expeditiously, provided funds for publication were forthcoming.

It was first proposed to include the Mahāpurāṇa in the Karanja Jaina Series which published my Jasaharacariu; the promoters of the Series even spent some three hundred rupees on preliminary expenses of copying work, but unfortunately they could not undertake the stupendous task of financing its publication. I was in a fix, grew despondent, and put aside the editorial work for a considerable number of years, and had it not been for the Managing Trustee, Mr. Thakordas Bhagwandas Javeri and the General Editors, Pandit Nathuram Premi and Professor Hiralal Jain, of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā of Bombay, these three volumes of the Mahāpurāṇa, the greatest and grandest of the Apabhraṃśa works ever published, could not have seen the light of the day. I thus owe to these gentlemen a personal debt of gratitude, no less than the world of scholars; for, they enabled me to rescue from oblivion the genius of a great poet, Puṣpadanta, and did not allow my labours of fifteen years to be wasted. Here I may repeat what I said in 1937 in my Introduction to Vol. I on page xxxvi: "The poetic genius of Puṣpadanta required the benevolent encouragement of his patron Bharata in the 10th century. After the plunder of Mānyakheṭa in 972 A. D., the poet became desolate and remained uncared for for about a thousand years, and had it not been for the help that the Trustees of the Series offered to the Editor, his efforts to bring the poet out of oblivion would have been of no avail. The spirit of Puṣpadanta will thus take a special delight in having once more discovered the spirit of his former patron regenerated in the Trustees of the Series."

I very much regret that owing to the cost of production which is soaring high day by day, I have had to hold over discussion and treatment of a large number of questions and topics which normally should have found a place in my Introduction to

this last volume of the work, such as metre, language, mythology, relation of the present work to other versions of the Mahāpurāṇas, viz., that of Jinasena-Guṇabhadra, of Hemacandra, and of the Kathāvalī of Bhadrēśvara (a Mahāpurāṇa in prose), glossary of rare Prakrit words etc. I however hope to discuss some of them through oriental journals, in due course, and others in independent books already in preparation. I may mention particularly that "A Dictionary of Jaina Proper Names" on the lines of Professor Malalasekara's Dictionary of Pali Proper Names is a desideratum, and I have pleasure to announce that I have planned it and started my work on the same.

It now remains for me to record my deep debt of gratitude to all those who have assisted me in one way or another in the preparation of all the three volumes of the Mahāpurāṇa. I have already made mention of the kindness of the Managing Trustee, Mr. Thakordas Bhagwandas Javeri, the General Editors, Pandit Nathurām Premi and Professor Hiralal Jain, of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā of Bombay, who, in spite of low funds of the Mālā, agreed to finance the publication, and obtained for me loan of Mss. from Karanja and Jaipur. My thanks go to Dr. A. N. Upadhye of Rajaram College, Kolhapur, who secured for my use and kept with me for these 12 years an important Ms. of the entire work written in single hand, belonging to Tatyasaheb Patil of Nandani in Kolhapur State. Master Motilal Sanghi Jain of Sanmati Pustakālay, Jaipur, obliged me, through Professor Hiralal Jain, by lending me Mss. of the Uttarapurāṇa and of the Ṭippaṇa of Prabhācandra. Seth Gopal Ambadasji Chaware of Karanja obliged me very highly by sparing from Sena Gaṇa Bhandar my Ms. S, and keeping it with me long. Professor R. G. Marathe of the Willigdon College, Sangli, helped me for the major portion of collation work of this volume also, as he did for the first two volumes. Nor should I forget to mention thankfully the work of Mr. R. D. Desai of the New Bharat Printing Press, Bombay, and his willing staff of Proof-readers and Pressmen who are responsible for the excellent get-up and faultless execution of this Volume.

Lastly, the Editor and Publishers acknowledge their indebtedness to the University of Bombay for the substantial financial help (Rs. 500) it has granted towards the cost of publication of this Volume. It will not be out of place to record here that the University had also helped the publication of the Second Volume by making a grant of Rs. 650.

Nowrosjee Wadia College, Poona }
December 1941

P. L. VAIDYA

-0-

ABBREVIATIONS

- ALS: Dr. Ludwig Alsdorf, Harivaṃśapurāṇa, Hamburg, 1936.
 ALTEKAR: The Rāṣṭrakūṭas and their Times, Poona, 1934.
 JASA: Jasaharacariu of Puṣpadanta, Karanja Jaina Series, Karanja, 1931.
 MDJGM: Manikchand Digambara Jaina Granthamālā.
 MP: The Mahāpurāṇa of Puṣpdanta in three Vols, Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay, 1937-1941.
 NĀYA: Nāyakumāracarariu of Puṣpadanta, Devendrakīrti Jaina Series, Karanja, 1933.
 SMITH: V. A. Smith, Early History of India, Fourth Edition, 1924.
 T: Ṭippaṇa of Prabhācandra.

INTRODUCTION

1. CRITICAL APPARATUS

THE Text of the Mahāpurāṇa or Tisatṭhimahāpurisaguṇālaṃkāra of Puṣpadanta, in this last volume (Saṃdhis LXXXI-CII), is based upon three fully collated Mss. designated K, A and P. I have described these Mss. fully in my Introduction to Vol. II on pages ix and x. For fixing the Text I have also used the Uttarapurāṇa Ṭippaṇa of Prabhācandra as in Vol. II.

For the text of Harivaṃśa, i e., for Saṃdhis LXXXI-XCII, I have used two more Mss. described below :—

B. This is a paper Ms. belonging to the Deccan College Mss. Library, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, and bears No. 1135 of 1884-87. It has 93 leaves of 14" by 6½" with 11 lines to a page and about 39 letters to a line. It begins :—ॐ ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ ध्रुवर्यं ॥ पणववि गुरुपर्यङ्गं...and ends :—इति श्री हरिवंशः श्रीपुष्पदन्तकृतः समाप्तः ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ स्वस्ति ॥ संवत् १४४१ वर्षे वैशाखमासे शुक्लपक्षे ११ तिथौ श्रीमधुकपुरनगरे श्रीचंद्रप्रभचैत्यालये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये.....एतेषां मध्ये भट्टारकश्रीप्रभाचंद्रशिष्यब्रह्मश्रीलक्ष्मीसागरेण श्रीहरिवंशः स्वहस्तेन लिखितः स्वपठनार्थं स्वकर्मक्षयार्थं लिखितः ॥ शुभं भवतु ॥ श्रीवाल्मीकिनगरे साहा श्रीकालिदासा तत्पुत्र सा श्रीभोज भार्या हरिदे^० तस्याः सुतः जीभाई तेन दिक्षा गृहीता ॥ ब्र० श्रीलक्ष्मीसागर नाम दत्तं ॥ तेन लिखितः ॥ लेखकपाठकयोः शुभं भवतु ॥ छ ॥

This Ms. has a gloss in the margins and also between lines. This gloss, together with the same in P (B of Alsdorf) and S (C of Alsdorf) is incorporated in foot-notes by Alsdorf, in his edition of Harivaṃśapurāṇa. Alsdorf has fully discussed the question of the Paṭṭāvalī found at the end of this Ms. on pp. 122-127 of his work.

S. This is the youngest of the three Mss. belonging to the Sena Gaṇa Bhandar at Karanja found in Bundle No. 76, and bears Nos. 434, 435 and 436 of the hand-made catalogue of this Collection. It is not mentioned in Rai Bahadur Hiralal's Catalogue of Mss. in C. P. & Berar. Out of these three Mss. only one could be handled by the Editor as the remaining two were worn out and are unsafe to use for collation purposes. I had an opportunity to inspect them personally during my visits to Karanja, and have examined them on the spot. I could however select only one out of them for collation work. To me this Ms. appeared to be a copy of one of the older Mss. in the bundle. This is a paper Ms. containing 125 leaves 8" by 12" in size with 11 lines to a page and about 28 letters to a line. It begins :—ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ गुरुभ्यो नमः ॥ ध्रुवकं ॥ पणमवि गुरुपर्यङ्गं.....and ends with the Puṣpikā of Saṃdhi XCII as in the printed work. It has a gloss in margins and between lines, partly in Sanskrit and partly in mixed Hindi-Gujarati.

Dr. Ludwig Alsdorf of Hamburg University in Germany brought out his edition of "Harivaṃśapurāṇa, ein Abschnitt aus der Apabhraṃśa-Welt-historie "Mahāpurāṇa Tisatṭhimahāpurisaguṇālaṃkāra " von Puṣpadanta " in 1936. The Mss. material used by him consisted of three Mss., which he designates as A, B and C. I have designated them as B (Balātkāra Gaṇa), P (Poona) and S (Sena Gaṇa) respectively. The

Poona Ms. was in my possession, and it was with my consent that he took photographs of the portion containing *Harivaṃśa* in Poona early in 1931. It was then agreed that I should postpone the publication of my edition of *Harivaṃśa* till his edition was out. It will be seen that I have used two more Mss., K and A, and confidently feel that I have been able to give a better text of this portion. To mention only one example, I refer the reader to LXXXI. 9.19 where my text reads :

णीवइ दुक्खसिहि जिणवरपयपंकयलग्गहं ॥

while Dr. Alsdorf's text reads :—

णावइ दुक्खसिहि जिणवरपयपंकयलग्गहं ॥

It is needless to say that my reading is infinitely better than that of Dr. Alsdorf.

As in the case of two previous Volumes of this work, I have made full use of the *Ṭippaṇa* of Prabhācandra in preparing my Critical Apparatus and Foot-Notes, and in constituting my text I have chiefly relied on my Ms. K as in Vol. II for reasons explained elsewhere.

2. THE POET AND HIS WORKS

The author of the *Mahāpurāṇa* or *Tisaṭṭhimahāpurisaguṇālaṃkāra* as the poet calls it, the *Nāyakumāracarīu* and the *Jasaharacarīu* is *Pupphayaṃta*, *Sk. Puṣpadanta*. He was born in the *Kāśyapa* gotra and his parents were *Keśavabhaṭṭa* and *Mugdhaḍevī*. As the names *Keśavabhaṭṭa* and *Kāśyapa* gotra indicate, his parents were Brahmins by birth and caste. They were followers of the *Śaiva* sect, but were later converted to Jainism and died under the Jain form of renunciation. We have no information about whether *Puṣpadanta* was born after his parents' conversion to Jainism or before it, but it is possible that he was as well-versed in Brahmanic lore as he was in Jainism. We do not know definitely what his native land was, where and under whom he studied and whose patronage he enjoyed before he migrated to *Mānyakheṭa*.

It has been argued that *Puṣpadanta* came from the South where *Digambara* Jainism ruled supreme, perhaps from *Kāñcī*, where he enjoyed, for some time, the patronage of King *Virarāja* alias King *Bhairava*, or, according to Prabhācandra's *Ṭippaṇa*, of *Śūdraka*, in whose praise he wrote some poetic work, now no longer extant. It seems that this poem caused *mithyātvā* or heretic belief in the poet, and hence *Bharata* asked him to write on the theme of the *Mahāpurāṇa* as a *prāyaścitta* for it. Due to some humiliation or insult at the court of his patron, the poet seems to have left his court in disgust, and after a long and tedious journey, arrived at the outskirts of the beautiful *Mānyakheṭa*, the prosperous capital of the *Rāṣṭrakūṭa* kings. To my mind the native land of *Puṣpadanta* could not have been south India, as, except in one or at the most two words, there is no traceable influence of any of the Dravidian languages on his works. On the contrary, the vocabulary, proverbial expressions, manners and customs, as reflected in his writings, rather indicate that he must have been a native of Northern India, perhaps of *Berar*. Further, the *Apabhraṃśa* language and literature were neither cultivated nor preserved in any of the South Indian Libraries. He undoubtedly mastered the Sanskrit language, but his mastery over *Prakrits*, and particularly *Apabhraṃśa*, is remarkably wonderful.

The poet had a lean body, dark complexion, an ugly figure, but a smiling face. He had neither wife nor children, nor a house, and seems to have led the life of a

wandering ascetic, halting at empty or deserted houses or temples, taking his bath in rivers, wells or lakes, wearing old rags or barks, sleeping on bare ground, and covering his body with his arms. He had a firm faith in the Jaina doctrine of salvation, his sole ambition being to die a wise man's death (Paṇḍitamarāṇa). For his poetic gifts he acquired several titles or birudas such as Khaṇḍa, Ahimāṇameru, Kavvarayaṇāyara, Kavvapisalla, Kavvarakkhasa, Kaikulatilaa, Sarasaiṇilaa, Vāisarighara etc. His poetic fame brought to him a host of enemies who made a successful attempt to oust him from the court of his patron; for, I think that his attack on the wicked at several places in his works is not a mere routine of poets to refer to the behaviour of the wicked at the beginning of a mahākāvya, but is due to his bitter experience at the court of his former patron. He however found in Bharata at Mānyakheṭa a genuine friend, who offered him shelter, gave him encouragement to compose poetry, and supplied to him such necessary amenities as writers, copyists etc. From the year 959 to about 972 A. D., the poet lived under his patronage, and after his death, under that of his son Naṇṇa, till the city was completely destroyed and the house of Bharata was ruined. During this period of about 14 years he wrote three works, all in Apabhraṃśa, viz., the Mahāpurāṇa in 102 Saṃdhis, dedicated to Bharata, the Nāyakumāracarīu in 9 Saṃdhis to commemorate the name of Naṇṇa in a poetic composition, and the Jasaharacarīu in 4 Saṃdhis, dedicated to Naṇṇa. He mentions his own name in the last line of each Saṃdhi, as also of his patron Bharata in the MP, and of Naṇṇa in the remaining two works. In Sanskritic languages Puṣpadanta means Tirthaṅkara Puṣpadanta, and also the sun and the moon; and Bharata stands for the first Cakravartin of the Jains. The poet therefore has adopted clever puns to have the mention of his own name as also of his patron in the last lines of each Saṃdhi of his works.

I now proceed to describe the circumstances under which the poet came to compose each of his three works. The first of these is the Mahāpurāṇa or Tisatṭhimahāpurisaguḷaṃkāra, and is dedicated to Bharata, the minister of Kṛṣṇa III (939-968 A. D.) of the Rāṣṭrakūṭa dynasty. After the death of Bharata (c. 967 A. D.) Naṇṇa, his son, succeeded him in his office as minister, for about a year, of Kṛṣṇa III and after his death in 968 A. D. of Khotṭigadeva. The poet's second work was expressly written to perpetuate Naṇṇa's name, as MP had perpetuated the name of his father. The third and the last work was also dedicated to Naṇṇa, not on account of any special request on his behalf, but purely out of gratitude for the kind treatment the poet had received during a severe famine from the hands of his patron, Naṇṇa.

We read in MP I. 3-9 the circumstances which induced the poet to write the work. In the Siddhārtha year of the Śaka era (i.e. 959 A. D.), the poet Puṣpadanta, having fallen a victim to the intrigues of the wicked in the court of his former patron, left him, and came to Mānyakheṭa. King Tuḍḍiga (i.e. Kṛṣṇa III, alias Śubhatuṅga, alias Vallabharāya of the Rāṣṭrakūṭa dynasty), who had recently acquired a great victory over the Colas by cutting off the head of the king (Rājāditya), was its ruler. The poet was fatigued and exhausted by his long and tedious journey, and looked like a new moon, fārmished in body. While he was resting in the adjoining Nandana grove, two gentlemen, Ammaḷya and Indrarāja by name, approached the poet and requested him to visit the city rather than stay out in a lonely grove. The poet thereupon said that he would rather eat grass in mountain valleys than see the face of a wicked king.

Thereupon these gentlemen asked him whether he had not heard the name of Bharata, the minister of king Śubhatūṅga (i.e. Kṛṣṇa III) who was a connoisseur of poems of the Prakrit poets, suggesting to him that the minister would certainly receive him well. On this assurance the poet saw Bharata, and was received by him with great courtesy. Bharata gave him good food, clothing and shelter. After some days Bharata asked the poet to write a poem on the theme of Purudeva, i.e., Rṣabha, the first Tirthaṅkara of the Jinas, as a prāyaścitta for the mithyātva or sin that the poet had committed in praising and waiting upon king Bhairava Vīrarāja (Śūdraka according to T.) and that he would give the poet the necessary help for that purpose. The poet was at first very reluctant and said to the minister that it was useless to write poetry in those bad days when good poets had been abused and insulted by the wicked; that he had neither the talent, nor learning, nor any friend who would offer him help; that he would gain no fame or name in the world that was so full of the wicked. Bharata asked him not to mind them as the full moon did not mind the barking of dogs. The poet was still very nervous, as he felt he had not got the required acquaintance with the teachings of his predecessors such as Akalaṅka and yet he would undertake the task of writing the Mahāpurāṇa purely out of devotion to the Jinas. The poet then invoked the goddess of learning and started his work.

After the completion of the Ādipurāṇa, i.e. Saṃdhis I-XXXVII, there seems to have been some break in the work, due, as the poet himself says in XXXVIII. 2. 1, to some unpleasant happenings that kept the poet's mind depressed. At this juncture the goddess of learning appeared before him in a dream and asked him to salute the Jina. The poet woke up, but saw nobody there. Now Bharata came to visit the poet, asked him why he stopped in the middle of his work, and offered to make amends for any offence which put the poet out of mind. Bharata asked the poet to proceed with his work and complete it, particularly in view of the fickleness of life. The poet said that he was disgusted with the world as it was full of the wicked, that to write a single line of poetry appeared to him to be a heavy task, though he was not afraid of any blemishes in his poetry. The poet further said to Bharata that it was impossible for him to refuse to do what his patron asked him to do, when he found that he (his patron) excelled in kindness king Sātavāhana and king Śrī Haṛṣa. The poet did not care for wealth, but wanted genuine friendship with Bharata. The poet then resumed his work.

There is no mention of any further breaks in the composition of the MP. which was completed in 102 Saṃdhis. At the end of the work, the poet mentions a long list of persons who, according to tradition, heard the contents of the MP from Mahāvira down to king Śreṇika. The last in this list of illustrious persons, the poet says, was Bharata, who got it composed in the Paddhaḍi metre, and that Māmaiya, i.e., Puṣpadanta, was its author. The colophon which dedicates the work to Bharata runs as follows: इयं महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारं महाकहपुष्पयंतविरइए महाभवभरहाणुमणिए महाकवे. The poet was so much pleased with his performance that he exclaimed in one of the Prāsasti stanzas:

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्दसा-

मर्थालंकरतयो रसाश्च विविधास्तस्वार्थनिर्णीतयः ।

किं चान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते

द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ॥ —Prāsasti stanza 37.

as the author of the Mahābhārata is said to have done in the line: यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्कचित्. In the treatment of the narrative portion of MP, the poet closely follows the text of the MP in Sanskrit by Jinasena and Guṇabhadra, who, it appears, represent the Digambara Jaina tradition, while the Śvetāmbara tradition is represented by Hemacandra and Bhadrēśvara as the comparison of contents clearly indicates.

Towards the end of MP the poet mentions names of certain persons; of these first is naturally, Bharata, his patron, the minister of the Rāṣṭrakūṭa king, Kṛṣṇa III. Daṅgaiya and Santaiya seem to be his assistants; of these two, Daṅgaiya is again mentioned in Nāya; Devilla, Bhogalla and Naṅṅa are Bharata's sons; and Sohaṅa and Guṇavamma or Guṇadhamma are probably Bharata's grand-sons; they were at any rate the youngest members (sisujuyala in Nāya. I. 2. 10) of the patron's family. The names of Devilla, Bhogalla, Naṅṅa, Sohaṅa and Guṇavamma or Guṇadhamma seem to be added at a later date, perhaps after the death of Bharata, only in some of the copies of the MP left with Puṣpadanta. My most reliable Ms. K does not give the portion mentioning these names, while only A and P give it (See MP. Vol. III, p. 298, Foot-Note.). The work was completed in the Krodhana year of the Śaka era, i.e., in 965 A. D.

Nāyakumāracariu is chronologically the second work of the poet. This work consists of 9 Saṃdhis, and was written at the express request of Naṅṅa, Bharata's son and successor in office. We learn from Nāya. I. 1. 5 that king Kṛṣṇa III was still ruling at Mānyakheta. The work therefore must have been composed between 965 and 968 A.D. If we put Bharata's death in 966 A.D. and that of Kṛṣṇa III in 968 A.D., the most probable year of the composition of Nāya. would be 967 A.D. While the poet was staying in the house of Naṅṅa, the young children Guṇavamma or Guṇadhamma and Sohaṅa used every day to request the poet who was their teacher (Ujjhāya,) to compose and read out to them the story of Nāyakumāra. Naṅṅa also joined them in their request to the poet to compose a poem describing the effects of the fast of Śrīpañcamī which he would be glad to hear. Nāilla and Silabhaṭṭa, two clerks or assistants of Naṅṅa, suggested to the poet that Naṅṅa was the ornament of the house and deserved to be glorified in songs to be sung by gods on the mount Meru, and therefore the poet should have him commemorated in a poetic composition as his father earlier was. The poet thereupon composed the Nāyakumāracariu in 9 Saṃdhis.

At the ends of this work, the poet invokes blessings on Naṅṅa, expresses a fervent hope that his own parents, who were born as Śaivaites but converted to Jainism and died under the Jain form of renunciation, should obtain an auspicious place in heaven, desires that his assistant or copyist Daṅgaiya (his colleague Santaiya of MP is not mentioned) should obtain the three gems of Darśana, Jñāna and Cāritra, and that he himself should secure Kevalajñāna. He also mentions that he composed the poem at the express request of Naṅṅa, the son of Bharata and Kundavvā, and minister of Śubhatuṅga, i. e., Kṛṣṇa III. The colophon at the end of each Saṃdhi runs as follows:

इय पायकुमारचारुचरिए गण्णगामक्किए महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे.....

The Jasaḥaracariu is the next and last work of the poet. It commemorates the name of Naṅṅa the great minister, and is called the ornament to his ears. It is a small poem containing four Saṃdhis. No special circumstances leading to its composition

have been mentioned or referred to, and hence I presume that the poet composed it and dedicated it to his patron Naṅṅa purely out of devotion and gratitude. The poet invokes blessings at the end on Naṅṅa the great, who was prompted, out of affection to the poet, to grant him a good house, delicious food, fine clothes and betel leaves and nuts in the days of a great famine when the country had been devastated, the days had been dark and unpleasant; when poets were abused; when people were in great poverty, and skeletons of famished beings were to be found everywhere. It was the poet's good fortune to have found Naṅṅa to support him. The poet further expresses a hope that good days would come to bring happiness to the people. To me it appears that this poem was composed between 968 and 972 A.D., in any case, before the disaster of 972 A.D. which destroyed the beautiful Mānyakheta. The colophon of this poem runs as follows:

इय जसहरमहारायचरिए महामहल्लण्णकण्णाभरणे महाकइपुण्यंतविरइए महाकव्वे...

From the stanza

दीनानायधनं सदाबहुजनं प्रोत्फुल्लवल्लीवनं

केदानीं वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुण्यदन्तः कविः ॥ Praśasti stanza—36.

it appears that not only the city but also the house of the minister Naṅṅa and his office were ruined, and that the poet lost his patronage and even shelter. We have no indication as to how long after this disaster the poet lived and when he died. Out of the several copies of his works made at the cost of his patrons, he still possessed some on which he wrote stanzas in praise of his patrons; we have as many as 48 stanzas in different Mss. of the MP (See Introduction to Vol. I. pp. xvi-xxvii) some of which make mention of Bharata, and as many as 3 in different Mss. of Jasa. mentioning Naṅṅa. These stray stanzas may be regarded as the last poetic expressions of the noble poet Puṣpadanta.

3. THE DATE OF THE POET

The works of Puṣpadanta contain the following evidence on the strength of which it is possible to determine his date with tolerable certainty.

1. The poet mentions in MP I. 9 a number of his predecessors. Of these the dates of Akalaṅka, Bhāravi, Kālidāsa, Caturmukha, Svayaṁbhū, Śrī Harṣa, Bāṅa, the Dhavalā and Jayadhavalā of Virasena and Jinasena respectively, and of Rudraṭa, have been fixed with a good deal of certainty. Of these authors and works, the youngest are Virasena and Jinasena, authors of Dhavalā and Jayadhavalā, and Rudraṭa. Professor Hiralal Jain, in his English Introduction to Śaṭkhaṇḍāgama, Vol. I. page ii, has come to the conclusion that the Dhavalā was completed in 816 A. D. and the Jayadhavalā in 837 A.D. Professor P. V. Kane and Dr. S. K. De of Dacca University hold that Rudraṭa lived between 800 and 850 A. D.

2. In MP I. 3. 2 the poet refers to a historical event, viz., the death of the king of the Colas at the hands of Tuḍiga, who is no other than Kṛṣṇa III of the Rāṣṭrakūṭa dynasty, known also as Akālavaraṣa, Śubhatuṅga and Vallabharāya. According to Vincent Smith and Altekar, Kṛṣṇa III came to the throne or succeeded his father Amoghvaraṣa in 939 A.D., and he obtained a smashing victory over the Colas on the

battle-field of Takkolam in 949 A.D. The Cola army was led into the battle by the crown-prince Rājāditya who was killed on the field by the army of the Rāṣṭrakūṭas led by the Ganga ruler Bhūṭaṅga II.

3. The poet mentions in MP I. 3. 1 the Siddhārtha year, presumably of the Śaka era, in which he began the composition of MP, and in MP CII. 14. 13 he says that he completed it in the Krodhana year, presumably of the same era. The Krodhana saṃvatsara comes six years after the Siddhārtha saṃvatsara, which Siddhārtha year, in my opinion, is the same Siddhārtha year of the Śaka era 881 in which Somadeva completed his Yaśastilaka at Gangadhārā under a feudatory of Kṛṣṇa III of the Rāṣṭrakūṭa dynasty. Our poet seems to have been prompted to write his Jasaharacariu on account of this recent evidence of the popularity of the theme.

4. In Praśasti Stanza No. 36 (See MP. Vol I. Introduction, page xxv) the poet mentions the destruction of Mānyakheta by a king of Dhārā. According to Altekar (See page 124, and also Addenda, page 422) who is supported by epigraphical evidence as well as literary evidence of Dhanapāla, the author of Pāyilacchī Nāmamālā (See stanza 276), the plunder of Mānyakheta took place in the year 1029 of the Vikrama era, i.e., 972-73 A. D., in the reign of Khoṭṭigadeva, the successor of Kṛṣṇa III.

5. In Jasa. IV. 31. 7-10 the poet refers to a severe famine. Professor Hiralal Jain thinks (See Nāya. Introduction, pages XVIII-XIX) that this famine may have occurred after the plunder of Mānyakheta in 972 A. D. I do not think so. In my opinion it must have occurred before 972 A. D. when the poet still enjoyed the patronage and favours of Naṅṅa, and the city still in tact, as otherwise the poet might have mentioned the destruction of the city in Jasa. itself. There are however no historical documents available to determine the date of this famine, and hence its mention in the works of the poet does not give us any clue to fix his date. Yet the events mentioned under 1-4 above give enough indications to solve the problem of the date of the poet.

The *terminus a quo* for the date of Puṣpadanta would be the date of Jayadavalā, say 837 A. D., and of Rudrata, say, 850 A. D., and the *terminus ad quem* the plunder of Mānyakheta in 972 A. D. Now within these limits the Siddhārtha Saṃvatsara would occur twice, first in 899 A. D. and again in 959 A. D. Of these two years we cannot accept the first as the defeat of the Cola king by Kṛṣṇa III could not have been effected before 940 A. D. the probable year of the accession of Kṛṣṇa III to the throne. In fact, the defeat of the Colas took place, according to Smith and Altekar, in the year 949 A. D. We therefore have to accept 959 A. D. as the Siddhārtha year in which Puṣpadanta commenced his MP, and 965 A. D. as the year in which he completed it. Bharata, the poet's patron, lived to see the completion of MP, but seems to have died soon after it, say, in 966 A. D. The reference to the fickleness of life mentioned in MP XXXVIII. 3. 9, may be due to the inner promptings of Bharata himself. For a fuller discussion of the question, the reader is referred to my Introduction to Jasa., pages 20-24, and to Rai Bahadur Hiralal's Catalogue of Mss. in C. P. & Berar, page xlv ff., and to Altekar, Addenda, page 422.

4. THE POET'S PATRONS

In the different Mss. of MP, I have discovered as many as 48 Praśasti stanzas, out of which 33 stanzas make mention of Bharata, the poet's patron. I have given

these stanzas in MP. Vol I. pp. xvi-xxvii. In the text of MP, itself there are passages, viz., MP I. 5; XXXVIII. 2, 3 and 6; CII. 12, 13 and 14, in which Bharata is glorified. From these it is possible to construct the story of Bharata's life. This patron of poetry and learning is not mentioned anywhere else, either in works on early Indian History such as Bhandarkar's Early History of the Deccan, or Vincent Smith's Early History of India, or Altekar's Rāṣṭrakūṭas and their Times. The discovery of Puṣpadanta's works have thus brought this Bharata to the notice of historians.

Bharata seems to have come from the family of Koṇḍella (Sk. Kauṇḍiṇya) gotra. This was a rich family and held the office of ministers (See Praśasti stanza No. 46,) but had become poor. There are references which indicate that Bharata regained the lost wealth of his family by devoted service to his master (15). His grandfather's name was Annaiya or Annayā. His father's name was Aiyāṇa or Airāṇa and his mother was called Devī. Bharata had no brother or near relative (15). He was married to Kundavvā, and had three sons at least, viz., Devilla, Bhogalla and Naṇṇa, and two grand-sons, Sohaṇa and Guṇavamma. Naṇṇa is mentioned as the son of Kundavvā and it is not unlikely that Bharata had more wives than one. Of the three sons Naṇṇa succeeded his father as minister, first of Kṛṣṇa III in 966 and later of Khottigadeva from 968 onwards. In the order of the mention of these three sons it looks that Naṇṇa was the youngest. We have therefore to presume that his two elder brothers died following the death of their father in 966 A. D. or that Naṇṇa had some special qualifications to supercede his brothers in the office of his father.

Bharata is described by the poet as having a dark complexion (12; 20). He had a good physique (23), and held the office of a general in the army of Kṛṣṇa III (46). He also held the portfolio of the minister of charities in the royal household (12). He wore a simple dress and had courteous manners and speech (35). He was fond of learning (7). He combined in him wealth and learning (22). It was impossible to count his virtues as it is impossible to count the waters of the sea (11, 12). He had a pure character (3). He was in fact a rendezvous of all virtues, most striking among them being his generosity. Poems were being recited in his house, and copyists prepared copies of works. Thus, since Puṣpadanta became his friend, his house became a meeting place of the learned (43). He was always generous to the needy and so held a place of honour amongst generous persons of the past such as Bali, Jimūtavāhaṇa, Dadhīci, Vinayānkura and Sātavāhana (9, 31). His fame travelled far and wide (1). He had countless virtues as he had countless enemies (27), who experienced the same miseries as copyists experienced while toiling (48). One graceful act on his part was to induce Puṣpadanta to write the Mahāpurāṇa and to offer him the necessary help for that purpose. In fact, instead of spending his wealth in building wells, lakes, ponds and Jain temples, he used it on the preparation and propagation of the Jain epic, and the poet hoped that with the help of this work, he would cross the ocean of saṃsāra in comfort (47).

After the death of Bharata in 966 A. D., his son Naṇṇa offered the poet the same help. We find in the two works which the poet wrote to commemorate him his glorification in Nāya. I. 3-4, and in the Praśasti at the end of this work; in J. a. s. I. 1; IV. 31. 7-10, and in the three stanzas at the beginning of the three Saṃdhis of this work, where reference to his generosity is made. We gather from this material that

Naṅga was the worthy son of a worthy father and extended his patronage to the poet with the same generosity. Naṅga seems to have appointed him as a teacher to look after the spiritual welfare of his two sons, Sohana and Guṇavamma, who call the Poet 'Ujjhāya.' It is likely that Naṅga had one more son born to him after the completion of Nāyā, as the poet mentions 'Sutail' in the Praśasti stanza occurring at the beginning of Jāsa. II. We do not know how long Naṅga lived after the plunder of Mānyakheta in 972 A. D., but it appears that he might have lost his life in battle in that year, which event made the poet homeless once more.

5. MĀNYAKHETA, THE CAPITAL OF THE RĀṢTRAKŪṬAS

Mānyakheta, the capital of the later Rāṣtrakūṭas, where Puṣpadanta lived and wrote his works in Apabhraṃśa, is modern Malkheḍ in H. E. H. the Nizam's Dominions, is located N. Lat. 17° 10", E. Long. 77° 13", and is situated some three miles to the west of Malkher Road Railway station on the Wadi Hyderabad Section of the Nizam's Railways. According to Karhad and Deoli plates, King Amoghavarṣa I of the Rāṣtrakūṭa dynasty, founded this city and transferred his capital to this place from a place in the Nasik District, not yet finally determined. The transfer seems to have taken place about 815 A. D. Since then down to 972 A. D. when it was burnt to ashes by the fire of the wrath of the king of Dhāra, it continued to be the capital of the dynasty, and attained eminence to justify its description as given in Karhad and Deoli Plates:

यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि गीर्वाणगर्वमिव स्वर्वयितुं व्यधत् ।

that it humbled down the pride of gods and vied with the beauty of Indra's capital; or according to Puṣpadanta

दीनानाथघनं सदाबहुजनं प्रोत्कुलवल्लीवनं
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहरं सुन्दरम् ।

it was a beautiful place highly valued by the poor and helpless, had a huge population, had blossoming woods and creepers, and imitated or vied with the beauty of the city of Purandara or Indra. The town is mentioned under various names; Puṣpadanta uses the names of Mepāḍi (v. l. Mevāḍi or Mevāḍa); Maṅṅakheḍa, Mānyakheta and Mānyākheta; Prabhācandra's Ṭippaṇa calls it Medapāṭiya; the Copper plate records use the term Mānyakheta; Somadeva calls it melpāti; the town is known to Arab writers as Māṅkir, and its king as Balhārā (Amoghavarṣa I), i. e., Vallabharāya.

As all the known works of Puṣpadanta are now brought out, I considered it to be my duty to visit the place and its surroundings to obtain a first-hand knowledge of its present position. Accordingly I paid a visit to the place on 26th December 1940. The village—for it is no more than a small village now—is situated due west to the railway station called Malkher Road; the remains of the ancient Rāṣtrakūṭa palace are visible from a long distance and guide the visitor. There is not even a good cart-track leading to the village from the station, and I had to wade my way through fields with standing crops six or seven feet high, keeping my eye on the remains of the palace which looks like an old fort. After a somewhat difficult walk of over three miles, I approached the village brook on its eastern boundary. On crossing the brook I met a farmer who agreed to take me round the village and to show me the sights that I wanted to see. He told me however that the population of the town was out on

account of the scare of the epidemic of plague, and so there was no chance of my meeting any old residents or prominent people to obtain information. On crossing the brook we have an ascent of some 100 feet above the surrounding plains, which naturally gives a commanding position to the old city. The Archaeological Department of the Nizam's State does not seem to have bestowed its attention to this place and hence there is no board marking the existence of an ancient site. With the help of the farmer who acted as my guide, I first visited the ruins of the old palace with its outer walls in Tandur stone still in tact. The main entrance to the palace is still standing. On entering the premises I was shown an underground passage which, my guide told me, led to the Jain temple (which is the Śubhatuṅga Caityālaya established or built by Kṛṣṇa III according to Prabhāchandra's Ṭippaṇa), some 300 yards away from the palace in the centre of the city. A watch-tower on the southern side of the palace with its flight of steps is still in tolerably good order. I went up to its top, and, to my great delight, I could get a fine view of the surrounding country-side, with the river Kāṅgaṇā (Kandanā?) flowing on the west of the town and forming a confluence with the brook mentioned above, just under the watch-tower. I was told that the river Kāṅgaṇā had a perennial supply of clear water throughout the year. From the top of the watch-tower which is some 150 feet above the plains, one could command a really good view. I was told that the minarets of the Mosque at Gulbarga are visible from that place, but owing to winter fog, I could not see them. Mānyakheṭa, being situated within the fork formed by the confluence of two streams is, I am convinced, an ideal site to build a beautiful town. The river Kāṅgaṇā has a big bend at the foot of the tower, and looks like a big bow with its bent towards the observer. Round about, there are plains stretching miles and miles. The walls of the palace in white-grey Tandur stone on the eastern side show marks of their being attacked by cannon balls as some stones seemed to be crushed while the rest were quite in tact.

I next visited the Jain temple called Śubhatuṅga Jinālaya. The temple is still in tolerably good condition though very modest in structure or architecture. It is however very much neglected and does no credit to the Digambara Jain community which elsewhere has shown jealous care to preserve their holy places. The foundations of the temple seem to have sunk considerably below the ground level. As there was nobody to take care of the temple or worship the images, it was locked, and hence I could only peep through the small windows to satisfy myself that it contained the images of the Tīrthaṅkaras and therefore must have been a Jain temple. I was told that there used to be a Bhaṭṭāraka there, but at present there was none. It also contained some Mss. which were removed to Karanja in Berar. How delighted I would have been to find Mss. of Puṣpadanta's works prepared during his life time! The Mss. of Puṣpdanta's works which I discovered at Karanja were only copies made at Surat and other places, and so there is no chance now of discovering original or earliest copies of the works made in the house of Bharata at his cost.

The visit to the site of Mānyakheṭa, the capital of the Rāṣtrakūṭas, convinced me that it was a magnificent site capable to make a beautiful town, and although nothing of its grandeur now remains, the consensus of opinion of the poets that the town put to shame Indra's capital and was built to humble down the pride of gods, is not merely a poetic exuberance.

The rulers of Mānyakheta seem to have encouraged the literary activity of their age. They were most of them the ardent followers of the Jain faith, and naturally encouraged the religious literature of the Jainas. The works which make a mention of their rule are written mostly in Sanskrit, but there are several which are written in Kannada, and at least three in Apabhraṃśa. The royal house of the Rāṣṭrakūṭas has contributed its quota to the growth of literature and philosophy. The reader is referred to Dr. Altekar's work, pages 405-418, and to Professor S. R. Sharma's work, *Jainism and Karṇāṭaka Culture*, Dharwar, 1940, PP 64-102, which give details of works written in Sanskrit and Kannada. My account of Puṣpadanta above supplements the information regarding works in Apabhraṃśa. The feudatories of the Rāṣṭrakūṭa rulers also seem to have encouraged literature as will be seen from the colophon of Somadeva's Yaśastilaka.

6. GLOSS ON THE CONSTITUTED TEXT AND ITS SOURCES

The reader will notice that the bottom portion of the printed text is divided into two parts. The first part, separated from the Text by a wavy line gives the variants found in different Mss. or recorded in the margin of MSS., and also in the Ṭippaṇa of Prabhācandra. The second part, separated from the first part by a double line, gives a short gloss in Sanskrit on the constituted text. I have culled it from the marginal notes of Mss. that I have used, and also from the Ṭippaṇa of Prabhācandra and Pañjikā of an unknown author, perhaps Śricandra or another Prabhācandra. In selecting the gloss for this purpose I have kept in mind the difficulties which a reader is likely to meet with while going through the text, and I hope that if the reader is equipped with a good knowledge of the Sanskrit language and literature and some elementary knowledge of the grammar of the Prakrits and Apabhraṃśa, he will be able to understand the text easily with the help of this gloss. I hope this method of supplying gloss at the bottom of the page will be appreciated by the reader as it taxes him less, and helps me to reduce the volume of my notes. It should be noted that I have not retouched the text of the gloss, but have retained it as it was found in Mss., even though at times I felt tempted to improve upon uncouth Prakritisms or unwarranted historical allusions. See for example my gloss on pages 8 and 9 of Vol. I.

I should like to make a few observations here regarding the marginal gloss in Mss. The marginal gloss in my Ms. K is written in one and the same hand throughout, and seems to have been prepared by a clever and learned scholar. This scholar seems to be well acquainted with the Ṭippaṇa of Prabhācandra and also with another brief commentary in Sanskrit called Pañjikā. He has often compared the text of Puṣpadanta's MP with that of Jinasena and Guṇabhadra, and where they differed, he had noted the point of difference with the remark :—इत्यर्थे. Pandit Nathuram Premi once told me that he had seen in Agra the Mss. of the Commentary called Pañjikā, but none of them became available to me so far, and hence I am not able to say to what extent the gloss in K is indebted to Pañjikā. This Pañjikā, according to my Ms. K, contained at the end the following two stanzas in fragments (See Foot-Notes to MP. Vol. III, p 298), which I am now able to reconstruct as follows:

(नित्यं तत्र तव प्रस) ज्ञमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुतं
जातं तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्चमत्कारकम् ।

व्याख्यातं हि महापुराणममलं सुस्पष्टमृष्टाक्षरैः
 स्थेयाञ्चतसि धीमताम (तितरां चन्द्रार्कतारावधि) ॥ १ ॥
 तंवाधारमहापुराणगगनद्योती जनानन्दनः
 सर्वप्राणितमःप्रभेदनपटुः प्रस्पष्टवाक्यैः करैः ।
 भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूम्भृ (त्प्रभाचन्द्रतः
 जीयाट्टिप्पणकः प्रचण्डतरणिः सर्वार्थमग्रद्युतिः) ॥ २ ॥

—इत्येतत्पद्यद्वयं पञ्जिकायां वर्तते ।

These stanzas, with slight variations, are quoted, first, in the Introduction to the Ratnakaraṇḍaka Śrāvaka-cāra (MDJGM, 24) on page 61, and Pandit Jugal Kishore Mukhtar says that he obtained the passage from the Jaipur Ms. No 223 in the Patoḍi Jain Mandir through his friend, Pandit Pannalaji Bakliwal. I have used a Ms. of Prabhācandra's Ṭippana on the Uttarapurāṇa from this very Patoḍi Mandir; my Ms. bears No 13/3, but does not contain these stanzas nor the passage:

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकृताखिलमल-
 कलंकेन श्रीप्रभाचन्द्रपंडितेन महापुराणटिप्पणके शतत्रयधिकसहस्रपरिमाणं कृतमिति ।

These stanzas and the passage are again quoted by Kailash Chandra Shastri in his Introduction to the Nyāyakumudacandra (MDJM, 38) on page 120. The stanza "Tattvādhāra" etc. with the colophon is mentioned by Professor Hiralal Jain in his Introduction to the Nāya, on pages LXIII-LXIV. Unfortunately I did not come across any Ms. of the Ṭippana containing the above quotation. I got one Ms. of the T on the Ādipurāṇa from the Deccan College Library, and one on the Uttarapurāṇa from Jaipur. None of these Mss. use the term Pañjikā for that of T. I therefore think that the MP had two Ṭippanas, one was called Ṭippana by ācārya Prabhācandra and the other was called Pañjikā, also by Prabhācandra or Śricandra Paṇḍita. The Ṭippana by Prabhācandra I was a brief commentary on difficult words of MP; the other Ṭippana by Prabhācandra II was called Pañjikā or Ṭippanakahaṅ and seems to be somewhat more elaborate. I further think that Prabhācandra I was a contemporary of king Bhoja and wrote his Ṭippana in the Vikrama year 1080, i. e. 1023 A. D.; the second Prabhācandra wrote his Pañjikā amplifying the earlier work. Both the Prabhācandras came from the same place, Dhārā, and lived in the 11th century A.D. under two different rulers of the same dynasty. Further Prabhācandra II may have been a pupil or grand-pupil of Prabhācandra I. The lines

नित्यं तत्र तत्र प्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यद्भुतं
 जातं तेन.....

in my opinion, refer to Prabhācandra II's obligations or indebtedness to Prabhācandra I. I am offering this explanation in view of the fact that there were several Jain scholars bearing the name Prabhācandra; some twenty such scholars are mentioned by Pandit Jugal Kishore Mukhtar in his Introduction to the Ratnakaraṇḍaka Śrāvaka-cāra on pages 53-66. If this explanation is accepted, the discrepancies caused by reference to the reigns of Bhoja and of Jayasimha in the Mss. of the Ṭippanas can be satisfactorily solved.

7. A BRIEF SUMMARY OF THE CONTENTS OF LXXXI-CII.

LXXXI. This Saṃdhi and the eleven following give the Jaina version of Harivaṃśa, which includes the story of Nemi, the twenty-second Tīrthaṃkara of the Jains and of the ninth Baladeva and Vāsudeva, i.e., Kṛṣṇa and Bālarāma. The poet calls this section by its sub-title, the quarrel of Kṛṣṇa and Jarāsaṃdha. These are, really speaking, narratives covered by the Mahābhārata of the Hindus. Before commencing the narrative proper, the poet with all humility says that he has no qualifications to undertake the task, but does so to please his patron Bharata. He begins his narrative by giving an account of some of the nine previous births of Nemi.

At Siṃhapura there ruled a king called Aruhādāsa. His queen was called Jinadattā. Once both of them worshipped the Jinas and while Jinadattā was asleep, she saw in a dream a lion entering her mouth. She narrated the dream to her husband who told her that she would get a son. A beautiful son was born to her, was named Aparājita, and in due course became king. Aruhādāsa then became a disciple of a monk Vimalavāhana. One day Aparājita received a report that both Aruhādāsa and Vimalavāhana attained emancipation. Aparājita was very much moved by this news and took a vow that he would not touch food until he saw the feet of his father and of the monk. At this resolve Indra felt uneasy and asked Kubera to arrange a Samavasaraṇa where Aparājita would be able to have the sight of both his father and the monk. He did accordingly, Aparājita was satisfied, and took food. Once, at the time of the Nandiśvara festival, Aparājita saw two monks whom he thought he had seen somewhere. One of these monks then gave the king the account of their meeting in their previous birth.

There is a town called Sūryaprabha in the Gandhila country with its king Sūryaprabha and queen Dhāriṇī. She had three sons, Cintāgati, Manogati and Capalagati. Now at that time there was a town called Arindama with its king Ariṃjaya and queen Ajitasenā. They had a beautiful daughter, Pṛitimatī by name. This Pṛitimatī would not marry any body unless he did three rounds of Maunt Meru. Many persons attempted to fulfil the condition but failed. Manogati and Capalagati got the news, came to see the girl, fell in love with her, but were weak to fulfil the condition; so they asked their elder brother Cintāgati about it; he won the race. Pṛitimatī was prepared to marry him but he wanted that she should marry any one of his younger brothers. She however did not like the proposal, and out of disgust for the world, renounced it under a nun called Nivṛtī. On beholding this behaviour of the girl, all the three brothers became monks. After their death they were all born in the Māhendra heaven. In their next birth, Cintāgati was born as Aparājita. Now these two monks told Aparājita that he had only one month of his life left to him, and then they went away. On hearing this Aparājita renounced the worldly life, became a monk, died, was born in the Acyuta heaven, and in the following birth was born as prince Supraṭiṣṭha, the son of Śricandra and Nandādevī of Hastināgapura. In due course Supraṭiṣṭha became king. Once he offered alms to a monk named Jasahara; there appeared five miracles in his house. On seeing a falling meteor, Supraṭiṣṭha left his kingdom to his son Sudrṣṭi, became a monk, practised penance, and acquired merit which enabled him to be a Tīrthaṃkara. He was then born as Ahamindra in the Jayanta Anuttaravimāna, and was destined to be Nemi, the twenty-second Tīrthaṃkara of the Jains, in the Harivaṃśa, which traced its descent from Ṛṣabha, the first Tīrthaṃkara.

In the city of Kauśāmbī there lived a king named Maghavat. His queen was called Vitaśokā. They had a son, named Raghu. There lived in the city a merchant, Sumukha by name. Once a merchant called Viradatta of Dantapura came with his wife Vanamālā to stay with Sumukha who fell in love with the lady. Sumukha managed to send her husband Viradatta on a long journey for trading, while he and Vanamālā enjoyed life. When after a long period of twelve years Viradatta returned, he found his wife's misbehaviour, became a monk out of disgust, and was born as god Citrāngada in the Saudharma heaven. Raghu, the son of king Maghavat, was also born there as god Sūryaprabha. Once Sumukha and Vanamālā heard a religious sermon from a monk Dharmasiṃha, and were filled with remorse for their bad behaviour, and died. Sumukha in his next birth was born as Siṃhaketu, son of king Prabhañjana and Mṛkaṇḍā of Bhogapura, and Vanamālā was born Vidyunmālā as daughter of king Vajracāpa and Śubhadevī of Sālayapura. Here also Siṃhaketu and Vidyunmālā were married. Once gods Sūryaprabha and Citrāngada saw them in a pleasure garden. Citrāngada could not control his anger, picked them up, and was about to throw them in a deserted place when his friend Sūryaprabha pacified his anger, and as a result of this, Citrāngada threw them in a garden near the town of Campā. The gods then went to heaven.

Just at this juncture, king Candrakīrti of Campā had died and left no son to succeed him to his throne. The ministers therefore let loose an excellent elephant with a pitcher of water to select a king for them. The elephant came to the garden and disbursed the pitcher over Siṃhaketu. He was then selected king of Campā, and was named Mārkaṇḍa as he was the son of Mṛkaṇḍā. From this Mārkaṇḍa started a line of kings, Harigiri, Himagiri and Vasugiri.

Now in Sauripura there was a king named Śūrasena. He had two wives, Dhāriṇī and Sukāntā. They gave birth to two sons who became famous in the world.

LXXXII. Andhakavṛṣṇi was the son of Dhāriṇī and Narapativṛṣṇi was the son of Sukāntā. Andhakavṛṣṇi married Subhadrā and had ten sons from her, of whom Samudravijaya was the eldest and Vasudeva was the youngest, and two daughters, Kuntī and Mādri. Narapativṛṣṇi married Padmāvati and had sons such as Ugrasena etc. and one daughter named Gāndhārī. In Hastināgapura there lived a king named Hasti or Hasta; his queen was Suvakkī. They had a son, Pārāśara by name. His wife was Satyavatī. Their son was Vyāsa, the false poet. Vyāsa married Subhadrā and had by her three sons, Dhṛtarāṣṭra, Pāṇḍu and Vidura. Once these brothers went to Sauripura. Pāṇḍu saw Kuntī there, fell in love with her, and with the help of a ring that he obtained from a Vidyādhara, entered Kuntī's residence, and enjoyed her. Kuntī gave birth to a son who was put in a box and left in the stream of the Jumna. He was picked up by king Āditya of Campā who gave the boy to his queen Rādhā. As the boy was seen keeping his hand on his ear, he was named Karṇa. When Andhakavṛṣṇi discovered that Pāṇḍu was in love with Kuntī, both the king's daughters were married to him. From Pāṇḍu we have the five Pāṇḍavas, Yudhiṣṭhira etc. Gāndhārī was married to Dhṛtarāṣṭra and had one hundred sons, Duryodhana etc.

The rest of the Saṃdhi refers to the previous births of Andhakavṛṣṇi and of his sons including Vasudeva.

LXXXIII. After his father's death, Samudravijaya became king. His youngest brother Vasudeva was very beautiful, was in the habit of wandering freely in the city and maddened the hearts of all ladies in the town. The citizens then made a complaint to the king that they could not lead a happy life at home as Vasudeva had maddened their wives. Vasudeva was thereupon forbidden to move in the city and had to restrict his movements to the precincts of the palace. Vasudeva resented this, quietly left the house at night, and reaching the burning ground, left his ornaments on a burning dead body there, and a letter attached to the neck of his horse, and disappeared. He was believed to have committed suicide. The astrologers however predicted that the king would meet him after a period of hundred years.

In the course of his wanderings, Vasudeva came to Vijayanagara where he married Sāmādevī, king's daughter. Once, while sporting in a lake, Vasudeva was caught by a maddened elephant, but was defeated by him. On seeing this exploit, a Vidyādhara picked him up, and took him to the Vaitāḍhya mountain. There he married Sāmari, the daughter of Aśanivega and Pavanavegā. Now a Vidyādhara named Aṅgāraka did not like the union, and hence picked up Vasudeva and attempted to carry him off: but Sāmari ran after her husband with sword in hand, and killed Aṅgāraka. In the fight Aṅgāraka dropped Vasudeva in a grove near Campā. There he heard of Gandharvadattā who was very fond of Viṇā. Several kings from earth and heaven gathered there to show their skill in the art of playing on the lute and win her hand, but nobody pleased her. Now prince Vasudeva, who looked like a traveller, went there to try his luck. Several Viṇās were offered to him, but he found fault with every one, and said to Gandharvadattā that he would charm her mind if a Viṇā, called Ghoṣayati, belonging to king Padmaratha, could be secured. The merchant then sent his men, secured the lute, gave it to Vasudeva who played on it and enticed the mind of Gandharvadattā. She then chose Vasudeva for her husband. He thereafter married seven hundred girls of the Vidyādharas.

In the course of his wanderings, Vasudeva arrived at a city called Riṣṭa, where king Hiraṇyavarman was ruling. The king arranged a svayamvara of his daughter Rohiṇī. Many kings attended the svayamvara but Rohiṇī chose Vasudeva. At the instigation of Jarāsaṃdha, the princes including Samudravijaya attacked Rohiṇī's father. Vasudeva ascended a golden chariot, and while discharging arrows, discovered his eldest brother Samudravijaya in the crowd, and, as the period of hundred years was completed, disclosed his identity. The fight stopped, Samudravijaya greeted his brother, and all the ten brothers returned home.

The soul of a monk, Śaṅkha by name, was born as a son to Rohiṇī and Vasudeva. This son was the ninth Baladeva.

LXXXIV. There lived an ascetic named Vasiṣṭha. He practised hard penance and grew matted hair. He was told by two Jain monks that there was no piety in his practices as they did not include kindness to creatures. Vasiṣṭha then became a Jain monk, practised fasts for a month, and became very much emaciated. King Ugrasena of Mathurā saw him begging to break his fast. He said to the people that he himself would serve alms to the monk, and that they should not offer them to him, but actually did nothing of the kind. Three months passed in this manner, the monk

getting no alms. The People of the city then openly began to talk that the king was responsible for the monk's death, as he himself did not feed the monk nor did he allow people to feed him. This talk was heard by the monk, who was enraged and formed an inauspicious hankering that in his next birth he would become the king's son and put him into prison.

Now monk Vasiṣṭha was born as son to Ugrasena and Padmāvati. During her pregnancy the queen had a desire to eat her husband's flesh. When the son was born, they put him into a bronze box and let it down in the waters of the Jumna. He was picked up by Mañjoyarī, a lady who kept a wine shop. He was named Kaṁsa as he was found in a bronze box. In his youth he went to Mathurā and studied the science of archery under Vasudeva.

Once Jarāsaṁdha made a proclamation that he would give his daughter and a kingdom to one who would vanquish king Siṁharatha of Podanapura. Vasudeva with his pupil Kaṁsa defeated him. In the battle, Kaṁsa distinguished himself by his daring act. Jarāsaṁdha gave him his daughter Jivāṁjasā and the kingdom of Mathurā, where Kaṁsa's father Ugrasena was ruling. Now Kaṁsa attacked Mathurā, captured Ugrasena, put him into prison, and became king. Out of regard for Vasudeva, Kaṁsa gave his sister Devakī to him as a gurudakṣiṇā.

Once Atimuktaka, who was a brother of Kaṁsa and had become a Jain monk when Ugrasena was imprisoned by Kaṁsa, came to Mathurā for begging alms. Jivāṁjasā laughed at his ugly dress and showed to him dirty clothes marked with the menstrual fluid of Devakī. The monk got angry and cursed Jivāṁjasā that her husband would be killed by a son of Devakī. When Kaṁsa came to know of this, he arranged with Vasudeva that the latter would hand over to Kaṁsa all his sons that would be born to Devakī for being killed. Devakī did not like the idea and was on the point of renouncing the world so that no son would be born to her, but was persuaded by monk Atimuktaka not to do that. Devakī gave birth to twins three times, which were removed to a distant place by the Naigama deva and substitutes for them were killed by Kaṁsa. Once Devakī saw in a dream lion and other objects, and it was predicted that she would give birth to ninth Vāsudeva. The soul of monk Nirṇāma was born in the womb of Devakī, and in due course a son was born to her.

LXXXV. As Kṛṣṇa was born in the seventh month after conception, Kaṁsa had no idea that he would come to the world so early, and hence was not on his guard. Now, Vasudeva, accompanied by his eldest son Balabhadra took the newly born child and proceeded towards the river Jumna in order to hide him somewhere. The doors of Vasudeva's house opened gently at the touch of the toe of Kṛṣṇa; the river Jumna gave them way by dividing her stream into two. At this juncture Nanda came there with his newly born daughter which he wanted to return to the deity that bestowed her on Yaśodā while Yaśodā wanted a son. Nanda and Vasudeva exchanged their children, and went home. As soon as Kaṁsa got news of the birth of a child to Devakī, he came there, found a newly born girl, crushed her nose and put her in the cellar of the house. Devakī looked after her till she came to youth. The girl, finding herself deformed, renounced the world and became a nun.

Now Kṛṣṇa grew happily in the house of Nanda and Yaśodā. Once Kaṁsa saw in a dream that he had lost all marks of royalty such as umbrella etc. He then asked the court astrologer Varuṇa what it meant. The astrologer told him that a powerful enemy was born to Kaṁsa; and that that enemy had been growing in the house of Nanda. On getting this information Kaṁsa sent several persons, disguised in different forms, to bring about Kṛṣṇa's death; but Kṛṣṇa, instead of being killed, killed these very persons. Kṛṣṇa also performed several miraculous feats such as lifting mount Govardhana to save his people from a great downpour of rain.

Now Kaṁsa made a proclamation that he who slept on the bed of snakes, bent a strong bow and filled a conch with his breath, would get the hand of his daughter. Bhānu and Subhānu, two sons of Jarāsaṁdha, on getting this news, came to Mathurā and on their way camped on the bank of the Jumna. Kṛṣṇa who was playing on the bank with his friends, saw the camp, asked Subhānu where they were going, and hearing from them that they were to go to Mahturā to perform the three feats, himself desired to accompany them and to see if he could himself perform the feats. Subhānu felt that Kṛṣṇa was not an ordinary man, and took him to Mathurā. Kṛṣṇa saw there the bed of snakes, the bow and the conch, which other people were unable to handle, rose to the bed, picked up the bow, and filled the conch with his breath the sound of which terrified the world. Kaṁsa was then convinced that it was Kṛṣṇa who was his enemy, and proceeded to find out ways to bring about his death.

LXXXVI. Kaṁsa then sent a message to Nanda that he should offer to Kaṁsa lotus flowers from a deep pool in the river Jumna which was known to have been haunted by a deadly snake called Kāliya. Nanda was hesitating, when Kṛṣṇa offered to do the feat. He went to the river, challenged the snake, fought with him, vanquished him, obtained the flowers and sent them to Kaṁsa. Kaṁsa then arranged a wrestling match to which Nanda and other cowherd boys were invited. When they arrived, Kaṁsa let loose an elephant on them, but Kṛṣṇa mastered him, plucked his tusks, and arrived at the arena. There Vasudeva went to Kṛṣṇa and told him that he should kill Kaṁsa. Kṛṣṇa first fought with Cāṇūra and killed him. Kṛṣṇa then challenged Kaṁsa, and in a duel, killed him. After his death Ugrasena was put on the throne of Mathurā. Now Kṛṣṇa disclosed to Nanda and his followers that he was really the son of Vasudeva, and the ambition of his life was to destroy the enemies. He then sent Nanda and other people to their colony, and himself remained at Mathurā.

LXXXVII. After the death of Kaṁsa, his wife, Jivāṁjasā, went to her father Jarāsaṁdha, and told him of the death of her husband at the hands of Kṛṣṇa. On hearing this, he sent his sons to Mathurā. Kṛṣṇa and his followers defeated them. One of these sons of Jarāsaṁdha, Kālayavana by name, persued the Yādavas, who were pressed to the west. At the suggestion of Baladeva, they shifted their quarters to the sea-side, and a rumour was set afloat that all the Yādavas put themselves into the fire and died. Kālayavana then returned to his father and told him how the Yādavas had met their death.

While the Yādavas were camping on the sea-shore, the Naigama god, dressed as a horse, came to Kṛṣṇa and asked him to ride on his back. He did so, the army of

Yādavas following. As the horse entered the sea, its waters got themselves divided into two, leaving a narrow strip of land. The Yādavas founded there a city and named it Dvārāvati.

At this juncture Indra told Kubera that Nemi, the twenty-second Tīrthamkara, would be born in the womb of Śivadevī, wife of Samudravijaya, and that Kubera should make the city beautiful. One night Śivadevī saw in a dream sixteen objects such as lion, conceived, and in due course, gave birth to Nemi. For details of his life refer to Tables in the Second Volume.

LXXXVIII. Once a merchant visited the court of Jarāsaṃdha at Rājagṛha; and offered to the king some precious gems. The king asked him from where he obtained them. The merchant told him that he visited Dvārāvati where Kṛṣṇa ruled and obtained them from that place. On getting this information Jarāsaṃdha felt that Kṛṣṇa deceived his son Kālayavana, and so himself proceeded to fight with him. Kṛṣṇa got the news from Nārada and made preparations to meet Jarāsaṃdha. Their armies met on the famous battle-field of Kurukṣetra, and in the battle that took place, Kṛṣṇa killed Jarāsaṃdha. After Jarāsaṃdha's death, Kṛṣṇa became the Ardhaçakravartin.

Once Kṛṣṇa with his wives and relatives went to sport in a lake. In the course of sport, Satyabhāmā splashed Nemi with water. Thereupon Nemi threw his bathing garment at her and asked her to get it dry. Satyabhāmā resented this and said to Nemi that though he was the brother of her husband, he was not equal to Kṛṣṇa who performed the three feats of sleeping on the bed of snakes, of bending the bow and of filling the conch with his breath. Nemi got excited at this insult, went straight to the hall of weapons, and performed all the three feats. Thereupon Kṛṣṇa became jealous of Nemi. Baladeva told him that Nemi was destined to be a Tīrthamkara. Kṛṣṇa then played a trick on Nemi so that he should be disgusted with the world and go to practise penance. For this purpose he arranged the marriage of Nemi with princess Rājimati, the daughter of king Ugrasena or Bhogarāja, and kept collected several animals and birds for the feast on the road-side so that Nemi should have a view of them. Nemi saw these on the way, asked his charioteer why they were kept there, and learning that they were kept there for the feast of his marriage, he got disgusted with the world, was filled with compassion, and renounced the world.

LXXXIX. Gods arrived on the scene and requested Nemi that he should establish the twenty-second Tirtha. Nemi then went through the usual course of conduct prescribed for a Jina, became a Kevalin, and remained on the Raivatake mount. There he delivered a sermon to Baladeva and Kṛṣṇa on the nature of the world.

The rest of the Saṃdhi deals with the previous births of Devakī, Baladeva and Kṛṣṇa.

XC. The whole of this Saṃdhi gives stories of previous births of the eight chief queens of Kṛṣṇa.

XCI & XCII. These two Saṃdhis give the previous births of Pradyumna, the son of Kṛṣṇa and Rukmiṇī. This Pradyumna was an incarnation of the god of Love, was removed from Kṛṣṇa's house as soon as born, grew elsewhere, but at the end came back to his parents' house at a critical juncture when Rukmiṇī was to yield to

Satyabhāmā a lock of hair as the latter's son was being married before the son of the senior queen of Kṛṣṇa.

It was predicted that due to the wrath of Dvīpāyana the city of Dvārāvati was to be ruined by fire, and that Kṛṣṇa was to be hit with an arrow by Jarakumāra. Things happened as they were predicted.

The remaining portion of the Saṃdhi gives in brief the story of the Pāṇḍavas, their marriage with Draupadī, some of the previous lives, not dealt with in LXXXI, of Nemi, and of Brahmadaṭṭa, the twelfth and last Cakravartin of the Jainas.

XCIII. In Podanapura there lived a king called Aravinda. His minister Viśvabhūti had two sons, Kamaṭha and Marubhūti. Varuṇā was the wife of the elder brother and Vasundharī was the wife of the younger brother. Kamaṭha secretly made love to Vasundharī. Once Marubhūti personally saw them in love-sport, went to the king to complain of his brother's misbehaviour with his wife, and got Kamaṭha exiled. Kamaṭha went to a forest where he met ascetics of the Śaiva sect, and joined them. Marubhūti later felt sorry that he drove away his elder brother for the sake of his wicked wife, went to him, and asked his forgiveness. Kamaṭha however struck Marubhūti on the head and thus killed him. In his next birth Marubhūti was born as an elephant named Vajraghoṣa, and Varuṇā, Kamaṭha's wife, became his favourite consort.

XCIV. Aravinda in his old age became a Jain monk. While once going on a pilgrimage he stopped in the forest. Vajraghoṣa came there striking every thing before him. He saw the monk, and noticing the Śrīlāñchana on his chest, recollected his previous birth, and prostrated before monk Aravinda. Then the monk preached him a sermon, and the elephant took the vows. As a result of these vows the elephant grew so weak that he was stuck up in mud on the bank of a river. Kamaṭha who had now become a Kukkuṭasarpa, bit him and thus killed him out of his enmity to him. The elephant, due to the observance of vows, was born in a heaven. In his next birth, Marubhūti was born as Vidyādhara Rāsmivega or Agnivega. He became a monk, and was swallowed by a big cobra, the soul of Kamaṭha. In this way the souls of these two brothers passed through a series of births, Marubhūti becoming Vajranābhi, an Indra in the Ānata heaven, Ānanda and Pārśva, and Kamaṭha becoming a Bhilla, a Nāraka, Siṃha, a Nāraka and king Mahīpāla. For details of Pārśva's life see Tables in Vol. II.

XCV. This Saṃdhi mentions some of the previous births of Mahāvīra. He was in his first birth, known to us, a forester called Purūravas. Once he was on the point of attacking a Jain monk, Sāgarasena by name, by mistaking him to be a deer, but his wife Kālī brought to his notice that it was not a deer but a monk. Purūravas dropped down his arrow, listened to the monk's sermon, and became his disciple. In his next birth the forester was born in the first heaven. In the next, he became the son of Bharata, the first Cakravartin, and was named Marīci. Although this Marīci got initiation at the hands of his grand-father Ṛṣabha, he did not faithfully practise the rules of ascetic life, and breaking from the Jain faith, he founded the Sāṃkhya system. He went through several births in which he preached heretic doctrines of Jaṭīlas, Parivrājakas etc. Then he was born as Viśvānandī, Tripṛṣṭha Vāsudeva and a lion. It is in his lion's birth that he obtained the right view on the preaching of a monk called Ajitamajaya.

XCVI. This lion practised the vows and became a god named *Siṃhaketu*, and passing through the births of *Harīṣeṇa*, *Priyamitra*, *Nanda* and an *Indra* in the *Acyuta* heaven, was born as a son to king *Siddhārtha* and queen *Priyakāriṇī* of *Kuṇḍapura*, and was named *Vardhamāna*. He received further names of *Vīra*, *Mahāvīra*, *Sanmati* etc., for special qualities he possessed. At the age of thirty, he renounced the worldly life and became a monk.

XCVII. *Mahāvīra* went through several *upasargas* successfully, and in due course obtained the *Kevalajñāna*.

Further, the *Samdhi* gives the story of *Candanā*, who later became the first nun under *Mahāvīra*. This *Candanā* was the daughter of king *Ceṭaka*. A *Vidyādhara* once abducted her for her beauty, but dropped her in a lonely forest out of fear of his wife. She was picked up by a forester who handed her over to his king named *Siṃha*, who in turn handed her over to a merchant called *Vṛṣabhasena*. His wife became jealous of *Candanā*, kept her in a cellar, served her with bad food. Once *Mahāvīra* was on his begging tour, and passed by the place of her confinement. She offered her food to *Mahāvīra*. On account of this noble gift on her part, five miracles occurred, and she was released and restored to her parents. She however renounced the world and became the first nun of *Mahāvīra*.

XCVIII–CII. These *Samdhis* give the previous lives of *Śreṇika*, *Candanā*, *Jivamdhara*, *Jambū* and a few others.

महाकवि पुष्पदन्त

[इस महाकविका परिचय सबसे पहले मैंने अपने 'महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण' शीर्षक विस्तृत लेखमें दिया था। परन्तु उसमें कविके समयपर कोई विचार नहीं किया जा सका था। उसके थोड़े ही समय बाद अपभ्रंश भाषाके विशेषज्ञ प्रो० हीरालालजी जैनने 'महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचार' शीर्षक लेख लिखकर उस कमीको पूरा कर दिया और महापुराण तथा यशोधरचरितके अतिरिक्त कविकी तीसरी रचना नागकुमारचरितका भी परिचय दिया। फिर सन् १९२६ में कविके तीनों ग्रंथोंका परिचय समय-निर्णयके साथ मध्यप्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित 'केटलॉग आफ मेनु० इन सी० पी० एण्ड बरार' में प्रकाशित हुआ। इसके बाद प० जुगलकिशोरजी मुख्तारका 'महाकवि पुष्पदन्तका समय' शीर्षक लेख प्रकट हुआ, जिसमें कौषलाके भंडारसे मिली हुई यशोधरचरितकी एक प्रतिके कुछ अवतरण देकर यह सिद्ध किया गया कि उक्त काव्यकी रचना योगिनीपुर (दिल्ली) में वि० सं० १३६५ में हुई थी, अतएव पुष्पदन्त विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिके विद्वान् हैं। इसपर प्रो० हीरालालजीने फिर 'महाकवि पुष्पदन्तका समय' शीर्षक लेख लिखकर बतलाया कि उक्त प्रतिके अवतरण ग्रंथके मूल अंश न होकर प्रक्षिप्त अंश जान पड़ते हैं, वास्तवमें कविका ठीक समय नवीं शताब्दी ही है। इसके बाद १९३१ में 'कारंजा-जैन-सीरीज़' में यशोधरचरित प्रकाशित हुआ और उसकी भूमिकामें डॉ० पी० एल० वैद्यने कौषलाकी प्रतिके उक्त अंशको और उसी प्रकारके अन्य दो अंशोंको वि० सं० १३६५ में कण्ठबनन्दन गन्धर्वद्वारा ऊपरसे जोड़ा हुआ सिद्ध कर दिया और तब एक तरहसे उक्त समयसम्बन्धी विवाद समाप्त हो गया। इसके बाद नागकुमारचरित और महापुराण भी प्रकाशित हो गये और उनकी भूमिकाओंमें कविके सम्बन्धकी और भी बहुत-सी शतव्य बातें प्रकट हुईं। संक्षेपमें यही इस लेखकी पूर्वपीठिका है, जो इस विषयके विद्यार्थियोंके लिए उपयोगी समझ कर यहाँ दे दी गई है। प्रस्तुत लेख पूर्वोक्त सभी सामग्रीपर लक्ष्य रखकर लिखा गया है और इधर जो बहुत-सी नई नई बातोंका मुझे पता लगा है, वे सब भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। कविके स्थान, कुल, धर्म आदिपर बहुत-सा नया प्रकाश डाला गया है। ऐसी भी अनेक बातें हैं जिनपर पहलेके लेखकोंने कोई चर्चा नहीं की है। मैंने इस बातका प्रयत्न किया है कि कविके सम्बन्धकी सभी शतव्य बातें क्रमबद्ध रूपसे हिन्दीके पाठकोंके समक्ष उपास्थित हो जायँ। इसके लिखनेमें सज्जनोत्तम प्रो० हीरालाल जैन और डा० ए० एन० उपाध्यायकी सूचनाओं और सम्मतियोंसे लेखकने यथेष्ट लाभ उठाया है।]

अपभ्रंश-साहित्य

'महाकवि पुष्पदन्त अपभ्रंश भाषाके कवि थे। इस भाषाका साहित्य जैन-पुस्तक-भंडारोंमें भरा पड़ा है। अपभ्रंश बहुत समय तक यहाँकी लोक-भाषा रही है और इसका साहित्य भी बहुत लोकप्रिय रहा है। राजदरबारोंमें भी इसकी काफी प्रतिष्ठा थी। राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओंमें राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी ओर अपभ्रंश कवियोंको स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षोंसे ही इस भाषाकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित हुआ है और अब तो

१ जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक १ (सन् १९२४)।

२ जैनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक २।

३ जैनजगत् १ अक्टूबर सन् १९२६।

४ जैनजगत् १ नवम्बर सन् १९२६।

वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके कारण भाषाशास्त्रियों और भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखनेवालोंके लिए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं। कई यूनीवर्सिटियोंने अपने पाठ्य-क्रममें भी अपभ्रंश ग्रन्थोंको स्थान देना प्रारंभ कर दिया है।

पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान् कवि थे। उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो प्रवाह, जो रस और जो सौन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाषापर उनका असाधारण अधिकार है। उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनोंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी सरस और सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग उन्हें पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानाभावके कारण रचनाओंके उदाहरण देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पड़ा।

कुल-परिचय और धर्म

पुष्पदन्त काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशव भट्ट और माताका मुग्धादेवी था।

उनके माता-पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशामृतको पाकर जैन हो गये थे और अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर शरीर त्यागा था। नागकुमारचरितके अन्तमें कविने और और लोगोंके साथ अपने माता-पिताकी भी कल्याण-कामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया है^१। इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शैव थे।

कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह किया, तब कहा कि तुमने पहले भैरव नरेन्द्रको माना है और उसको पर्वतके समान धीर, वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला वर्णन किया है। इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्चित्त कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाय^२।

१ मूल पंक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें संस्कृतच्छायासहित दिया जाता है।

शिवभक्ताइं मि जिणसण्णासं वे वि मयाइं दुरियणिण्णासं ।

बंधगाइं कासवरिसिगोत्तइं गुरुवयणाभियपूरियसोत्तइं ॥

मुद्धापवीकेसवणामइं महु पियराइं होंतु सुहधामइं ।

[शिवभक्तौ अपि जिनसंन्यासेन द्वौ अपि मृतौ दुरितनिर्णोशन ।

ब्राह्मणौ काश्यपऋषिगोत्रौ गुरुवचनामृतपूरितश्रोत्रौ ।

मुग्धादेविकेशवनामानौ मम पितरौ भवतां सुखधामनी ॥]

‘ गुरु ’ शब्दपर मूल प्रतिमें ‘ दिगम्बर ’ टिप्पण दिया हुआ है।

२ गियसिरिविसेसणिजियसुरिदु, गिरिधीरवीरभइरवणरिदु ।

पइं मण्णिउ वाण्णिउ वीरराउ, उप्पण्णउ जो मिच्छत्तभाउ ।

पच्छिज्जु तासु जइ करइ अञ्जु, ता घडइ तुच्चु परलोयकञ्जु ।

इससे भी मालूम होता है कि पहले पुष्पदन्त शैव होंगे और शायद उसी अवस्थामें उन्होंने भैरव नरेन्द्रकी कोई यशोगाथा लिखी होगी ।

‘स्तोत्र-साहित्यमें ‘शिवमहिम्न स्तोत्र’ बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम ‘पुष्पदन्त’ है । असम्भव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना हो जब वे शैव थे । जयन्तभट्टने इस स्तोत्रका एक पद्य अपनी न्याय-मंजरीमें ‘उक्तं च’ रूपसे उद्धृत किया है । यद्यपि अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए जोर देकर नहीं कहा जा सकता । फिर भी सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे और तब शिवमहिम्न इन्हीं पुष्पदन्तका होगा ।

उनकी रचनाओंसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय था । उनकी उपमायें और उत्प्रेक्षायें भी इसी बातका संकेत करती हैं ।

.अपने ग्रन्थोंमें उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन हुए और कैसे हुए, अपने किसी जैन गुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, परन्तु ख्याल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता-पिताके समान शैव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन होनेके बाद जैन हुए या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि वे दृढ़ श्रद्धानी जैन थे ।

उन्होंने जगह जगह अपनेको ‘जिणपयभक्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय-लियसंकिं’ अर्थात् जिनपदभक्त, व्रतसंयुक्त, विगलितशंक आदि विशेषण दिये हैं और ‘मग्गियपण्डियपण्डियमरणं’ अर्थात् ‘पंडित-पण्डितमरण’ पानेकी तथा बोधि-समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है ।

‘सिद्धान्तशेखर’ नामक ज्योतिष-ग्रंथके कर्त्ता श्रीपति भट्ट नागदेवके पुत्र और केशवभट्टके पौत्र थे । ज्योतिषरत्नमाला, दैवज्ञवल्लभ, जातकपद्धति, गणिततिलक, बीजगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, ध्रुवमानसकरण आदि ग्रंथोंके कर्त्ता भी श्रीपति हैं । वे बड़े भारी ज्योतिषी थे । हमारा अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और श्रीपतिके पितामह केशवभट्ट एक ही थे । क्यों कि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं और

१ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद ‘कथामकरन्द’ नामकी होगी और उसका नायक भैरव-नरेन्द्र । भैरव कहैंके राजा थे, इसका अभी तक पता नहीं लगा ।

२ बालिजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेषु ।

सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ — प्रशस्ति श्लोक ९ ।

३ यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनीवर्सिटीने अभी हाल ही प्रकाशित किया है ।

४ गणिततिलक श्रीसिंहतिलकसूरिकृत टीकासहित गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित हुआ है ।

५ भट्टकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दनः, श्रीपती रोहिणीखं(खे)डे ज्योतिःशास्त्रमिदं व्यधात् ।

— ध्रुवमानसकरण ।

६ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीकामें श्रीपतिका काश्यप गोत्र बतलाया है—“काश्यपवंश-पुण्डरीकखण्डमार्तण्डः केशवस्य पौत्रः नागदेवस्य सूनुः श्रीपतिः संहितार्थमभिधातुरिच्छुराह—”

दूसरे दोनोंके समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है' ।

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसरे नागदेव । पुष्पदन्त निष्पुत्र-कलत्र थे, परन्तु नागदेवको श्रीपति जैसे महान् ज्योतिषी पुत्र हुए । यदि यह अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए ।

पुष्पदन्त मूलमें कहाँके रहनेवाले थे, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे और दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे । क्योंकि एक तो उनकी सारी रचनाओंमें कन्नड़ी और द्रविड़ भ्रंशोंके शब्दोंका प्रायः अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रंश भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी प्रदेशका बना हुआ हो । अपभ्रंश साहित्यकी रचना प्रायः उत्तर भारत और राजपुताना, गुजरात, मालवा, बरारमें ही होती रही है । अतएव अधिक संभव यही है कि वे इसी ओरके हों ।

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारके बुलढाना जिलेका रोहनखेड नामका गाँव जान पड़ता है^१ । यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्पदन्तके भतीजे हों तो पुष्पदन्तको भी बरारका रहनेवाला मानना चाहिए ।

बरारकी भाषा मराठी है । अभी ग० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है^३ और उनकी रचनाओंमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते जुलते हैं^४ । वैयाकरण मार्कण्डेयने अपने ' प्राकृत-सर्वस्व ' में अपभ्रंश भाषाके नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भेद किये हैं । इनमेंसे ब्राचटको लाट (गुजरात) और विदर्भ (बरार) की भाषा बतलाया है । सो पुष्पदन्तकी अपभ्रंश ब्राचट होनी चाहिए ।

श्रीपतिने अपनी ' ज्योतिषरत्नमाला ' पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, जो

१ महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीने अपनी ' गणिततरंगिणी'में श्रीपतिका समय श० सं० ९२१ बतलाया है और स्वयं श्रीपतिने अपने 'धीकोटिदकरण'में अहंगणसाधनके लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है । जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक जीवित थे । ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० सं० ९५० के आसपास बतलाया है । पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चचा और भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो ।

२ बुलढाना जिलेके गजैटियरसे पता चला है कि इस रोहनखेडमें ईसाकी १५-१६ वीं शताब्दिमें खानदेशके सुबेदारों और बहमनी खानदानके नवाबोंके बीच अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं ।

३ देखो सहाद्री (मासिकपत्र) का अप्रैल १९४१ का अंक, पृ० २५३-५६ ।

४ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए—उक्कुरड=उकिरडा (घूरा), गंजोल्लिय=गाँजलेले (दुखी), चिक्खिल्ल=चिखल (कीचड़), तुप्प=तूप (धी), पंगुरण=पांघरुण (ओढ़ना), फेड=फेडणे (लौटाना) बोकड=बोकड़ (बकरा), आदि ।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेको मिली थी और उन्होंने उसे सन् १९१४ में प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी। उसके प्रारम्भका अंश इस प्रकार है : “ ते या ईश्वररूपा कालार्ते मि । ग्रंथकर्त्ता श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति रत्नाचि माला रचितो । ” इसकी भाषा गीताकी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरीसे मिलती-जुलती है। इससे भी अनुमान होता है कि श्रीपति बरारके ही होंगे और इसलिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना सम्भव है।

सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेलगड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और फिर उसके बाद मान्यखेटमें। मेलगड़ि उत्तर अर्काट जिलेमें है जहाँ कुछ कालतक राष्ट्रकूट महाराजा कृष्ण तृतीयका सेना-सन्निवेश रहा था और वहीं उनका भरत मन्त्रीसे प्रथम साक्षात् होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड़ ही मान्यखेट है।

यद्यपि इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परन्तु बहुतसे विद्वानोंका मत है राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रमें ही गिना जाता था और इसलिए तब वहाँ तक वैदर्भी अपभ्रंशकी पहुँच अवश्य रही होगी।

राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडी या मोरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्रमें ही है। अतएव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे। मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर दक्षिणके अन्तरीपपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था, क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र रख कर ही चोल, चेर, पाण्ड्य देशोंपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था।

भरतको कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्ल और सीलङ्ग भी ‘भट्ट’ विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं। इससे अनुमान होता है कि पुष्पदन्तको इन भट्टोंके मान्यखेटमें रहनेका पता होगा और उसी सूत्रसे वे घूमते-घामते उस तरफ पहुँचे होंगे। बहुत सम्भव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हों और महान् राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजधानीमें अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय बरार भी राष्ट्रकूटोंके अधिकारमें था, अतएव वहाँके लोगोंका आवागमन मान्यखेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो ‘पुरन्दरपुरी’ मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा।

भरत मन्त्रीको कविने ‘प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध’ कहा है और प्राकृतसे यहाँ उनका मतलब अपभ्रंशमें ही जान पड़ता है। इस भाषाको वे अच्छी तरह जानते होंगे और उसका आनन्द ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना उत्साहित और सम्मानित किया होगा ?

व्यक्तित्व और स्वभाव

पुष्पदन्तका एक नाम 'खण्ड' था। शायद यह उनका घरू और बोलचालका नाम होगा। महाराष्ट्रमें खंडूजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्खे जाते हैं। अभिमानमेरू, अभिमान-चिह्न, काव्यरत्नाकर, कविकुलतिलक, सरस्वतीनिर्लय, कव्वपिसल्लै (काव्यपिशाच या काव्यराक्षस) ये उनकी पदवियाँ थीं। यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वयं ही प्रयोग किया है। शायद अपनी महती कवित्व-शक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द किया हो। 'अभिमानमेरू' पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है। वे बड़े ही स्वाभिमानी थे। महापुराणकी उर्थानिकासे मात्तम होता है कि जब वे खलजनोंद्वारा अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब 'अम्मइय' और 'इन्द्र' नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, "आप इस निर्जन वनमें क्यों पड़े हुए हैं, पासके नगरमें क्यों नहीं चलते?" इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, "गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह जाना अच्छा

- १ (क) जो विहिणा णिम्मउ कव्वपिंडु, तं णिसुणेवि सो संचलित खंडु । —म० पु० सन्धि १, क० ६
 (ख) मुग्घे श्रीमदनिन्द्यखण्डसुकवेर्बन्धुगुणैरुन्नतः । —म० पु० सन्धि ३
 (ग) वाञ्छन्नित्थमहं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्तिः कृतेः । —म० पु० स० ३९
- २ (क) तं सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु । —म० पु० १-३-१२
 (ख) कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना । —म० पु० सं० ४५
 (ग) णण्णहो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु । —ना० कु० १-२-२
- ३ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकि अहिमाणंकि । —य० च० ४-३१-३
 ४ भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वरयणरयणायर । म० पु० १-४-१०
- ५-६ (क) तं णिसुणेवि भरहे बुत्तु ताव, भो कइकुलतिलय विमुक्कगाव । —म० पु० १-८-१
 (ख) अगगइ कइराउ पुप्फयंतु सरसइणिलउ ।
 देवियहि सरूउ वण्णइ कइयणकुलतिलउ । —य० च० १-८-१५
- ७ (क) जिणचरणकमलभत्तिल्लएण, ता जंपिउ कव्वपिसल्लएण । —म० पु० १-८-८
 (ख) बोह्लाविउ कइ कव्वपिसल्लउ, कि तुहुं सच्चउ बप्प गाहिल्लउ । —म० पु० ३८-३-५
 (ग) णण्णस पत्थणाए कव्वपिसल्लेण पहसियमुहेण । —ना० च० अन्तिम पद्य
- ८.....महि परिभमंतु मेवाडिणयर ।

अवहेरियखलयणु गुणमहंतु	दियहेहिं पराइउ पुप्फयंतु ।
गंदणवणि किर वीसमइ जाम	तहिं बिण्णि पुरिस संपत्त ताम ।
पणवेप्पिणु तेहिं पवुत्तु एव	भो खंड गलियपावावलेव ।
परिभभिरभमररवगुमगुमति	किं किर णिवसहि णिज्जणवणंति ।
करिसरबहिरियादिच्चक्कवालि	पइसरहि ण किं पुरवरि विसालि ।
तं सुणिवि भणइ अहिमाणमेरु	वर खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु ।
णउ दुज्जनभउंहावांकियाइ	दीसंतु कल्लसभावांकियाइ ।

परन्तु दुर्जनोकी टेढ़ी भौहें देखना अच्छा नहीं । माताकी कूँखसे जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भ्रूकुंचित नेत्र देखना और उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं । क्योंकि राजलक्ष्मी दुरते हुए चँवरोंकी हवासे सारे गुणोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अंधी रहती है, मारण-शीला होती है, ससांग राज्यके बोझसे लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी सहोदरा और जड़-रक्त है । लोग इस समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष (गुणाव-गुणविचाररहित) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं । इसलिए मैंने इस वनकी शरण ली है और यहींपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है । ” पाठक देखें कि इन पंक्तियोंमें कितना स्वाभिमान और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं !

ऐसा मादूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे घरसे चल दिये थे और भ्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके मेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उग्र तो था ही, अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भौहको वे न सह सके हों और इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही राजाओंपर वरस पड़े हों । अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुर्जन ही दुर्जन दिखाई देने लगे, और सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने लगा ।

जान पड़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बड़े पारखी थे । उन्होंने कविवरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनयशीलतासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान् कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही करा सकता ।

राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे लोगोंने भी शायद उनके सम्य अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ औरोंसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-भला कहते हैं; परन्तु भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते ।

धत्ता—वर णरवर धवलच्छिहे होहु म कुच्छिहे मरउ सोणिमुहणिगमे ।

खलकुच्छियपहुवयणइं भिउडियणयणइं म णिहालउ सूरुग्गमे ॥

चमराणिलउडुआवियगुणाइ अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ ।

अविवेयइ दपुत्तालियाइ मोहंधइ मारणसीलियाइ ।

सत्तंगरज्जभरभारियाइ पिउपुत्तरमणरसयारियाइ ।

विससहजम्मइ जडरत्तियाइ किं लच्छिइ विउसविरत्तियाइ ।

संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु गुणवंतउ जहिं मुरगुरुवि देसु ।

तहिं अग्गइ लइ काणणु जि सरणु अहिमाणं सहुं वरि होउ मरणु ।

१ जो जो दीसइ सो सो दुजणु

णिष्फलु नीरसु जं सुकउवणु ।

उत्तरपुराणके अन्तमें उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “ सिद्धिविलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्धनों और धनियोंको एक दृष्टिसे देखनेवाले, सारे जीवोंके अकारण मित्र, शब्दसलिलसे बढ़ा हुआ है काव्य-स्रोत जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविलासी, सूने पड़े हुए घरों और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलोंसे रहित, बेघरबंर, पुत्रकलत्रहीन, नदियों वापिकाओं और सरोवरोंमें स्नान करनेवाले, पुराने वस्त्र और बल्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुर्जनोके संगसे दूर रहनेवाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोंको ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित-भरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनमें अरहंतदेवका ध्यान करनेवाले, भरत-मंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे लोगोंको पुलकित करनेवाले और पापरूप कीचड़को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेरु पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंवत्सरकी असाढ़ सुदी दसवींको बनाया ।

इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक चित्र-सा खिंच जाता है । एक बड़े भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्वारा अतिशय सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अकिंचन और निर्लिप्त ही रहे जान पड़ते हैं । नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे ।

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ मैं धनको तिनकेके समान गिनता हूँ । उसे मैं नहीं लेता । मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और इसीसे तुम्हारे महलमें हूँ । मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं । ”

१ सिद्धिविलासिणिमणहरदूषं
निद्वणसधणलोयसमाचित्तं
सहसलिलपरिवद्वियसोत्तं
विमलसरासइजणियविलासं
कलिमलपवलपडलपरिचत्तं
णइ-वावी-तलाय-सरह्माणं
धीरं धूली-धूसरियं
महिसयणयलं करपंगुरणं
मणखेडपुरवरे णिवसंतं
भरहमण्णणिजं णयणिलपं
पुप्फयंतकइणा धुयपकं
कयउ कच्चु भत्तिए परमत्थे
कोहणसंवच्छरे आसाटए

मुद्धापवीतणुसंभूए ।
सव्वजीवणिक्कारणमित्तं ॥ २१
केसवपुत्तं कासवगोत्तं ।
सुण्णभवणदेवउलणिवसं ॥ २२
णिग्घरेण णिप्पुत्तकलत्तं ।
जर-चीवर-वक्कल-परिहाणं ॥ २३
दूरुयकज्जिय-दुज्जणसंगं ।
मण्णियपंडियपंडियमरणं ॥ २४
मणे अरहंतु देउ स्थायंतं ।
कव्वपबंधजणियजणपुलपं ॥ २५
जइ अहिमाणमेरुणामकं ।
जिणपयपंकयमउलियहत्थे ॥ २६
दहमए दियेहे चंदरुइरूढए ।

२ धणु तणुसमु मज्जु ण तं गहणु
देवीसुअ सुदणिहि तेण हउं
३ मज्जु कइत्तणु जिणपयभत्तिहे

णेहु णिकारिसु इच्छमि ।
णिलए तुहारए अच्छमि ॥—२० उत्तर पु०
पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहे ।—उ० पु०

इस तरहकी निस्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषको 'अभिमानमेरु' पद शोभा देता है। कविने एक-दो जगह अपने रूपका भी वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला और सौंवला था। वे बिल्कुल कुरूप थे^१ परन्तु सदा हँसते रहते थे^२। जब बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिसे दिशाएँ धवल हो जाती थीं^३। यह उनकी स्पष्टवादिता और निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको शुद्ध कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया।

पुष्पदन्तमें स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख पड़ता है। एक ओर वे अपनेको ऐसा महान् कवि बतलाते हैं जिसकी बड़े बड़े विशाल ग्रंथोंके ज्ञाता और मुद्दतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर सकते^४ और सरस्वतीसे कहते हैं कि हे देवी, अभिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना तुम कहाँ जाओगी—तुम्हारी क्या दशा होगी^५? और दूसरी ओर कहते हैं कि मैं दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूर्ख हूँ। न मुझमें बुद्धि है, न श्रुतसंग है, न किसीका बल है^६।

भावुक तो सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुकता और भी बड़ी चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे। आदिपुराणके समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे निर्विण्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्नमें सरस्वती देवीने दर्शन दिया और कहा कि 'जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानको, जो पुण्य-वृक्षको सींचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो।' यह सुनते ही कविराज जाग उठे और यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें

१ कसणसरीरं सुदृक्कुरुवै मुद्धापविगम्भसंभूवै । —उ० पु०

२ गण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसल्लेण पहसियमुद्देण ।

णायकुमारचरित्तं रइयं सिरिपुप्फयंतेण ॥—णायकुमार च०

पहसियतुंढिं कइणा खंडं । —यशोधरचरित

३ सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जंपइ वरवायाविलासु ।

४ आजन्मं (?) कवितारसैकधिषणासौभाग्यभाजो गिरां

दश्यन्ते कवयो विशालसकलग्नन्यानुगा बोधतः ।

किन्तु प्रौढानिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदंतेन भोः

साम्यं बिभ्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्रं त्वतः प्राकृते ॥ —प्र० श्लो० ४०

५ लोके दुर्जनसंकुले इतकुले तृष्णावशे नीरसे

सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।

भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ साम्प्रतं

कं यास्यस्वभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना ॥ —प्र० श्लो० ४५

६ ण हुम हु बुद्धिपरिग्गहु ण हु सुयसंगहु णउ कासु वि केरउ बल्ल ।—उ० पु०

ही हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ।^१ इसके बाद भरतमंत्रिने आकर उन्हें समझाया और तब वे उत्तरपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए।

कविके ग्रंथोंसे माद्धम होता है कि वे महान् विद्वान् थे। उनका तमाम दर्शनशास्त्रोंपर तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण थी। उस समयके ग्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही थे। यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, फिर भी वे संस्कृतमें अच्छी रचना कर सकते थे। इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कृत पद्य पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोधरचरितमें भरत और नन्नकी प्रशंसामें लिखे हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कहीं कहीं कुछ स्वलनायें पाई जाती हैं, परन्तु वे कवियोंकी निरंकुशताकी ही द्योतक हैं, अज्ञानताकी नहीं।

कविकी ग्रन्थ-रचना

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं।

१ तिसष्टिमहापुरिसगुणालंकार (त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार) या महापुराण। यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खंडोंमें विभक्त है। ये दोनों अलग अलग भी मिलते हैं। इनमें त्रेसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं। पहलेमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका और दूसरेमें शेष तेईस तीर्थंकरोंका और उनके समयके अन्य महापुरुषोंका। उत्तरपुराणमें पद्मपुराण (रामायण) और हरिवंशपुराण (महाभारत) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं पृथक् रूपमें मिलते हैं।

अपभ्रंश ग्रंथोंमें सर्गकी जगह सन्धियाँ होती हैं। आदिपुराणमें ३७ और उत्तरपुराणमें ६५ सन्धियाँ हैं। दोनोंका श्लोकपरिमाण लगभग बीस हजार है। इसकी रचनामें कविको लगभग छह वर्ष लगे थे।

यह एक महान् ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है^२।

१ मणि जाएण किं पि अमणोज्जे
गिन्विण्णउ थिउ जाम महाकइ
भणइ भडारी सुहयरओहं
इय गिसुणेवि विउद्धउ कइवर
दिसउ गिहालइ किं पि ण पेच्छइ

कइवयदियहइं केण वि कज्जे ।
ता सिवणंतारि पत्त सरासइ ।
पणमइ अरुहं सुहयरमेहं ।
सयलकलायरु णं छणससइरु ।

जा विग्घियमइ गियघरि अच्छइ ।—महापुराण ३८-२

२ केवल हरिवंशपुराणको जर्मनीके एक विद्वान् 'आल्सडर्फ' ने जर्मनभाषामें सम्पादित करके प्रकाशित किया है।

३—अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्दसा-

मर्थालंकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ।

किञ्चान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते

द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं ययोरीदृशम् ॥ —प्र० श्रे० ३७

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने इसकी प्रत्येक सन्धिके अन्तमें इसे 'महाभव्यभरहाणुमणिए' (महाभव्यभरतानुमते) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंमें प्रारम्भमें भरतका विविध-गुणकीर्तन किया है।

जैनपुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं। इसपर अनेक टिप्पण-ग्रन्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेंसे आचार्य प्रभाचन्द्र और श्रीचन्द्र मुनिके दो टिप्पण उपलब्ध हैं। श्रीचन्द्रने अपने टिप्पणमें लिखा है—'मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चय-टिप्पणं।' इससे माह्रम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं ग्रन्थकर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया है। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है।

-महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमें जो 'वीरभइरवणरिदु' शब्द आया है, उसपर प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण है—“वीरभैरवः अन्यः कश्चिद् दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजास्ति।” इससे अनुमान होता है कि 'कथा-मकरन्द' नामका भी कोई ग्रन्थ पुण्यदन्तकृत होगा जिसमें इस राजाको अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है। भरतमन्त्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना करो।

२ **णायकुमारचरिउ**—(नागकुमारचरित)। यह एक खण्डकाव्य है। इसमें ९ सन्धियाँ हैं और यह गण्णणामांकिय (नन्ननामांकित) है। इसमें पंचमीके उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है। इसकी रचना बहुत ही सुन्दर और प्रौढ़ है।

यह मान्यखेटमें नन्नके मन्दिर (महल) में रहते हुए बनाया गया है। प्रारम्भमें कहा गया है कि महोदधिके गुणवर्म और शोभन नामक दो शिष्योंने प्रार्थना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइल्ल और शीलभट्टने भी आग्रह किया।

३ **जसहरचरिउ** (यशोधरचरित)। यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है और इसमें 'यशोधर' नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियाँ हैं। यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, वासवसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र,

१ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनामें और जैनसाहित्यसंशोधक खण्ड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं।

२ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें और श्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्य-कालमें लिखा गया है। देखो, अनेकान्त वर्ष ४, अंक १ में मेरा 'श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र' शीर्षक लेख।

क्षमाकल्याण आदि अनक दिगम्बर-श्वेताम्बर लेखकोंने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्कृतमें लिखा है ।

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लभनरेन्द्रके गृहमन्त्रीके लिए उन्हींके महलमें रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके अन्तमें ' गण्णकण्णाभरण (नन्नके कानोंका गहना) विशेषण दिया है । इसकी दूसरी तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नन्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन संस्कृत पद्य हैं^१ । इस ग्रन्थकी कुछ प्रतियोंमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है । इसकी कई सटिप्पण प्रतियाँ भी मिलती हैं । बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें (८०४ क) एक प्रति ऐसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई है जो संस्कृतज्ञोंके लिए बहुत ही उपयोगी है ।

उपलब्ध ग्रंथोंमें महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोधरचरित सबसे पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और छूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पड़े हुए थे । नागकुमारचरित इससे पहले बन चुका होगा । क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको ' श्रीकृष्णराजकी तलवारसे दुर्गम ' बतलाया है । अर्थात् उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु यशोधरचरितमें नन्नको केवल ' वल्लभनरेन्द्रगृहमहत्तर ' विशेषण दिया है और वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूटोंकी सामान्य पदवी थी । वह खोड्दिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी । महापुराण श० सं० ८८७ में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी छूट ८९५ के लगभग हुई । इसलिए इन सात आठ बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रंथोंके सिवाय और भी ग्रंथोंके रचे जानेकी सम्भावना है ।

कोश-ग्रन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी ' देसीनाममाला 'की स्वोपज्ञ वृत्तिमें किसी ' अभिमानचिह्न ' नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविवृत्तिके पद्य उद्धृत किये हैं^३ । क्या आश्चर्य है जो अभिमानमेरु और अभिमानचिह्न एक ही हों । यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने ' अभिमानमेरु ' उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यशोधरचरितके अन्तमें एक जगह अहिमाणिकिं (अभिमानांक) या अभिमानचिह्न भी लिखा है^४ । इससे बहुत

१ कौण्डिण्योत्तणहृदिणयरासु वल्लहरणरिदघरमहयरासु ।

गण्णहो मंदिरि णिवसंतु संतु अहिमाणमेरु कइ पुष्पयंतु । — नागकुमारचरित १-२-२

२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित पृ०, २४, ४७, और ७५ ।

३ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२, १७ ।

४ देखो यशोधरचरित, पृ० १००, पंक्ति ३ ।

सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका कोश ग्रन्थ भी स्वोपज्ञटीकासहित हो जो आचार्य हेमचन्द्रके समक्ष था ।

कविके आश्रयदाता

महाभात्य भरत । पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक भरतका और दूसरे नन्नका । ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज कृष्णराज (तृतीय) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट वंशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिग्विजयी और अन्तिम सम्राट् था । इससे उसके महामात्योंकी योग्यता और प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद ही महामात्य हुए होंगे । यद्यपि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे ।

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था । वे कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे । कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है । भरतकी पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन्न उत्पन्न हुए थे ।

भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्तानक्रमसे चली आई हुई यह लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया था ।

भरत जैनधर्मके अनुयायी थे । उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति और जिनवर-समय-प्रासाद-स्तम्भ अर्थात् निरन्तर जिनभगवानकी भक्ति करनेवाले और जैनशासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है ।

कृष्ण तृतीयके ही समयमें और उन्हींके सामन्त अरिकेसरीकी छत्रछायामें बने हुए नीतिवाक्यामृतमें अमात्यके अधिकार बतलाये गये हैं—आय, व्यय, स्वामिरक्षा और राजतंत्रकी पुष्टि । “ आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानामधिकारः । ” उस समय साधारणतः रेवेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे । परन्तु भरत महामात्य होंगे । इससे माळूम होता है कि वे रेवेन्यू-मिनिस्टरके सिवाय राज्यके अन्य विभागोंका भी काम करते थे । राष्ट्रकूट-कालमें मन्त्रीके लिए शास्त्रज्ञके सिवाय शास्त्रज्ञ भी होना आवश्यक था, अर्थात् जरूरत होनेपर उसे युद्ध-क्षेत्रमें भी जाना पड़ता था ।

एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे बल्लभराजके कटकके नायक अर्थात् सेनापति

१ महमत्तवंसधयवडु गहीरु (महामात्यवंशध्वजपटगभीरः) ।

२ तीत्रापदिवसेपु बन्धुरहितेनैकेन तेजस्विना सन्तानक्रमतो गताऽपि हि रमा कृष्ण प्रभोः सेवया ।
यस्याचारपदं वदन्ति कवयः सौजन्यसत्यास्पदं सोऽयं श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कलौ साध्वतम् ॥

हुए थे'। इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे'। इतिहासमें कृष्ण तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम तो मिलता है^३, जो कि बहुत ही विद्वान् और राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं। क्योंकि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोंके पास तक पहुँचा ही नहीं।

पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें भरतका जो बहुत-सा परिचय दिया है, उसके सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिपद्य भी पीछेसे जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है^४। उनमेंसे छह (५, ६, १६, ३०, ३५, ४८) तो शुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके। इन ४८ पद्योंमें भरतका जो गुण-कीर्तन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। हो सकता है कि उक्त सारा गुणानुवाद कवित्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, परन्तु कविके स्वभावको देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पड़ती।

भरत सारी कलाओं और विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी रचनाओंपर मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे सत्यप्रतिज्ञ और निर्मत्सर थे। युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्धे घिस गये थे, " अर्थात् उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं।

बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीन-दुखियोंकी आशा पूरी करनेवाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परस्त्रीपराङ्मुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनोंके उद्धारक थे^५।

उनका रंग साँवला था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजायें थीं, अङ्ग सुदौल थे,

१ सोयं श्रीभरतः कलंकरहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्घ्यो गुणैर्मासते ।

वंशो येन पवित्रतामिह महामात्याह्वयः प्राप्तवान् श्रीमद्वल्लभराजशक्तिकटकके यश्चाभवन्नायकः ॥ प्र०श्लो० ४६
२ इं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंख्यानकर्त्ता कोऽयं श्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकारबाहुः प्रसन्नः ।

धन्यः प्रालेथपिण्डोपमधवल्यशो धौतघात्रीतलान्तः ख्यातो बन्धुः कवीनां भरत इति कथं पान्थ जानासि नो त्वम् ॥१५
३ देखो सालौटगीका शिलालेख, इ० ए० जिल्द ४, पृ० ६० ।

४ बम्बईके सरस्वती-भवनमें महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद एक ' हरति मनसो मोहं ' आदि अशुद्ध पद्य अधिक दिया हुआ है। जान पड़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके और भी कुछ पद्य होंगे।

५

पाययकइकव्वरसावउडु

कमलच्छु अमच्छर सच्चसंधु

६ सविलासविलासिणिहियहयेणु

काणीणदीणपरिपूरियासु

पररमाणिपरम्महु सुदसीलु

.....णीसेसकलाविष्णाणकुसलु ।

संपीयसरासइसुरहिदुडु ॥

रणभरधुरधरणुमुहखंधु ।

सुपसिद्धमहाकइकामधेणु ।

जसपसरपसाहियदसदिसीसु ॥

उण्णयमइ सुयणुंद्धरणलीलु ।

नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे' ।

भरत बहुत ही उदार और दानी थे । कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि आदिके स्वर्गगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमें ही आकर बस गया था' ।

एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती हो सकती है और न उनके शत्रुओंकी' । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चाहे वह कितना ही गुणी और भला हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं ।

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलाते हैं उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी वापी, कूप, तड़ाग और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार-समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य हुआ । भला उसकी वन्दना करनेको किसका हृदय नहीं चाहता ?

इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति चिरस्थायी हो गई । जैनमन्दिर और वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नामशेष हो जाते ।

पुष्पदन्त जैसे फक्कड़, निर्लोभ, निरासक्त और संसारसे उद्विग्न कविसे महापुराण जैसा महान् काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था । इतना बड़ा आदमी एक अर्किचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बड़ी भारी बात है ।

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया । वहाँ पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे, और लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे' ।

गृह-मन्त्री नन्न

ये भरतके पुत्र थे । नन्नको महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका गृहमन्त्री लिखा है ।

१ श्यामवचि नयनसुभगं लावण्यप्रायमङ्गमादाय ।

भरतच्छलेन सम्प्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥ प्र० श्लो० २०

२ देखो, पृष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्य ।

३ धनधवलताभयागामचलस्थितिकारिणां मुहुर्भ्रमताम् ।

गणनैव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणां च ॥ प्र० श्लो० २७

४ वापीकूपतड़ागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं

भव्यभ्रीभरतेन सुन्दरधिया जैनं पुराणं महत् ।

तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रविकृतिः (?) संसारबाधैः सुखं

कोऽन्य (स्तत्सदृशो) स्ति कस्य हृदयं तं बन्धितुं नेहते ॥ प्र० श्लो ४७

५ इह पठितशुदारं वाचकैर्गायमानं इह लिखितमजस्रं लेखकैश्चाव काव्यं ।

गतवति कविभिरे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ प्र० श्लो० ४३

उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे माद्धम होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमें रखते थे ।

नागकुमारचरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सौम्य थे, उनकी कीर्ति सारे लोकमें फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिन-चरणोंके भ्रमर थे और जिन-पूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोंको दान देते थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्, दीनोंके शरण राजलक्ष्मीके क्रीड़ासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ विद्या-विनोदमें निरत और शुद्ध-हृदय थे ।

एक प्रशस्ति-पद्यमें पुष्पदन्तने नन्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशीर्वाद दिया है । इससे माद्धम होता है कि उनके अनेक पुत्र थे । पर उनके नामोंका कहीं उल्लेख नहीं है ।

कृष्णराज (तृतीय) के तो वे गृहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद खोड्दिगदेवके और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय) के भी वे मंत्री रहे होंगे । क्योंकि यशोधरचरितके अन्तमें कविने लिखा है कि जिस नन्नने बड़े भारी दुष्कालके समय—जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुःसह दुःख व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपड़ियाँ और कंकाल फैले पड़े थे, सर्वत्र रंक ही रंक दिखलाई पड़ते थे,—सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र और ताम्बूलादिसे मेरी खातिर की, वह चिरायु हो^३ । निश्चय ही मान्यखेटकी छूट और बरबादीके बादकी दुर्दशाका यह चित्र है और तब खोड्दिगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी ।

१ सुहृत्तुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स ।
 कौडिल्लगोत्तणहससहरस्स पयईए सोमस्स ॥ १
 कुंदव्वागन्भसमुन्भवस्स सिरिभरहभट्टतणयस्य ।
 जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥ २
 अणवरयरइयवरजिणहरस्स जिणभवणपूयणिरयस्स ॥
 जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णादाणस्स ॥ ३
 कल्लिमलकलंकपरिवज्जियस्स जियदुविह्वहरिणियरस्स ॥
 कारुण्णकंदणवजलहरस्स दीणजणसरणस्स ॥ ४ ॥
 णिवलच्छीकीलासरवरस्स वाएसरिणिवासस्स ।
 णिस्सेसविउसविज्जाविणोयणिरयस्स सुद्धहियस्स ॥ ५ ॥

२ स श्रीमान्निह भूतले सह सुतैर्नन्नाभिषो नन्दतात् ॥ यशो० २

३ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि । कइणिदायि, दुसहे दुहयि ।
 पडियकवालइ, णरकंकालइ । बहुरंकालइ, अहदुक्कालइ ।
 पवरागारिं सरसाहारिं सण्दि । चेळिं, वरतंवेळिं ।

महु उवयारिउ पुण्णि पेरिउ । गुणभत्तिल्लउ णणु महल्लउ । होउ चिराउसु... यशो० ४-३१

कविके कुछ परिचित जन

पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोंमें भरत और नन्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भी उल्लेख किया है। मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके नाम अम्मइय और इन्द्रराय थे। वे वहाँके नागरिक थे और इन्हींने भरत मंत्रीकी प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनेका आग्रह किया था। उत्तरपुराणके अन्तमें सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने देविल्ल, भोगल्ल, सोहण, गुणवर्म, दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है। इनमेंसे देविल्ल शायद भरतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी पृथिवीमें प्रसार किया। भोगल्लको चतुर्विधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र और विस्तृतयशवाला बतलाया है। शोभन और गुणवर्मको निरन्तर जिनधर्मका पालनेवाला कहा है। नागकुमारचरितके अनुसार ये महोदधिके शिष्य थे और इन्होंने कविसे नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय और संतइयकी भी शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमें दंगइयको आशीर्वाद दिया है कि उनका रत्नत्रय विशुद्ध हो। नाइल्ल और सीलइयका भी उल्लेख है। उन्होंने भी नागकुमारचरित रचनेका आग्रह किया था।

कविके समकालीन राजा

महापुराणकी उत्थानिकामें कहा है कि इस समय 'तुडिगु महानुभाव' राज्य कर रहे हैं। इस 'तुडिगु' शब्दपर टिप्पण-ग्रन्थमें 'कृष्णराजः' टिप्पण दिया हुआ है। कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटवंशमें हुए हैं जो अपने समयके महान् सम्राट् थे। 'तुडिगु' उनका घरू प्राकृत नाम था। इस तरहके घरू नाम राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं। वल्लभनरेन्द्र, वल्लभराय, शुभतुंगदेव और कण्हराय नामसे भी कविने उनका उल्लेख किया है।

शिलालेखों और दानपत्रोंमें अकालवर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्वर, परमभट्टारक, पृथिवीवल्लभ, समस्तभुवनाश्रय आदि उपाधियाँ उनके लिए प्रयुक्त की गई हैं।

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौलुक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य राष्ट्रकूटोंने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे।

भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० पृ० ५६) में इनकी एक पदवी 'कन्धारपुरवराधीश्वर,' लिखी है। परन्तु हमारी समझमें वह भ्रमवश लिखी गई है। वास्तवमें 'कालिंजरपुरवराधीश्वर' होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश सहस्रार्जुनको जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कलचुरि राजा विज्जल भी अपने नामके साथ 'कालिंजर-पुरवराधीश्वर' पद लगाता था।

१ जैसे गोञ्जिग, बह्निग, पुट्टिग, खोट्टिग आदि।

२ अरब लेखकोंने मानिकरके बल्हरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है, वह मान्यलेटके 'वल्लभराज' पद धारण करनेवाले राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है।

अमोघवर्ष तृतीय या बदिगके तीन पुत्र थे—तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुंग और खोट्टिगदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे और चूँकि दूसरे जगत्तुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्य-कालमें ही स्वर्गगत हो गये थे, इस लिए तीसरे पुत्र खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठे । कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो गया था और पौत्र भी छोटा था, इसलिए खोट्टिगदेवको अधिकार मिला ।

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे । इनके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरमें नर्मदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक फैला हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठा सी० पी०, और निजाम राज्य शामिल था । मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमें थे । इस विस्तृत साम्राज्यको कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें कर लिया । कन्हाड़के ताम्रपत्रोंके अनुसार उन्होंने पाण्ड्य और केंरलको हराया, सिंहलसे कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिवल्लरीको लगाया । ये ताम्रपत्र मई सन् ९५९ (श० सं० ८८१) के हैं और उस समय लिखे गये हैं जब कृष्णराज अपने मेलपाटी नगरके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ राज्य और धन-रत्न अपने सामन्तों और अनुगतोंको उदारतापूर्वक बाँट रहे थे^१ । इनके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवसूरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिसे भी इसकी पुष्टि होती है^२ । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चोर आदि देशोंको जीतनेवाला लिखा है ।

देवलीके शिलालेखसे माद्धम होता है कि उन्होंने कांचीके राजा दन्तिगको और वप्पुकको मारा, पल्लव-नरेश अन्तिगको हराया, गुर्जरोके आक्रमणसे मध्य भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त की । हिमालयसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उनकी आज्ञा मानते थे । उनका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था ।

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था । उसके कन्याकुमारीमें मिले हुए शिलालेखमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी धारण की । किस जगह हराया और कहाँ हराया, यह कुल नहीं लिखा । बल्कि इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ (श० ८६६) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही अधिकारमें रहा । तब उक्त लेखमें इतनी ही

१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्द ४ पृ० २७८ ।

२ तं दीणदिण्णघण-कणयपयरु महि परिभमंतु मेलाडिणयरु ।

३ “ पाण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य...” ।

४ जर्नल बायने ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, पृ० २३९ और लिस्ट आफ इन्स्क्रिप्शन्स सी० पी० एण्ड बयार, पृ० ८१ ।

५ त्रावणकोर आर्कि० सीरीज जि० ३, पृ० १४३, श्लोक ४८ ।

सचाई हो सकती है कि सन् ९४४ के आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटोंके साथकी लड़ाईमें थोड़ी-सी अल्पकालिक सफलता मिल गई होगी ।

दक्षिण अर्काट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके पाँचवें राज्य-वर्षका है उनके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और उत्तरी अर्काटके शोलापुरम स्थानके ई० सं० ९४९-५० (श० सं० ८७१) के शिलालेखमें^१ लिखा है कि उस साल उन्होंने राजादित्यको मारकर तोडयि-मंडल या चोलमण्डलमें प्रवेश किया । यह राजादित्य परान्तक या वीरचोलका पुत्र था और चोल-सेनाका सेनापति था । कृष्ण तृतीयके बहनेई और सेनापति भूतुगने इसे इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके उपलक्षमें उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिला था ।

ई० सन् ९१५ (शक सं० ८१७) में राष्ट्रकूट इन्द्र (तृतीय) ने परमार राजा उपेन्द्र (कृष्ण) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे राष्ट्रकूटोंके मांडलिक थे । उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था ।

परमारोंमें सीयक या श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था । जान पड़ता है इसने कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको उसपर चढ़ाई करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण-ब्रेलंगोलके मारसिंहके शिलालेखसे^२ होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे ' गुर्जर-राज ' का खिताब मिला । इसी तरह होलकेरीके ई० स० ९६५ और ९६८ के शिलालेखोंमें मारसिंहके दो सेनापतियोंको ' उज्जयिनी-भुजंग ' पदको धारण करने-वाला बतलाया है । ये गुर्जर-राज और उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्णद्वारा सीयकके गुजरात और मालवेके जीते जानेका संकेत करते हैं ।

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि उसने पूरी तैयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोट्टिगदेवको परास्त करके मान्यखेटको बुरी तरह छटा और बरबाद किया ।

पाइय-लच्छी नाममालाके कर्ता धनपालके कथनानुसार यह छूट वि० सं० १०२९ (श० सं० ८९४) में हुई और शायद इसी लड़ाईमें खोट्टिगदेव मारा गया । क्योंकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख^३ खोट्टिगदेवके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय) का है ।

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ (श० सं० ८६१) के दिसम्बरके आसपास गद्दीपर

^१ मद्रास एपिग्राफिकल कलेक्शन १९०९ नं० ३७५ । २ ए० इं० जि० ५, पृ० १९५ । ३ ए० इं० जि० १९, पृ० ८१ । ४ आर्किलोजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१ । ५ एं० इं० जि० ५, पृ० १७९ । ६ ए० इं० जि० ११, नं० २३-३३ । ७ ए० इं० जि० १२, पृ० २६३ ।

बैठे होंगे। क्यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बंदिग जीवित थे और कोल्लगलुर्का शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोड्दिगदेव गद्दीपर बैठा। इससे उनका २८ वर्षतक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किछर (६० अर्काट) के वीरत्तनेश्वर मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वर्षका लिखा हुआ है। विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामें, अपने पिताके जीते जी ही राज्यका कार्य संभालने लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस वर्षके राज्य-कालमें जोड़ लिये गये हैं।

राष्ट्रकूटों और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा जिससे पुष्पदन्तके ग्रंथोंमें जिन जिन बातोंका जिक्र है, वे ठीक तौरसे समझमें आ जायँ और समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले।

समय-विचार

महापुराणकी उत्थानिकामें कविने जिन सब ग्रन्थों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख किया है, उनमें सबसे पिछले ग्रन्थ धवल और जयधवल हैं। पाठक जानते हैं कि वीरसेन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई टीका जयधवलाको श० सं० ७५९ में राष्ट्रकूटनरेश अमोघवर्ष (प्रथम) के समयमें समाप्त की थी। अतएव यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवत्के बाद ही किसी समय हुए हैं, पहले नहीं।

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे और डॉ० दे के अनुसार ई० सन् ८००—८५० के अर्थात् श० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इससे भी लगभग उपर्युक्त परिणाम ही निकलता है।

अभी हाल ही डा० ए० एन० उपाध्येको अपभ्रंश भाषाका ' धम्मपरिक्खा ' नामका

१ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २३६।२ मद्रास एपिग्राफिक कलेक्शन सन् १९०२, नं० २३२।

३—अकलंक, कपिल (सांख्यकार), कणचर या कणाद (वैशेषिकदर्शनकर्ता), द्विज (वेदपाठक), सुगत (बुद्ध), पुरंदर (चार्वाक), दन्तिल, विशाल (संगीतशास्त्रकर्ता), भक्त (नाट्यशास्त्रकार), पतंजलि, भारवि, व्यास, कोहल (कूष्माण्ड कवि), चतुर्मुख, स्वयंभु, श्रीहर्ष (हर्षवर्द्धन), द्रुहिण (भरतने अपने नाट्यशास्त्रमें द्रुहिण महात्माका उल्लेख किया है जो आठ रस मानते थे)। ईशान, बाण, धवल-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्रट, और यशस्त्रिह्व, इतनोंका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे अकलंक, चतुर्मुख और स्वयंभु जैन हैं। अकलंक देव, जयधवलाकार जिनसेनसे पहले हुए हैं। चतुर्मुख और स्वयंभुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है परन्तु स्वयंभु अपने पउमचरियमें आचार्य रविषेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने वि० सं० ७३३ में पद्मपुराण लिखा था। इससे उनसे पीछेके हैं। उन्होंने चतुर्मुखका भी स्मरण किया है। स्वयंभु भी अपभ्रंश भाषाके महाकवि थे। इनके पउमचरिउ (पद्मचरित) और अरिद्धनेमिचरिउ (हरिवंशपुराण) उपलब्ध हैं। उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्दशास्त्र भी है। ' पंचमिचरिय ' नामका ग्रन्थ भी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। उनका कोई अपभ्रंश भाषाका व्याकरण भी था। ये स्वयंभु यापनीय संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण टिप्पणसे मालूम होता है।

४ णउ बुज्जितु आयमु सदधामु, सिद्धंतु धवलु जयधवलु णामु।

ग्रन्थ मिला है जिसके कर्ता बुध (पंडित) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तौड़के रहनेवाले थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे। वहाँपर उन्होंने वि० सं० १०४४ में अपना यह ग्रन्थ समाप्त किया था। इस ग्रन्थके प्रारम्भमें अपभ्रंशके चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है^३। इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त एक महाकविके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थात् पुष्पदन्तका समय ७५९ और ९०९ के बीच होना चाहिए। न तो उनका समय श० सं० ७५९ के पहले जा सकता है और न ९०९ के बाद।

अब यह देखना चाहिए कि वे श०सं० ७५९ (वि०सं० ८९४)से कितने बाद हुए हैं।

कविने अपने ग्रन्थोंमें तुडिगुं, शुभतुंगों, वल्लभनरेन्द्र और कण्हरायका उल्लेख किया है और इन सब नामोंपर ग्रन्थोंकी प्रतियों और टिप्पण-ग्रन्थोंमें 'कृष्णराजः' टिप्पणी दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे।

राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले मयूरखंडी (नासिक) में थी, पीछे अमोघवर्ष (प्रथम) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने नागकुमारचरितमें कहा है कि कण्हराय (कृष्णराज) की हाथकी तलवाररूपी जलबाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके धवलगृहोंके शिखर मेघावलीसे टकराते हैं, ऐसी बहुत बड़ी मान्यखेट नगरी है^६।

- | | |
|--|--|
| १ इह मेवाड़देसे जणसंकुले | सिरिउजपुरणिग्गयधक्कड़कुले ।... |
| गोवद्धणु णांमं उप्पणओ | जो सम्मत्तरयणसंपुणओ ॥ |
| तहो गोवद्धणासु पिय गुणवइ | जा जिणवरपय णिच्च वि पणवइ । |
| ताए जणिउ हरिसेणणाम सुओ | जो संजाउ विबुहकइविस्सुओ ॥ |
| सिरिचित्तउडु चंएवि अचलउरहो | गउ णियकज्जे जिणहरपउरहो । |
| तहिं छंदाळंकारपसाहिइ | धम्मपरिक्ख एह ते साहिइ ॥ |
| २ विक्रमणिवपरियत्तइ कालए | ववगए वारिससइस चउतालए । |
| ३ चउमुहु कन्वविरयणे सयंभु वि | पुप्फयंतु अण्णाणणिसंभु वि । |
| तिण्ण वि जोग्ग जेण तं सासइ | चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ । |
| जो सयंभु सो हेउपहाणउ | अइ कह लोयालोय थि याणउ । |
| पुप्फयंतु णवि माणुसु बुच्चइ | जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ । |
| ४ भुवणेक्करामु रायाहिराउ | जहि अच्छइ 'तुडिगु' महाणुमाउ । म० पु० १-३-३ |
| ५ सुइतुंगदेवकमकमलभसलु | णीसेसकलाविण्णाणकुसलु । म० पु० १-५-२ |
| ६ वल्लभणरिंदधरमह्यरासु ।— य० च० का प्रारंभ । | |
| ६ सिरिकण्हरायकरयलणिहियअसिजलवाहिणि दुग्गयरि । | |
| धवलहरसिहरिहयमेहउलि पविउल मण्णखेडणयरि ॥ | |

राष्ट्रकूटवंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता।

द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष (प्रथम) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें गुणभद्राचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी और जिन्होंने श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम उनका समकालीन मान सकते हैं क्योंकि—

१—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने कटवाया था, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको जीत कर कृष्ण तृतीयने अपने अधिकारमें कर लिया था। २—यह चोलनेरश ' परान्तक ' ही मालूम होता है जिसने वीरचोलकी पदवी धारण की थी।

३—धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके लूटे जानेका जो उल्लेख पुष्पदन्तने किया है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता। यह घटना कृष्णराज तृतीयकी मृत्युके बाद खोद्विगदेवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती है। धनपालने अपनी ' पाइयलच्छी (प्राकृतलक्ष्मी) नाममाला'में लिखा है कि वि० सं० १०२९ में मालव-नरेन्द्रने मान्यखेटको लूटा।

मान्यखेटको किस मालव-राजने लूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके समयके उदयपुर (ग्वालियर) के शिलालेखमें^१ परमार राजाओंकी जो प्रशस्ति दी है उससे लगता है। उसके १२ वें पद्यमें लिखा है कि हर्षदेवने खोद्विगदेवकी राजलक्ष्मीको युद्धमें छीन लिया^२।

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक (द्वितीय) या सिंहभट भी कहलाते थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की थी। खोद्विगदेव कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे।

४—महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ संवत्सरमें शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें

१ उब्बद्धजूडु भूभंगभीसु तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु ।

२ दीनानाथधनं सदाबहुजनं प्रोक्तुल्लवल्लीवनं

मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहरं सुन्दरम् ।

धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं

केदानीं वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ प्र० श्लो० ३६

३—विक्रमकालस्स गए अउणुत्तीसुत्तरे सहस्समिम् ।

मालवणरिंदधाडीए लूडिए मण्णखेडमिम् ॥ २७६ ॥

४ एपिप्राफिआ इंडिका जित्द १, पृ० २२६ ।

५—श्रीहर्षदेव इति खोद्विगदेवलक्ष्मीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः ।

सोमदेवसूरिने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने ग्रंथ-प्रारंभके समय कृष्णराजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है। साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है। ऐसी दशामें पुष्पदन्तका कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपसे सिद्ध हो जाता है।

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने अपना महापुराण प्रारंभ किया था और यह सिद्धार्थ श० सं० ८८१ ही था। मेलपाटी या मेलडिमें श० ८८१ में कृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं।

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ में पुष्पदन्त मेलपाटीमें भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये। यशोधर-चरितकी समाप्ति उस समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था। यह श० सं० ८९४ के लगभगकी घटना है। इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके संमानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है। उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता।

बुध हरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना है। इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। हरिषेण कहते हैं कि पुष्पदन्त मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है।

एक शंका

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारम्भमें जो 'दीनानाथधनं' आदि संस्कृत पद्य हैं और पहले उद्धृत किया जा चुका है, और जिसमें मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं० ८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ में ही समाप्त हो चुका था। तब शंका होती है कि वह उसमें कैसे आया ?

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्य ग्रन्थका अविच्छेद्य अंग नहीं है। इस तरहके अनेक पद्य महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोंके प्रारम्भमें दिये गये हैं। ये सभी मुक्तक हैं, भिन्न भिन्न समयमें रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश महामात्य भरतकी प्रशंसाके हैं। ग्रन्थ-रचना-क्रमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारम्भ की गई, उसी तिथिको उसमें

१—“शकृत्पकालातीतसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अंकतः ८८१ सिद्धार्थसंवत्सरान्तर्गत-चैत्रमासम्बदनत्रयोदश्यां पाण्ड्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलपाटीप्रवर्द्धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्ण-राजदेवे सति तत्यादपद्मोपजीविनः समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्चालुक्यकुलजन्मनः सामन्तचूडामणेः श्रीमदरिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्विगराजस्य लक्ष्मीप्रवर्धमानवसुंधारायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काल्यमिति”

दिया हुआ पद्य निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि सभी प्रतियोंमें ये पद्य एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैं। एक पद्य एक प्रतिमें जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमें उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है। किसी किसी प्रतिमें उक्त पद्य न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वतीभवनकी प्रतिमें हमें एक पूरा पद्य और एक अधूरा पद्य अधिक भी मिला है^२ जो अन्य प्रतियोंमें नहीं देखा गया।

यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धियोंमें भी इसी तरहके तीन संस्कृत पद्य नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोंमें हैं ही नहीं। इससे यही अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्य भिन्न भिन्न समयोंमें रचे गये हैं और प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गरज यह कि 'दीनानाथधनं' आदि पद्य मान्यखेटकी छूटके बाद ही लिखा गया है और उसके बाद जो प्रतियाँ लिखी गईं, उनमें जोड़ा गया है। उसके पहले जो प्रतियाँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें यह न होगा।

इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वैद्यको नाँदणी (कोल्हापुर) के श्री तात्या साहब पाटीलसे मिली है जिसमें उक्त पद्य नहीं है^३। ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी प्रतिलिपियाँ मिलनेकी सम्भावना है।

एक और शंका

'महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण' शीर्षक लेख मैंने 'भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट' पूनाकी वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिके आधारसे लिखा था उसमें प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं—

पुष्पयंतकङ्गा ध्रुयपंके जइ अहिमाणमेरुणामंके ।
कयउ कन्वु भक्तिए परमत्थे छसयछडोत्तरकयसामत्थे ॥
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए ।

इसके 'छसयछडोत्तरकयसामत्थे' पदका अर्थ उस समय यह किया गया था कि यह ग्रन्थ शकसंवत् ६०६ में समाप्त हुआ। परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवत्का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, चाहे वह शक संवत् हो, विक्रम संवत् हो, गुप्त संवत् हो, या कलचुरि संवत् हो। इसलिए उक्त पाठके सही होनेमें

१ हरति मनसो मोहं द्रोहं महाप्रियजंतुजं भवतु भविनां दंभारंभः प्रशातिकृतो - ।

जिनवरकथाग्रन्थप्ररुनागमितरूक्वा कथय कमयं तोयस्तीते गुणान् भरतप्रभो ।

यह पद्य बहुत ही अशुद्ध है ।

—४२ वीं संधिके बाद

२ आकल्पं भरतेव्वरस्तु जयताद्येनादरात्कारिता ।

श्रेष्ठायं भुवि मुक्तये जिनकथा तस्वामृतस्यन्दिनी ।

—४३ वीं सन्धिके बाद

३ देखो, महापुराण प्र० खं०, डा० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका पृ० १७ ।

४ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी ग्रन्थ-सूचीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है ।

सन्देह होने लगा । ' छसयच्छोत्तर ' तो खैर ठीक, पर ' कयसामर्थे ' का अर्थ दुरूह हो गया । तृतीयान्त पद होनेके कारण उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था । यदि बिन्दी निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी ' कृतसामर्थे ' का कोई अर्थ नहीं बैठता । अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जाने लगी ।

सबसे पहले प्रो० हीरालालजी जैनने अपने ' महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचार' लेखमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है—

पुष्पयंतकङ्गा धुयपंके जइ अहिमाणमेरुणामके ।
कयउ कवु भक्तिए परमर्थे जिणपयपंकयमउलियहर्थे ।
कोहणसंवच्छरे आसाढए दहमइ दिवहे चंदरुइरूढए ॥

अर्थात् क्रोधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलोंके प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धूतपंक (धुल गये हैं पाप जिसके), और परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया ।

यहाँ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो प्रति (१९३ क) है, उसमें भी यही पाठ है और हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें भी यही पाठ मिलेगा ।

ऐसा माद्धम होता है कि पूनेवाली प्रतिके अर्द्धदग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ़ मिती लिखी देखकर संवत्-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली !

यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धार्थ संवत्सरमें अपना ग्रन्थ प्रारम्भ किया और क्रोधन संवत्सरमें समाप्त । न वहाँ शक संवत्की संख्या दी और न यहाँ ।

तीसरी शंका

लगभग पन्द्रह वर्ष पहले पं० जुगलकिशोरजी मुस्तारको शंका हुई थी कि पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है । उन्होंने इस विषयमें एक लेख भी लिखा था और उसमें नीचे लिखी प्रशस्तिके आधारपर ' जसहरचरिउ ' की रचनाका समय वि० सं० १३६५ बतलाया था ।

किउ उवरोहें जस्स कइयइ एउ भवंतर ।
तहो भव्वहु णामु पायडमि पयडउ धर ॥ २९ ॥
चिरु पटणे छंगेसाहु साहु तहो सुउ खेला गुणवंतु साहु ।
तहो तणुरुहु वीसलु णाम साहु वीरो साहुणियहि मुलहु णाहु ।
सोयारु सुयणगुणगणसणाहु एक्कइया चितइ चित्ति लाहु ।
हो पंडियटक्कर कणहपुत्त उवयारियवल्लहपरममित्त ॥

१ जैनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक ३-४ ।

२ देखो, जैनजगत् (१ अक्टूबर सन् १९२६) में ' महाकवि पुष्पदन्तका समय ' ।

कइपुष्पयंति जसहरचरित्तु	किउ सुहु सदलकखणविचित्तु ।
पेसहिं तहिं राउलु कउलु अज्जु	जसहरविवाहु तह जणियचोउज्जु ।
सयलहं भवभमणभवंतराईं	महु वंछिउ करहि णिरंतराईं ॥
ता साहुसमीहिउ कियउ सब्बु	राउलु विवाहु भवभमणु भव्बु ।
वक्खाणिउ पुरउ हवेइ जाम	संतुइउ वीसलु साहु ताम ।
जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिद्धु	साहुहि घरे सुत्थियणहु घुडु ॥
पणसडिसहियतेरहसयाईं	णिवविक्रमसंवच्छरगयाईं ।
वइसाहपहिल्लइ पक्खि वीय	रविवारि समित्थउ मिस्सतीय ॥
चिरु वत्थुवंधि कइ कियउ जं जि	पद्दडियवंधि मइं रइउ तं जि ।
गंथव्वे कण्हडणंदणेण	आयहं भवाइं किय थिरमणेण ।
महु दोसु ण दिज्जइ पुंवि कहिउ	कइवच्छराइं तं सुत्तु लइउ ॥

परन्तु जान पड़ता है कि उस समय इस पंक्तियोंका ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा गया था । वास्तवमें इसका भावार्थ यह है—

“ जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पूर्वभवोंका वर्णन किया (अब मैं) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ । पहले पट्टणं या पानीपतमें छंगे साहु नामके एक साहु थे । उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए । फिर खेला साहुके वीसल साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था । वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्होंने अपने चित्तमें (सोचा और कहा) कि हे कण्हके पुत्र पंडित टक्कुर (गन्धर्व), वल्लभराय (कृष्ण तृतीय) के परम मित्र और उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर और शब्दलक्षणाविचित्र जो जसहरचरिउ बनाया है उसमें यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय । तब मैंने वही सब कर दिया, जो साहुने चाहा था—राउलु (राजा) और कौलका प्रसंग, विवाह और भवांतर । फिर जब वीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट हुए । योगिनीपुर (दिल्ली) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हुए विक्रम राजाके १३६५ संवत्में पहले वैशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारको यह कार्य पूरा हुआ । पहले कवि (वच्छराय) ने जिसे वस्तुछन्दमें बनाया था, वही मैंने पद्दडिवद्ध रचा । कन्हडके पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे भवांतरोंको कहा है । इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूर्वमें वच्छरायने यह कहा था । उसीके सूत्रोंको लेकर मैंने कहा । ”

इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है ।

१ ‘ पट्टण ’ पर ‘ पानीपत ’ टिप्पणी दी हुई है ।

पूर्वोक्त पद्योंसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्व कविने दिल्लीमें पानीपतके रहनेवाले बीसल साहु नामक धनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके यशोधर-चरितमें पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है। देखिए—

१ पहली सन्धिके चौथे कड़वकके 'चाएण कण्ण विहवेण इंदु' आदि पंक्तिके बाद आठवें कड़वकके अन्त तककी ८१ लाइनें गन्धर्वरचित हैं जिनमें राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचार्यका संलाप है। उनके अन्तमें कहा है—

गंधन्वु भणइ मइ कियउ एउ गिव-जोइसहो संजोयभेउ ।

अगगइ कइराउ पुप्फयंतु सरसइणिलउ ।

देवियहि सरूउ वण्णइ कइयणकुलतिलउ ॥

अर्थात् गन्धर्व कहता है कि यह राजा और योगीश (कौलाचार्य) का संयोग-भेद मैंने कहा। अब आगे सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदन्त (मैं नहीं) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं।

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी 'पोढत्तणि पुड्ढि पलड्डियंगु' आदि लाइनसे लेकर २७ वें कड़वक तककी ७९ लाइनें भी गन्धर्वकी हैं। इसे उन्होंने ७९ वीं लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है—

जं वासवसेणि पुन्वि रइउ तं पेक्खवि गंधन्वणेण कहिउ ।

अर्थात् वासवसेनने पूर्वमें जो (ग्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधर्वने कहा।

३ चौथी सन्धिके २२ वें कड़वककी 'जज्जरिउ जेण बहुभेयकम्मु' आदि १५ वीं पंक्तिसे लेकर आगेकी १७२ लाइनें भी गन्धर्वकी हैं। इसके आगे भी कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं^१। फिर एक घत्ता और १५ लाइनें गन्धर्वकी हैं

१ श्रीवासवसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बईमें (नं० ६०४ क) मौजूद है। यह संस्कृतमें है। इसकी अन्तिम पुष्पिकामें 'इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये...अष्टमः सर्गः समाप्तः' वाक्य है। प्रारम्भमें लिखा है 'प्रभंजनादिभिः पूर्वं हरिपेणसमन्वितैः, यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितुम्।' इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजन और हरिपेणने यशोधरके चरित लिखे थे। इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई परिचय नहीं दिया है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धर्व कविसे पहले हुए हैं। इस ग्रन्थकी एक प्रति प्रो० हीरालालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भंडारमें भी देखी थी और उसके नोट्स लिखे थे। हरिपेण शायद वे ही हों, जिनकी धर्मपरीक्षा (अपभ्रंश) अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है।

२ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रंथमें न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है—

सो जसवइ सो कइठाणमिचु

सो अभयणाउ सो मारिदत्तु ।

वणिकुलपंकयबोहणादिणेसु

सो गोवइदणु गुणगणविसेसु ॥

जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं ।

इस तरह इस ग्रंथमें सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी नहीं सकतीं । अतएव गंधर्वके क्षेपकोंके सहारे पुष्पदन्तको विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिमें नहीं घसीटा जा सकता ।

इसके सिवाय बहुत थोड़ी प्रतियोंमें, सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोंमें ही, यह प्रक्षिप्त अंश मिलता है । बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिरकी जो वि० सं० १३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्वरचित उक्त पंक्तियाँ नहीं हैं और ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंमें भी नहीं हैं ।

[अनेकान्त, वर्ष ४, अंक ६-७ और ८ से उद्धृत]

— नाथूराम प्रेमी

सा कुसुमावलि पालियतिगुत्ति सा अभयमइ त्ति णरिंदपुत्ति ।
 भव्वइं दुण्णायणिण्णासणेण तउ चएवि चारु सण्णासणेण ।
 काले जंते सव्वइं मयाइं जिणधम्मं सग्गग्गहो गहाइं ॥

१ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो (८०४ क) संस्कृतछायासहित प्रति है उसमें ' जिणधम्मं सग्गग्गहो गयाइं'के आगे प्रक्षिप्त पाठकी ' गंधर्वे कण्हडणंदणेण ' आदि केवल दो पंक्तियाँ न जाने कैसे आ पड़ी हैं । इस प्रतिमें इन दो पंक्तियोंको छोड़कर और कोई प्रक्षिप्त अंश नहीं है ।

तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु

णाम

महापुराणु

तद्विष्णु खंड



LXXXI

पणाविवि गुरुपर्येहं भव्वहं तमोहतिमिरंधहं ।
कहमि नेमिचरिउं भंडणु मुरारिजरैसंधहं ॥ ध्रुवकं

1

धीरं ^१ अविहियसामयं	सीहं हयसरसामयं ।	
दूसियसोत्तियसामयं	विद्धंसियहिंसामयं ।	
रक्खियसयलरसामयं	अक्खियधम्मरसामयं ।	5
चंडतिदंडुवसामयं	अलिणीलंजणसामयं ।	
जणियदुक्खवीसामयं	अदविणजीवांसामयं ।	
णासियतिव्वतिसामयं	वेरीणं पि सुसामयं ।	
बलविह्वियविवाहयं	पसमियसेलविवाहयं ।	
दूरुम्मुकविवाहयं	णिच्चं चये विवाहयं ।	10
कर्यणिवपुत्तिविसूरणं	पयणयसुरणरंसूरयं ।	

1. १ S पणमवि. २ S °पहयं. ३ ABP °जरसिंधहं. ४ ABP वीरं. ५ S जीयासा°. ६ S दूरुविमुक्क°. ७ AS° नृव°. ८ AS° विसूरयं; T विसूरणं. ९ APS° सुरयण°; T सुरणर°.

1. 3 a अविहियसामयं अकृतलक्ष्मीमदम्; b हयसरसामयं हतकामहस्तिनम्. 4 a °सामयं सामवेदम्; b °हिसामयं हिंसामतम्. 5 a °सयलरसामयं समस्तपृथ्वीमृगम्; b °धम्म-
रसामयं धर्मरसामृतम्. 6 a चंडतिदंडुवसामयं अप्रशस्तमनोवाक्कायदण्डत्रयोपशामकम्; b °सामयं
कृष्णम्. 7 a जणियदुक्खवीसामयं जनितो दुःखस्य विश्रामो विगमो येन; b अदविणजीवा-
सामयं द्रव्यवाञ्छानिष्पन्नं जीविताशामयं च नयं भट्टारकम्, द्रव्यजीविताशारहितमित्यर्थः 8 a °तिसामयं
नृणारोगम्; b सुसामयं सुष्ठु सामदं प्रियवचनदायकम्. 9 a °विवाहयं गरुडवाहकं विष्णुम्; b पस-
मियसेलविवाहयं शैलस्य पर्वतस्य वयः पक्षिणो व्याधाश्च प्रशमिता येन. 10 a °विवाहयं परि-
णयनम्; b णिच्चं चये विवाहयं नित्यमेव विशिष्टबाधादायकम्. 11 a कयणिवपुत्तिविसूरणं कृतं
नृपपुत्र्यां गृज्जीमत्या विसूरणं स्मरणं येन; b पयणयसुरणरंसूरयं पदनताः सुरनराः शोभना उरगाश्च यस्य,

ईंरिक्कुलणहयलसूरयं
णीणं सिवंपुरवासरं
तवसंदणणेमीसयं

इंदियरिडरणसूरयं ।
तिट्टारयणीवासरं ।
णमिऊणं गेमीसयं ।

घत्ता—भारहु भणमि हउं पर किं पि णत्थि सुकइत्तणु ॥

15

मज्झि वियक्खणहं किह मुक्खु लेंहमि गुणकित्तणु ॥ १ ॥

2

णउ मुणमि विसेसणु णउ विसेसु
अहिकरणु करणु णउ सरपमाणु
कत्तारु कम्मु णउ लिंगजुत्ति
दिगु दंडु कम्मधारउ समासु
अव्वईभाउ वि णउ भौंवि लग्गु
णउ पउ वि सुवंतु तिर्वंतु विट्ठु
भरहहु केरइ मंदिरि णिविट्ठु
हउं कव्वापिसल्लउ कव्वकारि
खलसंदेंहु पुणु परदोसवसणु
हउं करमि कव्वं सुो करउ णिंदें

णउ छंडु गणु वि णउ देसिलेसु ।
णायणिणउ आगमु णउ पुराणु ।
परियाणमि णउ एक वि विहसि ।
तप्पुरिसुं बहुवीहि य पयासु ।
णउ जोइउ सुकइहिं तणउ मग्गु । 5
णउ अत्थि अत्थु णउ सहु मिट्ठु ।
जणि णउ लज्जमि एमेवं धिट्ठु ।
जायउ बहुसुयणहं हियंयहारि ।
णं णिवारमि विरसइं भसउ भसणु ।
फलु जाणिहिंति 'दोहं मि मुंणिंद । 10

घत्ता—सरसु सकोमलउं खलगलकंदलि पउ देप्पिणु ॥

हिंडेसइ विमल महु कित्ति तिज्जगु लंधेप्पिणु ॥ २ ॥

3

चित्तिज्जइ काइं खलावराहु
छुह पसियउ महु जिणवीरणाहु

बीहंतु वि किं ससि मुयइ राहु ।
लइ करमि कव्वु सुहजणणु साहु

१० S हरिउल°. ११ S °पुरि°. १२ S लहवि.

2. १ S कत्तार. २ S परियाणवि एक वि ण वि. ३ A तप्पुरिसु वि बहुविहि विहिपयासु.
४ B अव्वइभविं वि. ५ ABP भाउ. ६ A तिडंतु; P विवंतु. ७ AP पइहु. ८ A जणि णउ जणि
लज्जमि एय धिट्ठु. ९ A एय; P एमेय. १० B हियइ. ११ Als. °संडहु against Mss.; but
gloss in S दुर्जनसमूहान्. १२ B णउ वारमि. १३ AP गंधु. १४ B णिंदु. १५ APS दोहिं
मि. १६ B मुणिंदु. १७ APS सुकोमलउं.

12 a °सूरयं आदित्यम्; b °रणसूरयं रणशूरम्. 13 a णीणं नृणाम्; सिवपुरवासरं शिवपुरवास-
दायकम्; b तिट्टारयणीवासरं नृणारात्रिसूर्यम्. 14 a °णेमीसयं नेमिश्रकषारा, ईषा दण्डिकाद्वयम्;
नेमीषे द्वे ददातीति नेमीषदः, तम्; b णेमीसयं नेमीशकं नेमिनाथम्.

2. 5 a भावि चित्ते. 9 a °वसणु ग्रहणम्. 10 b दोहंमि मम दुर्जनस्य च.

भो सुयण भव्वरपुंडरीय
णदणवणमहुघारासिह्लि
गुमुगुमुगुमंतहिंडियदुरेहि
सीर्याणइउत्तरतडणिवेसि
गयणगलग्गाहिमधैवलहम्मि
सीहउरि णर्राहिउ अरुहदासु
वाईसरि मुहि जसु दैसादिसासु
दोहिं मि जणेहिं णरणायवंदु
णिसि सुंदरि कुलिसु व मैज्झि खाम

भो णिसुणि भरह गुरुयणाविणीय ।
महमैहियविविहपफुल्लफुल्लि ।
इहं जंबूदीवि पच्छिमविदेहि 5
जणसंकुलि गंधिलणामदेसि ।
पायारगोउरारावरम्मि ।
वच्छत्थलि णिवसइ लच्छि जासु ।
प्राणिट्ट देवि जिणैवत्त तासु ।
एकहिं दिणि अहिसिंविउ जिणिंदु । 10
जिणयत्त पसुत्ती पुत्तकाम ।

घत्ता—सिधिणइ विट्टु हरि करि चंदु सुरु सिरि गोवइ ॥

ताइ कहिउं प्रियेहुं सो णिमैल्लु णियमणि भावइ ॥ ३ ॥

4

होसइ सुउ हरिणा रिउभजेउ
ससिणा सूहउ णिरुं सोम्मभाउ
सिरिदंसणि सुंदरु सिरिणिकेउ
थिउ गम्भि ताहि मृगलोयणाहि
उप्पणउ णवजोव्वणि वलग्गु
कमणीयहं कंतहं जणिउ राउ
णहदसदिसिवहणिगयपयाउ
णिसुणेवि धम्म उववणणिवासि
कुलसंपय देवि सणंदणासु

करिणा गरुयउ गुरुसोक्खहेउ ।
सूरेण महाजसु तिब्बतेउ ।
कइवयदिणेहिं साणंदु देउ ।
णवमोसहिं कसणाणयणाहि ।
देवहुं मि मणोहरु णाइ सग्गु । 5
अरिसिरचूडामणिदिण्णपाउ ।
जायउ वियहहिं रायाहिराउ ।
तापण विमलवाहणहु पासि ।
जिणादिक्ख लेवि कउ मोहणासु ।

3. १ BP °वणि. २ P °सेह्लि. ३ B °महिण. ४ B °पफुल्ल°. ५ B इय. ६ A सीयोयहि; P सीओयहि. ७ P °धवलि. ८ S णराहिबु. ९ S अरहदासु. १० B दश°. ११ AP पाणिह. १२ B जिणयत्त. १३ B मज्जल्लाम. १४ AP पियहो. १५ S णिमल्लु (नृमल्लो राजा).

4. १ P सिरिसोम्म°. २ B सोमभाउ. ३ B दिव्वतेउ; Als. proposes to read दिव्वकाउ without Ms. authority. ४ BP सिग°. ५ BP °मासेहिं. ६ A कालाणयणाहे; Als. reads in S करणाणयणाहे, but the Ms. gives कसणाणयणाहे where ष्य is wrongly copied for य or घ. ७ P कमणीयहिं. ८ S जणियराउ. ९ A तह दस°; S णहदशदिशि°. १० B उववणि.

3. 6 a सीयाणइ° शीतोदानद्याः. 8 b वच्छत्थलि हृदयस्थले.

4. 3 b साणंदु देउ माहेन्द्रस्वर्गात् च्युतः कश्चिद्देवः. 5 a. उप्पणउ अपराजितनाम पुत्रो जातः; णवजोव्वणि वलग्गु नवयौवनं प्राप्तः. 6 a कंतहं स्त्रीणाम्. 7 b रायाहिराउ अपराजितराजा.

पुसैं गहियाइं अणुव्वयाइं
आवेपिणुं केसरिपुरि पइहु

पयडीकयसुरणरसंपयाइं ।
कालेण पराइउ पक्कु इहु ।

10

घत्ता — तेण पयंपियउं गउ विमलवाहु णिव्वाणहु ॥

जिह सो तिह अवरु तुह जणणु वि सासयठाणहु ॥ ४ ॥

जं णिसुउ ताउ संपत्तुं मोक्खु
णउ पहाइ ण परिहइ परिहणाइं
णउ कुसुमइं विसमियसडयणाइं
घवघवघवंतपयणेउराइं
णउ भुंजइ उवणिउ दिव्वु भोउ
चित्तइ णियमणि हयदुण्णयाइं
पेच्छेसमिं भुंजमि पुणु धरित्ति
इय जाम ण लेइ णरिदु गसु
तहिं अवसरि इंदहु चित जाय
जज्जाहि धणय बहुगुणणिहाउ
सिरिअरुहदासरिसिणा सणाहु

तं जायउं अवराइयहु तुक्खु ।
णउ लावइ अंगि विलेवणाइं ।
णउ आहरणइं णियकुल्लहणाइं ।
णालोयइ पहु अंतेउराइं ।
ण सुहाइ तासु पक्कु वि विणोउ । 5
जइ तायविमलवाहणपयाइं ।
णं तो थंसणंगहं महुं णिवित्ति ।
गय दियह पुण्णुं अट्टोववासु ।
मुहकुहरहु णिग्गय महुर वाय ।
मा मरउ अपुण्णइ कालि राउ । 10
दक्खालहि जिणवरु विमेल ताहु ।

घत्ता—सयमहपेसाणिण ता समवसरणु किउ जक्खें ॥

दाविउ परमजिणु वंदिज्जेमाणु सहसक्खें ॥ ५ ॥

पिउपायादिण्णदढसाइएण
आहारु लईउ आवेवि गेहु
पुणु छुडु छुडु संपत्तइ वसंति

वंदिउ भत्तिइ अवराइएण ।
गरुयहं वड्डइ गुणवंति गेहु ।
णंदीसरि अण्णाहिं वासरंति ।

११ B आएप्पिणु. १२ S पयंपिउं.

5. १ B सुणिउ. २ AS संपत्त. ३ A वियसियसडयणाइं. ४ A °कुलहरां. ५ B णालोवइ.
६ A उउ भुंजइ. ७ B पिच्छेसमि; P पिक्खेसमि. ८ ABPS add तो after पेच्छेसमि and
omit पुणु. ९ AP असणंगहं. १० A पत्तु; P पणु. ११ ABPS विमलवाहु. १२ A वंदिव्वमाणु.

6. १ B लयउ.

5. 3 a वि स मिय स ड य णा इं विश्रान्तभ्रमराणि. 6 a हयदुण्णयाइं हतमिथ्यामतानि.
7 b णं तो य स ण ग हं महुं णि वि त्ति अन्यथा असनाङ्गस्य मम निवृत्तिः नियमः. 11 b ता हु तस्य
अपराजितस्य. 13 सहसक्खे इन्द्रेण.

6. 1 a °सा इ एण आलिङ्गनेन. 3 b वा सरंति पूर्णिमादिने.

वंदेषिणु जिणैचेईहरां
सुविमुद्धसीलजलहरियकंद
वंदिवि वंदारयवंदणिज्ज
तेहिं मि पउत्तु भो धम्मविद्धि
पुणु सच्चतच्चसवणावसाणे
मइं विट्ठा तुम्हइं काइं करमि
पसरइ मणु मेरउं रमइ दिट्ठि
रिसि परमावहिपसरणपवीणु
भो नृवं चिरु ससहरकिरणकंति

अक्खंतु संतु धम्मक्खरां ।
ता हुक्क बेणिण णहंयलि मुणिद । 5
मंणिणय महिणाहं मण्णणिज्ज ।
केवलवंसणगुण होउ सिद्धि ।
पहु पभणइ अण्णहिं कहिं मि ठाणि ।
एवहिं सुमरंतु वि णाहिं सरमि ।
भणु जइ जाणहि तो जणहि तुट्ठि । 10
ता चवइ जेट्ठु णिट्ठाइ खीणु ।
अम्हइं पइं दिट्ठा णत्थि भंति ।

घत्ता—पभणइ परममुणि नृवं पुक्खरदीवि पसिद्धइ ॥

पच्छिमसुरगिरिहि पच्छिमविदेहि ११ धणरिद्धइ ॥ ६ ॥

गंधिलजणवइ खगमहिंहरिंदि
सूरप्पहंपुरि पहासियमुहिंदु
पियकारिणि धारिणि तासु धरिणि
जाया कालं सुकयाणुरूर्यं
तंहि णंदण णं धम्मत्थकाम
ते तिणिण सहोयर मुक्कपाव
तहिं अवरु अरिंदमणयरि राउ
तहु पणइणि णामं अजियसेण

उत्तरसेट्ठिहि धवलहररुंदि ।
सूरप्पहु णामं णहयरिंदु ।
वम्महधरणीरुहजम्मधरणि ।
भाभारवंत भूतिलयभूयं ।
चिंतामणचवलगइ स्ति णाम । 5
णं दंसणणाणचरित्तभाव ।
णामेण अरिंजउ जयसहाउ ।
कीलंतहं दोहं मि रररसेण ।

घत्ता—पीईमंइ तणंथ ह्तेई सा किं मइं वणिणज्जइ ॥

जाइ सरुवपण उब्बसि रइ रंभ हसिज्जइ ॥ ७ ॥

10

२ B जिणचेइय°. ३ S सुविशुद्ध°. ४ AP जलभरिय°. ५ AP णहयरमुणिद; B णहयलमुणिद.
६ S मंडिय महिणाहं मंडणिज्ज. ७ A सत्ततच्चवयणावसाणे; P सच्चतच्चसयणावसाणे. ८ ABP णिव.
९ ABP णिव. १० B पच्छिव°. ११ B °विदेह°.

7. १ P °हरिंदि. २ P पूरे. ३ B °धरिणी°. ४ AP °रूव. ५ AP °भूव. ६ S तहो.
७ B दोहिं. ८ AP रइवसेण. ९ B पिईमइ; P पीइमइ. १० ABP तणया. ११ S भूई; Als.
हुइ against Mss. १२ A सरुवपण. १३ A उब्भसि.

4 b अक्खंतु राजा स्वयं व्याख्यानं कुर्वन्. 5 a °जलहरियकंद जलभृतमेधौ. 10 b जण हितुट्ठि
हर्षमुत्पादय. 11 b णिट्ठा इ खीणु क्रियया कृत्वा क्षीणगात्रः. 12 a चिरु पूर्वभवे; ससहरकिरणकंति
हे शाश्वरकिरणकान्ते राजन्. 14 पच्छिमसुरगिरिहि पश्चिममेरौ.

7. 1 a खगमहिंहरिंदि विजयार्थे. 3 b वम्महधरणीरुहजम्मधरणि कामवृक्षस्य जन्म-
भूमिः. 5 b चिंतामणचवलगइ चिन्तागतर्मनोगतिश्चपलगतिरिति नामानि.

8

परियंचिवि सुरगिरिवरु तिबंधर
णीसेस वि णियपर्यमूलि घिस
मणगइचलगइणामालपरिहिं
अक्खिय णियभायहु एह वत्त
विट्ठी कुमारि गहयंर जिणंति
चितागइ भासइ सोक्खखाणि
लइ मुयहि माल विम्हिंयमणांउं
विरपप्पिणु तुहुं पावहि ण जाम
तं वयणु ताइ पडिवणु तेंव
केसरिकिसोरेंखयकंदरासु
सूरप्पंहतणएं धरिय माल

जो लेइ माल मणिकिरणफौर ।
विज्जोहर मेरु भमंत जिस्त ।
आवेप्पिणु धारिणिबालपरिहिं ।
ताँ तेण वि कर्यं तहिं विजयजत्त । 5
अमरायलपौसाहिं परिभमंति ।
हलि वेयवंति कलहंसवाणि ।
सुरसिहरिहि तिणिण पयाहिणाउ ।
हउं पंकयच्छि धुहुं धरमि ताम ।
थिय गयणंगणि जोयंतें देव ।
लहुं देवि तिभामरि मंदरासु । 10
गेंइवेएं णिजिय खयरबाल ।

घसा—उत्तउं सुंदरिइ परं मुइवि ण को वि महारउ ॥
विट्ठु अदिट्ठु तुहुं चितागइ कंतु महारउ ॥ ८ ॥

9

ता भणिउं तेण मारुयजवेहिं
परं जिंत्ता ए इह धावमाण
जो रुच्चइ सो महुं अणुउ कंतु
मणसियसरजालणिरुद्धियाइ
मणणयणहुं वल्लहु जइ वि रम्म

अहिलसिय कण्णं तुह बंधवेहिं ।
थिय कायर असाहियकुसुमबाण ।
करि एवहिं पैहु जि तुज्झ मंतु ।
तं णिसुणिवि बोल्लिउं मुद्धियाइ ।
बलिमंडु ण किजइ तो वि पेम्मं ।

8. १ B तिवार. २ A मणिरयणि; P मणिरयण°. ३ B फार. ४ A णीसेसिवि. ५ A °मूल°. ६ A पिज्जाहर. ७ B °भायहि. ७ AP तो. ८ AP तहिं किय. ९ P गहयरे. १० P °पासेहिं. ११ BP विंभिय°. १२ P °मणाओ. १३ ABP धुउ. १४ AP जोयंति. १५ B °किसोर; S केसरिकिशोर°. १६ A सुप्पहतणएं. १७ B गयवेएं.

9. १ P कण्णे. २ A परं जिंत्ताइ जि इह पलवमाण; B जिंत्ता ए धावंतमाण; P जिंत्ता ए इह धावंतमाण; T पलावमाण धावन्तौ. ३ B तुज्झ जि एहु. ४ B बलिमहु; P बलिमंड; S बलिमहु. ५ P पेमु.

8. 1 a परि यं चि वि प्रदक्षिणीकृत्य; b ले इ गृह्णाति. 4 a णिय भायहु चिन्तागतेः. 10 b तिभामरि तिस्रः प्रदक्षिणाः. 11 a सूरप्पहतणएं चिन्तागतिनाम्ना; b गइवेएं इत्यादि गमन-वेगेन खचरबाला प्रीतिमतिः जिता. 12 महारउ महावेगो वेगवान्. 13 अदिट्ठु अपूर्वं त्वम्; महारउ मदीयः.

9. 3 a अणुउ अनुजः. 5 b बलिमहु बलात्कारेण.

हो हो गियणिलयहु चित्त जाहि
इय चित्तिवि मेळ्ळींवि मोहभंति
झाडउ जिणु केवलणाणचकखु

मा दुल्लहसंगि अणांगि थाहि ।
पणाविणि णिविचिं णामेण खंति ।
परिपालेउ संजमु ताइ तिकखु ।

घत्ता—दीणहं दुत्थियहं सज्जणविओयंजरभग्गहं ॥

णीवई दुक्खसिहि जिणवेरपयपंकयलग्गहं ॥ ९ ॥

10

10

अवलोइवि कण्णहि तणिय वित्ति
सहुं भायरेहिं दमवरसमीवि
संगासं मरिवि सिरीवियाप्पि
तंहिं दीहकालु गियणियविमाणु
इह जंभुदीवि सुरदिसिधिदेहि
खयरायलि उत्तरदिसिणियंवि
पुरि णहंवल्लहि पहु गयणचंदु
अमियगइ पुत्तु हउं ताहि जाउ
वेणिवि तुरीयसग्गावइण्ण
तुह विरहणडिय अंसुय मुयंति
जाणसि जं ताइ वउत्थु चारु
अम्हइं 'तीहिं मि ववसियंमणेहिं

चितागइणा कंय घरेणिवित्ति ।
तवंचरणु लइउ गुणमणिपईवि ।
जाया तिण्णि वि मांहेइकप्पि ।
भुंजेप्पिणु सत्तसमुहमाणु ।
पुक्खंलवइदेसि सवंतमेहि । 5
मंदारमंजरिरेणुतवि ।
पिय गयंणसुंदरी मुक्कतंदु ।
इहु अमियतेउ लहुयउ भाउ ।
जाणसि 'जं जित्ती आसि कण्ण ।
जाणसि जं ण समिच्छिय कयंति । 10
जाणसि जं किउं चारित्तभारु ।
दमवरंसयासि पोसियगुणेहिं ।

घत्ता—छुड छुड जोइयंउं लइ जइ वि सुहु दूरिल्लइं ॥

धुंभु जाइंभरइं णयणइं मुणंति णेहिंल्लइं ॥ १० ॥

६ B हो हो गियणिलयहं; P हो होउ गियत्तहे; S हो हो गियणिलयहे. ७ B मल्लिवि. ८ S णिवित्त.
९ S °वियोय°. १० BPS Als. णावइ. ११ P °पयपंकए; S om. प in पयपंकए.

10. १ B कण्णहु; P कण्णहो. २ A किय. ३ B घरि. ४ P तउचरणु. ५ B सीरा°.

६ BP माहिंद°. ७ A पुक्खलइदेसि. ८ K णववल्लहि. ९ A मयणसुंदरी. १० S लहुअयक.
११ AP जं. १२ P जाणसे. १३ S णिउ. १४ B तिण्णि वि; P तिहिं मि. १५ A ववसियसणेहिं.
१६ B दमवरयपासि. १७ B जोयउं. १८ A दुरिल्लउं; Als. दूरिल्लइं against Mss. to
accord with the end of the next line. १९ AP धुउ; B धुउ. २० AP जाइसरइं;
S जाइभरइं. २१ AP S णेहिंल्लउं; but BK णिहिंल्लइं and gloss in K स्निग्धानि.

6 a हो हो इति रे चित्त, स्वं निजनिलयं स्थाने गच्छेति सा स्वात्मानं संबोधयति. 9 b ता इ तथा कन्यया. 10 णी व इ विध्यापयति; दुक्ख सि हि दुःखानिः.

10. 2 b गुणमणि पईवि गुणमणिप्रदीपे. 3 a सिरी वियप्पि लक्ष्मीविकल्पे स्वर्गं, श्रीणां भेदे वा. 5 b सवंतमेहि क्षरन्मेधे. 6 a °णियंवि तटे. 7 b मुक्कतंदु आलस्यरहितः. 9 b कण्ण प्रीतिमती त्वम्. 11 a वउत्थु व्रतमनुष्ठितम्. 14 जाइंभरइं जातिस्मरणि; णेहिंल्लइं क्षिग्धानि.

11

अम्हं ते भायर तुज्जु राय
 अरहंतु सयंपहणामघेउ
 णियजम्मणु तुह जैम्मं समेउ
 सीहउरि रौउ दूसियविवक्खु
 सो तुम्हं बंधेउ णिव्वियारु
 अम्हं हूई दंसणसमीह
 पत्तिंथं फुहु जंपिउं जिणवरासु
 इय कहिवि साहु गय बे वि गयणि
 अहिसिंचिवि जिणपडिमाउ तेण
 बहुदीणाणीहं दाणु देवि
 इंदियकसायमिच्छत्तदमणु
 मुउ उप्पणउ अञ्चयविमाणि

अण्णेत्तहि कम्मवसेण जाय ।
 पुच्छियउ पुंडरीकिणिहि देउ ।
 आहासइ णासियमयरकेउ ।
 चिंतागइ हुउं अवरहयक्खु ।
 ता णिसुणिवि केवल्लिवर्यणसारु । 5
 आया तुहुं दिट्ठउ पुरिससीह ।
 अण्णे वि तुह जीविउं पक्कु मासु ।
 णरणाहें छंडिये तत्ति मयणि ।
 भावें पुज्जिवि अवराइपण ।
 घरपुत्तकलत्तइ परिहरेवि । 10
 किउ मासमेसु पाओर्यगमणु ।
 बावीसजलहिजीवियपमाणि ।

घसा—तेत्थेहु ओर्येवि इह भरहखेत्ति विक्खोयउ ॥

कुरुजंगलविसए पुणु हत्थिणायपुरि जायउ ॥ ११ ॥

12

सिरिचंदे सिरिमइयहि तणूउ
 गुणं वच्छलु णामे सुप्पइट्ठु
 तेहु रज्जु देवि हुउ सो महीसु
 णीसंगु णिरंवरु वाणि पइट्ठु

णिरुवमतणु कुरुकुलनृवविणूउ ।
 प्रियं णंदादेविहि प्राणइट्ठु ।
 सिरिचंदु सुमंदिरगुरुहि सीसु ।
 जहिं सिरि अणुहुंजइ सुप्पइट्ठु ।

11. १ A अण्णणेहे. २ S पुंडरिंकिणिहे. ३ BK जम्मिं. ४ B राय. ५ P हूउ. ६ S अवराइअक्खु. ७ S बंधवु. ८ AB वयणु. ९ BS अम्हं. १० A पत्तिउ; B एत्तिउ. ११ AP अक्खमि तुहु. १२ AB छडिय; S दडिय. १३ S ०णाहं. १४ AP पाओवगमणु. १५ B तित्थहो. १६ S उयरेवि. १७ P विक्खायओ.

12 १ P कुवलयणिवविणूओ. २ AB गुणि वच्छलु. ३ A पृयणंदा° B प्रियु; P पिय; Als. प्रियणंदा°. ४ AP पाणइट्ठु. ५ B सो हुउ; P हुओ; S रहो but gloss सुपतिष्ठस्य.

11 1 b अण्णेत्तहि नभोवल्लभनगरे. 4 a° विवक्खु विपक्षः शत्रुः; b अवराइयक्खु अपराजिताख्यः. 5 a णिव्वियारु निर्विचारम्. 7 a पत्तिय प्रतीतिं कुरु. 8 b तत्ति चिन्ता. 13 ओ यरि वि अवतीर्य.

12 1 b° विणूउ स्तुतः. 3 a महीसु श्रीचन्द्रराजा. 4 b अणुहुंजइ मुनक्ति.

तर्हि जसहरु रिसि चरियइ पवणु
तर्हि तासु भवणपंगणैयाइं
कालें जंतें पिहुसोणियाहिं
पत्थिउ अवलोयइ दिसंउ जाम
चितइ णरवइ णिवडिय जलंति
तिह जीव विविहकिंकरसयाइं
इय चंविवि सुदिट्ठिहि तणुरुहासु
णिज्झाइयसिवपुरमंदिरासु

रापं पय धोईवि दिणु अणु । 5
अच्छरियइं पंच समुगयाइं ।
कीलंतु समउं रायाणियाहिं ।
णिवंडंति णिहालिय उक्क ताम ।
गय उक्क खयहु जिह पउं करंति ।
जगि कासु वि होंति ण सासयाइं । 10
सइं बद्धु पट्टु पवसियमुहासु ।
पणवेपिणु पाय सुमंदिरासु ।

घत्ता—दिहिपरियैरसहिउं णीसेसभूयमित्तत्तणु ॥

गिरिकंदरभवणु पडिवणुणउं तेण रिसित्तणु ॥ १२ ॥

13

सुपइट्टे दुद्धरु चिणु चरिउं
परवाइमयाइं परिक्खियाइं
विडवेसइं केसइं लुंघियाइं
रउं विहुणिवि णिहणिवि जिणिवि कामु
अ सि आ उ सा इं अक्खर सरेवि
अहमिंदु अणुत्तरि हुउं जयंति
तेत्तीसमहण्णवणियमियाउ
तेत्तियहिं जि सूरिपयासएहिं
भुंजइ मणेण सुहुमाइं जाइं
णाणें परियाणइ लोयणाडि
णिवसइ विमाणि पप्फुल्लवत्तु

मणु सत्तुमित्ति सरिसउं जि धरिउं ।
एयारइ अंगइं सिक्खियाइं ।
गयगण्णइं पुण्णइं संघियाइं ।
अविरुद्धउं बद्धउं अरुहणामु ।
गयपासें संणासें मरेवि । 5
हिमंइससुहारुहकिरणकंति ।
तेत्तियहिं जि पक्खहिं ससइ देउ ।
वोलीणहिं वरिससेंहासएहिं ।
मणगेज्झइं किर पोगगलइं ताइं ।
करमेत्तदेहु मणैहराकिरीडि । 10
सो होही जैहिं तं भणामि गोत्तु ।

६ B धोविवि. ७ AP पंगणे कयाइं. ८ B अवलोवइ. ९ A दिसिउ. १० A णिवंडंत. ११ AP पउक्कंति. १२ A सरेवि; P भरेवि. १३ B °परियण°; K°परियण° but corrects it to परियर°.

13 १ P मणि सत्तु मित्तु सरिसउं. २ P °वाइयमयाइं. ३ A गयसण्णइं. ४ B संघियामिं. ५ AP रउं विहिणेवि णिहिणेवि. ६ P हुओ. ७ B हिमरासिसुहारयकिरण°. ८ B तेत्तियहिं पक्खहिं. ९ B तेत्तियहिं सूरि°; १० A सूर°. ११ P °पयासिएहिं. १२ S °सहाएहिं. APS मणइरु. १३ B जइं.

7 a चरियइ भिक्षार्थम्. 7 a पिहुसो णियाहिं पृथुकटीभिः. 9 b पउ पदम्. 11 a चवि वि कथयित्वा.

13 3 b गयगण्णइं गतगणितानि असंख्यातानि. 4 a रउ पापम्; b अ विरुद्धउं समीचीनम्. 6 b °सुहारुह° चन्द्रः. 8 a सूरिपयासएहिं सूरिभिः आचार्यैः प्रकाशितानि. 11 b सो सुप्रतिष्ठमुनिचरः.

घत्ता—गोत्तमु भणइ सुणि मगहाहिव लद्धपसंसहु ॥
रिसहणाहकयहु पच्छिमंसंतइ हरिवंसहु ॥ १३ ॥

14

इह दीवि भरहि वरवंच्छदेसि
मघवंतु राउ पिसुणयणतावि
रहु णामें णंदणु सुमुहु सोट्टि
दंतउरहु होंतैउ वीरदत्तु
वाहहुं भईयइ णावइ कुरणु
कोसंबि पद्दुउ सुमुहुभवणि
सव्वइं वित्तइं रइरसरयाइं
वणमाल बाल सुमुहेण दिट्ठ
अहिलसिय सुसियं तहु देहवेलि
दुँसीलें परजायारपेण
बारहवरिसाँवहि दिण्णु वित्तु

कोसंबीपुरवरि जणणिवासि ।
तहु वीयसोय णामेण देवि ।
कालिंगदेसि कमलाहदिट्ठि ।
वणि वणमालासहुं पोम्मवत्तु । 5
आयउ अणाहु कयसत्थंसंगु ।
ठिउ जालगवक्खविसंतपवाणि ।
अण्णहिं दिणि वणंकीलहि गयाइं ।
लायेण्णवंत रमणीवरिट्ठु ।
मणि लग्गी भीसणमयणमल्लि ।
वणिवइणा णिरु मायारएण । 10
वाँणिज्जहि पेसिउ वीरदत्तु ।

घत्ता—गउ सो इयरु तँहि आलिंगणु देंतु ण थक्कइ ॥

परहरवासियहु धणु धणिय ण कासु वि चुक्कइ ॥ १४ ॥

15

डज्जउ परदेसु परावयासु

परवंसु जीविउं परदिण्णुं गासु ।

१४ P पत्थिवसंतए.

14 १ S °वच्छदेशे. २ S सुमुह. ३ B हुंतउ. ४ AP पेमरत्तु; S पेमवत्तु; K पोम्मवत्तु
but adds a p: पेम्म इति पाठे स्नेहवान्. ५ B भइए. ६ B °सत्थु. ७ B सुमुहु. ८ A वि
ताहं; P वित्ताह. ९ AP वणकीलागयाइं. १० AP लायणवण. ११ S सुसीय. १२ B दूसेलें;
S दूशीलें. १३ B °रयेण. १४ S °वरसावहि. १५ B वाणिजहो. १६ B वीरयत्तु. १७ B तहिं.

15 १ S परवस. २ BP °दिण्णगासु.

12 मगहाहिव हे श्रेणिक, हरिवंशपरंपरां शृणु. 13 पच्छिमसंतइ पश्चात्परंपरा पश्चिमश्रेणी;
हरिवंसहु इक्ष्वाकुवंशी जिनः, तेन स्थापिताश्रत्वारो वंशाः, (1) कुरुवंशे सोमप्रभस्य कुरुराज इति
नाम दत्तम्; (2) हरिवंशे हरिचन्द्रस्य हरिकान्त इति नाम दत्तम्; (3) उग्रवंशे काश्यपस्य
मघवा इति नाम कृतम्; (4) नाथवंशे अकम्पनस्य श्रीधरो राजा कृतः.

14 3 b कमलाहदिट्ठि कमललोचनः. 4 b वणि वणिक्; पोम्मवत्तु पद्मवक्त्रः. 5 a वाहहुं
भइयइ व्याधानां भयात्. 7 a वित्तइं वित्ताः प्रसिद्धाः सर्वे जनाः. 9 a सुसिय शुष्का जाता; तहु
सुमुखस्य. 10 b वणि वइणा वणिकपतिना; मायारएण मायारतेन. 12 इयरु सुमुखः. 13 धणिय भार्या.

15 1 a डज्जउ भस्मीभवत्तु; परावयासु परस्य गृहे वासः, परेषां अवकाशः परस्वेच्छया
पर्यटनम्, परेषां अवकाशः प्रसङ्गः.

भूमंगमिउडिदरिसियभएण
सभुयौञ्जिएण सुहुं वणहलेण
वर गिरिकुहरु वि मण्णोमि सलग्घु
कीलंति ताइं णारीणराइं
बहुकाँलहिं औपं मयपमत्तु
जाणित तावें अंतंतस्त्रीणु
बलवंतें रुद्धउ काइं करइ
खलसंगें लग्गी तासु सिक्ख
चित्तिवि" किं महिलइ किं धणेण
संपुण्णकाउ सोहम्मि देउ

घत्ता—सावयवय धरिवि ता कालें कयमयाणिग्गाहु ॥

रघु मघवंतसुउ सुरु हुउ तेत्थुं जि सूरप्पहु ॥ १५ ॥

रज्जेण वि किं किर परकएण ।
णउ परदिण्णो मेइणियलेण ।
णउ परधवलहरु पढामहग्घु ।
उरयलथणयलविणिहियकराइं । 5
वणिणा वणिवइ वणमालरत्तु ।
अपसिद्धंउ णिद्धणु बलाविह्वीणु ।
अणुदिणु चित्तंतु जि णवर मरइ ।
पोट्टिल्लुं मुणि पणाविवि लइय दिक्ख ।
मुउ अणसणेण णियमियमणेण । 10
चित्तंगउ णामें जाम जाउ ।

16

वणमालइ सुमुहें णिरु णिरीहु
आयण्णित धम्मु जिणिंदसिद्धु
चित्तवइ सेट्ठि दुक्कियविरत्तु
असहायहु आयहु विहलियासु
सुयरेइ गेहिणि हउं कयकुर्कज्ज
हा किं ण गइय हउं खंडखंड
इय णिंदंतइ असणीहयाइं
इंइ भरहखेत्ति हरिवरिसविसइ
णरणाहु पइंजणुं सइ मिक्कंइ

भुंजाविउ मुणिवरु धम्मसीहु ।
अप्पाणु वि धूलिसमौणु दिहु ।
हा हित्तउं किं मइं परकलत्तु ।
हा किं मइं विरइउ गेहणासु ।
भत्तारदोहँकारिणि अलज्जं । 5
हा पडउ मज्झु सिरि वज्जदंडु ।
कालेण ताइं विणिण वि मुंयाइं ।
भोयउरि भोइंभडभुत्तविसइ ।
तहु धरिणि णिरुविय कामकंड ।

३ B °भुयजिएहिं. ४ S मेयणियलेण. ५ A मण्णवि. ६ AB कालें; P कालहं. ७ B आयपं. ८ A ता तावें अंतु खीणु; P अंतंतु खीणु; S अंतंतु स्त्रीणु. ९ B अपसिद्धित्तु. १० B पुट्टिल्लु; S पोट्टिल्लु. ११ P चित्तए. १२ B तित्थु.

16 १ B जिणंद°. २ AP अप्पाणउं धूलि°. ३ B °सुमाणु. ४ A मइं किह; P मइं किं. ५ BP सुअरइ. ६ B °कुक्कज्ज. ७ B °दोहि°. ८ S कारिणी. ९ B अलज्ज. १० S मयाइं. ११ B इय. १२ A भोइंसंपत्तविसए. १३ B पइंजणु. १४ BS मिक्कंडु. १५ BS कामकंडु.

4] a सलग्घु श्लाघ्यम्. 7 a अंतंत स्त्रीणु अन्तर्मनोमध्ये स्त्रीणः; b णिद्धणु निर्घनः. 9 a खलसंगें जारयोः संसर्गेण.

16 1 a सुमुहें सुमुखेन च. 4 a आयहु आगतस्य. 6 b सिरि मस्तके. 7 a असणी° विद्युत्. 8 b भोइभडभुत्तविसइ भोगिसुभटभुत्तविषये. 9 b कामकंड कामबाणाः.

इउ सुमुहु पुत्तु तहि सीहकेउ साळेंयपुरि णरवइ वज्जंचाउ । 10
 णयण गुणाल वणमाल ताहि सुय विज्जुंमाल ।
 इई परिणाविउ सीहचिंधु जम्मंतरसंचियेणेहबंधु ।
 घत्ता—पुरु घरु परिहरिवि रइणिभ्रराइं एक्कहिं दिणि ॥
 कयकेसग्गहइं कीलंति जाम णंदणवणि ॥ १६ ॥

17

कुंडलकिरीडचिंचेइयगत सुरप्पह चिसंगय सुमित्त ।
 ता बे वि देव ते तैत्थु आय दंपइ पेक्खवि मणि चित्त जाय ।
 चित्तंगण परियाणियाइं कहिं जारइं विहिणा आणियाइं ।
 संतावयरइं संभावियाइं एवहिं कहिं जंति अघाइयाइं ।
 वणमाल एह कुच्छिय कुंसील इहु सुमुहु सेट्टि जें मुक्क वील । 5
 उच्चाइवि बेणिण वि धिवंमि तेत्थु णउ खाणु पाणु णउ ण्हारुं जेत्थु ।
 इय चित्तिवि भुयबलतोलियाइं देवेण ताइं संचालियाइं ।
 किर णिप्फलजलगिरिगहाणि धिवइ ताँवियरु अमरु करुणेण चवइ ।
 को पत्थु वइरि को पत्थु बंधु मुइ मुइ सुंदर वइराणुबंधु ।
 दोसेसु खंति इच्छाणेवित्ति गुणवंति भत्ति णिग्गुंणि विरत्ति । 10
 कारणु सव्वभूपसु जासु किं भण्णइ अणुणु समाणु तासु ।
 तं णिसुणिवि उवसमसंगण भवियव्वु मुणिवि चित्तंगण ।
 चंपापुरि चंपयचूर्येगुज्झि धित्तोइं बे वि उज्जाणमज्झि ।

घत्ता—गय सुरवर गयणि तहिं पुरवरि अमरसमाणउ ॥

चंदाकित्ति विजइ छुहु छुहु जि जाम मुउ राणउ ॥ १७ ॥ 15

१६ A सायलपुरे. १७ AB वज्जवेउ. १८ AP महएवि. १९ A सुहुप्पा वणगुणाल. २० BS विज्जमाल. २१ S °संचिउ.

17 १ ABPS °चंचइय°. २ S तं. ३ B तित्थु. ४ S कुशील. ५ A धिवेवि; S धित्तमि. ६ S ण्हान. ७ AP ता इयर. ८ S वइराणुबंधु. ९ S गुणवंत°. १० S णिग्गुण°. ११ B °चूर्यगम्भि. १२ B धित्ता बे वि जि.

10 a सुमुहु सुमुखचरः; b वज्जचाउ वज्जचापः.

17 1 a °चिंचइय° भूषितम्. 5 b वील व्रीडा. 8 b इयर अमरु सूर्यप्रभः. 13 a °गुज्झि गुह्यस्थाने. 15 विजइ विजयवान्.

18

तद्दु तर्हि संताणि ण पुत्तु अत्थि
जलभरिउ कलसु केरि दिण्णु तासु
करडयलगलियमयसलिलबिंदु
उंसंगु णाइ जंगमुं गिरिंदु
दिब्बेण दइवसंचोइएण
उववणि पइसिवि सिरिसोक्खहेउ
परिवारें मिलिवि णिबद्धु पट्टु
परिणवइ कम्मु सव्वायरेण
णउ दिज्जइ संपय दिणयरेण
दुग्गाइ ण जंक्खें रेवईइ
जय जीवें देव पभणंतपहिं
को तुहुं भणु सञ्चउं जणणु जणणि

आहिवासिउ 'मंतिहिं भइहत्थि ।
कंकेलिपत्तसंछाइयांसु ।
चलरुणुरुणंतमिलियालिबुंदु ।
सहुं परियणेण चह्लिउ करिंदु ।
मुक्कंसेण उद्धाइएण । 5
अहिंसिचिउ करिणा सीहकेउ ।
मा को वि करउ भुयबलमरहु ।
चिरभवसंचिउं किं किर परेण ।
गोविंदें बभें तिणयणेण ।
विणंडिज्जइ जणु मिच्छारईइ । 10
पुच्छिउ पुणु राउ महंतपहिं ।
आगमणु काइं का जम्मधरणि ।

घत्ता—अणवइ हरिवरिसि पद्दु कइइ सयलंमणरंजणु ॥
भोयंपुराहिवइ मेरउ पियं राउ पइंजणु ॥ १८ ॥

19

मुहसोहाणिजियकमलसंड
हउं सीहकेउ केण वि ण जित्तु
तं सुणिवि मिक्कंडइ जणिउ जेण
तं पवरसिंधुरारूढदेहु
बहुकिंकरेहिं सेविज्जमाणु

तद्दु गोहिणि महु मायरि मिक्कंड ।
आणेप्पिणु केण वि पत्थु चित्तु ।
मंतिहिं मिक्कंडु जि भणिउ तेण ।
वहुवरु पइद्दु पुरि बद्धणेहु ।
घयछत्तावलिहिं पिहिज्जमाणु । 5

18 १ B मंतहिं. २ A करदिण्णु. ३ S °संदाइयासु. ४ S °मिलियालबुंदु; BP °विंदु
५ ABPS उत्तुंगु. ६ B जंगम. ७ B दइय°. ८ B °सिचिउ; K °सिचिय. ९ B जक्खि. १० B
णिवडिज्जइ. ११ S जीय. १२ S जणवय. १३ B कहमि. १४ PS सयलजणरंजणु. १५ A णाय-
पुराहिवइ. १६ APS पिउ.

19 १ BP °संडु. २ BP मिक्कंडु. ३ B घेतु. ४ B मिक्कंडुए. ५ S मक्कंड. ६ AB ता
पवरसंधुरा°. ७ S ण्हाविज्जमाणु.

18 2 b °संछाइयासु प्रच्छादितमुखः. 5 a दइवसंचोइएण पुण्यसंचोदितेन. 8 b
चिरभवसंचिउं पूर्वोपार्जितं पुण्यम्. 9 b तिणयणेण शंकरेण पार्वतीकान्तेन. 10 a दुग्गाइ
पार्वत्या; रेवईए नर्मदया. 11 b महन्तपहिं सामन्तैः. 14 पिय पिता.

19 3 b मक्कंडु मार्कण्डः. 4 b वहुवरु विद्युन्मालासिंहकेत्तु.

चलचामरेहिं विज्जिज्जमाणु
 तडिमालापियकंतासहाइ
 संताणि तासु जाया आणिंद
 जणसंबोहणउवणियसिवेहिं
 पुणु देसि कुसत्थइ हुउ अदीणु
 कुंलि तासु वि जायउ सूरवीरु

थिउ दीहु कालु सिरि भुंजमाणु ।
 काले कवलिइ मकंडराइ ।
 हरिगिरि हिमगिरि वसुगिरि णरिंद ।
 अवर वि बहु गणिय गणाहिवेहिं ।
 सउरीपुरि राणउ सूरसेणु । 10
 धारिणिसुकंतमाणियसरीरु ।

घत्ता—भरंहंपसिद्धपहु थिरथोरबाहुंदुज्जयबल ॥

जाया ताहिं सुय वरपुष्कर्यंततेउज्जल ॥ १९ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्कर्यंतविरहए
 महाभध्वरहाणुमणिय महाकव्वे गेमिजिणित्थयरत्तणिबंधणं
 णाम एक्कासीतिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८१ ॥

८ A कुसित्थए. ९ AP सुउ तासु. १० B भरहि. ११ S °बाह°. १२ P °पुष्पदंत°. १३ A
 °त्तित्थयरत्तामबंधणं; B °त्तित्थयरत्तणामणियबंधणं.

8 b हरि गिरि इत्यादि हरिगिरेः पुत्रो हिमगिरिः; तस्य पुत्रो वसुगिरिः. 11 a सूरवीरु.सूरवीरराजः
 द्वे भार्ये, धारिणी सुकान्ता च, धारिण्याः पुत्रः अन्धकवृष्णिः, सुकान्ताया नस्मतिवृष्णिः.

सइहि णीलधम्मेल्लउ अंधकविट्ठि पँहिल्लहि ।
णंदणु गयवयणिज्जउ णरवँइविट्ठि दुईज्जहि ॥ धुवकं

1

थणजुयलघुलियचलहारमणि
गुणि सुयणसिरोमणि परिगणित
बीयउ णं पुण्णपुंजैरइउ
हिमवंतु विजउ अचल्लु वि तणउ
लहुयँउ वसुएउ विसालमइ
पुणु मइ कुंयरि कुवल्यणयणं
णियगोत्तमणोरहगाराहु
बीयहु सुंमही सरंमहुरसर
तुरियहु सुसीमं पंचमहु पिय
अवरहु वि पहावइ णित्तमहु
अट्टमयहु सुप्पह सुहँवरिय

घत्ता—णरवइविट्ठिहि गेहिणि
जणि भल्लारी भावइ

जेड्डहु सुभइ णामें रमणि ।
सुउ ताइ समुहविजउ जणिउ ।
अक्खोहु तिमिर्यसायरु तइउ । 5
धारणु पूरणु अह्णिणंदणउ ।
उप्पण कौंति पुणु हंसगइ ।
मुणिहिं मि उक्कोइयमणमयणं ।
सिवएवि कंत पहिलाराहु ।
तइयस्स सयंपह कमलकर । 10
प्रियँवाय णाम पञ्चक्खँस्यैय ।
कालिंगी पणइणि सत्तमहु ।
णवमहु गुणसोमिणि संभरिय ।

विमलसीलजलवाहिणि ॥
पोमँवयण पोमावइ ॥ १ ॥ 15

तहि उग्गसेणु परसेणहरु
पुणु देवसेणु महसेणु हुउ

सुउ जायउ करिकरदीहकरु ।
साइसणिवासु णरँवंदथुउ ।

. 1 १ B अंधयविट्ठि. २ AP पहिल्लउ. ३ S णरवर°. ४ ABP दुइज्जउ. ५ ABPS पुण्णपुंजु. ६ A तिमिरसायरु. ७ B लहुओ. ८ B विलास°. ९ AP कुमरि; BS कुवरि. १० B णयणा. ११ B मयणा. १२ S सुअमही. १३ B सरु महुर°. १४ A सुसीय. १५ PS पियवाय. १६ ABP सिय. १७ B सुद्धचरिय. १८ A गुणभामिणि. १९ P पउमवयण.

2 १ AP णरविंद°.

1 1 पहिल्लहि प्रथमायाः धारिण्याः पुत्रोऽन्धकवृष्णिः. 2 गयवयणिज्जउ गतनिन्दः निन्दारहितः; दुइज्जहि द्वितीयायाः सुकान्ताया नरपतिवृष्णिः. 3 b जेड्डहु अन्धकवृष्णेः. 8 b उक्कोइयमणमयण उत्पादितमनोमदना. 10 a सरमहुरसर स्मरस्यापि मधुरस्वरा, अथवा, सत्तस्वरवन्मधुरस्वरा. 12 a अवरहु अचल्लस्य भार्या प्रभावती; णित्तमहु तमोरहितस्य, पापरहितस्य वा. 14 b वाहिणि नदी.

2 1 a परसेणहरु परसैन्यभञ्जकः.

पर्यङ्गं लहुर्यं ससं सोम्ममुहि
विष्णाणसमन्ति पयावैइहि
कुरुजंगलि हृत्थिणायणयारि
तहु देवि सुवक्कि सुंकोतलिय
हृयउ पारासरु तांहि सुउ
मच्छंउलरायसुय सच्चवइ
उंप्पणु वासु तांहि अलियकई

घत्ता—ताहि तेण उप्पणउ
लक्खणलक्खियकायउ

गंधारि णाम तूसवियसुहि ।
किं वण्णमि सुय पोमावैइहि ।
तहिं हृत्थिराउ ह्नुहधोयघरि ।
सिद्धा इव वरंवणुज्जलियं ।
हेवें णं सुरवरु सग्गचुउ ।
तहु विष्णी सुंदरि सुद्धे सर ।
तहु भज्ज सुभइ पसणमइ ।

सुउ धयरहु अदुणउ ॥ 10
पंडु विउरु पुणु जायउ ॥ २ ॥

3

ते तिण्णि वि भायर मणहरहु
तहिं पंडुकुमारें तिजगथुय
सउहयलि रंमंती सहिहिं संहुं
तां लद्धउं मइं णरजम्मफलु
परु वंचिवि तंबोलेण हउ
पक्कु वि खणु कण्ण ण वीसरइ
आणंदपर्णाच्चियवरंहिणहु
तहिं दिट्ठियं पंडुं पुंडरिय
विज्जाहरवरकरपरिगलिय
पडिआयउ तं जोयइं खयरु

बहुकाले गय सउरीपुरहु ।
अत्रलोइय अंधकविट्टिसुय ।
चितइ सुंदरि जइ होइ महुं ।
कोतिइ जोयंतु थिरच्छिदलु ।
सो स्रहउ पुलइयदेहु गउ ।
रिसि सिंद्धि व हियवइ संभरइ ।
अण्णहिं दिणि गउ णंदणवणहु ।
पीयलियहरियमोणियरफुरिय ।
तरुणेण लइय अंगुत्थलिय ।
किं जोयहि इय पुच्छंइ इयरु । 10

२ P एयहं. ३ B ससि. ४ B °वइहो. ५ B °वइहो. ६ A हत्थु राउ. ७ S दुहधोय°. ८ B सकोतलिया. ९ S पर°. १० B °वणुजलिया. १० B तासु. ११ S रूपं. १२ B अहजण्णुराय°. १३ A सुद्धमइ. १४ B उप्पण. १५ B तहो. १६ A ललियगइ.

3 १ ABP °कालहिं. २ A सवरीपुरहो. ३ B अंधय°. ४ PS रंमंति. ५ S सउ. ६ A सुंदरु; B सुंदर. ७ APS तो. ८ B °पणच्चिउ. ९ A °वरिहिणहो. १० APS दिट्ठी. ११ A पंडुर-पंडुरिय; B पंडु पुंडरिय; P पंडुं पंडुरिय. १२ AB मणि विष्फुरिय. १३ B जोयउ. १४ B पुच्छिइ.

3 a एयहं एतेषां त्रयाणाम्; सस भगिनी. 4 a पयावइहि विधातुः; b सुय पो मा वइहि गान्धारी. 6 a सुवक्कि सुवल्कीनाम्नी; b सिद्धा मातृकाः. 7 a पारासरु पराशरः. 8 a मच्छउलरायसुयं मत्स्यकुलराजपुत्री, न तु जात्या हीना धीवरपुत्री, किं तु उत्तमक्षत्रियमत्स्यकुलोत्पन्ना. 9 a वासु व्यासः; अलियकइ असत्यकविः. 10 b अदुणउ न दुर्नयः.

3 2 a तिजगथुय त्रिजगस्तुता; b अंधकविट्टिसुय कोन्ती (कुन्ती). 3 b चितइ पाण्डुश्चिन्तयति. 5 b पुलइयदेहु रोमाञ्चितः. 8 a पंडुं पाण्डुना; पुंडरिय पाण्डुरधर्मोपेता; b °मणियरं मणिकिरणाः.

अक्खिउ खगेण रयणहिं जडिउं
 चित्तिवि किं किज्जइ परवसुणा
 घत्ता—विहसिबि^{११} वासहु पुत्ते
 णेहिं खयर णियच्छिउ

इह मेरउं अंगुलीउं पडिउं ।
 तं दंसिउं तासु वाससिसुणा
 णिर्वेकुमारिहियचित्ते ॥
 तहु सामत्थु पपुच्छिउ ॥ ३ ॥

भो भणु भणु मुंइहि तणउ गुणु
 इच्छियउं रूउ खणि संभवइ
 अहंसणु होइ ण भंति क वि
 भो^{१०} णहयर पइ दिव्व सुमह
 को णासइ सज्जणजंपियउं
 गउ णहयर पइ^{१२} वि आइयउ
 सयणालइ सुत्ती कौंति जहिं
 परिमंइउं हत्थे थणजुयलु
 कण्णाइ विर्योणिउ पुरिसकरु
 तो देमि^{१३} तासु आलिगणउं
 भवणंति कवाहु गाहु पिहिउं
 सरलंगुलिभूसणु घल्लियउं
 दे देहि देवि महुं सुरयसुहुं
 मज्जायणिबंधणु अइकमिउं

घत्ता—ता वम्महसम^{१४}वउ
 णवमासहिं उप्पणणउ

तं णिसुणिवि खेरुं भणेइ पुणु ।
 वइरि वि पयपंकयाइं णवइ ।
 ता भासइ कुरुकुलगयणरवि ।
 अच्छउ महु करि कइवय दियइ ।
 तहु मुद्दारयणु समप्पियउं । 5
 अहंसणु णेय विवेइयउ ।
 सहस त्ति पइइउ तरुणु तहिं ।
 वियसांविउं धुत्ते मुहकमलु ।
 चित्तइ जइ आयउ पंडुं वरु ।
 अण्णहु णे वि अप्पमि अप्पणउं । 10
 गुज्झहरइ अप्पउं णउ रहिउ ।
 सुंवपं पयडंगे बोल्लियउं ।
 उल्लोवहि विरहहुयासदुहुं ।
 ता^{१५} देहिं मि तेहिं तेत्थु रमिउं ।

ताहि गग्भि संभूयउ ॥ 15
 कउ सयणहिं पच्छणणउ ॥ ४ ॥

.१५ B वियसेवि. १६ A नृवकुमारि^०.

.4 १ AP भो भो भणु. २ B मुइय. ३ AP सुणेवि. ४ AP खगेसर. ५ APS कहइ.
 ६ S रूवु. ७ AP हो. ८ A एवहिं. ९ A णेव; B णेइ. १० S परिमइउं. ११ S विहसाविउं.
 १२ AS वि जाणिउ. १३ S पंडवरु. १४ S देवि. १५ APS णउ. १६ B जुअए. १७ P ओह्हा-
 वहि. १८ S दोहं. १९ PS^०रूयउ.

12 a परवसुणा परद्रव्येण; b वाससिसुणा व्यासपुत्रेण पाण्डुना. 13 a वासहु पुत्ते पाण्डुना;
 b णिवकुमारिहियचित्ते कौन्या हृतचित्तेन. 14 a णेहिं स्नेहेन.

4 4 a सुमह सुतेजाः. 7 b तरुणु युवा पाण्डुः. 11 a भवणंति गृहमध्ये. 12 b पयडंगे
 प्रकटाक्षेन. 14 a मजायणिबंधणु लममर्योदानिर्वन्धः. 15 b संभूयउ कर्णनामा पुत्रो जातः.

5

कुंडलजुयलउं कंचणकवउ
 णिविडहि मंजूसहि घल्लियउ
 चंपापुरि पावसावरहिउ
 सुत्तउ अवलोइउ कण्णकरु
 सुउ पडिवण्णउ संमाणियहि
 णं पोरिसपिंडउ णिम्मविउ
 णं चायदुवंकुरु णीसरिउ
 वड्ढइ सुंदरु वड्ढियफुरणु
 एत्तहि णरणाहें सिरु धुणिवि
 सौ कौंति मदि बेण्णि वि जंणिउ
 दइयहु आलिंगणु देंतियइ
 सुउ जणिउ जुहिट्टिलु भीमु णरु
 महीइ णउलु सयणुंद्धरणु
 घत्ता—तिहुंविण लद्धपइड्डहु
 दिण्णी पालियरड्डहु

पत्तें सहुं बालउ दिव्ववउ ।
 कालिदिपवाहि पमेल्लियउ ।
 आइच्चें राएं संगहिउ ।
 कण्णु जि हक्कारिउ सो कुंयहें ।
 तें दिण्णउ राहहि राणियहि ।
 णं एकहिं साहसोहु थविउ ।
 धरणिइ विहलुद्धरणु व धरिउ ।
 णावइ बीयउ दससयकिरणु ।
 धुत्तत्तणु जामायहु मुणिवि ।
 परिणाविउ पंडु पीणर्थेणु । 10
 कौंतीइ तीइ कीलंतियइ ।
 णग्गोहरोहपारोहकरु ।
 अण्णु वि सहएवु दीणसरणु ।
 णरवइविट्टें इड्डहु ॥
 गंधारि वि धयरड्डहु ॥ ५ ॥ 15

6

हुउ ताहि गग्भि कुलभूसणउ
 पुणु दुहरिसणु दुम्मरिसणउ
 सउ पुत्तहं एव ताइ जणिउं
 अण्णहिं दिणि सूरवीरु सिरिहि

दुज्जोहणु पुणु दूसासणउ ।
 पुणु अण्णु अण्णु ह्यउ तणउ ।
 जिणभासिउं सेणिय मइं गणिउं ।
 णिविण्णुं गंधमायणगिरिहि ।

5 १ B पत्तिहिं. २ A दित्तवउ. ३ Als. पावासव° against Mss. ४ S एएं. ५ AP कुमरु. ६ B तं. ७ APS °दुमंकुरु. ८ A धरणिविहलु°. ९ A सा. १० A जणीउ. ११ B पीण-
 त्यणीउ. १२ S कुलउद्धरणु; K records a *p*: कुल°. १३ A तिहुयण°; B तिहुवण°; P तिहुयणि.

6 १ P दुम्महु पुणु अण्णु ह्यउ. २ B णिविण्ण; S णिविण्ण.

5 1 *b* पत्तें सहुं पत्रेण लेखेन सह; दिव्ववउ दिव्यवपुः. 2 *a* णि वि ड हि निविडायाम्;
b कालिदि° यमुना. 3 *a* पावसावरहिउ पापश्रा (शा) परहितः; *b* आइच्चें राएं आदित्यनाम्ना
 राज्ञा. 4 *a* सुत्तउ सुत्तः; कण्णकरु कर्णोपरि दत्तहस्तः. 5 *b* राहहि राधानाम राज्ञाः. 6 *b* साहसो हु
 अद्भुतकर्मसमूहः. 7 *a* चायदुवंकुरु त्यागवृक्षस्य अङ्कुरः; *b* विहलुद्धरणु दुःखिजनोद्धरणः. 8 *b* दस-
 सयकिरणु सूर्यः. 9 *a* णरणाहें अन्धकवृष्णिना. 12 *a* णरु अर्जुनः; *b* णग्गोहरोहपारोह° वट-
 पादपाङ्कुरः.

6 4 *a* सूरवीरु अन्धकवृष्णिपिता; सिरिहि लक्ष्म्याः सकाशात्.

गड वंदिउ सुप्पट्टइअरुहुं
अर्पणु पीसंगु णिरंवरउ
णिसिदिवसपक्खमासेणं हय
ता सुप्पट्टइरिसिदिहि हरइ
तं दुहुं दूसहु साहुं सहिउं
उप्पणउं केवलु विमेलु किह
जायउं चउंविहु देवागमणु
पुच्छिउ परमेसरु परमपरु
उवसग्गहु कारणु काइं किर

घत्ता—जंबूदीवइ भारहि
आवणभवणणिरंतरि

सुयजमलहु महियलु देवि पिहुं । 5
जायउ मुणि कयमणसंवरउ ।
वारह संवच्छर जाम गय ।
उवसग्गु सुदंसणु सुरु करइ ।
आऊरिउं ज्ञाणु रोसरंहिउं ।
जाणिउं तेल्लोक्कु झड सि जिह । 10
तहिं अंधर्यंविट्ठिहि णंमिउ जिणु ।
णाणाविहजम्मणमरणहरु ।
ता जिणमुहाउ णीसरिय गिर ।

देसि^{१६} कलिगि सुहावहि ॥
दिण्णकामि कंचीपुरि ॥ ६ ॥ 15

7

तहिं दिणयरदत्त सुदत्त वणि
लंकाइहिं दीविहिं संवरेवि
लोहिट्ट ण सुक्कहु देंति पुणुं
तरु णिहणंतहिं रसवणिथेरहिं
ता जुज्झिंवि ते तिट्ठाइ हय
णारय हूया पुणु मेस वणि
गंगायडि गोउलि पुणु वसह
संमेयमहीहरि पुणु पमय
अग्भिट्ट दसणणहज्जारिउ

किं वण्णमि धणयसमाणधणि ।
अण्णण्ण पैसंडिभंडु भरिवि ।
भइयइ महिमज्झि धिवंति धणु ।
तं दिट्ठउं णिर्यउं जाम परहिं ।
अवरोरपरु भंतिइं हणिवि मय । 5
पंचसु पत्त पुणु भिंडिवि रणि ।
जुंज्जेण्णिणु पुणु संपत्तवह ।
तण्हाइ सिलौयलि सलिलरय ।
मुउ एक्कु एक्कु तहिं उव्वरिउ ।

३ BP सुप्पट्टइ; S सुप्पट्टिडु. ४ S अरिहु. ५ AB पहु. ६ B अप्पणु. ७ APS °मासेहिं. ८ A साहुहुं सहिउं. ९ P रोसहरिउं. १० S विमालु. ११ B आयउ. १२ ABP चउविहदेवा°; S बहुविहु. १३ AP अंधकविट्ठि; S °विट्ठे. १४ PS णविउ. १५ S जंबूदीवे. १६ S देस°.

7. १ P संवरेवि. २ ABPS अण्णणु. ३ B पसंडे. ४ A पुणु. ५ B वणियरेहिं; P वणिवरेहिं. ६ A णिय उज्जम परहिं; P णियउ जाम परहि. ७ A संतिए. ८ AP पुणु हूया. ९ S भिडवि. १० A जुज्जेण जि पुणु वि पवणण वह; B जुज्जेण जि पुणु वि पवणणवहि. ११ S सिलायल°.

5 b पिहु विस्तीर्णम्. 8 b सुदंसणु सुदत्तवणिकवरः. 9 a साहुं साधुना. 15 a आवण° हट्टः.

7 1 b धणयसमाणधणि कुबेरसदृशधनवन्ती. 2 a दीवि हिं द्वीपेयु; b पसंडि भंडु सुवर्ण-
भाण्डम्. 3 a सुक्कहु शुल्कस्य; पणु भागः; b भइयइ भयेन. 4 b तं धनम्; णियउं नीतम्. 5 a
तिट्ठाइ तृणया. 7 b संपत्तवह प्राप्तवधौ. 8 a पमय वानरी. 9 b एक्कु सुदत्तवरः; एक्कु विनकर-
दत्तवरः.

ईसीसि जाम णीससइ कइ
 चारण जियमण तेलोकगुरु
 काहियाइं तेहिं दुक्कियहरइं
 घत्ता—सिवगइकामिणिकंतहु
 मुउ वाणरु धैंउ लेप्पिणु

संपत्ता ता तहिं बेण्णि जइ 10
 ते णामें सुरगुरु देवगुरु ।
 करुणेण पंच परमक्खरइं ।
 धम्म सुणिवि अँरहंतहु ॥
 जिणवरु सरणु भणेप्पिणु ॥ ७

8

सोहम्मसग्गि सोहग्गजुउ
 कालें जंतें पत्थु जि भरहि
 पोयणपुरि सुत्थियपत्थिवहु
 सिसु जायउ गम्भि सुलक्खणहि
 पाउसि गउ कत्थइ कालेंगिरि
 हा मइं मि आसि इय जुज्झियउं
 आसंघिउ सूरि सुधम्म सइं
 इयरु वि संसारइ संसरिवि
 सिंधूतीरइ घणवणगुँहिलि
 तावासिहि विसालहि हरगणहु
 पंचगिताँवतवधंसणउ
 हउं सूरदत्तु विरु वाणियउ
 उवसग्गु करइ णियकम्मवसु
 संसारि ण को मोहेण जिउ
 घत्ता—तं णिसुणिवि पणवेप्पिणु
 अंधकंविट्ठि जिणवरु

चित्तंगउ णामें अमरु हुउ ।
 देसम्मि सुरम्मइ सुहणिवहि ।
 तिक्खासिपरज्जियपरणिवहु ।
 सुपइहु णामु सुवियक्खणहि ।
 तहिं दिट्ठा बेण्णि भिडंत हरि । 5
 कइदंसाणि णियभउ बुज्झियउ ।
 इय पइउं जिणतवु चिण्णु मइं ।
 पुणुँ आयउ बहुदुक्खइं सडिहि ।
 णवकुसुमरेणुपरिमलबँहलि ।
 तवसिहि सिसु हुउ मृगायणहु । 10
 हुउ जोइसदेउ सुदंसणउ ।
 इहु सो सुदत्तु मइं जाणियउ ।
 ण मुणइ परमागमणाणरसु ।
 तं सुणिवि सुदंसणु धम्मि थिय ।
 सिरि करजुयल्लु थवेप्पिणु ॥ 15
 पुच्छिउ णिँयमवंतरु ॥ ८ ॥

१२ S अरिहंतहो. १३ AP वउ.

8 १ B सुत्थियउ. २ B कालिगिरि. ३ APS बहुवारउ उप्पज्जिवि मरिवि; but K adds
 a p: बहुवारउ उप्पज्जिवि मरिवि इति ताडपत्रे in second hand. ४ B ०गुहलि. ५ S ०बहुले.
 ६ B मिगयणहो; P मिगायणहो. ७ AP ०तावतणुधंसणउ. ८ B तं णिसुणेप्पिणु सिरि. ९ AP
 ०विट्ठिहि. १० B णियइ.

10 a कइ कपिः. 14 a वाणरु दिनकरदत्तचरः.

8 1 a सोहग्गजुउ सौभाग्ययुक्तः. 4 a सुलक्खण हि सुलक्षणानाम्याः. 5 a पाउसि वर्षा-
 काले; b हरि वानरौ. 6 b कइदंसणि कपिदर्शने. 8 a इयरु इतरः सुदत्तचरः. 9 a ०गुहिलि गह्वरे
 सघने. 10 a हरगणहु रुद्रगणस्य; b मृगायणहु मृगायननाम्नः. 12 a हउं सुप्रतिष्ठः. 15 b सिरि
 मस्तके.

9

जिणु कहइ एत्थु भारहवारिसि
णरवइ अणंतवीरिउ वसइ
तेत्थु जि सुरिंददत्तउ वणिउ
अरहंतदेवपविरइयमह
अट्टमिहि वीस चालीस पुणु
अट्टउणउं पव्वि पव्वि सुयंइ
तें जंतें सायरपारपरु
भो रुइदत्त सुइ करहि मणु
पुज्जिज्जसु जिणवरु एण तुहुं
इय भासिवि णिग्गउ सेट्ठि किह
घत्ता—विरइयकित्तिमवेसइ
वह्णियजोव्वणदप्पें

कोसलपुरि पउरजणियहरिसि ।
जसु जासु चंदजोण्ह वि हसइ ।
गुणवंतु संतु भल्लउ भणिउ ।
अणवरउ देइ दीणार दह ।
अमैवासहि मणकवडेण विणु । 5
दविणें जिणु पुज्जइ मल्लु धुयंइ ।
घरि अच्छिउ पुच्छिउ विष्णु वरु ।
लइ बारहसंवच्छेरं धणु ।
हउं एमि जाम जाएवि सुहुं ।
बंभणमणभवणहु धम्मु जिह । 10
खद्धउं जूवइ वेसइ ॥
देवदव्वु खलविष्पें ॥ ९ ॥

10

पुणु पट्टणि रयणिहि संवरइ
अवलोइउ सेणें तलवरिण
पुणरवि मुक्कउ बंभणु भणिवि
तं णिसुणिवि णीरसु वज्जरिउं
गउ भिल्लपल्लि कालउ सवरु
आसाइयतरुणाणाहलहिं
तप्पुरव्वरगोमंडलु गहिउं

परधणुं सुवण्णइ अवहरइ ।
कुसुमालु धरिउ णिटुरकरिण ।
जइ पइसंहि तो पुरि सिरु लुणिवि ।
कुसुमालहु हियवउं थरहरिउं ।
तें सेविउ चावतिकंडधेरु ।
अण्णहिं दिणि आविवि णाहलहिं ।
धाँविउ पुरवरु सेणियसहिउं ।

9 १ P भरह°. २ B सुरिंदयत्तउ; PS सुरिंददत्तउ. ३ A मावासहे. ४ B मुवइ. ५ B धुवइ. ६ S °पारु परु. ७ AP पत्थिउ. ८ ABP विष्णवरु; S विपरु. ९ B रुइयत्त. १० B संवच्छरहिं. ११ APS जूएं.

10 १ S °धण्ण. A २ सेणें. ३ P पमुक्कु. ४ A पइसहि पुरि तो. ५ APS °तिकंडकरु. ६ BP °पुरवरु. ७ BP धाइउ. ८ B सेणें; P सेणिय°; S सेणय°.

— 9 1 a कोसलपुरि अयोध्यायाम्; पउर° पौराणाम्. 2 b जसु जासु यस्य यशः. 4 a °प-
विरइयमह °विरचितजिनपूजः. 6 a पव्वि पव्वि चतुर्दश्यां अशीतिदीनाराः. 8 a सुइ शुचि निर्लोभम्.
9 b एमि आगच्छामि. 11 b जूवइ द्यूतेन; वेसइ वेदयया.

10 1 a रयणि हिं रात्री. 2 b कुसुमालु चोरः. 4 a णीरसु कर्कशम्. 6 a आसाइय°
आस्वादितानि; b णाहलहिं मिल्लैः.

सो सोत्तिंयसवरु णिवाइयउ
 पुंणु जलि झसु पुणु पुणु पुंणु उरउ
 पुणु पक्खिंरउ पुणु कूरमइ
 पुणु भमिउ सत्तणरयंतरहिं
 पुणु पत्थु खेत्ति कुरुजंगलइ
 घत्ता—लोयहु मग्गंपउंजउ
 कविल्लुं सुणामे सोत्तिउ

णरयावणि मरिवि पराइयउ ।
 पुणु वग्घुं जाउ मारणाणिरउ ।
 पुणु सीहु विरेंलु रणेक्कंरइ । 10
 णाणाजोणिहिं तसथावरहिं ।
 करिवरपुरि परिहाजलवलइ ।
 जहिं णरणाहु धणंजउ ॥
 तहिं दइवें णिव्वत्तिउ ॥ १० ॥

11

तहु घणथणसिहरणिसुंभणिहि
 सो गोत्तमु णामे णीसिरिउं
 णीसेसु वि पलयहु गयउं कुलु
 मलपडलविल्लुं भुत्तविहुरु
 मसिकसणवणु जरवीरधरु
 जणणिंदिउ खप्परखंडकरु
 पुराडिंभहिं हम्मइ आरडइ
 दुग्गंउ दूहंउ दुग्गंधतणु
 ते पुरि पइसंतु सुद्धचरिउ

जायउ अणुराहहि बंभणिहि ।
 पब्भट्टजणिट्टपुण्णकिरिउ ।
 थिउ देहमेत्तु पाविट्टु खलु ।
 जूयासहाससंकुंलचिहुरु ।
 आहिंइइ घरि घरि देहिसरु ।
 महिवालु व चल्लइ दंडधरु ।
 भुक्खाइ भमियल्लोयणु पडइ ।
 रसवसलोहियपवहंतवणु ।
 दिट्टउ समुहसेणारिउ ।

१ B सोत्तिउ. १० AP पुणु जलणिहि झसु पुणरवि उरउ. ११ B हुउ; S omits पुणु. १२ AT वग्घु हरिणमारण°; BP वग्घु जीवमारण°; S वग्घु जीउ मारण°. १३ B पंखिराउ. १४ APS वियालु. १५ AP रणेक्कमइ. १६ PS मग्गु. १७ A कविसलु णामे.

11 १ AP हुउ सुउ अणु°. २ B णीसियरिउ; PS णीसरिउ; K णीसियरिउ but strikes off य; Als णीसरिउ on the strength of गुणभद्र who has निःश्रीकः. ३ B पब्भट्टु. ४ B °पुण्णुकिरिउ. ५ B °वल्लित्तु. ६ BP भुत्तु विहुरु. ७ B °संकुलियसिरु. ८ S जरवीर°. ९ P °भोयणु; S °लोयण. १० PS दोग्गउ. ११ S दूहवु. १२ PS °सेणाइरिउ.

8 a णि वा इ यउ निपातितः; b णरयावणि सप्तमनरके. 9 a पुणु पुणु द्विवारं सर्पः. 10 a पक्खिराउ गरुडः; b विरालु मार्जारः. 12 b करिवरपुरि हस्तिनागपुरे. 13 a लोयहु मग्गपउंजउ लोकस्य न्यायमार्गे प्रवर्तकः.

11 1 a °णि सुं भणि हि नि सुं भनं स्तनयोः यस्याः, पुत्रे जाते सति स्तनस्याधः पतनं भवतीति भावः. 2 a णी सिरि उ निःस्वः निर्धनः श्रीरहितः अशोभनो दरिद्रो वा; b पब्भट्टजणिट्टपुण्णकिरिउ पुण्यक्रियारहितः. 3 a णीसेसु सर्वम्; b देहमेत्तु एकाक्येव. 4 a भुत्तविहुरु भुक्तदुःखः; b जूयासहासं यूकासहसेण; °संकुलचिहुरु भृतकेशः. 5 b देहिसरु देहि इति शब्दं कुर्वन्. 6 a जणिं दिउ लोकनिन्द्यः. 9 a ते गौतमेन.

तद्दु मग्गेण जि सो चलियउ

घत्ता—पर्यौडियपासुलियालउ
वैणिवरणारिहिं विद्वउ

जाणिवि सुहकम्मं पेह्लियउ ॥ 10

दुहंसणु वियरालउ ॥
णं दुक्कालु पइद्वउ ॥ ११ ॥

12

पडिगांहिउ रिसि वइसवणघरि
मुणिचट्टु भैणिवि हक्कारियउभोयणु आकंडु तेण गसिउं
गउ गुरुपंथेण जि गुरुभवणु
तुहं पेसणेण अहणिसु गममि
गुरुणा तद्दु कम्मु णिरिक्खियउं
काले जंतै समभावि थिउ
मज्झिमगेवज्जहि तासु गुरु
सो तैहिं मरेवि अहमिदु हुउ
इहं जायउ अंधकविट्ठि तुहुंघत्ता—अणुहुंजियबहुकम्मइं
पुणु तणुरुहहं भवावलिआहारु दिण्णु सुविसुद्धु करि ।
रंकु वि तेत्थु जि वइसारियउ ।णियचित्ति रिसिउ जि अहिलसिउं ।
सो भासइ पेट्टालग्गहणु ।
तुहुं जिह तिह हउं णग्गउ भममि । 5
दिण्णउं वउं सत्थु वि सिक्खियउं ।
हुउ सो सिरिगोत्तंमु लोयपिउ ।
उवारिल्लविमाणइ जाउ सुरु ।
अट्टावीसहिं सायरहिं चुउ ।
दिउ रुहवत्तु अणुहविवि दुहुं । 10आयणिवि णियजम्मइं ॥
पुच्छिउ रापं केवलि ॥ १२ ॥

13

जणसवणसुहुं जणइ
इह भरहवरिसंमिमि
भदिलपुरे राउ
णीरुयंसरीरस्स
णं अच्छरा का वि
पायडियगुरुविणउता जिणवरो भणइ ।
वरमलयदेसमिमि ।
मेहरहु विक्खाउ ।
रायाणिया तस्स ।
भहा मँहादेवि । 5
दढेसंदणो तणउ ।१३ B पायडिय^०. १४ B वणे.

12 १ PS पडिलाहिउ. २ B भण्णिउ. ३ P तुहु. ४ AP रिसि गोत्तमु. ५ APS तहिं जि मरेवि. ६ P इय.

13 १ AP जं सवण^०. २ S^०वरसमिमि. ३ P णिरुवमसरीरस्स. ४ AP महाएवि. ५ AS दढेसणो.11 a^०पासुलियालउ पार्श्वस्थियुक्तः.12 1 a पडिगाहिउ स्थापितः. 2 a^०चट्टु छात्रः. 4 b पेट्टालग्गहणु जठरे लम्बचिबुकः, प्रचुरभक्षणान्त उन्नतोदर इति भावः. 6 a गुरुणा इत्यादि सागरसेनेन गौतमस्य भाग्यं निरीक्षितम्.13 1 a^०सवणसुहुं जणइ कर्णानां सुखमुत्पादयति. 4 a णीरुयं नीरोगम्.

अरविंददलणेत्तु
 णंदर्यस तद्दु धरिणि
 धणवेउ धणपालु
 सुउ देवपालंकु
 पुणु अरुहदत्तो वि
 दिणर्थत्तु पियमित्तु
 धम्मरुइ जुत्तेहिं
 णं णवपयत्थेहिं
 परमागमो सहइ
 पियदंसणा पुत्ति

घत्ता—णाणातरुसंताणहु

सेट्टि वि पुत्तकलत्तहिं

वणिवरु वि धणयत्तु ।
 णयणेहिं जियहरिणि ।
 अण्णेक्कु दिणपौलु ।
 जिणधम्मि णीसंकु ।
 सिस्तु अरुहदासो वि ।
 संपुण्णससिर्वत्तु ।
 वैणि णवहिं पुत्तेहिं ।
 पसरंतगंथेहिं ।
 रुहिं परं षहइ ।
 जेट्टा वि गुंणजुत्ति ।

10

15

गउ महिवइ उज्जाणहु ॥

सहुं कयभत्तिपयत्तहिं ॥ १३ ॥

14

तहिं वंदिवि मुणि मंदिरथंविह
 दढरहहु समण्णिवि धरणियलु
 मेहरहें संजमु पालियउ
 वणि जायउ रिसि सहुं णंदणहिं
 मयकामकोहविद्धंसणहि
 णंदर्यस सुणिव्वेणं लइय
 कंकल्लिकयलिकंकोलिंघणि
 गुरु मंदिरंथंविह समेहरहु
 गय तिण्णि वि सासयसिवपयहु
 ते सिद्धा सिद्धसिलायलइ

घत्ता—थिय अणंसणि विणयायर

सहुं जणंणिइ सहुं बहिणिहिं

णिसुणेवि अहिंसाधम्मु विह ।
 हियउल्लउं सुद्धु करिवि विमलु ।

अरि मित्तु वि सरिसु णिहालियउ ।

मैणि मण्णिय समतिणंक्चणहिं ।

खंतिहहि समीवि सुणंदणहि । 5

पियदंसण जेट्ट वि पावइय ।

सुपियंगुंसंडि मृगंचंडवणि ।

धंणयत्तु वि णासियमोहगहु ।

मुक्का जरमरणरोयभयहुं ।

धणदेवाइ वि तेत्थु जि णिलइ । 10

महिणिहित्तणु भायर ।

जोइयजिणगुणकुर्हंणिहिं ॥ १४ ॥

६ APS णंदजस. ७ B जिणपालु. ८ B जिणयत्तु. ९ B °सच्चिवत्तु. १० S वणि वणहिं. ११ PS गुणगुत्ति.

14 १ P °पविरु. २ AP करेवि सुद्धु विमलु. ३ ABS मणमण्णिय°. ४ ABP °तण°; S °तिणु. ५ A णंदयसि. ६ B पियदंसणि. ७ B किकिल्लि°. ८ A °कक्कोल°; P °कंकोल्ल°; S °कक्कोलि°. ९ B °खंडि. १० ΔP मिगचंद°; B °चंदु. ११ BP मंदिरु. १२ APS धणदत्तु; B धणयत्त. १३ B °भरहो. १४ B अणसणेण. १५ P जणणिहे. १६ APS °कुहिणिहिं.

14 b °गंथे हिं शास्त्रैः धनैश्च.

14 4 a णंदण हिं नवभिः पुत्रैः सह. 11 a अणसणि संन्यासे; विणयायर विनयस्य आकराः 12 b °कुहणि हिं °मार्गैः.

15

णियदेहसमुभ्रवणेहवस
जह अत्थि किं पि फलु रिसिहिं तवि
पयउ धीयउ महुं होंतु तिह
कइवयदियहहिं सँवइं मयइं
सायंकरि सुरहरि अच्छियइं
तहिं वीससमुइइं भुत्तु सुहुं
हूँईं णंदयस सुहँइ तुह
धणदेवपमुह जे पीणभुय
घत्ता—पियदंसण सहुं जेइइ
पुत्ति कोंति सा जाणहि

संणांसाणि चितइ णंदजस ।
ए तणुरुह तो आगामिभवि ।
विच्छोउ ण पुणरवि होइ जिह ।
तेरइमउ समैगु णवर गयइं ।
सुरवैरकोडीहिं सँमिच्छियइं । 5
णिवडंतहुं ओहुल्लियंउं मुहुं ।
गेहिणि परियाणहि चंदमुह ।
इह ते समुइविजयाइ सुय ।
किस हूँई तवणिइइ ॥
अंवर महि अहिणाणहि ॥ १५ ॥ 10

16

पहु पुच्छइ वसुदेवायरणु
बहुगोहणसेवियणिविडवहु
तहिं सोमैसम्मु णामेण दिउ
तें देवसम्मु णियमाउलउ
सत्तं वि धीयउ दिणणउ परहं
णोंदिं दिट्टउ णच्चंतु णडु
अण्णाणिउ वसु हँवंतु हिरिहि
गुरुसिहरारूढउ तसियमणु
तलि आसीणा अच्चंतगुणि
परछायामग्गु णियच्छियउ

जिणु अक्खइ णाणि जित्तकरणु ।
कुरुदेसि पलासंगाउं पयहु ।
हुउ णंदि तालु सुउ पाणापिउ ।
सेविउ विवाहकरणाउलउ ।
धणकणगुणवंतहं दियवरहं । 5
भडसंकडि णिवडिउ विबलु बहूँ ।
जणपहसाणि गउ लज्जिवि गिरिहि ।
आंवेवि जाइ णउ धिवइ तणु ।
तहिं संखणाम णिण्णाम मुणि ।
दुमसेणुं तेहिं आउच्छियउ । 10

15 १ A अण्णाणि णियच्छइ णंद°; P अण्णाणिणि पत्थइ णंद°. २ A भवइं. ३ S सग्ग.
४ PS °कोडिहिं. ५ P सम्मच्छियइं. ६ P ओहुल्लियउं. ७ S हुइ. ८ P मुभइ.

16 A सेवियणिवडवहु; B °णिवडवडो; P °वियडवडे. २ B °गाम. ३ S सोम्मसम्मु.
४ B सत्त वि जि धीउ. ५ P णंदे; S णंदि. ६ A बलु. ७ P भवंतु. ८ B °पहसिणि; P °पहसणे.
९ PS आवेइ. १० B °सेणु जि तहिं.

15 1 a णियदेहसमुभ्रवणेहवस स्वपुत्रस्नेहवशा; b संणासणि संन्यासयुक्ता. 5 a
सायंकरि सुरहरि शातंकरविमाने. 6 b ओहुल्लियउं म्लानं जातम्; b गेहिणि तव अन्यकवृष्णः गेहिनी.

16 1 a °आयरणु पूर्वजन्मचरितम्; b जित्तकरणु जितेन्द्रियः. २ b पयहु प्रकटः प्रसिद्धः.
6 b भडसंकडि प्रेक्षकजनसंमर्दे; विबलु बडु गतसामर्थ्यः बटुः. 7 a वसु हवंतु वश्यो भवन्.
8 a तस्मिं यमणु भृगुपातकरणे भीतमनाः.

गुरु अर्धेखहि कार्यंछाय णरहु
घत्ता—ता णियणाणु पयासइ
होतउ सम्भउं दीसइ

कहु तणिय एह आइय धरहु ।
ताहं भडारउ भासइ ॥
जो तुम्हहं पिउ होसइ ॥ १६ ॥

17

तइयम्मि जम्मि आलद्धदिही
जो तुम्हहं जणणु सीरिहरिहिं
तहु तणुछाहुल्लिय ओयरियै
जहिं सो अप्पाणउं किर घिवइ
उव्वेहँउ दीसँहि काइं णिरु
तं णिसुँणिवि पणइणिदुक्खियउ
महुं मामहु धूर्यउ जेतियउ
हउं दूहँवु णिज्जणु बलरहिउ
णिइइवँ णिरुज्जमु किं करमि
घत्ता—मुणि पभणइ किं चितहि
भो जिणवरतवु किज्जइ

वसुदेउ णाम राणउ हविही ।
भुयबलतोलियपडिबलकरिहिं ।
ता बे वि तहिं जि रिसि संचरिय ।
अणुकंपइ संखु साहु चवइ ।
किं चितहिं णिसुणहि किं बहिरु । 5
पडिलवइ कुकम्मँवलक्खियउ ।
लोगहं पविइण्णउ तेत्तियउ ।
किं जीवमि परणिंदइ गहिउ ।
इह णिवडिंवि वर तणु संघरँमि ।
अप्पउं महिहरि घत्तँहि ॥ 10
दुरिउं दिसाबलि दिज्जइ ॥ १७ ॥

18

लब्भइ सयलु वि द्वियइच्छियउं
मग्गिज्जइ णिक्कलु परमसुहुं
तं णिसुणिवि तेण वि तवचरणु
उप्पण्णु सुक्कि णिरसियविसउ

पर तं मुणिवरहिं दुगुंछियउं ।
जहिं कहिं मि ण दीसइ देहदुहुं
किउं कामकसायरायहरणु ।
सोलहसायरबद्धाउसउ ।

११ B अक्खइ. १२ S कायच्छाह°.

17 १ S आलद्धि. २ S तुम्हहं. ३ S उयरिय. ४ A उव्वेयउ. ५ A दीसइ; S दीसहे.
६ B णिसुणइ. ७ B कुकम्मवलक्खियउ. ८ B धूरुउ. ९ B वडिबण्णउ; P पडिबण्णउ. १० B
दोहवु; P दूहउ. ११ B णिज्जउ; P णिइइउ. १२ S संघरमि. १३ B घितहि; P घेतहि.

18 १ S जै.

11 b धरहु; पर्वतात्.

17 1 b हविही भविष्यति. 2 a सीरिहरिहिं बलभद्रकृष्णयोः; b °करिहिं गजैः.
3 b संचरिय संचलितौ गतौ. 6 a पणइणिदुक्खियउ स्त्रीलाभं विना दुःखितः; b कुकम्मवल-
क्खियउ उपलक्षितं ज्ञातं निजपापकर्म. 7 b पविइण्णउ दत्ता इत्यर्थः. 8 a णिइइवु अपुण्यः.

18 1 b तं निदानम्. 4 a णिरसियविसउ निरस्तविषयः.

कालें जंतें तेत्थहु पडिउ
 णं तरुणिणयणमणरमणघरु
 णं कामबाणु णं पेम्मरसु
 वसुपवु एहु सहसु सुहड
 तो^१ अंधकविट्ठि वंसघउ
 सुपइट्ठुं भडारउ गुरु भणिवि
 उवसग्ग परीसह बहु सहिवि

घत्ता—भरहरायदिहिगारउ
 गउ मोक्खहु मुक्किदिउ

णररुवें णं वम्महु घडिउ । 5
 णं गेहु कयदुम्महविरहजरु ।
 णं पुरिसरुवि थिउ मयणजसु ।
 सुउ तुह जायउ हयहत्थिहँड ।
 णिर्यवइ णिहियउ समुहविजउ ।
 मोहंघिवमूलइं णिल्लुणिवि । 10
 तवु करिवि घोरु दुरियइं महिवि ।

अंधकविट्ठि भडारउ ॥
 पुष्फयंतसुरवंदिउ ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे वसुपंउप्पत्ती अंधकविट्ठि-
 णिव्वाणगमणं णाम दुवासीमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८२ ॥

२ A णारिहु. ३ AP कयदुम्महु. ४ A °हत्थिघडु. ५ A ता. ६ ABP णियपइ. ७ B सुपइट्ठ. ८ B पुष्फयंतु; Kपुष्फयंत; S पुष्फयंत. ९ AB समुहविजयादिउप्पत्ती. १० AS दुयासीतिमो; P दुयासीमो.

5 a तेत्थहु शुक्रस्वर्गात्. 6 b गहु स्त्रीणां चित्तपीडने ग्रहः शनिः राहुर्वा. 7 b मयणजसु कामस्य यशः 9 b णियवइ निजपदे. 10 b मोहंघिवमूलइं मोहवृक्षस्य मूलानि. 12 a भरहरायदिहिगारउ भरतक्षेत्राशां धृतिकारकः, संतोषकारकः.

सहुं भायरहिं समिद्धु णायणाय णिहालइ ॥
पहु समुहविजयंकु महिमंडलु परिपालइ ॥ भुवकं

1

एकहिं दिणि आरूढउ करिवरि
असहसणयणु णाँइ कुलिसाउहु
णं अखारु सलवणु रयणायरु
अमलदेहु णावइ उग्गउ इणु
चामरछत्तविर्धसिरिसौहिउं
सो वसुणउ कुमारु पुरंतरि
सो ण पुरिसु जें दिट्ठि ण ढोइय
मणुउ देउ सो कासु ण भावइ

णावइ ससहरु उइउ महीहरि।
अकुसुमसरु णं सइं कुसुमाउहु।
अकवडणिलउ णाँइ दामोयरु। 5
जगसंखोहकारि णावइ जिणु।
विविहाहरणविसेसपसाहिउ।
हिंडइ हट्टमग्गि घरि चच्चरि।
सा ण दिट्ठि जा तहु णं पराइय।
संचरंतु तरुणीयणु तावइ। 10

यत्ता—का वि कुमारु णियंति रोमि रोमि पुलइज्जइ ॥

अलहंती तहु विचु पुणरवि तिलु तिलु खिज्जइ ॥ १ ॥

पासेइज्जइ का वि णियंबिणि
का वि तरुणि हरिसंसुय मेल्लइ
सूहवगुणकुसुमहिं मणु वासिउं
णेहवसेण पडिउं चेलंचलु
काहि वि केसभारु चुउं बंधणु
खलियक्खरइं का वि दर जंपइ

थिप्पइ णं अहिणवकालंबिणि।
काहि वि वम्महु वम्मइं सल्लइ।
काहि वि मुहुं णीसासें सोसिउं।
काहि वि पायडु थक्कु थणत्थलु।
काहि वि कडियल्लहसिउं पयंधणु। 5
पियविओयजरवेणं कंपइ।

1 १ S आरूउ. २ APS उययमही°. ३ A सहसणयणु णावइ. ४ B णामि. ५ B उग्गओ.
६ AP° विधु. ७ S सिर°. ८ S विविहाहरण°. ९ S वसुदेव. १० S omits ण.

2 १ S णियंबणि. २ S° कालंबिणि. ३ AP चुय°. ४ P पईधणु; ST पइंधणु.

1 3 b उइउ उदितः. 4 a असहसणयणु परं न सहसनेत्रः; कुलिसाउहु इन्द्रः. 5 a
रयणायरु समुद्रः; b अकवडणिलउ कपटरहितः. 6 a इणु सूर्यः. 7 b° पसाहिउ शृङ्गारितः.

2 1 a पासेइज्जइ प्रस्विद्यते; b थिप्पइ क्षरति; °कालंबिणि मेघमाला. 2 a हरिसंसुय हर्षा-
श्रूणि; वम्मइं मर्माणि. 4 b पायडु प्रकटम्. 5 a चुउ शिथिलो जातः; b पयंधणु परिधानम्;

चिक्रं वंति कं वि चरणहिं गुप्पइ
मयणुम्मायउं गयमज्जायउं
लोहलैज्जकुलभयरसंमुक्कउं
काहि वि वउ पेम्मेण किलिण्णउं

कवि पुरंधि णियदइयहु कुप्पइ ।
काहि वि हियउं णिरंकुसु जायउं ।
वरदेवरससुरयसुहिंमुक्कउं ।
बिउंणावेदु णियंबहु दिण्णउं । 10

घत्ता—क वि ईसालुयकंत दप्पणि तरुणु पँलोइवि
विरहहुयासँ दहु मुय अप्पाणउं सोइवि ॥ २

3

तेग्गयमण क वि मुहआलोयणि
कडियलि घरमज्जारु लपप्पिणु
काहि वि कंडंतिहि ण उदुहलि
काइ वि चट्टुयहत्यंइ जोइउ
चित्तुं लिहंति का वि तं झायइ
जां तहिं णच्चइ सा तहिं णच्चइ
जा बोलुइ सा तहु गुण वण्णइ
विहरंतिहिं इच्छिज्जइ मेलणु
णिसि सोवंतिहिं सिविणइ दीसइ
णरणाहहु कयसाहुज्जारं
देव देव भणु किं किर किज्जइ
मयणुम्मत्तउ पुरणारीयणु
णिसुणि भडारा दुकरु जीवइ

वीसरेवि सिसु सुण्णणिहेलणि ।
धाइय जणवइ हासु जणेप्पिणु ।
णिउंडिउ मुसलघाउ धरणीयलि ।
रंककंरंकइ पिंहु ण ढोइउ ।
पत्तछेइ तं चेय णिरुवइ । 5
जा गायइ सा तं सरि सुच्चंइ ।
णियभत्तारु ण काइं वि मण्णइ ।
भुंजंतिहिं पुणु तहु कह सालणु ।
इय वसुपँउ जांव पुरि विलसइ ।
ता पय गय सयल वि कूवारं । 10
विणु घरिणिहिं घरु कँव धरिज्जइ ।
वसुपँवहु उप्परि ढोइयमणु ।
जाउ जाउ पय कहिं मि पयावइ ।

५ A विक्रमंति; P चिक्रमंति. ६ P चरणहिं क वि. ७ ABP लोयलज्ज°. ८ B °रसभय°. ९ S °रसु.
१० P सुसुरय°. ११ A °सुहिदुक्कउं. १२ A वडणावेदु. १३ S पलोयवि.

3 १ P उग्गयणयण का वि मुहयालयणि. २ A सुहयालयणि. ३ BS कंडंतिहि. ४ B णिव-
डिय. ५ B चट्टुउ. ६ B रंकहं करण. ७ P चिन्दु. ८ A णिरुयइ. ९ P जहिं तहिं. १० A गायइ.
११ S वसुएवु. १२ BP वसुदेवहु.

7 a चिक्रं वंति गच्छन्ती. 9 a लोहलज्ज° लोभस्य रसः. 10 a वउ पेम्मेण किलिण्णउं वपुः शुक्रेणाद्रं
जातम्; b बिउणावेदु द्विगुणवेष्टनम्. 11 ईसालुयकंत ईर्ष्यायुक्तस्य भर्तुः कान्ता. 12 दहु दग्धा.

3 1 a मुहआलोयणि मुखालोकननिमित्तम्. 2 b जणवइ लोके. 3 a उदुहलि उलूखले.
4 a चट्टुयहत्यइ चट्टुकहस्तया; b रंककंरंकइ दरिद्रभिक्षुकस्य भाजने खर्परं. 5 a चित्तुलिहंति
चित्रं लिखन्ती कपोले; b पत्तछेइ पत्रच्छेदविषये तमेव पश्यति. 6 a जातहिं इत्यादि या तत्र नगरे
नृत्यति सा तस्याग्निं नृत्यति; b सरि सुच्चइ स्वरे स्वरमध्ये सूचयति. 8 a मेलणु मार्गमध्ये मेलापकः;
b तहुक्कइ सालणु भुज्जन्तीनां तस्य कथा एव व्यञ्जनम्. 10 b पय प्रजा; कूवारं पूत्कारेण.

घत्ता—ता पउरहं रापण पउरु पसाउ करोपिणु ॥
पत्थियउ रायकुमारु णेहं हेकारेपिणु ॥ ३ ॥

4

दिणयरु व्हइ धूलि तणु महलइ
किं अप्पाणउं अप्पणु दंडहि
करि वणकील विउंलणंदणवणि
मणिगणबद्धणिद्धधरणीयलि
सलिलकील करि कुवल्यवाविहि
जुवरापं पडिवणु णिरुत्तउं
पुणु णिउंणमइसहापं वुत्तउं
पुरेयणणारीयणु तुह रत्तउं
णायरलोपं तुहुं बंधाविउ
तासु धयणु तं तेण पेरिक्खिउं

बुद्धदिट्ठि ललियंगइं जालइ ।
बंधव तुहुं किं बाहिरि हिंडहि ।
सिंदुयकील करहि घरंप्रंगणि ।
रमणीकील करहि सत्तमयलि ।
तं णिसुणेवि वयणु कुलसामिहि । 5
गयकइवयदिर्यहेहिं अजुत्तउं ।
पहुणा णियलंणु तुज्झु णिउत्तउं ।
जोइंवि विहलंघल्लु णिवडंतउ ।
णरवइवयणु णिरोहणु पाविउ ।
णिवमंदिराणिग्गमणं जोक्खिउं । 10

घत्ता—ता पडिहारणरेहिं पइउं तासु समीरिउं ॥
घरणिग्गमणु हिपण तुम्हं रापं वारिउं ॥ ४ ॥

तओ सो सुहइसाओ वृढमाणो
घराओ पुराओ गओ कालिकाले
वसावीसढं देहिदेहावसाणं

ण केणावि दिट्ठो विणिग्गच्छमाणो ।
अचक्खुपपसे तमालालिणीले ।
पविट्ठो असाणं ससाणं मसाणं ।

१३ S ककारेपिणु.

4 १ APS डहइ. २ APS अप्पणु. ३ AP किं तुहुं. ४ S विउले. ५ B करिहि. ६ ABP
पंगणे. ७ S रमणीयकील. ८ S om. दिय°. ९ P णिगुणमइ°. १० K णियलु. ११ AP पुरवर-
णारी°. १२ S जोयवि. १३ S विहलंघल्लु वडंतउ. १४ B वयण. १५ AP णिरिक्खिउं.

5 १ B बुहुं; S वोढ°. २ BS विणिगच्छ°. ३ S अचक्खुपपसे. ४ S omits ससाणं.

14 पउरु प्रचुरम्.

4 1 b बुद्ध दिट्ठि डाकिनीप्रमुखानां दुष्टानां दृष्टिः. 4 a मणिगणबद्धं रत्नसमूहबद्धम्.
5 b कुलसामिहि राज्ञः. 6 a पडिवणु अङ्गीकृतम्. 7 a णिउणमइसहापं निपुणमतिमित्रेण;
b णियलणु निगलबन्धनम्. S b विहलंघल्लु विहलः. 10 b जोक्खिउं आकलितं, स्तम्भितम्.
12 हिपण हितेन.

5 1 a वूढमाणो उत्पन्नाहंकारः. 2 a कालिकाले रात्रिसमये; b अचक्खुपपसे अचक्षु-
विषयप्रदेशे. 3 a वीसढं बीभत्सम्; b असाणं अशब्दम्; ससाणं सकुक्कुरम्; मसाणं भ्रमशानम्.

कुमारेण तं तेण दिट्ठं रउहं
महासूलभिण्णंगकंदंतचोरं
विहंडंतवीरेसहुंकारफारं
णहुंङ्गीणभूलीणकीलार्डलूयं
नूंककालवीणासमालसंगेयं
कुल्लेभूयसिद्धंतमग्गावयारं
घणं णिग्घिघणं भासियंहेइयवायं

ललंतंतमालं सिवामुक्कसहं ।
वियंभंतमज्जारघोसेण घोरं । 5
पलिप्पंतसत्तधिभूमंधयारं ।
समुट्टंतणग्गुग्गवेयालरूयं ।
दिसाडाइणीदुग्गसज्जंतपेयं ।
दिजीडोंबिचंडालिपेयाहियारं ।
सया जोइणीचक्ककीलाणुरायं । 10

घत्ता—अकुलकुलहं संजोप कुल्लेसरु उव्वैलक्खियउं ॥

इय जहिं सीसहं तच्च कउंलायरिपं अक्खियउं ॥ ५ ॥

6

जोइउ तहिं वम्महसोहालें
तहु उप्परि आहरणइं घित्तंइं
लिहिवि मरणवत्ताइ विमुद्धउं
सुललिउ स्रुहउ सयणोणंदिरु
उग्गउ सूरु कुमारु ण दीसइ
कणयकोतपट्टिसकंपणकर
पुरि घरि घरि अवलोइउ उव्ववणि
पल्लाणियउ पट्टचमरंकिउ

डज्जंतउं मडउल्लुउं बालें ।
रयणकिरणविप्फुरियविचित्तइं ।
हरिगलकंदलि पत्तु णिबद्धउं ।
गउ अप्पणु सो कत्थइ सुंदरु ।
हा कहिं गउ कहिं गउ पट्टु भासइ । 5
रापं दसदिसु पेसिय किंकर ।
अवरहिं दिट्टुउ हयवरु पिउवणि ।
तं अवलोइवि भडयणु संकिउ ।

५ B °माला°. ६ S विहंडंत°. ७ A °ङ्गीणचूलीण. ८ B °उल्लवं; S °उलीयं. ९ A °रूवं. १० ABP णिकंकाल°. ११ B °गीयं. १२ B कुल्लुब्भूय°; Als. कुल्लुब्भूय° on the strength of gloss in B; कुलाचार्यप्रणीतसिद्धान्तमार्गावतारम्. १३ A दिजिप्पाविचंडालपीयाहियारं. १४ A भासियं दइयवायं. १५ A अकुल्ल. १६ P कुल्ल. १७ APS °लक्खियउं. १८ AP सीसहिं. १९ P कउलाहरियं; S कउलाहरियहिं. २० A रक्खियउ; PS अक्खियउ.

. 6 १ B घेत्तइं. २ PS °विप्फुरण°. ३ B °कंदल°. ४ AB णयणोणंदिरु. ५ AP कत्थइ सो. ६ P वणे वणे.

4 b ललंतंतमालं लम्बमानान्त्रमालम्; सिवा° शृगाली. 5 a °भिण्णं ग° भिन्नशरीरः; b वियंभंतं प्रसरन्. 6 a °वीरेसहुंकार° वीरेशमन्त्रसाधकम्. 7 a कुल्लुब्भूय° कौलिककथितः; b दिजी° ब्राह्मणस्त्री; °पेयाहियारं पेयं मद्यं तस्याधिकारः यस्मिन्. 10 a °अइइयवायं अद्वैतवादं “ सर्वे ब्रह्ममयं जगत् ”. अकुल्लेत्यादि कुं पृथिवीं लाति कार्येणादत्ते इति कुलं पृथिवीद्रव्यम्, अकुल्लं अस्तेजोवायुद्रव्यत्रयं तेषां संयोगे सति कुलं गर्भादिमरणपर्यन्तश्चैतन्यादयः शरीरं च; उवलक्खियउं प्रादुर्भूतं दृश्यम्. 12 सीसहं शिष्याणाम्.

6 1 a °सोहालें सुकोमलेन. 3 b हरिगलकंदलि अश्वकण्ठे. 6 a °कंपण° कटारी. 7 b पिउवणि इमशाने. 8 a पट्टचमरंकिउ मुख्याग्रे पट्टचमरयुक्तः; b संकिउ कुमारः कुत्र गत इति भीतः.

लेहु लपपिणु णाहहु घल्लिउ
 रायहु बाहाउण्णइं णयणइं
 णंदउ पय चिह विपियगारी
 णंदउ परिणु णंदउ णरवइ

तेण वि सो झड ति उव्वेल्लिउ ।
 विट्ठइं एयइं लिहियइं वयणइं । 10
 णंदउ सुहुं सिवपवि भडारी ।
 गउ वसुएवसामि सुरवैरगइ ।

घत्ता—ता पिउवैणि जाइवि सयणहिं जियविच्छोइंउं ॥ ११ ॥

देहु सभूसणु पेउ हाहाकारिवि जोइंउं ॥ ६ ॥

7

ते' णव बंधव सहं परिवारं
 सा सिवपवि रुयइ परमेसरि
 हा किं जीविउं तिणुं परिगणियउं
 हा पयाइ किं किउं पेसुण्णउं
 हा कुलधवलु केव्वं विद्धंसिउ
 हा पइं विणु सोहइ ण धरंगणु
 हा पइं विणु दुक्खे पुंइं रुण्णउं
 हा पइं विणु को हारु थणंतरि
 पइं विणु को जणदिट्ठिउ पीणइ
 हा पइं विणु को एवहिं सूहउ
 हा पइं विणु णियगोत्तससंकहु
 हा पइं विणु सुण्णउं हियउल्लउं
 छाररासि ह्यउ पविलोयउ
 पंजलीहिं मीणावल्लिमाणिउं

सोउ करंति दुक्खवित्थारं ।
 हा देवर परभडगयकेसरि ।
 कोमलंउ व हुयंवहि किं हुणियउं ।
 हा किं पुरि परिभमहुं ण दिण्णउं ।
 हाँ जयसिरिविलासु किं णिरसिउ । 5
 चंदविवज्जिउं णं गयणंगणु ।
 हा पइं विणु माणिमिणु सुण्णउं ।
 को कीलइ सरंहुसु व सरवरि ।
 कंतुयकील देव को जाणइ ।
 पइं अपेक्खिवि मयणु वि दूहउ । 10
 को भुयबलु समुहविजयंकहु ।
 को रक्खइ मेरउं कडउल्लउं ।
 पं वंधुवगं सो सोइंउं ।
 पंहाइवि सब्वहिं दिण्णउं पाणिउं ।

घत्ता—वरिससपण कुमारु मिलइ तुज्जु गुणसोहिउ ॥

15

णेमित्थियहिं णरिंतु पं व भणिवि संबोहिउ ॥ ७ ॥

७ APS एयइं दिट्ठइं. ८ S सहं. ९ S सुरवइगइ. १० P पिउवणु. ११ S विच्छोइयउ. १२ P दिहु; S दहु. १३ B जायउ; S जोइयउ.

7 १ A तेण वि बंधव. २ B रुवइ. ३ AS तणु. ४ PS कोमलंगु. ५ B हुववहे. ६ B केम; P केण. ७ P हा हा सिरि°. ८ B पर. ९ A कलहंसु. १० S आवेक्खिवि. ११ P हियउल्लउं सुल्लउं; S हियउल्लउं सुल्लउं. १२ A सो सोयउ; S संसोइउ. १३ S ण्हायवि.

10 a बा हाउण्णइं बाष्पपूर्णानि. 12 b सुरवरगइ दिवं गतः. 13 जियविच्छोइउं जीवरहितम्. 14 दहु दग्धम्; पेउ प्रेतं शवम्.

7 3 a तिणु तृणवत्; b ° वउ वपुः शरीरम्. 5 b णिरसिउ निरस्तः. 7 b पुरु नगरजनः. 12 b रक्खइ कडउल्लउं रक्षति कटकम्, शत्रुभञ्जनसमर्थत्वात् त्वमेव रक्षकः. 14 a मीणावल्लिणि उं मत्स्यैर्मुक्तं जलम्.

8

एसाहि सुंदर महि विहरंतउ
दिहउं पंदणु वणु तहिं केहउं
जहिं चरंति भीयर रयणीयर
सीयविरहि संकमइ णहंतर
णीलकंडु णञ्जइ रोमंचिउ
णउलें सो जिं गिरारिउं सेविउ
इय सोहइ उववणु णं भारहु
जहिं पाणिउं णीयत्तणि णिवडइ
तहिं असोयतलि सो आसीणउ
णं वणुं लयदलहत्थहिं विज्जइ
चलजलसीयरेहिं णं सिंचइ
साहावाहहिं णं आलिगइ
पहियपुण्णसामत्थें णव णव
पणविवि पालियपउरपियालें

विजयणयर सहसा संपत्तउ ।
महुं भावइ रामायणु जेहउं ।
चउदिसु उच्छलंति लक्खणसर ।
घोलिरपुच्छुं सरामउ वाणर ।
अज्जुणु जहिं दोणे संसिंचिउ । 5
भायर किं णउं कासु वि मर्थिउ ।
वेल्लीसँछण्णउं रविभारहु ।
जडहु अणंगइं को किर पयइइ ।
सूहउ दीहरपंथें रीणउ ।
पयलियमेहुयेंमहिं णं रंजइ । 10
णिवडियकुसुमोहें णं अंचइ ।
परिमलेण णं हियवइ लगइ ।
सुंक्कसुरुक्खहिं णिग्गय पल्लव
रैयहु वज्जरियउं वणवालें ।

घत्ता—जो जोइसियहिं वुत्तु जरतँवरकयछायउ ॥

15

सो पुत्तिहिं घरइत्तु णं अणंगु सइं आयेंउ ॥ ८ ॥

8 १ ABS णंदण°. २ A °पुंडु. ३ A दोणि. ४ P ज्जु. ५ AP ण वि. ६ APS भाविउ. ७ B विज्जिहिं. ८ P अण्णगइं. ९ P सोयासीणउ. १० A वणलय°. ११ BK °मुहयेंमहिं but gloss in K मकरन्दश्चोतैः. १२ AP सुक्खहं रुक्खहं; S सुक्खसुरुक्खहं. १३ B रायहं. १४ B तरुवर. १५ B आइउ.

8 3 a रयणीयर राक्षसा उल्लाश्च; b लक्खणसर लक्खणवाणाः सारसशब्दाश्च. 4 a सीय-
विइ हि शीताभावे घर्मे सति, पक्षे सीतात्रियोगे; संकमइ ऊर्ध्वप्रदेशे गच्छति गुफादिकं सुक्खा; b स-
मउ वानरीसहितः, सरामचन्द्रश्च; वाणरु मर्कटः सुग्रीवश्च. 5 a णीलकंडु भारतपक्षे द्रौपदीभ्राता
शिखण्डी नाम, पक्षे मयूरः; b अज्जुणु वृक्षविशेषः पार्थश्च; दोणे संसिंचिउ घटेन वृक्षः सित्तः, द्रोणा-
चार्येण च बाणैरर्जुनः सित्तः. 6 a णउलें तिरश्चा केनचित्, नकुलेन सहदेवभ्रात्रा च; सो जि स एव
अर्जुनवृक्षः पार्थश्च; b भायउ भावितः रुचितः. 7 a भारहु भारहं महाभारतमिव वनम्; b रवि भारहु
सूर्यदीप्तिप्रच्छादकम्. 8 a णीयत्तणि नीचत्वे निम्ने स्थाने; b जडहु इत्यादि मूर्खस्य यथा स्त्री अनङ्ग-
कामं न प्रकटयति, तथा जडस्यापि वृक्षः अनङ्ग ईषत् शरीरं मूलं फलपत्रादिरहितत्वात्, जलं मूलैः, तेन
मूलं प्रति गतम्, अन्यथा तृषितः पुमान् स्वयमेव जलं प्रति गच्छति, परंतु अत्र मूर्खत्वात् जलं स्वयमेव
गतमिति भावः. 10 b °महुयेंमहिं मकरन्दविन्दुभिः 11 a °सीयरेहिं शीकरैः. 13 a पहिय°
पथिकः; b सुक्कसुरुक्खहिं शुक्कवृक्षेषु. 14 a °पियालें राजादनवृक्षेण. 16 पुत्तिहिं पुण्याः
श्यामादेव्यः.

9

तं गिसुणिवि आयउ सइं राणउ
हरियवंसवण्णेण रवण्णी
कामुउ कंतहि अंगि विलग्गउ
सिरिवसुपवसामि संतुट्टउ
जहिं लवंगचंदणसुरहियजल्लु
जहिं बहुदुमदलवारियरवियर
णवमायंदगोदिं गंजोल्लिय
जहिं हरिकररुहवारियमयगल
दसदिसिवहणित्तमुत्ताहल
ओसहिदीवैतेयदावियपह
जहिं सबरहिं संचिज्जइ तरुहल्लु

पुरि पइसारिउ रायजुवाणउ ।
सामापवि तासु तें दिण्णी ।
थिउ कइवयदियहंइ पुणु णिग्गउ ।
देवदारुवणुं णवर पइट्टउ ।
दिसिगयकलकोइलकुलकलयल्लु । 5
रुहुचुंइति णाणाविह णहयर !
जहिं कइ कइकरेहिं उप्पेल्लिय ।
रुहिरवारिवाहाउलजलथल ।
गिरिकंदरि वसंति जहिं णाहल ।
जहिं तमालतर्मभविलक्खिय रह । 10
हरिणिहिं चिज्जइ कोमलकंदल्लु ।

घत्ता—तहिं कमलायरु दिट्टु णवकमलहिं संछण्णउ ॥

धरणिविलांसिणियाइ जिणहु अग्घु णं दिण्णउ ॥ ९ ॥

10

सीयलसगाहगयथाहसलिलालि
मत्तजलहत्थिकरभीयञ्जसमालि
मंदमयरंदलवैपिंजरियवरकूलि
पंकपलहत्थलोलंतवैरकौलि

कंजरसलालसचलालिकुलकालि ।
वारिपेरंतसोइंतणवणालि ।
तीरवणमहिसदुक्कंतसहूलि ।
कीरकारंडकलरावहलबौलि ।

9 १ °दियहेहिं; P °दियहिं. २ A °वणि; P °वणे. ३ S °जल. ४ S °कलयल. ५ A
रुहुअंति; B रुहुइंति. ६ A °गुंद°; B °गोदि; Als. °गोदे. ७ P °दिव्व°. ८ B °तमवियलक्खिय.
९ A सवरहिं. १० BK संचिज्जय. ११ B छण्णउ. १२ A °विलासिणिए.

10 १ AP कंजरयलालस°. २ AP add वर before वारि. ३ BS omit लव.
४ AP वणकोले.

9 2 a हरियवंसवण्णेण नीलवेणुवत्. 6 b रुहुचुंइति शब्दं कुर्वन्ति; णहयर पक्षिणः.
7 a गोंदि समूहे; गंजोल्लिय उल्लसिताः; b कइ कपयः. 8 b °आउल° श्रुतानि. 10 b °अवि-
लक्खिय अविज्ञाता; रह रथ्या मार्गः. 11 a सबरहिं भिल्लैः; संचिज्जइ संग्रहः क्रियते; b चिज्जइ
भक्ष्यते. 13 धरणिविलासिणियाइ भूक्षिया.

10 1 a °सगाह° सम्राहं जलचरसहितम्; °सलिलि जलसहिते सरोवरे गजो दृष्टः; b कंज-
रसलालस° कमलरसलभटम्; °कालि कृष्णे. 2 b वारिपेरंत° जलपर्यन्ते; °णवणालि नवीनपञ्च-
नाले. 4 a °पलहत्थ° पतितः; b °हलबौलि कोलाहले.

कंकचलचंचुपरिउंबियविसंसि
अकरहदंसणर्षओसियरहंगि
णहंतवियरंतविहसंतसुरसत्थि

लच्छिणेउररंबुडुवियकलहंसि । 5
वायहयवेविरपघोलियतैरंगि ।
एंतजलमाणुसविसेसहंयहत्थि ।

घत्ता—करि सैरवरि कीलंतु तेण णिहालिउ मत्तउ ॥

णावइ मेरुगिरिंदु खीरसमुद्धि णिहत्तउ ॥ १० ॥

11

अंजणणीलु णांइ अहिणवघणु
दसणपहरणिहलियसिलायलु
कण्णाणिलचालियधरणीरुहु
मयजलमिलियघुलियमहुलिहचलु
गुरुकुंभयलपिहियपिहुणहयलु
तं अवलोइवि वीरु ण संकिउ
जा पाहाणु ण पावइ मुक्कउ
करकलियउं वियलियगयदेहहु
वंसारुहणउं करइ सुपुत्तु व
खाणि ससि जेंव हत्थु आसंघइ
खाणि चउचरणंतरिहिं विणिग्गइ
दंतणिसिक्खिय मुहुं ण वियाणइ
जित्तउ वारणु जुवर्यणरिंदे

करतुसारसीयरतिम्मियवणु ।
पायणिवैओणवियइलायलु ।
गज्जणरवपूरियदसदिसिमुहुं ।
उग्गसरीरगंधगयगयउलु ।
णियबलतुलियदिसामयगलबलु । 5
बहिबहिसदे कुंजरु कोकिउ ।
ता करिणा सो गहिउ गुरुक्कउ ।
उवरि भमइ तडिइहु व मेहहु ।
खाणि करणहिं संमोहइ धुत्तु व ।
खाणि विउलइ कुंभयलइ लंघइ । 10
खाणि हक्कारइ वारइ वग्गइ ।
कालें अप्पाणउं संदाणइ ।
णं मयरइउ परमजिणिंदे ।

घत्ता—गयवरखंधारुदु दिट्टउ खेयरपुरिसें ॥

अंधकविट्ठिहि पुत्तु उच्चापवि संहारिसें ॥ ११ ॥

15

५ A °रउडुणि. ६ S °पओसविय°. ७ ABPS °पघोलि°. ८ A गिण्हंत°. ९ A °वेसे हयहत्थे. १० B सरि.

11 १ B णामि. २ A °णिवाएं णमिय°; BP °णिवायए णविय°; S °णिवाउणविय°. ३ B °रुह. ४ AP °दिसिवहु. ५ P गलवसु. ६ S वहे वहे. ७ A करकवलित; S करकलित. ८ S °णरेंदे. ९ B उच्चाइवि. १० A सह हरिसें.

५ a °परिउं वियविसंसि °परिचुम्भितपद्मिनीअंशे खण्डे; b °रबुडुविय °रवेन उड्ढापितः. 6 a अकरह °सूर्यरथः; °पओसिय °प्रतोषितः; °रहंगि °चक्रवाके. 7 a ण्हंत °स्नान्तः.

11 1 b °तुसारसीयरतिम्मियवणु शीतलशीकरेणार्द्राकृतवनभूमिः. 2 b °ओणविय °अवनमितम्. 4 a °महुलिहचलु °भ्रमरैः चपलः; b °गयगयउलु गतं अन्यत्र गजकुलम्. ५ a °पिहिय °आच्छादितम्; b °दिसामयगलबलु दिग्गजबलम्. 8 a करकलियउ शुण्डाग्रं गृहीतः. 9 a वंसारुहणउं पृष्ठवंशारोहणं, अन्यत्र वंशोन्नतिः; b करणहिं आवर्तननिवर्तनप्रवेशनादिभिः. 10 a हत्थु हस्तनक्षत्रं शुण्डा च. 12 a °णिसिक्खिय निर्गतः; b संदाणइ सम्यग्ब्रह्माति.

12

णहयललगरयणमयगोउर
कुलबलवंतहु दईवसहायहु
पंव ससामिसालु विण्णवियउ
इहुँ सो चिरु जो णाणिहिं जाणित
तं णिसुणेवि असणिवेयकें
पवणवेयदेवीतणुसंभव
दिण्णी तासु सुहदातणयहु
गयबहुदियहहिं पेम्मपसँत्तउ
तावंगारयखयरें जोइउ
भूमियरहु पम्भट्टविवेयहु
एम भणतें णित णियइच्छइ

णित वेयहुहु बारावइपुरु ।
दरिसिउ असणिवेयखगरायहु ।
विंझगइंदु एण विहवियउ ।
इहुँ तुह दुहियावरु मइं आणित ।
अवलोइयसुहिवयणससकें । 5
सामरि णामें सुय वीणारव ।
पोहुँहु पउणियपणयपसायहु ।
सो सुहउ जामच्छइ सुत्तउ ।
सुंदि सुत्तु जि भुयपंजरि ढोइउ ।
मामें णियसुय दिण्णी एयहु । 10
सामरि सुंदरि धारय पच्छइ ।

घत्ता—असिवसुणंदयहंत्य णियणाहहु कुडि लग्गी ॥

पडिवक्खहु अग्भिइ समरसपहिं अभग्गी ॥ १२ ॥

13

असिजलसलिलझलक्कयसित्तें
सोहदेउ झड त्ति विमुक्कउ
धरिणिइ पइ णिवडंतु णियच्छिउ
तहि पहरंतिहि वइरि पलाणउ

अंगारएण सुकंसणियगतें ।
पहरंणकरु सइं संजुइ दुक्कउ ।
पणलहुयविज्जाइ पंडिच्छिउ ।
सुंदरु गयणहु मयणसमाणउ ।

12 १ AP दारावइ^०. २ B दहय^०. ३ AP^० खयरायहो. ४ B एहु जि चिरु जो; S एहु सो चिरु. ५ B एहउ दुहिया^०. ६ AP पणइणिमणहरपयणियपणयहो; B पोहुँहु पउणियपणइपसायहु; S पोदहु पउणियपणइणियपणयहो; Als. पोदहु पयणियपणयपसायहु against his Mss. on the strength of gloss प्रजनित. ७ S^०पमत्तउ. ८ A तामंगारय^०; P ता अंगारय^०. ९ ABPS सुहु. १० P^०हत्थु.

13 १ A^०सुलुक्कय^०; BPS^०झलक्कए. २ A सुकसणिय^०. ३ B पहरणककसि संजुए. ४ P धरणिए. ५ B पडिच्छउ.

12 1 a णित नीतः. 4 a णा णि हिं ज्ञानिभिर्नैमित्तिकैः. 6 b सामरि शाल्मली नाम. 7 a सुहदातणयहु वसुदेवस्य; b पोहुँहु प्रौढस्य; पउणिय^० प्रगुणितः. 11 a णियइच्छइ स्वेच्छया. 12 कुडि पश्चात्.

13 1 b सुकसणियगतें जलेन सित्तोऽङ्गारः कृष्णो भवति. २ a सोहदेउ सुभद्रापुत्रः; b संजुइ संग्रामे. 3 a पइ वसुदेवः.

तरुकुसुमोहदिसोहपसाहिरि
कीलमाण वाणि मणिकंकणकर
ते भ्रंति मुद्धत्तं णडियउ
वासुपुञ्जजिणजम्मणरिद्धी
तं णिसुणिवि तं णयंरि पलोइयं
चारुदत्तवाणिवरवहतणुंइ
जहिं गंधव्वेदत्त सइं संठिय

णिवडिउ चंपापुरवरबाहिरि । 5
पुच्छिय तेण तेत्थु णायरणर ।
किं गयणंगणाउ तुहुं पडियउ ।
ण मुणहि चंपापुरि सुपसिद्धी ।
सहमंडवबहुविउसविराइय ।
जहिं जहिं जोइज्जइ तहिं तहिं सुंइ । 10
महुरवाय णावइ कलयंठिय ।

घत्ता—जहिं वइसवइसुयाइ रमणकामु संपत्तउ ॥

खेयरमहियरवंडुं वीणावज्जे जित्तउ ॥ १३ ॥

14

गंपि कुमारं वि तहिं जि णिविडुउ
वम्महबाणु व हियइ पइइउ
हउं मि किं पि दावमि तंतीसरु
ता तहु ढोइयाउ सुइलीणउ
ता वसुंएउ भणइ किं किज्जइ
एही तंति ण एम णिवज्जइ
सिरिहल्लु पं व एउं किं थवियउं
लक्खणरहियउ जडमणहारिउ
अक्खइ सो तहिं तहि अक्खाणउं

कण्णंइ अणिमिसणयणइ विडुउ ।
विहसिवि पहिउ पहासइ तुडुउ ।
जइ थि ण चल्लइ सरठणइ करु ।
पंच सत्त णव दइ बहु वीणउ ।
वल्लइवंडु ण एहउ जुज्जइ । 5
वासुइ एहउ एत्थु विरुज्जइ ।
सत्थु ण केण वि मणि चित्तवियंउं ।
मेल्लिवि वीणउ णांइ कुमारिउ ।
आलावणिकंइ चारु चिराणउं ।

६ B भणंत. ७ KS वासपुञ्. ८ B चंपाउरि. ९ ABP णयर. १० A पलोयउ; P पलोइउ.
११ AP विराइउ. १२ B चारुइत्तु; P चारुदत्तु. १३ BP ^०तणुरुहु. १४ BP सुहु. १५ B
गंधव्वयत्त सइ. १६ B रमणु. १७ A ^०विंदु; P ^०वेंदु.

14 १ B कुमार. २ A P कंतइ. ३ PS अणमिस्. ४ S ^०णयणहिं. ५ BP हउं मि;
S हउं वि. ६ A सरठणहु. ७ A सरलीणउ. ८ A दइसुहवीणउ. ९ S बसुएउ. १० AP
वीणादंडु. ११ A विवज्जइ. १२ P चित्तवियउ. १३ A तासु कुसारिउ. १४ A ^०कउ.

3 a ^०दि सो हपसा हिरि दिशासमूहशोभिते. 6 a वणि वनमध्ये. 11 b कलयंठिय कोकिला.
13 ^०वंडु वृन्दः.

14 1 b कण्णइ कन्यया. 2 b पहिउ पथिकः. 3 a तंतीसरु वीणाशब्दः. 4 a सुइ-
लीणउ कर्णलीनाः. 5 b वल्लइ ^०वीणा. 6 b वासुइ वासुगिरिपि दोरः, अथवा दण्डात्रे तन्त्रीवन्धाभ्रयल्लु-
काष्ठं वासुगिः. 7 a सिरिहल्लु तुम्बकः. 8 b कुमारिउ यथा सामुद्रकरहिता स्त्री मुन्यते. 9 a तहि
तस्या वीणायाः; b आलावणिकंइ वीणानिमित्तम्; चारुचिराणउं अतिजीर्णम्.

घत्ता—हृत्थिणायपुरि राउ गिज्जियारि घणसंदणु ॥ 10
तहु पउमरहु देवि विट्ठु णाम पिउं गंदणु ॥ १४ ॥

15

अवरु पउमरहु सुउ लहुयारउ
रिसि ह्योपपिणु मृंगसंपुण्णहु
ओहिणायुं तायहु उपपण्णउं
एत्तहि गयउरि पयपोमाइउ
ता सो पञ्चतेहि णिरुद्धउ
तेण गुरु वि ओहोमिउ सकहु
संतोसिवि रोमंचियकाएं
मंतिं बुत्तउ तुट्ठि करेज्जसु
काले जंते मारणकामे
सहुं रिसिसंधे जिणवरमग्गे

जणणु णविवि अरहंतु भडारउ ।
सहुं जेट्ठे सुपण गउ रणणहु ।
दिट्ठउं जगु बहुभावभिइण्णउं ।
करइ रज्जु पउमरहु महाइउ ।
तहु बलि णाम मंति पविबुद्धउ । 5
बुद्धिइ माणु मलिउ परचक्रहु ।
मग्गि मग्गि वरु बोद्धिउ रापं ।
कहिं मि कालि महुं मग्गिउं देज्जसु ।
आयउ सूरि अंकपण णामे ।
पुरंबाहिरि थिउ कोओसग्गे । 10

घत्ता—बलिणा मुणिवरु दिट्ठु सुयरिउं अवमाणेपिणु ॥

इह एएं हउं आसि थिउं विवाइ जिणेपिणु ॥ १५ ॥

16

अवयारहु अवयारु रइज्जइ
खलहु खलत्तणु सुहिदि सुंहित्तणु
तावसहेवे णिवसउ गिज्जणि
एवं भणेपिणु गउ सो तेत्तहिं

उवयारहु उवयारु जिं किज्जइ ।
जो ण करइ सो णियमिवि णियमणु ।
हउं पुणु अज्जु खंविमि किं दुज्जणि ।
अच्छइ णिवइ णिहेलणि जेत्तहिं ।

१५ S पोमावइ. १६ A पियणंदणु.

15 १ ABP मिग°. २ APS °परिपुण्णहो; B °संपण्णहो. ३ A अवहिणायु. ४ A भावहिं भिण्णउं; Als. भावविहिण्णउं. ५ S परमरहु. ६ S पविद्धउ. ७ P ओहामिय. ८ S परयकहो. ९ P संतोसिवि. १० APS अंकपणु. ११ B पुरि. १२ P कायोसग्गे. १३ B धेत्तु.

16 १ AP वि. २ P सुइत्तणु. ३ S ° रूपं. ४ S उज्जमु खवमि ण दुज्जणु. ५ B खममि अज्जु. ६ S सो गउ.

10 घणसंदणु मेघरथः. 11 विट्ठु विष्णुः.

15 1 b जणणु मेघरथः. 3 b °भिइण्णउं भिन्नम्. 4 a पयपोमाइउ प्रजाप्रशंसितः; b महाइउ महद्धिकः. 5 a पञ्चतेहिं शत्रुभिः. 6 a गुरुवि शक्रस्य गुरुर्बृहस्पतिः तिरस्कृतः. 9 a मारणकामे मन्त्रिणा मारणावाञ्छकेन इति संबन्धः. 12 एएं एतेन सूरिणा; विवाइ विवादे.

16 2 b णियमिवि बद्धा निजचित्तम्.

भणिउ णवतें पइं पडिवण्णउं
जं तं देहि अज्जु मइं मग्गिउं
ता रापण वुसु ण वियप्पमि
पडिभासइ बंभणु असमत्तणु
दिण्णउं पत्थिवेण तें लइयउं
साहुसंघु पाविट्ठे रुद्धउ
सोत्तिपहिं सोमंबु^१ रसिज्जइ
भक्खिवि जंगलु अडुवियडुइं

घत्ता—भोजसरावसमूहु जं केण वि ण वि छित्तंउ ॥

तं सवणहं सीसग्गि जणउच्छिट्ठउं घित्तंउ ॥ १६ ॥

औसि कालि जं पइं वरु दिण्णउ । 5
जइ जाणहि पत्थिव भोलग्गिउं ।
जं तुहुं इच्छहि तं जि सम्पमि ।
सत्त दिणाइं देहि रायत्तणु ।
रोसें सव्वु अंगु पइछइयउं ।
मृंगवहु महु चउदिसु पारइउ । 10
सोमवेय सुइसुंमहुह गिज्जइ ।
उप्परि रिसिहि णिहित्तइं इहुइं ।

17

सोत्तइं पूरियाइं सुहवारें
अणुदिणु पयंडियभीसणवसणहं
तहिं अवसरि दुक्खियपरिचत्ता
णिसि णिवसंति महीहरकंदरि
तेहिं बिहिं मि तहिं णहि पवहंतउं
तं तेवडु चोज्जु जोपपिणु
किं णक्खत्तु भडारा कंपइ
गयउरि बलिणा मुणि उवसग्गे
सज्जणघट्टणु सव्वहु भारिउं
पुच्छइ पुणु वि सीसु खमवंतहं

बहलयरेण धूमपम्भारें ।
तो वि धीर रुसंति ण पिसुणहं ।
जणंण तणय ते जौहिं तवत्ता ।
भीरुभयंकारि सुयकेसरिसरि ।
सवणरिक्खु विट्ठउं कंपंतउं । 5
भणइ विट्ठु पणिवाउ करेप्पिणु ।
तं णिसुणेधि जणणमुणि जंपइ ।
संताविय पावें भयंभग्गे ।
तेण रिक्खु थरहरइ णिरारिउं ।
णासइ केव उवहुउ संतहं । 10

७ A adds after 5 b तुट्ठिदाणु आणंदपवण्णउं; S reads for 5 b तुट्ठिदाणु आणंदपउण्णउं.
८ B राइत्तणु. ९ ABPS पच्छइयउं. १० AP मिगवहु. ११ A सोमंधु. १२ APS सामवेउ.
१३ A सुइमहुइउ; B सुइमहुइं. १४ Als. विच्छित्तउ.

17 १ A सुहचारि. २ B पीडिय^०. ३ B दुक्खिय^०. ४ P जणय. ५ A जित्तहि तवत्ता;
S जहि ते. ६ AP जणणु मुणि. ७ A ह्यभग्गे. ८ B सव्वउ.

8 a असमत्तणु असमत्वं मिथ्यादृष्टिः. 9 b पइछइयउं प्रच्छादितम्. 10 b महु मखो यरः. 11 a
सोमंबु सोमपानम्. 12 a जंगलु मांसम्; अडुवियडुइं वक्राणि. 13 छित्तंउ सृष्टम्.
14 सीसग्गि मस्तकाग्रे.

17 1 a सुहवारें सुखनिषेधकेन; b बहलयरेण बहुतरेण. 3 b जणणं मेघरथः; तणय
विणुः 4 b सुयकेसरिसरि श्रुतसिंहशब्दे. 5 a पवहंतउं गच्छत्. 9 a सज्जणघट्टणु साधुकदर्येणम्;
सव्वहुभारिउं सर्वेषां कष्टभूतम्.

घत्ता—घणरहरिसिणा उचु तुम्ह विउव्वणरिद्धिइ ॥
णासइ रिसिउवसग्गु भवसंसारु व सिद्धिइ ॥ १७ ॥

18

खलजणवयअच्चन्भुवभूवें
णिलयणिवांसु णिरग्गलु मग्गहि
तं णिसुणेप्पिणु लहु णिग्गउ मुणि
भिसियैकमंडलु सियछत्तियधरु
मिट्ठवाणि उववीयविट्ठसणु
सो णवणरणाहेण णियच्छिउ
किं हय गय रह किं जंपाणहं
कवडविप्पु भासइ महिसामिहि
तं णिसुणिवि बलिणा सिरु धुणियउं
वाय तुहारी दइवें भग्गी

छिहँहि जाइवि वावणरूवें ।
पच्छइ पुणु गयणंगणि लग्गहि ।
रिय पढंतु कियओकारज्जुणि ।
दम्भदंडमणिवलयंकियकरु ।
देसिउ कासायंबरणिवसणु । 5
भणु भणु तुहँ किं दिज्जउ पुच्छिउ ।
किं धयछत्तइ दव्वणिहाणहं ।
णिव कम तिण्ण देहि^{१०} महु भूमिहि ।
हा हे दियवर किं पइं भणियउं ।
लइ धरिस्सि मंदथिस्सिहि जोग्गी । 10

घत्ता—ता विट्ठुहि वडंतु लग्गउं अंगु णहंतरि ॥

णिहियउ मंदरि^{१२} पाउ एक्खु बीउ मणुउत्तरि ॥ १८ ॥

19

तइयउ कमु उक्खित्तु जि अच्छइ
सो विज्जाहरतियसहिं अंविउ
ताव तेत्थु घोसावइवीणइ
गरुयारउ णियैभाइसहोयरु
मारहुं आढत्तउ दियकिंकरु

कहिं दिज्जउ तँहिं थत्ति ण पेच्छइ ।
पियवयणेहिं कह व आउंविउ ।
देवहिं दिण्णइ मलपरिहीणइ ।
तोसिउ पोमरहें जोईसरु ।
विण्हुकुमारु खमइ अभयंकरु । 5

18 १ A खलु. २ P अच्चन्भुवभूयं. ३ B छिदहि. ४ BS वामण°. ५ AP °णिवेसुं. ६ A ओंकायरज्जुणि. ७ P रिसिय°. ८ B किं तुह. ९ P दिज्जइ. १० A देहु महु. ११ A मदछत्तिहि; S मदयत्तिहि. १२ A मंदरि. १३ B मणउत्तरि.

19 १ BK उक्खित्तु. २ BPAls. तहो थत्ति. ३ S °भायसहो°.

12 सिद्धिइ मुक्त्या यथा संसारो नश्यति.

18 1 a खलजणवयअच्चन्भुवभूवें खल्लोकानामत्यद्भुतभूतेन. 2 a णिलयणिवासु गृहनिवासः; णिरग्गलु निःप्रतिबन्धम्. 3 b रिय पढंतु वेदऋचः पठन्. 4 a भिसिय ऋषीणामासनं ऋषी; b °मणिवलयं जपमाला. 6 a णवणरणाहेण नवीनराशा बलिना. 11 विट्ठुहि विष्णोः मुनेः.

19 1 a उक्खित्तु उक्खित्त उच्चलितः. 2 b आउंविउ संकुचितः. 4 a गरुयारउ ज्येष्ठः.

अच्छउ जियउ वराउ म मारहि
रोसें चंडालसणु किज्जइ
एणे जि कारणेण हयदुम्मइ

रोसु म हियउछइ वित्थारहि ।
रोसें णेरयविवरि परसिज्जइ ।
कयदोसहं मि खमंति महामइ ।

घत्ता—एम भणेपिणु जेट्टुं गउ गिरिकुहरणिवासहु ॥

मुणिवरसंघु असेसु मुक्कउ दुक्खकिलेसहु ॥ १९ ॥

10

20

अज्ज वि वीण तेत्थु सा अच्छइ
तो गंधव्वदत्त किं वायइ
वणिणा तं णिसुणिवि विहेसंतं
गय गयउरु वल्लइ पणवेपिणु
वियलियदुम्मयपंकविलेवहु
सां कुमारकरताडिय वज्जइ
सत्तहिं वरसरेहिं तिहिं" गामहिं
अंसंहं सउ चालीसेक्कोत्तर
तीस वि गामराय रइआंसउ
एक्कवीस मुच्छणैउ समाणइ

जइ महु आणिवि को' वि पयच्छइ ।
महुं अग्गइ पर वयणु णिवायइ ।
पेसिय णियपाइक्क तुरंतं ।
मंगिय तव्वंसिय मणु लेपिणु ।
आणिवि दोइय करि वसुएवहु ।
सुइभेयहिं बावीसहिं छज्जइ ।
अट्टारहजाइहिं सुहधामहिं ।
गीहंउ पंच वि पयइइ सुंदर ।
चालीस वि भासउ छ विहंीसउ ।
एक्कणइ पण्णासइं ताणइं ।

10

४ APS रोसें सत्तममहि पाविज्जइ. ५ A एण वि. ६ AP महाजइ. ७ AP विहु.

20 १ S का वि. २ B तं सुणिवि वियसंतं. ३ A पहसंतं. ४ A वीणा पण°. ५ A मगिय तक्खणि वीण लपिणु; S मणुणेपिणु; Als. तव्वंसियमणुणेपिणु (तव्वंसिय+म+अणुणेपिणु). ६ P °दुम्मइ°. ७ A आणिय. ८ S सो. ९ AP छजइ. १० AP वजइ. ११ AP विहिं गामहिं; S बहुगामहिं. १२ S अंसहिं. १३ A चालीसेकुत्तर; B चालीसिकुत्तर; S चालीसेक्कोत्तर. १४ A गीउ पंचविहु. १५ S रइयासव. १६ S विहासव. १७ P मुच्छणइं. १८ A एक्कणइ पण्णास जि; B एक्कण वि पण्णासइं.

8 b कयदोसहं मि कृतदोषाणामपि; महामइ मुनयः.

20 1 a तेत्थु गजपुरे. 2 b वयणु णिवायइ वदनं स्नानं करोति. 4 b तव्वंसिय तद्वंशो-त्पन्नराणाम्; मणु लेपिणु मनः संतोष्य. 6 b छजइ शोभते. 7 b अट्टारहजाइहिं शुद्धा जातिः, दुःकरकरणा जातिः, विषमा इत्याद्यष्टादशजातिभिः. 8 a अंसहं अष्टादशजातिषु यथासंभवं एक द्वी... पञ्च इत्यादयः अंशाः, एवं १४१ अंशाः; b गीहंउ पंच वि शुद्धा भिन्ना वेसरा गौडी साधुरणिका इति पञ्च गीतयः. 9 a तीस वि गामराय शुद्धायां सप्त ग्रामरागाः, भिन्नायां पञ्च, वेसरायामष्टौ, गौड्यां त्रयः, साधुरणिकायां सप्त, एवं त्रिंशत्; b चालीस वि भासउ षड् रागाः टक्कादयः, टक्कारागे द्वादश भाषाः, पञ्चमरागे दश, हिन्दोलारागे तिस्रो भाषाः, मालवकौशिकरागे अष्ट, षड्जरागे सप्त, ककुत्तरागे पञ्च. 10 a एक्कवीस मुच्छणउ मध्यमप्रामोद्भवाः सप्त, षड्जरागोद्भवाः सप्त, निषादरागोद्भवाः सप्त.

घत्ता—तद्दु वार्यंतद्दु पं व वीणां सुहसरजोगगउ ॥

णं वम्महसरु तिक्खु मुद्धहि हियवइ लगगउ ॥ २०

21

णयणइं णाहद्दु उप्परि घुलियइं
तंतीरवतोसियगिन्वाणहु
संथुउ तरुणु सुरिं दें ससुरे
पुणरवि सो विज्जाहरदिण्णहं
मणहरलक्खणचच्चियगत्तउ
राउ हिरण्णवम्मु तहिं सुम्मइ
तासु कंत णामे पोमावइ
रोहिणि पुत्ति जुत्ति णं मयणहु
ताहि सयंवरि मिलिय णरेसर
ते जरसंधपमुह अवलोइय
तहिं मि तेण वणगयपडिमल्ले
माल पडिच्छिय उट्टिय कलयलु
जरसिंधहु औणइ कयविग्गह
तेहिं हिरण्णवम्मु संभासिउ
मालइमाल ण कइगलि वज्झइ

घत्ता—ता पेसाहि लेहु धूय मा संघहि धणुगुणि सरु ॥

वढे जरसंधि विरुद्धे धुधु पावहि वइवसपुरु ॥ २१ ॥

अट्टंगइं वेवंतइं वलियइं ।
यित्त सयंवरमाल जुवाणहु ।
विद्धिउ विवाहमहुच्छउ ससुरे ।
सत्तसयइं परिणेप्पिणु कण्णहं ।
काले रिद्धणयहे संपत्तउ ।
जासु रज्जि णउ कासु वि दुम्मइ ।
परहुयसइ बालेपाडलगइ ।
किं वण्णमि भल्लारी भुयणेहु ।
तेयवंत णावइ ससिणेसर ।
कण्णइ माल ण कासु वि दोइय । 10
जिणिवि कण्ण सकलाकोसल्ले ।
संणद्धउं सयलु वि पत्थिवबलु ।
धाइय जादेव कउरव मागइ ।
पइं गउरविउ काइं किर देसिउ ।
जाव ण अज्ज वि राउ विरुज्झइ । 15

22

तं णिसुणेप्पिणु सो पडिजंपइ
जो महुं पुत्तिहि चित्तहु रुच्चइ

भडबोक्कइं वर वीरे ण कंपइ ।
सो सुहउं किं देसिउ बुच्चइ ।

१९ APAls. वीणासरु सुह^०.

21 १ AP चलियइं. २ P^०महोच्छउ. ३ A^०णयि. ४ A^०पडलगइ. ५ A^०भुवणहो;
S सुयणहो. ६ B जरसंध^०; K जरसंधु^०; S जरसिंधु^०. ७ S जिणिवि. ८ S उट्टिय. ९ B जरसंधहो;
S जरसंधहो. १० A आणय. ११ APS जायव. १२ BS तहो धूय. १३ BK वट्ट.

22 १ PS णिसुणेवि सो वि. २ A वरचीरु; BPS वरधीरु. ३ S सुहउ.

21 ३ a ससुरे देवैः सहितेन; b ससुरे श्वशुरेण चारुदत्तेन. 7 b परहुय^० कोकिला. 11 a
त हिं मि तत्रापि; वणगय^० वनगजाः; b सकलाकोसल्ले पट्टव्हादविज्ञानेन. 14 b देसिउ
पथिकः. 15 a कइगलि वानरगले; b विरुज्झइ कुप्यति जरासंधः. 17 वढ स्थूलबुद्धे, मूर्त्त.

22 1 b^०बोक्कइं छागानाम् (भट्टबुवेभ्यः).

पहु तुम्हइं वि धिट्टु परयारिय
ता तौहिं लग्गइं रोहिणिर्लुद्धइं
थिय जोयंति^१ देव गयणंगणि
कंचणविरइइ रहवरि चडियउ
विंधंतें^२ सहस त्ति परिक्खिउ
जे सर घल्लइ ते सो छिंदइ
बंधवु जगि ण होइ णिव्वच्छल्लु
दिव्वेपत्तिपत्तेहिं विह्वसिउ
पडिउ पयंतरि सउरीणाहें
अक्खराइं वाइयइं सुसत्तें
जणउवरोहें पइं घरि धरियउ

अज्ज ण जाहें समरि अवियारिय ।
महिवइसेण्णइं सहसा कुद्धइं ।
अण्णहु अण्णु भिड्डिउं समरंगणि । 5
णववरु णियभाइहिं अभ्भिडियउ ।
तेण समुह्विजउ ओलक्खिउ ।
अण्णुं तासु ण उरयलु भिंदइ ।
सुइरु णिहालिवि जउवैइभुयबल्लु ।
णियणामंकु बाणु पुणु पेसिउ । 10
उच्चाइउ अरिमयउलेवाहें ।
वियलियवाहजैलोल्लियणेत्तें^३ ।
जो चिरु विहिवसेण णीसरियउ ।

घत्ता—संवच्छरसइ पुण्णि आउ एउं समरंगणु ॥

हउं वसुपवकुमारु देव देहि आलिगणु ॥ २२ ॥

15

23

जइ वि सुवंसु गुणेण विराइउ
आवइकाले जइ वि ण भज्जइ
भायरु पेक्खिवि पिसुणु व वंकउं
णरवइ रहवराउ उत्तिण्णउ
पक्कमेक्क आलिगिउ बाहहिं
भाय मइंतु णविउ वसुपवें
हउं पइं भायर संगरि णिज्जिउ
अण्णहु चावसिक्ख कहु पही

कोडीसरु णियमुट्ठिहि माइउ ।
जइ वि सुहइसंगट्टणि गज्जइ ।
तो वि तेण वाणासणु मुक्कउं ।
कुंअरु वि संमुहु लहु अवइण्णउ ।
पसरियकरहिं णांइं करिणाहहिं । 5
जंपिउ पहुणा महुरालावें ।
बंधु भणंतु ससूअहु लज्जिउ ।
पइं अभ्भसिय धुरंधर जेही ।

४ P जाहु. ५ P तहो. ६ S गेहिणि^०; K गेहिणि^० in second hand. ७ B जोवंत; S जोयंत.
८ AP लग्गु. ९ S सवरंगणि. १० B विद्धंतें; P विंधंतें. ११ APS अण्णु. १२ B जोवइभुय^०;
P जोयइ. १३ BAls. दिव्वपक्खि^०; P दिव्वपत्ति^०. १४ B ^०मियउल^०. १५ B ^०वाहभोल्लिय^०.
१६ A ^०गत्तें. १७ P एव.

23 १ B सुवंस. २ APS ^०कालए. ३ S जं पि. ४ P कुमरु; S कुंवरु. ५ B णामिं.

६ APS भाइ. ७ A सभूयहं. ८ B कहिं; P कइं.

3 a परयारिय पारदारिकाः. 6 b णववरु वसुदेवः; णियभाइहिं समुद्रविजयादिभिः सह. 9 a
णिव्वच्छल्लु निःस्नेहः; b जउवइ^० यदुपतिः. 10 a दिव्वपत्तिपत्तेहिं दिव्यपक्षिपक्षैः. 11 a
सउरीणाहें समुद्रविजयेन; b ^०मयउलवाहें मृगकुलव्याधेन. 12 a सुसत्तें सत्त्वसाहसयुक्तेन;
b ^०वाहजलोल्लियणेत्तें बाष्पजलाद्रंनेत्रेण. 13 a घरि धरियउ बहिर्गान्तुं निषिद्धः. 14 एउ एषः.

23 4 a णरवइ समुद्रविजयः. 7 b ससूअहु स्वसारथेः सकाशात् .

पइं हरिवंसु बप्प उहीविउ तुहुं महु धम्मफलें मेलाविउ ।
 अज्जं मज्झ परिपुण्ण मणोरह गय गियपुरवरु दस वि दसारह । 10
 खेयरमहियरणारिहिं माणिउ थिउ वसुएवुं रायसंमाणिउ ।
 संखु णाम रिसि जो सो ससिमुहु महसुक्कामरु रोहिणितणुरुहु ।
 घत्ता—भरहखेसैंनृघपुज्जु णवमु सीरि उप्पण्णउ ॥
 पुष्पयंततेयाउ तेण तेउ पड्डिवण्णउं ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहय महा-
 भव्वभरहाणुमण्णिणय महाकव्वे खेयरंभूगोयरकुमारीलंभो समुह-
 विजयवसुएवसंगमो णाम तेयासीतिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८३ ॥

१ AP पुण्णफलें. १० BP अज्ज मज्झ. ११ B वसुएवराउ. १२ A P °खेत्ति णिव°. १३ S
 खयर°. १४ A °वसुदेवसंगमो बलदेवउप्पत्ती. १५ P तेयासीमो; S तीयासीतिमो.

10 b द सार ह दशार्हाः समुद्रविजयादयः. 14 °ते या उ तेजसोऽप्यधिकम्.

गयणिदं भणिउं रिसिदं सोत्तसुहाइं जणेरी ॥
सुणि सेणिय जिह जिणजाणिय तिह कह कंसहुं केरी धुवकं ॥

1

धावंतमहंततैरंगरंगि
पंफुलियफुल्लवेइल्लवेह्लिं
तहिं तवसि विसिद्धु वसिद्धु णामु
मुणि भद्वीरगुणवीरसण्ण
बोलाविउ तावसु तेहिं एव
तर्वहुयवहजांलउ वित्थरंति
विणु जीवदयाइ ण अत्थि धम्मु
विणु सुक्किएण कहिं सग्गमणु
पडिबुद्धु तेण वयणेण सो वि
मुणिवरचरियइं तिब्बइं चरंतु
उववासु करइ सो मासु मासु
गिरिवरि चैरंतु अच्चंतणिहु
तें भत्तिइ बोह्लिउ णिरु णिरीहु

गंगागंधावईसरिपसंगि ।
कउसिय णामें तावसहं पल्लि ।
पंचगि सहइ णिट्ठवियकामु । 5
अण्णहिं दिणि आया समियसण्ण ।
अण्णणें अप्पउ खवहि केंव ।
किमिकीडय महिणीडय मरंति ।
धम्मं विणु कहिं किर सुकिउ कम्मु ।
किं करहि णिरत्थउं देहदमणु । 10
णिग्गंथु जाउ जिणदिक्ख लेवि ।
आइउ महुरहि महि परिभमंतु ।
देहति" ण दीसइ रुहिरु मासु ।
रिसि उग्गसेणराएण विट्ठु ।
लब्भइ कहिं पइउ सवणसीहु 15

घत्ता—ओसारिउ णयरु णिवारिउ मा परु करउ पलोयणु ॥
सविवेयहु साहुहु एयहु हउं जि करेसमि भोयणु ॥ १ ॥

2

जोयंतहु भिकखुहि पिंडमग्गु
मयगिल्लगंडे हिंडियदुरेहु

पहिलारइ मासि हुयासु लग्गु ।
बीयइ कुंजरु णं कालमेहु ।

1. १ S गयणेंदं. २ B कंसह. ३ AP °तरंगभंगि. ४ AB °सरिसुसंगे; P' °सरिससंगि.
५ B पंफुल्लफुल्ल°; ६ AB °वह्लि. ७ A तवसिद्धु वसिद्धु; B वसिद्धु विसिद्धु. ८ A णवहुय°. ९ AP
जाला; B जालइ. १० B महुरह. ११ A देहेण ण दीसइ. १२ AP' तवंतु.

2 १ B पिंडु. २ S पहिलाए. ३ BPAls. °गंड°.

1 1 ग य णिं दं गतनिन्देन ऋषोन्द्रेण; सो त्त सु हा इं कर्णसुखानि. 3 a °रं गि स्थाने. 4 b
कउ सिय कौशिकी. 6 b समियसण्ण शमितचतुःसंशौ. 12 b महुरहि मथुरायाम्. 16 ओ सारिउं
निषिद्धो लोकः. 17 सविवेयहु सविवेकस्य साधोः.

2 1 a पिंडमग्गु आहारमार्गम्; b हुयासु लग्गु राजमन्दिरेऽमिल्लमः. 2 a मयगिल्लगंडु
मदार्रकपोलः; हिंडियदुरेहु भ्रान्तभ्रमरः; b बीयइ द्वितीये मासे.

भिद्वद् दंतर्हि नृवभिष्वेदु
 पद्म भंतउ कज्जपरंपराइ
 तद्दु तिण्णि मास गय एम जाम
 परु वारइ सइं णाहारु वेइ
 भुंजाविउ भुक्खइ दुक्खु तिकखु
 तं णिसुंणिवि रोसहुयासणेण
 मंजीररावराहियपयाउ
 सत्त वि भणति भो भो वसिद्ध
 किं उग्गसेणकुलपलयकालु
 किं महुर जलणजालालिजलिय
 ता चवइ दियंबरु भिण्णगुज्जु
 कडिसुत्तयघोलिरकिंकिणीउ
 इयरु वि महिमंडलि झ त्ति पडिउ

घत्ता—मुणि दुम्मइ णियमणि तम्मइ उग्गसेणु अइसंधमि ॥
 कुलमंडेणु एयहु णंदणु होइवि एहु जि बंधमि ॥ २ ॥

तइयइ आइउ णरणाहलेहु ।
 हियउल्लउ ण गइउं णिहयराइ ।
 केण वि पुरिसेण परउंत्तु ताम । 5
 एहुउ वि केम भण्णइ विवेइ ।
 हा हा रापं मारियउ भिक्खु ।
 पज्जलिउ तवसि दुम्मिउ मणेण ।
 तवसिद्धउ आयउ देवयाउ ।
 दूरुज्झियदूसहदुट्ठतिद्ध । 10
 पायडहुं णिभिडंउदुक्खियकरालु ।
 दक्खालहुं तुह महिवलयघुलिय ।
 जम्मंतरि पेसणु करहु मज्जु ।
 तं इच्छिवि गइयउ जक्खिणीउ ।
 पुणु रोसणियाणवसेण णडिउ । 15

मुउ सो पोमावइगग्भि थक्कु
 पियहिययमाससद्धालुयाइ
 णउ अक्खिउं भत्तारहु सइंइ
 कारिमउ विणिम्मिउ उग्गसेणु
 भक्खिउं णियरमणहु देहमासु
 अवलोइउ तापं कूरुदिट्ठि
 कंसियमंजूसहि किउ अथाहि

णं णियंतायहु जि अक्कालचक्कु ।
 झिज्जंतियाइ सुललियभुयाइ ।
 बुद्धेहिं मुणिउं णिउणइ मइंइ ।
 फाडिउ णं सीहिणिए करेणु ।
 उप्पण्णउ पुत्तु सगोत्तणासु । 5
 णिहणेक्ककामु उग्गिण्णमुट्ठि ।
 घल्लिउ कालिंदीजलपवाहि ।

४ BP णिव°. ५ PS आयउ. ६ S पवुत्तु. ७ S णिसुणवि. ८ B दूमिय; P दूमिउ. ९ S हो हो.
 १० B णिवडदुक्खय°. ११ ABP °जालेलि°. १२ S दक्खालहं. १३ A कुलमंडणु.

3 १ A ° तायहु जियकालचक्कु; B °तायहो जि अकाल°; S °तायहो अक्काल°. २ B सो
 फाडिउ णं सीहिणिए; S फालिउ.

3 b णरणाह° जरासंधः. 4 a भंतउ विस्मृतः आकुलितो वा; b णिहयराइ निहतरागे मुनी.
 6 b विवेइ विवेकी. 8 b दुम्मिउ उपतापितः. 9 a मंजीररावराहियपयाउ नूपुरशब्दशोभित-
 पादाः. 10 b °तिद्ध तृष्णा. 11 b पायडहुं प्रकटीकुर्मः. 12 a महुर मथुराम्; b दक्खालहुं
 दर्शयामः. 15 a इयरु मुनिः; b ° णियाण° निदानम्. 16 तम्मइ लिच्यते; अइसंधमि वज्जयामि.

3 2 a पियहियय° भर्तृद्वयम्. 3 b मुणिउ शतो दोहदः; णिउणइ निपुणया. 7 a
 कंसियमंजूसहि कांस्यमञ्जुप्रायाम्; अथाहि अस्ताष (अगाधे).

मंजोर्यरीह सोमालियाह
 कंसियमंजूसहि जेण विट्टु
 कोसंबिर्धुरिहि पत्तउ पमाणु
 णिञ्चु जि परडिंभइं ताडमाणु
 गउ सउरीपुरु वसुएवसीसु
 असिणा जरसिंधे जिणिवि वसुह
 एक्कहिं दिणि अत्थाणंतरालि
 मइं बंहुविहपरमंडलियं जित्त
 पर अज्जि वि णउ सिज्झइ सदप्पु
 पोयणपुरवइ सीहरहु राउ

पालिउ कल्लौलयबालियाह ।
 तेणं जि सो कंसु भणेवि घुट्टु ।
 णं कलिकयंतु णं जाउहाणु । 10
 घाँडिउ ताएं जायउ जुवाणु ।
 जायउ णाणापहरणविहीसु ।
 णिट्टुविय वहरि सुहि णिहिय ससुइं ।
 थिउ पभणइ सो गायणरवालि ।
 धैरणि वि तिखंड साहिय विचित्त । 15
 णैउ पणवइ णउ महु देइ कप्पु ।
 राणि दुज्जउ रिउजलवाहवौउ ।

घत्ता—जो जुज्झइ तहु बलु बुज्झइ धरिवि णिबंघिधि आणइ ॥
 रइकुच्छरं णं अमरच्छर मेरी सुय सो माणइ ॥ ३ ॥

4

अण्णु वि हियइच्छिउ देमि देसु
 इय भणिवि णियं कविहूसियाइं
 सयलहं मंडलियहं पत्थिवेण
 एक्केण एक्कु तं घिन्नु तेत्थु
 जोइउं वाइउं तं वईरिजूरु
 पक्खरिय तुरय करि कवयसोह
 णीसरिउ सणि व कयदेसदिट्ठि
 सहुं कसें रोहिंणिवेविणाहु
 परमंडलु विद्धंसंतु जाइ

छुडु करउ को वि पत्तिउ किलेसु ।
 आलिहियइं पत्तइं पेसियाइं ।
 गय किंकरवर दसदिसि जवेण ।
 अच्छइ वसुएउ कुमारु जेत्थु ।
 देवाविउं लहुं संगोमतूरु । 5
 मच्छरैफुरंत आरूढ जोह ।
 अंधयकैविट्टिसुउ वईरिविट्ठि ।
 णं ससिमंडलहु विरुद्ध राहु ।
 पहि उप्पहि बलु कथ वि ण माइ ।

३ B मंदोवरीए. ४ B कल्लालिए. ५ AP तेण वि. ६ AP कोसंबिणयरे. ७ S घाडियउ. ८ AP जसुदेव°. ९ P जरसिंधे; S जरसिंधे. १० A समुह. ११ S मंडलिय. १२ S धरणी तिखंड. १३ AP पय पणत्तइ. १४ S °वायु. १५ APS °कोच्छर.

4 १ P अण्णु मि. २ P हियइच्छिउ; S हियउच्छिउ. ३ APS वसुएव°. ४ S वेरिजूरु. ५ PS Als. संणाहत्तूरु. ६ B Als. मच्छरपूरिय. ७ AP अंधकविट्टिसुउ. ८ B वहरिविट्ठि. ९ S रोहिणी°.

10 b कलि कयंतु कलिकालयमः; जाउहाणु राक्षसः. 11 b घाडिउ निर्घाटित. 12 b °पहरण-विहीसु प्रहरणैर्भयानकः. 13 b ससुह ससुखाः स्थापिताः सुहदः. 16 b कप्पु दण्डः करः. 17 b °जलवाहवाउ भेषस्य वातः. 19 रइकुच्छर मनोहररतिकौतुकोत्सादिनी.

4 2 a णियं क° स्वचिह्नेन; b पत्तइं लेखाः. 5 a जोइउं दृष्टम्. 7 a सणि व शनिग्रहवत्; b वइरिविट्ठि शत्रूणां विष्टिः पापवतीवत्. 9 b पहिउप्पहि मार्गे उन्मार्गे च.

घत्ता—चलकेसरकररुहभासुरहरिकहिं' रहि चडियउ ॥ 10
जयलपहु कुरैउ महाभहु वसुपवहु अँभिभडियउ ॥ ४ ॥

5

सउहहेपं संगामि वुत्त	हरिमुत्तसित्त ह्य रँहि णिउत्त ।
आवाहिउ सो धयधुवमाणु	दलवट्टिउ रिउं जंपाणु जाणु ।
वसुपवकंस भूभंगमीस	लग्गा परँबलि उज्झायसीस ।
वरसुहडहं सीसइं णिलुणंति	थिरु थाहि थाहि हणु हणु भणंति ।
धंचंति वँलंति खलंति धंति	पइसंति पंति पहरंति थंति । 5
अंतँइं लंबंतइं ललललंति	रत्तइं पवहंतइं झलझलंति ।
महि णिविडमाण ह्य हिलिहिलंति	सरसल्लिय गयवर गुलुगुलंति ।
दट्टोदु रुह मारिवि मरंति	जीविउं मुयंत णर हुंकरंति ।
पललुद्धइं गिद्धइं णहि मिलंति	भूयइं वेयालइं किलिकिलंति ।
पहरणइं पडंतइं धगधगंति	विच्छिण्णणइं कवयइं जिगिजिगंति । 10

घत्ता—पहरंतहु सामाकंतहु सीहरहेण णिवेइय ॥
सर दारुण वम्मवियारण कंचणपुंखविराइय ॥ ५ ॥

6

प्यारह बारह पंचवीस	पण्णास सट्टि बावीस तीस ।
तेण वि तहु तहिं मग्गण विमुक्क	रह वाहिय खोणियखुत्तचक्क ।
ते वीरं बे वि आसण्ण दुक्क	णं खयसागर मज्जायमुक्क ।
परिभडघंघलु भुयबलु कलंति	अवरौप्परु किलँ कौतहिं हुलंति ।
ता सुहँडसमुभ्भड चप्परेवि	रणि णियगुरुअंतरि पइसरेवि । 5

१० P °भासुर. ११ B ° कट्टिय°. १२ P कुविउ. १३ AP रणे भिडियउ.

5 १ AP सउहहें लहु संगामधुत्त; S सउहहें णं संगामे. २ A रहवरे णिउत्त. ३ B आवा-
हिवि. ४ S तहिं. ५ S वरबले. ६ BPAls. चलंति. ७ B गत्तइं लुंचंतइं. ८ APS णिवडमाण.
९ AP कयवयइं.

6 १ BS खोणीखुत्त°. २ AP मजायचुक्क. ३ ABPS किर. ४ A सुहहु समुभ्भडु.

10 ° हरिक ट्टि इ सिंहाकृष्टरथोपरि.

5 1 a सउह हेपं सुभद्रापुत्रेण; b हरिमुत्तसित्त सिंहमूत्रसित्ता अश्वा रथे बद्धाः. 2 a सो रथः.
3 b उज्झायसीस उपाध्यायशिष्यौ. 5 a धंति ध्वंसयन्ति. 7 b सरसल्लिय शरशस्ययुक्ताः. 11 सा मा-
कंतहु वसुदेवस्य विजयपुरराजपुत्रीकान्तस्य; णिवेइय दत्ताः.

6 5 a चप्परेवि बञ्जयित्वा.

पवरंगोवंगं संवरेवि
उल्ललिवि धरिउ सीहरहु केम
आर्वालिवि बद्धउ बंधणेण
णिउ दाविउ अद्धमहीसरासु
तं पेक्खिवि राए वुत्तु एव

चवलाउहपरिवंचणु करेवि ।
कंसें केसरिणा हत्थि जेम ।
जईजीउ व जीयांसाधणेण ।
अहिमाणु भुवाणि णिव्वूहु कासु ।
वसुएव तुज्जु सम णेय देव । 10

घत्ता—साहिज्जइ केण धरिज्जइ एहु पयंहु महाबलु ॥

पहरंवे जिह णहु चंदे तिह परं मंडिउं णियंकुलु ॥ ६ ॥

7

को पावइ तेरी वीर छाय
लइ लइ जीवंसजसणिहाण
ता रोहिणेयजणणेण वुत्तु
हउं णउ गेण्हमि परपुरिसयारु
रायाहिराय जयलच्छिगेह
पहु पुच्छइ कुलु वज्जरइ कंसु
कोसंबीपुरि कल्लालणारि
तहि तणुरुहु हउं अच्चंतचंहु
मुक्कउ णियप्राणंहणियाइ
सूरीपुरि सेविउ चावसूरि
सहुं गुरुणा जाइवि धरिउ वीरुं
तं सुणिवि णरिंवें सीसु धुंणिउं

कालिंदिसेणसंइदेहजाय ।
मेरी सुय संतावियजुवाण ।
परमेसर परजंपणु अजुत्तु ।
एयहु कंसें किउं बंधणारु ।
दिज्जउ कुमारि एयहु जि एह । 5
णउ होइ महारउ सुद्ध वंसु ।
मंजोवरि णामें हिययहारि ।
परडिंभमुं डि घल्लंतु दंहु ।
मायइ दुपुत्तणिव्विणियाइ ।
अब्भंसिउ मइं वि धणुवेउ भूरि । 10
अवलोयहि पासंकियसरीरु ।
एयहु कुलु एउं ण होइ भणिउं ।

घत्ता—रणतंत्तिउ णिच्छउ खत्तिउ एहु ण पंरु भौंविज्जइ ॥

कुलु सब्बहु णरहु अउव्वहु आयारेण मुणिज्जइ ॥ ७ ॥

५ AB °परवंचणु. ६ B जहु. ७ AP कम्मणिबंधणेण. ८ APS पेच्छिवि. ९ A णिययकुलु.

7. १ P °सय°. २ PS कउ. ३ B मंजोवरि. ४ AP °पाण°. ५ PS मायाए. ६ S सउरी°. ७ A अब्भासिउ. ८ BSAIs. धीर. ९ S धुणीउं. १० A रणतंत्तिउ. ११ B पर. १२ AP चित्तिज्जइ.

6 a °अंगोवंगं अङ्गोपाङ्गानि. 8 a आ वी लि वि आपीब्ब्य; b जी या सा ध णे ण जीविताशया थनाशया च. 11 एहु सिंहरथस्य.

7 1 b कालिंदिसेणं कालिंदसेना जरासंधस्य राज्ञी. 3 a रोहिणेयजणणेण बलभद्रपित्रा वसुदेवेन. 4 a °पुरिसयारु पौरुषम्; b एयहु सिंहरथस्य; बंधणारु बन्धनम्. 8 b °मुं डि मस्तके. 9 a °अहणियाइ उद्विग्नया. 10 a चावसूरि वसुदेवः. 11 b पासंकियसरीरु बन्धनचिह्नितः. 13 रणतंत्तिउ रणचिन्तायुक्तः; पर अन्यो न क्षत्रियं विना. 14 अउव्वहु अपूर्वस्य अज्ञातस्य; आ यारेण आकारेण आचारेण वा.

8

इय पडुणा भणिवि किसोयरीहि
 तें जाईवि महुआरिणि पवुत्तें
 किं भासियाइ बहुयेंइ कहाइ
 सुयणामें कंपिय जणणि केव
 सा चितइ णउ संवरइ चित्तु
 हकारउ आयउ तेण मज्झु
 इय चैविवि चलयि भयथरहरंति
 दियहेहिं पराइय रायवासु
 राएण भणियं तंउं तणउ तणउ
 ता सा भासइ भयभावखेइ
 ओहच्छइ पयडु तणिय माय
 कलियारउ सइसवि सिंसु हणंतु
 मेरउ ण होइ मुक्कउ गुणेहिं

पेसिउ दूयउ मंजोयरीहि ।
 पइं कोकइ पडु बहुबंधुजुत्त ।
 अच्छइ तेरउ सुउ तहिं जि माइ ।
 पवणंदोलिय वणवेळि जेव ।
 किउं पुत्तें काइं मि दुच्चरित्तु । 5
 बज्झउ मारिज्जउ सो जि वज्झु ।
 मंजूस लेवि पहि संवरंति ।
 दिट्टउ णरवइ साहियदिसांसु ।
 इहु कंसवीरु जगि जैणियपणउ ।
 कार्लिदिहिं मइं मंजूस लद्ध । 10
 हउं तुम्हहं सुद्धिणिमित्तु आय ।
 णीणिउ घराउ विण्णिउ चवंतु ।
 जोइय मंजूस वियक्खणेहिं ।

घत्ता—तहिं अच्छिउं पत्तु णियेच्छिउं जयसिरिमाणिणिमाणिउ ॥

सुहदिट्ठिहिं णरवइविट्ठिहिं णत्तिउ लोएं जाणिउ ॥ ८ ॥ 15

9

पवरुग्गसेणपोभावईहि
 इय वइयरु जाणिवि तुट्टु णाहु
 ससुरेण भणिउं वरवीरवित्ति

सुउ कंसु एहु सुमहासईहि ।
 जीवंजस दिण्णी किउं विवाहु ।
 जा रुच्चइं सा मग्गहि धरित्ति ।

8 १ S जोएवि; K जोइवि in second hand. २ A पउत्तु; B पउत्तु; P पउत्त. ३ AB
 ०जुत्त. ४ AP बहुलइ. ५ AP भरिवि. ६ A संवरंति. ७ AKP ०दसासु; but gloss in K साधित-
 दिशामुखः. ८ P भणिउ. ९ A तुह; BAls. कहो; Als. considers तउ to be a mistake in
 PS for कहु. १० B जगजणिय०. ११ P भयताव०. १२ A एह अच्छइ; P प्रहत्थइ.
 १३ B णिवच्छिउं.

9 १ S ०पउमावईहि. २ S जाणवि. ३ S कउ. ४ A बहुवीरवित्ति; B वरु वीरवित्ति.
 ५ A रुच्चइ ता. ६ B धरत्ति.

8 2 a जा इ वि मिलित्वा; महु आ रि णि कल्लाली (मद्यविक्रयिणी); b बहुबंधुजुत्त बहु-
 कुट्टुम्भयुक्ता. 3 b सा हि य दि सा सु साधितदिशामुखः. 9) a तउं तणउ तणउ तव संबन्धी तनयः.
 11 a ओहच्छइ एषा मज्झा तिष्ठति; b सुद्धिणिमित्तु वृत्तान्तं कथयितुम्. 12 a कलियारउ
 कलहकारी; सइसवि शिशुत्वे बालावस्थायाम्. 15 णत्तिउ पौत्रः, उग्रसेनपुत्रः.

जामापं वुत्तु गिरुत्तवाय
महिमंडलसहिय महाभडासु
सहुं सेण्णं उग्गयधरणिपंसु
अविणीयजीर्यजीविउ हरंतु
वेढिय महुराउरि दुद्धरेहिं
अट्टालय पांडिय दलिउ कोट्टु
अक्खिउ णेरहिं गंभीरभाव
जो पइं कालिदिहि घित्तु आसि

घत्ता—आयण्णिवि रिउ तणु मण्णिवि दाणु देतु णं दिग्गउ ॥

संणज्झिवि हियइ विरुज्झिवि उग्गसेणु पडु णिग्गउ ॥ ९ ॥

महुं महुर वेहि रायाहिराय ।
साँ दिण्ण तेण रापण तासु । 5
णियवंसहुयासणु चलिउ कंसु ।
दिवंसेहिं पत्तु मच्छरु वहतु ।
हत्थिहिं रहेहिं हरिकिकरेहिं ।
सांडिउ पुररक्खणणरमरट्टु ।
आयउ तुज्झुप्परि पुत्तु देव । 10
एवहिं अवलोयहि णियभुयासि ।

10

संचोइयणाणावाहणाहं
करमुक्कसूलहलसव्वलाहं
घोलंतअंतमालाचलाहं
पडिदंतिदंतलुयमयगलाहं
सांडियसरत्तमुत्ताहलाहं
णिवडंतहं मुच्छाविभलाहं
अइदूसहवणवेयणसहाहं
दरिसावियदेहवसांवहाहं
अवलोइयकरधणुगुणाकिणाहं ।
ता उग्गसेणु वाहियगइंदु
बोलाविउ रूसिवि तणउ तेण
गब्भत्थे खद्धउं मज्जु मासु

जायउ रणु दोहिं मि साहणाहं ।
ददधरियाउंचियकुंतलाहं ।
पवहतपहरसंभवजलाहं ।
असिवरदारियकुंभत्थलाहं । 5
दोखंडियकमकाडियलगलाहं ।
णारायणियरछाइयणहाहं ।
भडभिउडिभंगभेसियगहाहं ।
णीसारियणियणरवहरिणाहं ।
धाइउ सेहुं गिरिणा णं मइंदु । 10
किं जापं पइं णियकुलवहेण ।
तुहुं महुं ह्यउ णं दुंमि हुयासु ।

७ AP ता. ८ B जीव°. ९ ABPS दियहेहिं. १० B वाडिय. ११ A सांडिउ पुररक्खणु णरमरट्टु; BAls. णिद्धाडिउ पुररक्खणमरट्टु; S सांडिउ पुररक्खणभडमरट्टु. १२ A चरेहिं.

10 १ APS दोहं मि. २ S read from here down to line 10 the text in a confused manner. ३ S लोलंत°; K लोलंत° in second hand. ४ B पवहत°. ५ BAls. प्राडिय°. ६ A °सरंत°. ७ S °भिभलाहं. ८ S इय दूसह°. ९ AP °वसावयाहं. १० AP वाहेवि गयंदु. ११ AP णं सहुं गिरिणा मइंदु. १२ AP दुमु हुवासु.

9 4 a गिरुत्तवाय सत्यवाक् त्वम्. 6 a उग्गयधरणिपंसु उच्छ्रितभूधूलिः सैन्यगमनात्. 7 a अविणीयं शत्रवः. 8 b हरि अश्वः. 9 a कोट्टु सालः प्राकारः; b सांडिउ पातितः.

10 3 b °पहरसंभव° प्रहारोत्पन्नम्. 5 a °सरत्त° सरधिराणि. 6 b णारायं बाणाः. 7 a °वणवेयण° वणवेदना. 10 b मइंदु सिंहः. 11 b जापं जातेन उत्पन्नेन. 12 b दुंमि वृक्षे.

घत्ता—विधंतें समरि कुपुसैं उग्गसेणु पष्कारिउ ॥
जो पेल्लइ पाणिइ घल्लइ सो महु बप्पु वि वहरिउ ॥ १० ॥

11

बोल्लिज्जइ एवहिं काइं ताय
गज्जंतु महंतु गिरिंदंतुगु
पहरणइं णिवारिय पहरणेहिं
णहयलि हरिसाविउ अमरराउ
पडिगयकुंभत्थलि पाउ देवि
असिघाउ देंतु करि धरिउ ताउ
आवीलिवि भुयवलएण रुद्धु
तेत्थु जि पोमावइ माय धरिय
ईय भणिय बे वि ससिकंतकंति
असिपंजरि पियरइं पावएण
थिउ अप्पुंणु पिउलच्छीविलासि
लेहें अक्खिउं जिह उग्गसेणु
पइं विणु रज्जेण वि काइं मज्झु
तो^३ महु णरभवजीविउं णिरत्थु

परिहच्छ पउर वे देहि घाय ।
ता चोइउ मायंगहु मयंगु ।
पहरंतहिं सुयजणणेहिं तेहिं ।
उड्ढिवि कंसैं णियगयवराउ ।
पुरिमासणिल्लभडसीसु लुंणिवि । 5
पंचाणणेण णं मृगु वराउ ।
पुणु वीहणायपांसेण बडु ।
किं तुहु मि जणणि खल कूरचरिय ।
णिहियइं णियमंदिरिं गोउरंति ।
चिरभवसंचियमलभावएण । 10
लेहारउ पेसिउ गुरुहि पासि ।
रणि धेरिवि णिबद्धउ णं करेणु ।
जइ वयणु ण पेच्छमि कंहिं मि तुज्झु ।
आवेहि देव उड्ढियेंउ हत्थु ।

घत्ता— तें वयणें रंजियसयणें संतोसिउ सामावइ ॥ 15
गउ महुहरि वियलियविहुरहि सीसुं तासु माणि भावइ ॥ ११ ॥

12

लोपं गाइज्जइ धरिवि वेणु
तहु तणिय धूर्यं तिहुर्वेणि पसिद्ध

जो पित्तिउ णामें देवसेणु ।
सामा वामा गुणगामणिद्ध ।

11 १ P परिहत्थु; S परिहत्य. २ S गिरिंदु. ३ B चोयउ. ४ APS णिवारिवि. ५ AP सीसु लेवि. ६ BP मिगु; S मिग. ७ S वासेण. ८ S इह भणिवि. ९ P मंदिर°. १० APS.अप्पणु. ११ S धरिवि. १२ APS कह व. १३ B ता. १४ B ओडियउ; P ओडियउ. १५ B तासु सीसु.
12 १ B धीय. २ B तिहुवण°.

11 1 b परिहच्छ शीघ्रम्. 5 पुरि मा स णि ल्ल° अयासनस्थस्य. 6 a ता उ पिता उग्रसेनः. 7 a आ वी लि वि आपीड्य. 9 a स सिकंतकंति चन्द्रकान्तमनोहरे; b गो उरंति गोपुरप्राङ्गणे. 11 a पिउलच्छी विलासि पितृलक्ष्मीविलासे. 14 b उड्ढिय उ हत्थु प्रार्थनानिमित्तं उर्ध्वीकृतः. 15 सा मा व इ वसुदेवः. 16 सीसु शिष्यः कंसः वसुदेवस्य मनसि रोचते.

12 1 b पित्तिउ कंसस्य पितृव्यः देवसेनः. 2 b तहु तणिय धूर्य (हरि) कुरुवंशोत्पन्ना देवसेनेन पोषिता देवकी इति भारते प्रसिद्धम्; b वा मा मनोहरा; गुण गामणिद्ध गुणसमूहसिन्ध्वा.

रिसिहिं मि उक्कोइयकामबाण
सा गियसस गुरुदाहिण भणेवि
सुहुं भुंजमाण गिसिवासरालु
ता अण्णहिं दिणि जिणवयणवाइ
पिउबंधणि चिरु पावइउ वीहँ
चरियइ पइट्टु मुणि दिहु ताइ
दक्खालिउ देवइपुप्फचीरु
जरसंधकंसजसलंपडेण
होसइ एउं जि तुह दुक्खहेउ

देवइ णामें देवयसमाण ।
महुराणाहें दिण्णी थुणेवि ।
अच्छंति जाव परिगलइ कालु । 5
अइमुत्तउ णामें कंसभाइ ।
णिप्पिहु आमेल्लिवि गियसरीरु ।
मेहुणउ हसिउ जीवंजसाइ ।
जइ जंपइ जायकसायहीरु ।
मारेवां एपं कप्पडेण । 10
मा जंपहि अणिवद्धउं अणेउ

घत्ता—हयसोत्तउं मुणिवरवुत्तउं गिसुणिवि कुसुमविलित्तउं ॥
तं चीवरु सज्जणदिहिहरु मुद्धइ फौडिवि घित्तउं ॥ १२ ॥

13

रिसि भासइ पुणु उज्झियसमंसु
ता चेलु ताइ पाएहिं छुण्णुं
तुह जणणु हणिवि राणि दढभुपण
गउ जइवरु वासु विलोसियासु
पुच्छिय पिपण किं मल्लिणवयण
तो सा पडिजंपइ पुण्णजुत्तु
णिहणेव्वउं तें तुहुं अवरु ताउ
ता चितइ कंसु गिसंसियाइं

कण्हें फौडेवउ एम कंसु ।
पुणरवि मुणिणा पडिवयणु दिण्णु ।
भुजेवी महि एयहि सुपण ।
जीवंजस गय भत्तारपासु ।
किं दीसहि रोसारत्तणयण । 5
होसइ देवइयहि को वि पुत्तु ।
महिमंडलि होसइ सो जि राउ ।
अलियइं ण हौंति रिसिभासियाइं ।

३ B उक्कोयइ कामबाण; PS उक्कोइयकुसुमबाण. ४ BP भुंजमाण. ५ A अच्छंतु. ६ AB परिगलिय^०; S पडिगलइ. ७ BPS धीरु. ८ APS आमेल्लिय^०. ९ A जरसिंध^०; P जरसंध^०. १० A मारेव्वा. ११ S फालिवि.

13 १ PS फालेवउ. २ P चुण्णु. ३ P पुणुरवि. ४ S भुंजेवि मही. ५ AP विणासि-
आसु. ६ P मल्लियवयण. ७ A सा पडिजंपइ तुह पुण्णजंतु. ८ S णीसंसियाइं.

३ a उक्को इ य^० उत्पादितः. 4 a गिय स स निजभगिनी; b महुराणाहें कंसेन. 5 a गि सि वा स रा लु
रात्रिदिवसयुक्तः कालः. 7 b आ मे ल्लि वि गि य स री र शरीराशां मुक्त्वा. 8 b मे हु ण उ देवरः अति-
मुक्तकः. 9 a दे व इ पु प्फ ची र देवकीरजस्वलावस्त्रम्; b ज इ यतिः; जा य क सा य ही र जातकपायशल्यः.
11 b अणेउ अज्ञेयं वचः. 12 हयसोत्तउं हतकर्णम्; कुसुमविलित्तउं रजस्वलारक्तेन लिप्तम्.

13 1 a उ ज्झिय स मंसु त्यक्तोपशमलेशः. 3 b ए य हि सु ए ण देवक्याः पुत्रेण. 4 a विल-
स या सु बर्धितवाञ्छम्. 7 a ता उ तातो जरासंधः. 8 a गि सं सि या इं नृप्रशस्तानि.

णिहुउ वि पवण्णउ कंसुं तेत्थु अच्छइ वसुएउ णरिंदु जेत्यु ।
 घत्ता—सो भासइ गुञ्जु पयासइ संगुरुहि खयभयंजरियउ ॥ 10
 हरिसंदणु कयकडमदणु जइयहुं मइं राणि धरियउ ॥ १३ ॥

14

तइयहुं मेहुं तूसिवि मणमंणोज्जु वरु दिण्णउ अवसरु तासु अज्जु ।
 जापं केण वि जगरुंभएण हउं णिहणेव्वउ ससडिंभएण ।
 इय वायागुत्तिअगुत्तएण भासिउं रिसिणा अइमुत्तएण ।
 जइ वरु पडिवज्जहि सामिसालं परबलदलव्वट्टणबाहुडाल ।
 णाहीपएसविलुलंतणालु जं जं होसइ देवइहि बालु । 5
 तं तं हउं मारमि म करि रोसुं जइ मण्णहि णियवायाविसेसु ।
 ता सच्चवयणपालणपरेण तं पडिवण्णउं रोहिणिवरेण ।
 गउ गुरु पणवेप्पिणु घरहु सीसु माणिणिइ पबोल्लिउ माणिणीसु ।
 वरकंतहं सत्तसयाइं जासु दुक्कालु ण पुत्तहं तुज्जु तासु ।
 मइं जाणेव्वउं धेयणवसाहि दुक्खेण तणय होहिंति जाहि । 10

घत्ता—सुय मारिवि दुज्जण धीरिवि णाह म हियवउं सल्लहि ॥
 हो णेहें हो महु गेहें लेमिं^० दिक्खं मोकल्लहि ॥ १४ ॥

15

परंताडणु पाडणु दुण्णिणरिक्खु किह पेक्खेमि डिंभहं तणउं दुक्खु ।
 मइं मेल्लहि सामिय मुयमि संगु जिणसिक्खइ भिक्खइ खवमि अंगु ।
 वसुएउ भणइ हलि गुणमहंति गइ मज्जु तुहारी णिसुणि कंति ।

१ B णिसुउ जि.; P णिहुयउं जि. १० APS राउ. ११ A सुगुरुहे; B ससुरहिं. १२ A ^०भयजजरिउ; B ^०भयजरिउ. १३ S हरिदंसणु. १४ S ^०कडवंदणु.

14 १ P पदं. २ P महो मणोज्जु. ३ A ^०अगुत्तिएण. ४ A ^०मुत्तिएण. ५ P.सामिसाल. ६ S ^०दलव्वहण^०. ७ P ^०पवेसे. ८ AP दोसु. ९ B जण्णेव्वउ in second hand. १० A लेवि. ११ P दिख.

15 १ A सिलताडणु. २ A मारणु; BP फाडणु. ३ B पिक्खमि; PS पेक्खेमि. ४ B मिल्लिहि. ५ AP दिक्खइ.

9 a णिहुउ वि निभृतोऽपि, विनीतोऽपि. 10 खयभयजरियउ मरणभयज्वरयुक्तो जातः. 11 हरिसंदणु सिंहरथः; कयकडमदणु कृतकटकभञ्जनः.

14 2 b ससडिंभएण भगिनीपुत्रेण. 3 a वायागुत्तिअगुत्तएण वचोगुत्तिरहितेन. 8 a सीसु कंसः; b माणिणिइ देवक्या; माणिणीसु मानवतीनां स्त्रीणां स्वामी वसुदेवः. 9 a वरकंतहं वरस्त्रीणाम्.

15 2 a मुयमि संगु मुञ्जामि परिग्रहम्. 3 b कंति हे भायें.

जह सिसु पर्यहु मारहुं ण वेमि
हम्मंतउ बालु सलोयणेहि
सालिलंजलि रयँरससुहहु देहुं
वइववसें वइयादइयएहिं
णैउ पुत्तुप्पत्ति ण तासु भंसु
इय ताइं वियप्पिवि थियइं जांव
णियँच्चित्ति संख मुणि परिगणंतु
बहुँवारहिं मुँक णमोत्थुवाय
भुँजिवि भोगणु तवँपुण्णवंतु

घत्ता—मुणि जंपिउ किं पँइं विप्पिउं पहरँणैसुरि पघोसइ ॥

घरि जं सइ डिंभु जणेसइ तं जि कंसु पँहणेसइ ॥ १५ ॥

तो हउं असच्चु जणमज्झि होमि ।
किह जोएसमि दुहभायणेहिं । 5
तवचरणु पहांयइ बे वि लेहुं ।
अम्हइं वोहिं मि पावँइयएहिं ।
मारेसइ पच्छइ काइं कंसु ।
बीयइ दिणि सो रिसि दुक्क तांव ।
बलएवजणणभवणंगणंतु । 10
पडिगाहिउ जइवरु घोय पाय ।
मुणिवरु णिसण्णु आसीस देंतु ।

16

मइं तहु पडिवण्णउं एउ वयणु
होहिंति ससहि जे सत्त पुत्त
अण्णत्त लहेप्पिणु बुँडिसोकखु
सत्तमु सुउ होसइ वासुएउ
जं एम भणिवि जिणपयदुरेहु
तं वो वि ताइं संतोसियाइं
कालें जंतें कयगँभछाय
इंदाणइ देवें णइगमेण

घत्ता—थिरचित्ताहि जिणवरंभत्ताहि वररयणसँयरिद्धिहि ॥

घणथणियहि पुँत्तथिणियहि दविणसमूहसमिद्धिहि ॥ १६ ॥ 10

ता पडिजंपइ णिम्महियमयणु ।
ते ताहं मज्झि मलपडलवत्त ।
छइं चरमदेह जाहिंति मोकखु ।
जरँसंधहु कंसहु धूमकेउ ।
गउ झ त्ति दियंबरु मुक्कणेहु । 5
णं कमलइं रवियरवियसियाइं ।
सिसुजमलइं तिणिण पसूय माय ।
भहियपुरवरि सुँहसंगमेण ।

६ A एहो. ७ BPS रइरस°. ८ B तवयरणु. ९ B पहाएं; K पहावें but gloss प्रभाते.
१० B पव्वइयएहिं. ११ S ण य. १२ A णियवित्तिसंख. १३ A बहुवारहिं वि. १४ P विगुक्क.
१५ A णवपुण्णवंतु. १६ P पँइं किं. १७ B पहणेसुरि. १८ A णिहणेसइ.

16 १ AP पुत्त सत्त. २ AP अण्णत्थ. ३ A बुद्धिसोकखु; P बुद्धिसोकखु; S बुद्धिसोकखु.
४ A छचरमदेह. ५ BS जरसंधहो. ६ S वे वि. ७ A कयअंगछाय. ८ S सुहिसंगमेण. ९ A
°मत्तिहे. १० PS °रिद्धे. ११ K पुत्तथणियहि.

5 a स लो य ने हिं स्वनेत्रैः. 6 a रयरससुहहु रतरससौख्यस्य; देहुं दातुम्; b लेहुं गल्लीमः. 7 a
दइयादइयएहिं बधुवैरैः. 8 a तासु पुत्रस्य. 10 a संख गृहसंख्यां वृत्तिपरिसंख्यानम्; b °भवणं-
गणंतु °प्राङ्गणमध्ये. 11 a बहुवारहिं पुनः पुनः. 13 पहरणसुरि वसुदेवः. 14 सइ सती देवकी.

16 2 a ससहि स्वसुदैवक्याः; b ताहं तेषां सप्तानां मध्ये. 5 a °दुरेहु अमरः. 6 b रवि-
यर° रविक्रिणाः. 7 a °छाय शोभा.

17

वेणिवरसुयाहि ते दिण्ण तेण
 बालहं सुरवेडव्वणकयाहं
 अप्फालह सिंलहि ससंकु झ ति
 अण्णहिं दिणि पंकयवयणिशाह
 करिरत्तसिसुं कंजंतु घोर
 महिहरसिहराहं समारुहंतु
 उयंयंतु भाणु सियभाणु अवर
 णियरमणहु अक्खिअं ताह दिहु
 हलि णिसुणि सुअणफेळु ससहरासि
 अहमुत्तमहारिसिवयणु दुहु
 णिण्णार्मणामु जो आसि कालि
 थिउ जणणियरि संपण्णकुसलु

वेहाविउ णियजीवियवेसेण ।
 मडुराहिउ जहु मारह मयाहं ।
 ण वियाणह अप्पाणहु भविसि ।
 णिसि देविह मउलियणयणियाह ।
 दिट्टुउ सिविणह केसरिकिसोर । 5
 अवलोहउ गोवह देहंरंतु ।
 सरु फुल्लकमलु परिभामियभमरु ।
 तेण वि णिअप्फलु ताहि सिट्टु ।
 हरि होसह तेरह गम्भवासि ।
 ता मेळिवि सग्गु महाहसुहु । 10
 सो देउ आउ गयणंतरालि ।
 सुहुं जणह णाहं णवणलिणि भसलु ।

घसा—सुच्छीयह बांहरि आयह जाणमि वेणिं वि कालिय ॥
 किं खलमुह अवर वि उररुह पुरलोपण णिहालिय ॥ १७ ॥

18

किं गम्भभावि पंडुरिउं वयणु
 किं पेयउ सइतिवलिउ गयाउ
 सिंसुअवयवेहिं किं भरिउं पेहु
 किं जायउ णिंहु मयच्छिकाउ

णं णं जसेण धवलियउं भुवणु ।
 णं णं रिउजयलीहउ हयाउ ।
 णं णं दुत्थियकुलधर्णविसट्टु ।
 णं णं हउं मण्णमि भूमिभाउ ।

17 १ P वणे. २ B °वसेण. ३ B °सित्त. ४ B टिकरंतु. ५ B उवयंतु. ६ A पुष्पकमलु.
 ७ A अवनु छणसस°; P सिविणफलु; S सुहणफलु. ८ S णिण्णामु णाम. ९ PAls. संपुण्ण°. १० P.
 सुयच्छायए. ११ B बाहिर. १२ S वेणिण मि.

18 १ S गम्भभाव°. २ B किं तासु उयरतिव° in second hand. ३ S °धणु. ४ S णिद्ध.

17 1 b वेहा विउ वञ्चितः. 2 b मया हं मृतान्यपि. 3 a ससंकु समयः. 7 a सिय भाणु
 चन्द्रः. 8 b णिअप्फलु निअपलम्. 9 a सुअणफलु स्वप्नफलम्; ससहरासि चन्द्रवदने. 10 b महा-
 हसुहु महाशुकं स्वर्गं मुक्त्वा. 12 a संपण्णकुसलु परिपूर्णकुशलः. 13 सुच्छायह बाहिरि आयह
 सुट्टु छायाया बहिर्निर्गतया; वेणिण वि शत्रू (कंसजरासंधौ) स्तनौ च कृष्णमुखौ जातौ.

18 2 a सइतिवलिउ सत्याः उदररेखाः. 3 a पेहु उदरम्. b °कुलधण विसट्टु कुल-
 धनसमूहः. 4 a मयच्छिकाउ मुगाक्ष्याः. शरीरम्; b भूमिभाउ भूपदेशोऽपि कान्तिमान् जातः.

किं रोमराइ णीलसु पत्तं
सीयलु वि उण्हु किं जाउ देहु
किं माय समिच्छइ नृवंपहुसु
किं मेइणिभक्खणि इच्छ करइ
किं दुक्कउ तंहि सत्तमउ मासु
किं उप्पणणउ भदिउ विरोउ

णं णं खलकिसि सिर्यंसचत्त
णं णं किर पुत्तपयाउ प्हु ।
णं णं तंत्तणुजायंहु चरिसु ।
णं णं तं केसंउ धरणि हरइ ।
णं णं अरिवरगलकालपासुं ।
णं णं पडिभइकामिणिहिं लोउ । 10

घत्ता—दणुमइणु जणिउ जणइणु जणणिइ भरइत्तेसर ॥
सपर्यंवे कंतिपहावे पुप्फदंतभाणिहिहर ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकरपुप्फयंतविरइय
महाभवभरहाणुमणिणय महाकव्वे वंसुपवजम्मणं
णाम चउरासीमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८४ ॥

५ BP पत्तु. ६ BP सियत्तु चत्तु. ७ AB णिव°; P णिय°. ८ APS तं तणु°. ९ A °जायउ.
१० S केसु. ११ A णदे. १२ AP °कालवासु. १३ AP ससहावे. १४ A कंसकण्हउप्पत्ती; S कंस-
कण्हुप्पत्ती. १५ S चउरासीतिमो.

5 b सियत्तचत्त श्वेतस्वरहिता. 7 a नृवपहुत्तु छत्रचमरसिंहासनादिकं दौहदं वाच्छति. 8 a मेइणि-
भक्खणि दोहलकवशान्मृत्तिकाभक्षणे. 10 a भदिउ विष्णुः; विरोउ रोगरहितः.

केसुं कसणतणु वसुपवें हयणियवंसहु ॥
उच्चाइवि लइउ सिरि कालवंडु णं कंसहु ॥ ध्रुवकं

1

दुवई—णं हरिवंसंघंसणवजलहरु णं रिउणयणतिमिरिओ ॥

जोइउं दीवपण हरि मायइ णं जगकमलमिहिरओ ॥ छ ॥

कण्डु मासि सत्तमि संजायउ	मारणकंखिरु कंसु ण आंयउ ।	5
हउं जाणमि सो दइवें मोहिउ	महिवइलक्खणलक्खपसाहिउ ।	
लइयउ वासुएउ वसुपवें	घरिउं वारिवारणु बलपवें ।	
णिसि संचलियं छत्ततमणियरें	ण वियाणिय णिरु कूरें इयरें ।	
अग्गइ दरिसियतिमिरिविहंगिहिं	वच्चइ वसहु पुरंतहिं सिंगहिं ।	
को वि परांइउ अमरविसेसउ	कालहि कालिहि मग्गंपयासउ ।	10
देवयचोइं आवयकुंठइ	लग्गइ माहवचरणंगुट्टइ ।	
जमलकवाडं गाढविइण्णं	विहडियाइं णं वइरिहि पुण्णइं ।	
कुलिसायसवलयंकियपां	बोह्लिउं सुमहु महु राराणं ।	
छत्तालंकिउ को किर णिग्गंइ	को णिसिसमइ दुवारहु लग्गंइ ।	
भासइ सीरि ससि व सुहवंसणु	जो तुह णिविडंणियलविद्धंसणु ।	15
जो जीवजसवइविदांणु	पोमावइंकरमरिमेह्लावणु ।	
सो णिग्गउ तुह सोक्खजणेउ	उग्गसेण नुंव अच्छहि सेरउ ।	

घत्ता—पंव भणंत गय ते हरिसैं कहिं मि ण माइय ॥

णयरहु णीसरिवि जउणाणइ झ स्ति पराइय ॥ १ ॥

1 १ PS केसु. २ B उच्चाइय. ३ AP हरिवंसकंदणव°. ४ P °तमरओ. ५ B जोयउ. ६ S आइउ. ७ S वासुएउ. ८ S संचरिय. ९ AP पधाविउ. १० A मग्गु पयासिउ; BP मग्ग-पयासिउ. ११ P चोइय. १२ A आवयकुंठए; B आवयकुंठए. १३ A समहुइ. १४ A णिग्गउ. १५ A लग्गउ. १६ B णिवडणियल°. १७ AP °विहारणु. १८ ABPS °करिमरि°. १९ AP णिव; B णिवु.

1 1 हयणि यवंसहु हतनिजवंशस्य कंसस्य यमदण्ड इव. † दीवए ण दीपतेजसा; °मिहिरओ सूर्यः. 7 b वारिवारणु छत्रम्. 8 a छत्ततमणियरें छत्रच्छायया; b इयरें कंसेन. 9 a °विहंगिहि °विभङ्गैः विनाशकैः; b वसहु वृषभः. 10 b कालहि कालिहि कृष्णायां रात्रौ; मग्गपयासउ मार्ग-प्रकाशकः. 11 a देवयचोइइ देवताप्रेरिते; आवयकुंठइ आपदाविनाशके. 13 b महु राराणं उग्रसेनेन. 15 b णिविडणियल° गाढशृंखला. 16 a जीवजसवइ° कंसः; b °करमरिमेह्लावणु बन्दिनीमोचकः. 17 b सेरउ (स्वैरं) मौनेन.

2

दुवई—ता कार्लिदि तेहिं अवलोइय मंथरवारिगामिणी ॥

णं सरिरुडु धरिवि थिय महियलि घणतमजोणि जामिणी ॥ छ ॥

णारायणतणुपहपंती विव

महिमयणाहिरइयरेहा इव

मंहिहरदंतिदाणरेहा इव

वसुहणिलीणमेहमाला इव

णं सेवालवाल दक्खालइ

गेरुयर्सु तोउ रत्तंबर

किंणरिथणसिहरइं णं दावइ

फणिमणिकिरणहिं णं उंज्जोयइ

भिसिणिपत्तथालेहिं सुणिम्मल

खलखलंति णं मंगलु घोसइ

णउ कासु वि सामण्णहु अण्णहु

विहिं भाईहिं थक्कउ तीरिणिजलु

अंजणगिरिवरिंदकंती विव ।

बहुतरंग जरहयदेहा इव ।

कंसरायजीवियमेरा इव ।

साम समुत्ताहल बाँला इव ।

फेणुप्परियणु णं तहि घोलइ ।

णं परिहइ चुयकुसुमहिं कब्बुरुं ।

विब्भमेहिं णं संसउ भावइ ।

कमलच्छिहिं णं कण्हु पलोयई । 10

उच्चोइय णं जलकणतंडुल ।

णं माहवहु पक्खु सा पोसई ।

अवसें तूसइ जवण सर्वण्णहु ।

णं धरंणारिविहत्तउं कज्जलु ।

घत्ता—दरिसिउं ताइ तर्लुं किं जाणहुं णाहहु रत्ती ॥

15

पेक्खवि महुमहेणु मयणे णं सैरि वि विगुत्ती ॥ २ ॥

2 B पविलोइय. २ P सरिरुड. ३ AP read 4 b as 5 a. ४ A जलहरदेहा; P जल-
धरवेला. AP read 5 a as 4 b. ६ A सोम. ७ AB माला इव. ८ AP रत्ततोय रत्तंबर. ९ AP
कब्बुर; B कब्बुरु. १० A भउइउ. ११ B उज्जोवइ. १२ B पलोवइ. १३ A उच्चयइ. १४ P
घोसइ. १५ A समुण्णहो. १६ BS भायहिं. १७ A धरणारिहि हित्तउं; P धरणारिविहत्तउं. १८ A
तणुं. १९ A °महणु णं मयणेण व सरी विव गुत्ती. २० P णं व सरि वि. २१ B विगुत्ती.

2 घणतमजोणि जामिणी कालरात्रिः. 4 a महिमयणाहिरइयरेहा इव भूमेः कस्तूरिका-
रेखा इव; b जरहयदेहा वृद्धावस्थया वलीयुक्तदेहा. 5 a महिहरदंति° गिरिरेव गजः; b °मेरा
मर्यादाः 6 b साम श्यामा; समुत्ताहल नदीमध्ये शुक्तिकायां मुक्ताफलानि वर्तन्ते. 7 a सेवालवाल
शैवालमेव केशाः; b फेणुप्परियणु फेन एव उपरितनं वल्लम्. 8 a तोउ तोयं जलम्; रत्तंबर रत्त-
वल्लम्. 9 विब्भमेहिं जलभ्रमः भ्रान्तिश्च; संसउ संदेहः. 10 b कमलच्छिहिं कमलनेत्रैः. 13 b
जवण यमुना सदशवर्णस्य हरेरेव तुष्यति कृष्णवर्णत्वात् महत्त्वाच्च. 14 b °विहत्तउं विभक्तम्. 15 तलु
नाभिः अधःप्रदेशश्च.

3

दुवई—णइ उक्तरिवि जांव थोवंतरु जंति समीहियासए ॥

दिट्टउ गंडु तेहिं सो पुच्छिउ णिक्कुडिलं समासए ॥ छ ॥

महु कंतइ देवय ओलगिय	धूय ण सुंदरं पुत्तु जि मगिय ।	
देविइ दिण्णी सुय किं किज्जइ	तहिं केरी लइ ताहिं जि दिज्जइ ।	
जइ सा तणुरुहु पडि महुं देसइ	तो पणइणिहिं आस पूरेसइ ।	5
णं तो गंधधूवैचरुफुल्लइं	चारुभक्खरूवौइं रसिल्लइं ।	
देमि ताम जा देवि णिरिक्खमि	ता हलहेइ भणइ सुणि अक्खमि ।	
लइ लइ लच्छिविलासरवणउ	एहु पुत्तु तुह देविइं दिण्णउ ।	
भंतिं म करहिं काइं मुहुं जोवहिं	मेरइ करि तेरी सुय ढोयहिं ।	
ता हियउल्लइ गंडु वियप्पइ	णरवेसेण भडारी जंपइ ।	10
लेमि पुत्तु किं पउरपलावें	परिपालमि सणेहसम्भावें ।	
एम च्चवेप्पिणु अप्पिय बाली	बलकरकमलि कमलसोमाली ।	
लइउ विट्ठु साणं दें गं दें	मेहु व आलिंगियउ गिरिं दें ।	
हुउ र्कयत्थउ गउ सो गोउलु	जणंय तणय पडिआया राउलु ।	
घत्ता—सुय छणससिवयण देवइयहिं पुरउ णिवेसिय ॥		15
केण वि किंकरिण णरणाहहु वत्त समासिय ॥ ३ ॥		

4

दुवई—पुरणहहंस कंस परघरिणिविलंबिरहारहारिणा ॥

जाया पुत्ति देव गुरुघरिणिहिं वहरिणि मलयदारुणा ॥ छ ॥

3 १ A सुंदर. २ BP °धूय°. ३ B °रूआइं. ४ S दिव्वए. ५ A omits म and reads करेहि for करहि. ६ AP भणेप्पिणु. ७ PS वरकरकमलि. ८ Als. सुकयत्थउ against Mss. ९ AS जणण तणय.

4 १ A °पलयदारुणा; P °पलयदारुणो.

3 1 थो वं त रु स्तो क मन्तरम्; स मी हि या स ए वाञ्छितवाञ्छया. 2 गंडु नन्दगोपः; णि कु डिलं निष्कपटम्. 5 a पडि महुं मां प्रति; b पण इ णि हि यशोदायाः. 7 a हलहेइ हलहेतिः बलभद्रः. 11 a पउरपलावें प्रचुरप्रलापेन. 12 b कमलसोमाली कमलवत् कोमला. 13 a विट्ठु विष्णुर्वासुदेवः; साणं दें सहर्षेण. 16 णरणाहहु कंसस्य.

4 1 पुरणहहंस हे नगरगगनसूर्य; °हारहारिणा हे हारहारिन्. 2 मलयदारुणा वसुदेवेन इति पौराणिकी संशा.

तं णिसुणेपिणु णरवइ उट्टिउ
तेण खलेण दुरियवसमिलियहि
तलहत्थे सरलहि कोमलियहि
रुद्धे विणोसिवि सुद्धे रउहे
सरसाहारगासापियवायइ
हूई णवजोव्वणसिगारे
सुव्वयस्संति सधम्मं समीरइ
णासाभगे रूद्धे विणट्टुं
णिग्गयं गय वयधारिणि होईवि
घोरेई धवलंबरइ णियत्थी
कुसुमहिं मालिय चैंउहिं मि पासहिं

जाइवि ससहि णिहेलणि संठिउ ।
छुडु जायहि णं अंबयकलियहि ।
चप्पिवि णासिय दिह्ण्णिलियेहि । 5
भूमिभवणि घल्लाविय खुहे ।
तहिं मि धीय वट्टारिय मायइ ।
भजइ णं टसे त्ति थणमारं ।
आउ जाहुं सुदैरि तउ कीरइ ।
जाणिवि सा दप्पणयलि विट्टुं । 10
थिय काणणि ससरीरु पमाइवि ।
जिणु झायंति पलंबियहत्थी ।
पुजिय णाहलसंमैरसहासाहिं ।

घत्ता—गय ते णियभवणु एँकली कण्ण णिरिक्खिय ॥

अरिइ सरंति मणि वणि भीमे वग्घे भक्खिय ॥ ४ ॥

15

5

दुवई—गय सा णियकण्ण सुरवरघरं अमल्लिणमणिपवित्तयं ॥

उव्वेरियं कैहं पि अलियल्लहि तीए करंगुलित्तयं ॥ छ ॥

तं पुज्जिउं णाहलकुल्लवाल्ले
अंगुलियाउ ताहि संकप्पिवि
गंधफुल्लचरुयहिं मणमोहे
दुग्ग विंझवासिणि तहिं हूई
एत्तहि केसंउ माणियभोयहि

कुहियउं सडियउं जंतं काले ।
लक्कंडलोहं विरइउं थप्पिवि ।
पुणु तिसूळु पुज्जिउ सवरोहे । 5
मेसहं महिसहं णं जमकूई ।
णंई जांइवि दिण्णु जसोयहि ।

२ P दिण्णेदिलियहो. ३ P रूउ. ४ S विणासवि. ५ B दसत्ति. ६ AP सुधम्म. ७ A सुंदर.
८ P रूउ. ९ S जाणंवि. १० B णिग्गय सावय°. ११ S होयवि. १२ S पमायवि. १३ A
धोइयधवलंबर°. १४ B चउहं मि; S चउहुं मि. १५ BPS °सवर°. १६ B एकली.

5 १ A °घरुममल्लिण°; B °घोर अमल्लिण°; P °वरु घरुममल्लिण°; S °घरुममल्लिण°. २ B
उद्वरियं. ३ PS कहिं पि. ४ B कुलवाल्ले; P कुलपाल्ले. ५ S लक्कुड°. ६ BP °लोहे. ७ P विरइय.
८ AP गंधधूयचरु°; BS गंधपुष्पचरु°. ९ S केसवु. १० P जायवि.

3 b ससहि भगिन्या देवक्याः. 4 b जायहि जातमात्रायाः; b दि ह्णि दि लिय हि बालायाः.
7 b तहिं मि भूमिमध्येऽपि. 11 b ससरीरु पमाइवि निजशरीरं मुक्त्वा कायोत्सर्गेण स्थिता.
12 a णियत्थी परिहिता. 13 a मालिय वेष्टिता.

5 1 णियकण्ण पुण्येन; सुरवरघरं स्वर्गम्. 2 अलियल्लहि व्याघ्रात्. 3 a तं तत् त्र्यङ्गुलम्;

°कुल वाल्ले कुलपालकेन; b. कुहियउ कुथितम्. 4 b थप्पिवि स्थापयित्वा.

णं मंगलणिहिकलसु मणोहरु
 णं थणघडहं तमालदलोहउ
 दामोयरु दुत्थियच्चिर्तामणि
 अरिणरमहिहरिदसोदामणि
 पविउलभुवैणंभोरुहदिणमणि
 घिपैइ णाहु पसारियहत्थहिं

सुहिकरकमलहं णं इंदिविरु ।
 छज्जइ माहउ माहउ जेहउ ।
 समरगहीरवीरचूडामणि । 10
 जणवसियरणकरणविज्जामणि ।
 णिर्येवि पुत्तु हरिसिय गोसामिणि ।
 णंदगोवगोवाल्लिणिसत्थहिं ।

घत्ता—गाइउ कल्लेवहिं आलाविउ ललियालावहिं ॥

वहइ महुमहणुं कहंथु जेम रसभावहिं ॥ ५ ॥

15

6

दुवई—धूलीधूसरेण वरमुक्कसरेण तिणा मुरारिणा ॥

कीलारसवसेण गोवालयगोवीहिययहारिणा ॥ छ ॥

रंगंतेण रमंतरमंते
 मंदीरउ तोडिवि आवट्टिउं
 का वि गोवि गोविंदहु लग्गी
 पयहि मोल्लुं देउ आल्लिगणु
 काहि वि गोविहि पंढरुं चेलउं
 मूढं जलेण काइं पक्खालइ
 थण्णरसिच्छिरु छायावंतउ
 मंहिससिलंबउं हरिणों धरियउ
 दोहउ दोहणहत्थु समीरइ
 कत्थइ अंगणभवणाल्लुइउ

मंथउ धरिउ भमंतु अणंतं ।
 अद्धविरोलिउं व्हिउं पलोट्टिउं ।
 एण महारी मंथंणि भग्गी । 5
 णं तो मां मेल्लुइ मे प्रंगणु ।
 हरितणुतेपं जायउं कालउं ।
 णियजडत्तु संहियहिं दक्खालइ ।
 मांयहि संमुहुं परिधावंतउ ।
 णं करणिबंधणाउ णीसरियउ । 10
 मुइ मुइ माहव कीलिउं पूरइ ।
 बालेवच्छु बालेण णिरुइउ ।

११ S माहसु माहसु. १२ B adds after 11 a: अणुदिणु परिणिवसइ सुहियणमणि. १३ A °भवणंभो°. १४ P णिएवि. १५ APS घेप्पइ. १६ BP कलरवेहिं. १७ A महमहणु.

6 १ A दरमुक्क°; S वरमुक्क. २ P आवट्टिउं. ३ A मंथिणि; S मत्थणि. ४ B मुल्लु. ५ A मा मेल्लउ घपंगणु; P महु पंगणु; S मेल्लउ मे प्रंगणु. ६ P पंढरु. ७ A मूढि. ८ B का वि. ९ AS सहियइं; P सहियहुं. १० P मायए. ११ ABPS महिसि°. १२ BP °सिलंबउ. १३ AP सिमुणा. १४ P णउ करबंधणाउ. १५ P चवल्लु वत्थु.

8 b इं दिं विरु भ्रमरः. 9 a °दलोहउ पत्रसमूहः; b माहउ लक्ष्मीभर्ता. 12 b गोसामिणि यशोदा.

6 4 a मंदीरउ लोहमयः अंकुशः (लोहनुं आंकहु); आवट्टिउं भ्रमम्. 5 b मंथणि दधिभाण्डम्. 8 a मूढ मूर्त्ता. 9 a थणरसिच्छिरु दुग्धस्वादेच्छया; छायावंतउ क्षुधावान्; b मायहि महिष्याः. 10 a °सिलंबउ शिशुः. 11 a दोहउ गोपालः. 12 b बालवच्छु तर्णकः.

गुंजासैदुर्यरथ्यपैओपं
कथइ लोणियपिंडु णिरिक्खउ

मेळाविउ दुक्खेहिं अंसोपं ।
कण्हं कंसहु णं जसु भक्खउं ।

घत्ता—पसरियकरयंलेहिं सइंतिहिं सुइंसुहंकारिणिहिं ॥

15

महिइ णियडि थिय घरयम्मु ण लग्गइ णारिहिं ॥ ६ ॥

7

तुवई—णउ भुंजंति गोव कयसंसय णिज्जियणीलमेहइं ॥

केसवकायकंतिपविलित्तइं दहियइं अंजणाहइं ॥ छ ॥

घयभोयाणि अवलोइवि भावइ

णियपडिबिंबु विट्टु बोलावइ ।

हसइ णंदु लेण्णिणु अवरुंडइ

तहु उरयल्लु परमेसरु मंडइ ।

अम्माहीरणण तंदिज्जइं

णिहंघइयउ पेरियंदिज्जइ ।

5

हल्लरु हल्लरु जो जो भण्णइ

तुज्जु पसापं होसइ उण्णइ ।

हलहरभायर वेरिअंगोयर

तुइं सुइं सुयहि देव दामोयर ।

तहु घोरंतहु णहर्यल्लु गज्जइ

सुत्तविउड्डु ण केण लइज्जइ ।

पुहइणाहु किर कासु ण वल्लहु

अच्छउ णरु सुरहं मि सो दुल्लहु ।

वियलियपयकिलेससंतावें

पसरंतें तहु पुण्णपहावें ।

10

णंदहु केरउ गोउल्लु णंदई

महुराहि णारि मसाणइ कंदई ।

महि कंपइ पडंति णक्खत्तइं

सिविणंतारि भग्गइं नृवच्छत्तइं ।

घत्ता—णिर्येवि जलंति विस कंसं विणएण णियच्छिउ ॥

जोइससत्थणिहिं दिउ वरुणु णौम आउच्छिउ ॥ ७ ॥

१६ AB °क्षिउउ. १७ APS °पभोयप. १८ APS जसोयप. १९ A °करयलहं सइंतहिं.
२० P °सुहिसुह°. २१ APS °कारिहिं.

7 १ B °भाइणि. २ P अवलोयबि; S अवलोवइ. ३ AP णंदिज्जइ. ४ AP परिअंदि-
ज्जइ. ५ AP वहरियगोयर; S वहरिअगोयर. ६ A णयल्ल. ७ APAls. सुत्तु विउड्डु; B उड्डु विउड्डु.
८ B केण वि णज्जइ. ९ P सुदुल्लहु. १० P णंदउ. ११ P मसाणहि. १२ A कंदउ. १३ ABP
णिवच्छत्तइं. १४ P णिएवि. १५ A णाउं.

13 a गुंजासैदुर्यरथ्यपैओपं गुंजाकृतकन्दुकप्रयोगेण. 14 a लो णिय पिंडु नवनीतपिण्डः.
16 महिइ विष्णौ कृष्णे इत्यर्थः.

7 2 दहियइं गोपाः कृष्णवर्णदधिनि कृतसंदेहाः; अंजणाहइं कज्जलनिभानि. 3 a घय-
भायणि घृतभाजने निजप्रतिबिम्बं विलोकयति. 5 a अम्माहीरणण जो जो इति नादविरोधेण; तंदिज्जइ
निद्रां कार्यते; b णिहंघइयउ निद्रातृप्तः. 8 b सुत्तविउड्डु शयनानन्तरं उत्थितः जाग्रत् सन्; ण केण
लइज्जइ केन न गृह्यते अपि तु सर्वेण गृह्यते, अथवा मायाप्रधानत्वात् न केनापि ज्ञायते. 10 a वियलि-
येत्यादि विगलितप्रजाक्लेशसंतापेन. 11 a णंदइ वृद्धिं प्राप्नोति. 13 णियवि दृष्टा. 14 जोइससत्थ-
णिहिं ज्योतिष्कशास्त्रप्रवीणः; दिउ विप्रः; आउच्छिउ पृष्टः.

8

दुवई—भणु भणु चंदवयण जइ जाणसि जीवियमरणकारणं ॥

मह कह विद्विसेण इह होही असुहसुहावयारणं ॥ छ ॥

किं उप्पाय जाय किं होसइ

तुज्जु णराहिव बलसंपुण्णउ

ता चित्तवइ कंसु हयछायउ

हउं जाणमि सससुय विणिवाइय

हउं जाणमि महिवइ अजरामरु

हउं जाणमि पुरि महु णउ णासइ

इय चित्तंतु जाम विहाणउ

सव्वाहरणविद्वसियगत्तउ

ताउ भणंति भणहि किं किज्जइ

को' मारिज्जइ को वसि किज्जइ

हरि बल मुपवि कहसु को जिप्पइ

तं गिसुणिवि णिम्मिस्सिउं घोसइ ।

गरुयंउ को वि ससु उप्पण्णउ ।

हउं जार्णमि असच्चु रिसि जायउ । 5

हउं जाणमि महुं अत्थि ण दाइय ।

हउं जाणमि अग्गहं किर को पर ।

णवर कार्लुं कं किर ण गवेसइ ।

तिल्लु तिल्लु झिज्जइ द्वियवइ राणउ ।

तीं तहिं देवयाउ संपत्तउ । 10

को रुंधिवि बंधिवि आणिज्जइ ।

किं वसि करिवि वसुह तुह दिज्जइ ।

को लोद्विवि दलवद्विवि धिप्पइ ।

घत्ता—भणइ णराहिवइ रिउं कहिं मि पत्थु महु अच्छइ ॥

सो तुग्गहं हणहु तिह जिहं जमणयरहु गच्छइ ॥ ८ ॥

15

9

दुवई—कहियं देवयार्हिं जो णंदणिल्लणि वसइ बालओ ॥

सो परं नृव ण भंति कं विवसु वि मारइ मच्छरालओ ॥ छ ॥

जाणिइ अरिवरि

कंसापसें

बल मायाविणि

ता तहिं अवसरि ।

मायावेसें ।

धाइय जोइणि ।

5

8 १ A जाणसु. २ A महु कहया भविस्सिही णिच्छिउ असुहरणावयारणं; P मह कहया भविस्सिहीदि णिच्छिउ असुहरणावयारणं; ३ AS णेमिस्सिउ. ४ AB °संपण्णउ. ५ B गरुवउ; S गरुयरु. ६ S जाणवि throughout. ७ AP अग्गहं को किर पर. ८ ABPS किं किर. ९ A छिज्जइ. १० A ता चवंति देविउ मिगणेत्तउ. ११ A सरहि वि दिज्जइ को मारिज्जइ; P सरहि विहिज्जइ को मारिज्जइ. १२ AP रिउ पत्थु कहिं मि; S रिउ कहिं वि पत्थु. १३ A तुग्गहं हणह. १४ S जिय.

9 १ ABP णिव.

8 2° अवयारणं अवतारः. 3 a उप्पाय उत्पाताः. 6 a सससुय भगिन्याः पुत्री; b दाइय दायादः. 7 a महिवइ जरासंभः. 8 a पुरि मथुरा.

9 4 b मायावेसें मातृवेणेण यशोदारूपेण. 5 a बल बल्युक्ता; b जोइणि व्यन्तरी.

वच्छरवाउल्लु	गय तं गोउल्लु ।	
जयसिरितण्हडु	णवमहु कण्हडु ।	
पासि पवण्णी	इ सि णिसण्णी ।	
पभणइ पूयण	हे ^१ महुसूयण ।	
पियगरुडइय	आउ थणइय ।	10
दुद्धरसिल्लुउ	पियहि थणुल्लु ।	
तं आयण्णिवि	चंगउं मण्णिवि ।	
चुयपयपंडुरि	वयणु पैओहरि ।	
हरिणा णिहियउं	राहुं गहियउं ।	
णं ससिमंडल्लु	सोहइ थणयल्लु ।	15
सुरहियपरिमल्लु	णं णील्लुप्लु ।	
सियकलसुप्परि	विभिउं मणि हरि ।	
कडुपं खीरं	जाणिय वीरं ।	
जणणि ण मेरी	विप्पियगारी ।	
जीवियहारिणि	रक्खसि वईरिणि ^२	20
अञ्जु जि मारमि	पलउ समारमि ।	
इय चित्तं	रोसु वहंतं ।	
माणमंहंतं	भिउडि करंतं ।	
लच्छीकंतं	देवि अणंतं ।	
दंतंहि पीडिय	मुंडिइ ताडिय ।	25
दिट्ठिं ^३ तज्जिय	थामं णिज्जिय ।	
अणु वि ण मुक्की	णंहिं विलुक्की ।	
खलहि रसंतहि	सुण्णु हसंतहि ।	
भीमं बालं	कयकल्लोलं ।	
लोहिउं सोसिउं	पल्लु आकरिसिउं ।	30
दाणवसारी	भणइ भडारी ।	
हियरुहिरासव	मुइ मुइ केसव ।	

२ AP अहो. ३ P पयोहरे. ४ P राहु व. ५ S विमिहउ. ६ P वयरिणि; S वेरिणि. ७ A adds after 20 b: कूरवियारिणि, मायाजोइणि; B adds it in second hand. ८ S मारंवि, समारंवि. ९ P माणहं मंतं. १० B दंतंहि. ११ BP मुट्ठिं; S मुट्ठिए. १२ B दिट्ठिय. १३ AP खणु वि. १४ P णहेहिं. १५ AP तहि असंहतिहि.

6 a वच्छरवाउल्लु तर्णकशब्दयुक्तम्. 7 b णवमहु कण्हडु नवमनारायणस्य. 9 a पूयण पूतना राक्षसी. 10 b थणइय हे पुत्र. 11 a दुद्धरसिल्लुउ दुग्धयुक्तम्. 13 a चुयपयपंडुरि क्षरदुग्ध-पाण्डुरे. 14 b राहुं गहियउं राहुणा गृहीतम्. 24 b देवि सा व्यन्तरी पूतना. 26 b थामं बलेन. 28 a खलहि रसंतहि दुर्जनायाः शब्दं कुर्वत्याः. 32 a हियरुहिरासव हृतरुहिरासव हृतरक्तमथ.

णंदाणंदण	मेळि जणहण ।	
कंसु ण सेवमि	रोसुं ण दावमि ।	
जहिं तुहुं अळछहि	कील समिळछहि ।	35
तहिं णउ पइसँमि	छँलु ण गवेसमि ।	
घत्ता—इय रुयंति कलुणु कह कह व 'गोविंदें मुक्की ॥		
गय देवय कहिं मि पुणु णंदणिवांसि ण दुक्की ॥ ९ ॥		

10

दुवई—घरकाहलियवंसरवबहिरिण गाईयगेयरससए ॥		
रोमंथंतैयक्कगोमहिसिउलसोहियपपसए ॥ छ ॥		
अण्णहिं पुणु दिणि	तहिं णियंपंगणि ।	
जणमणहारी	रमइ मुरारी ।	
घोट्टइ खीरं	लोट्टइ णीरं ।	5
भंजइ कुंभं	पेळइ डिंभं ।	
छंडई महियं	चक्खइ दहियं ।	
कहइ चिञ्चि	घरइ चर्लञ्चि ।	
इळ्ळइ केलिं	करइ दुवालिं ।	
तहिं अवसरए	कीलाणिरए ।	10
कयजणराहे	पंकयणाहे ।	
रिउणा सिट्टा	देवी दुट्टा ।	
अवरा घोरा	सयडायारा ।	
पत्ता गोट्टं	गोवईइट्टं ।	
चक्कचलंगी	दलियभुयंगी ।	15
उप्परि पंती ^१	पलउ करंती ।	
दिट्टा तेणं	महुमंहेणेणं ।	

१६ S दोसु. १७ S पइसंवि. १८ S तुज्जु समासंवि. १९ APS उविंदें. २० APS °णिवासु.

10 १ A °काहलेय°; BS °काहिलय°. २ AP गाइयगोवरासए. ३ B रोमंथक्कबहुल्लगो°. ४ P °महिसीउल°; S °महिसिउले. ५ A अण्णहिं मि दिणे; P अण्णम्मि दिणे. ६ AP णियभवणे. ७ PS छट्टइ. ८ A वलञ्चि. ९ B केली. १० B दुवाली; PS दुयालिं. ११ S गोपइ°. १२ BS यंती. १३ A महमहणेणं.

10 1 ° वं सर व ब हिरि ए वेणुशब्दबधिरि; °गे य र स स ए गे य र स शते. 7 a म हि यं म यितं तक्रम्. 8 a चिञ्चि अग्रिम; b च ल ञ्चि चपलां ज्वालाम्. 9 a के लिं क्रीडाम्; b दु वा लिं गुलाई (?). 11 a क य जे ण रा हे कृतजनशोभे. 14 a गो ट्टं गोकुलम्. 15 च क्क च लं गी चक्रेण चलशरीरा. 16 a पं ती आगच्छन्ती; b प ल उ प्रलयो विनाशो मरणम्.

पौंषं पद्मया	पौंसिषि विगया ।	
रविकिरणार्धहि	अवरदिणावहि ।	
इंदाईणिए	पियंचारिणिए ।	20
दिहिचोरेणं°	दंडदोरेणं ।	
पबलबलालो	बद्धो बालो ।	
उदुखलए	णिहियैउ णिलए ।	
सीयसमीरं	तीरिणित्तीरं ।	
सिसुकयछाया	विगया माया ।	25
ता सो दिव्वो	अव्वो अव्वो ।	
इय सहंतो	परियङ्गतो ।	
तमुदुहलयं	पैथणियपुल्लयं ।	
णैवकयकण्हडु	जयजसतण्हडु ।	
जाणियमग्गो	पच्छंइ लग्गो ।	30
अरिविज्जाप	गयणयराप ।	
ता परिमुक्कं	णियंढे दुक्कं ।	
मारुयचवलं	तरुवरजुयलं ।	
अंगे घुलियं	भुयपडिखलियं ।	
कीलंतेणं	विहसंतेणं ।	35
बलवंतेणं	सिरिकंतेणं ^{३१} ।	

यत्ता—होइवि तालतरु रंगतहु पहि तडितरलइं ॥

रक्खंसि केसवहु सिरि धिवइ कडिणतालैहलइं १०

१४ P पाएण हया. १५ P णासेवि गया. १६ P °किरणरहे. १७ P अवरम्मि अहे. १८ AP णंदाणीए. १९ AP पियघरणीए. २० A दहिचोरेणं. २१ A दडुदोरेणं. २२ P उदुक्खलए; S उदुक्खलए. २३ P णिहियो; S णिहिओ. २४ AP परियंदंतो; B परिअहंतो; S परिअहंतो. २५ B तमदुहल°. २६ A पयलिय°; B पयणय°. २७ A थणवयतण्हो; P थणपयतण्हो. २८ AP सहसा कण्हो. २९ AP पच्छा लग्गो. ३० AP साहगुरुक्कं. ३१ B सिरिकंतेणं. ३२ B रक्खसे. ३३ PS °ताडहलइं.

19 a रवि किरणावहि किरणानां पथे मार्गे आधारे इत्यर्थः; b अवरदिणावहि अपरदिनप्रभाते. 20 a इंदाइणिए यशोदया; b पियंचारिणिए भर्त्रा सह गतया. 21 a दिहिचोरेणं धृतिविनाशकेन. 25 a सिसुकयछाया पुत्रजन्मना कृतशोभा. 27 b परियङ्गन्तो आकर्षन्. 29 a णवकयकण्हडु नवीनपुण्ययुक्तकृष्णस्य. 35 a घुलियं पतितम्; b भुयपडिखलियं भुजाभ्यां वृक्षयुग्मं स्खलितम्.

दुवई—सिरिरमणीविलासकीलाघरि वच्छयले घडंतई ॥
णं अरिवरसिराई विहिलुक्कई दसदिसिर्वहि पडंतई ॥ छ ॥

ताइ इच्छेए	सो पडिच्छेए ।	
पंजलीयरो	कीलणायरो ।	
गयणसंचुप	णाइ सिंदुपे ।	5
ता महारवा	तिर्वभेरवा ।	
पुंछैलालिरी	कण्णचालिरी ।	
धाइया खरी	विंभिओ हरी ।	
उल्लंतिया	णहि मिलंतियां ।	
वेयवंतिया	दीहदंतिया ।	10
उवारि पंतियां	घाउ दंतियां ।	
णंदवासिणा	जायवेसिणा ।	
आइया उरे	धारिया खुरे ।	
मेहसंगहे	भामिया णहे ।	
सुंदु चाविरी	कंसकिंकेरी ।	15
तीइ ताडिओ	महिहि पाडिओ ।	
तालरुक्खओ	पुणु विवक्खओ ।	
जगि ण माइओ	तुरउ धाइओ ।	
गहिरहिंसिरो	जीवहिंसिरो ।	
वंकियाणणो	णोइ दुज्जणो ।	20
हिलिहिलंतओ	महि दलंतओ ।	
कालचोइओ	पंमुं जोइओ ।	
लच्छिधारिणा	चित्तहारिणा ।	
घुसिणापिंजरे	बाहुपंजरे ।	
सुहिवि पीलिओ	गंयणि चालिओ ।	.25

11 १ A °विलासि. २ A °वहपडंतई. ३ P इच्छेए. ४ P पडियच्छेए. ५ S सेइए.
६ A मिच्चमहरवा; B तिक्व भरवा. ७ B पुच्छ°. ८ S विंभिओ. ९ B मिलितिया. १० BP
यंतिया. ११ B दंतिया. १२ AP सुद्धचाविरी. १३ P °केरी. १४ B वकिया°. १५ B णाय.
१६ A सो पराइओ. १७ AS गयण°.

11 0 घडंतई पतन्ति. २ विहिलुक्कई विधात्रा छेदितानि. 5 b सिंदुए कन्दुके क्रीडारतः.
6 a महारवा महाशब्दा खरी. 11 b घाउ प्रहारम्. 12 b जायवेसिणा यादवेशेन. 14 a मेहसं-
गहे मेधानां संग्रहो यत्र आकाशो. 15 a चाविरी चर्वणशीला. 18 b तुरउ अश्वः. 19 a गहिर-
हिंसिरो गम्भीरहेषारवयुक्तः. 25 a सुहिवि क्षिप्त्वा बाहुमध्ये.

मोडिभो गलो पत्तपच्छलो ।
 राणि ह्यो ह्यो णिग्गओ गओ ।
 घत्ता—ता जसोय भणिय णइपुलिंणइ पाणियहारिहिं ॥
 णंदणु कर्हि जियइ जायउ तुम्हारिसणारिहिं ॥ ११ ॥

12

दुवई—मरुहयमहिरुहेहिं पहि चण्णिउ गहह तुरय चूरिओ ॥
 अवरु उदूहलम्मि पई बद्धउ जाणहुं बालु मारिओ ॥ छ ॥
 धाइयं तासुं जसोय विसंदुलं करयलजुयेलपिहियचलथणंयल ।
 बद्धउ उक्खल्लु मेल्लिर्वि घल्लिउ महु जीविणं जियहि सिंसु बोल्लिउ ।
 फणिणरसुरहं मि अइअइसइयउ हंरि मुहि चुंबिवि कडियलि लइयउ । 5
 किं खरेण किं तुरपं दट्टउ मायइ सयलु अंगु परिमट्टउं ।
 अण्णहिं दिणि रच्छहि कीलंतहु बालहु बालकील वरिसंतहु ।
 दुट्टु अरिट्टुदेउ विसवेसें औइउ महु रावइआपसें ।
 सिंगजुयलसंचौलियगिरिसिलु खरखुरंगउक्खयधरणीयलु ।
 सरवरवेल्लिजालविलुलियगलु कमणिवायकंपावियजलथलु । 10
 गज्जियंरवपूरियभुवणंतरु हंरवरवसहणिवहकयभयजरु ।
 ससहरकिरणणियरपंडुरयरु गुंरुकेलाससिंहंरसोहाइंरु ।
 किर झड णिविंडं देइ आवेण्णिणु ता कण्हें भुंयदंइं लेण्णिणु ।
 मोडिउ कंउं कड ति विसिंदहु को पडिमल्लु तिजगि गोविंदहु ।

घत्ता—ओहामियधवलु हंरि गोउंलि धवल्लंहिं गिज्जर ॥ 15
 धवलाण वि धवलु कुलधवलु केण ण थुणिज्जर ॥ १२ ॥

१८ B °पुल्लणप.

12 १ B Als. उदूखणम्मि; P उदूखलम्मि. २ B धाविय. ३ A ताम; B तामु. ४ B विसंदुल्ल; P विसंथुल; S दुसंथुल. ५ B °जुवल°. ६ B °थणयल्ल. ७ S ओक्खल्ल. ८ P मल्लेवि. ९ BP जीपण. १० A हरिसुहु चुंबिवि. ११ AP बाललील. १२ PS आयउ. १३ AP °संचालियथिरसिल. १४ A °खुरमाखयधरणीयल्ल. १५ A गज्जणरव°. १६ A हयवर°. १७ P पुरु केलास°; BAIs. गिरिकेलास°. १८ S °सिहरि°. १९ B सोहावरु. २० P णिवड. २१ PS °दंडहिं. २२ A कंधु. २३ P हरे. २४ B गोउल°. २५ B धवल्लिहिं.

26 b पत्तपच्छलो प्राप्तपश्चाद्भागः पूर्व, पश्चाद्गलो मोटितः. 28 णइपुलिणइ नदीतटे; पाणियहारिहिं पानीयहारिणीभिः स्त्रीभिः.

12 1 मरुहयमहिरुहेहिं वायुताडितवृक्षैः. 4 b महु जीविणं मम जीवितेनापि त्वं जीव दीर्घकालम्. 6 a तुरपं अश्वेन. 8 a अरिट्टुदेउ अरिष्टनामा राक्षसः; विसवेसें वृषभवेणेण; b महु रावइ° कंसः. 10 b कमणिवायं चरणनिपातेन. 11 b हरवरवसहं रुद्रस्य वृषभः. 12 b गुंरुं गरिष्ठः. 14 a विसिंदहु. वृषभप्रधानस्य. 15 ओहामियधवलु तिरस्कृतवृषभः; धवल्लिहिं धवल्लगीतैः.

13

दुवई—ता कलयलु सुणंति गोवालहं पणयजलोहवाहिणी ॥
सुयविलासिउ मुणंति गिगय गियगेहहु णंदगेहिणी ॥ छ ॥

भणइ जणणि ण दुआलिहि धायउ	पुत्तु ण रक्खसु कुच्छिहि जायउ ।
किह वलहुं मोडिउं ओत्थरियउ	दइववसें सिउ सइं उव्वरियउ ।
हरिखरवसहहिं सहुं सुउ जुज्झइ	जणु जोवेइ महु हियवउं डज्झइ । 5
केत्तिउं मइं कुमार संतावहि	आउ जाहुं घर बोल्लिउं भावहि ।
तेयवंतु तुहुं पुत्त गिरुत्तउ	रक्खहि अप्पाणउं करि वुत्तउं ।
परमहि भडकोडिहि आरुढउ	बाहुबलेण बालु जणि रुढुं ।
महुरापु रि घरि घरि वण्णिज्झइ	णंदगोट्टि पत्थिवहु कहिज्झइ ।
तहु देवइमायरि उक्कंठिय	पुत्तसिणेहें क्षेणु वि ण संठिय । 10
गोमुहकूवउ सहउ वउत्थी	लौयहु मिउ मंडिवि वीसत्थी ।
चलिय णंदगोउंलि सहुं णाहें	सहुं रोहिणिसुपण चंदाहें ।

घत्ता—मायर महुमहणु बहुगोवहं मज्झि गिरिक्खिउ ॥
बयपरिवेदियउ कलहंसु जेम ओलक्खिउ ॥ १३ ॥

14

दुवई—हरि भुयजुवलदलियदाणवबलु णवजोव्वणविराइओ ॥
उगयपउरपुलय पडहच्छें वसुपवेण जोइओ ॥ छ ॥

भायर सिउकुलीरंयरंगिउ	हलहरेण विट्ठिइ आरुलिगिउ ।
भुयजुयलउं पसरंतु गिरुद्धउं	जायउं हरिसें अंगु सिणिद्धउं ।

13 १ A जणणि आलिहि णो धायउ. २ P वलहु; S वलहु. ३ P मोडिय उत्थ°. ४ PS हयखर°. ५ AS जोयइ; P जोयउ. ६ B जाहं घरि. ७ ABP add after 8 b: कंसु ण जाणइ किं मणि मूढउ; K gives it but scores it off; BP add further जयसिरिमाणु (B माणणि) जायउ पोढउ. ८ S पुत्तसणेहें. ९ AP कहं मिण संठिय. १० P गोमुहुं लु वि वउ; S गोमुहु कूवउ. ११ APS गोउल्लु.

14 १ PS °जुयल°. २ P °जोवण°. ३ P वसुदेवेण. ४ APS °रंरंगिउ.

13 २ मुणं ति शातवती. 3 b पुत्तु इत्यादि मम गर्भे त्वं राक्षस एवोत्सन्नः. 4 a ओत्थरियउ ऋद्धा आगतः. 6 b जाहुं गुच्छावः; भावहि चेतसि आनय. 8 a परमहि भडकोडिहि भटकोट्याः परमप्रकर्षे. 11 a गोमुहकूवउ सर्वतीर्थमयो गोमुखकूपः, गोमुखकूपं किमपि मिथ्याव्रतम्; सहउ सहताम्; वउत्थी उपोषिता. 12 b चंदाहें चन्द्रामेन. 14 बयपरिवेदियउ बकपरिवेष्टितः.

14 २ पडहच्छें शीघ्रम्. 3 a °रंरंगिउ रजोन्नक्षितः.

चिंतिवि तेण कसेपेसुण्णउं
गाढसिणेहवसेण णवंतइ
गंधफुल्लदीवेंउ संजोइउ
अल्लयदलदहिओल्लियकूरहिं
णाणाभक्खविसेसहिं जुत्तउं
सिरि णिबद्धवेल्लीदलमालहं
सुण्हइं मउदेवंगइं वत्थइं
पुणु जणणिइ तिपयाहिण देंतिइ

आलिंणु देंतेण ण दिण्णउं । 5
आणाविय रसोइ गुणवंतइ ।
भोयणु मिट्टुं मायइ ढोइउं ।
मंडियपूरणेहिं धियंपूरहिं ।
सरसु भाविभूणाहें भुत्तउं ।
कंचणदंड दिण्ण गोवालहं । 10
भूसणाइं मणिकिरणपसत्थइं ।
तणयहु उंणपरि खीहें सवत्तिइ ।

घत्ता- पोरिसरयणणिहि गुणगणविभोवियवासंउं ॥

कुलहरलच्छियइ णं सइं अहिसित्तउ केसंउं ॥ १४ ॥

15

दुवई—दीसइ णंदणंदु णारायणु जणणीदुद्धसित्तओ ॥

णांइं तमालणीलु णवजलहरु ससहरकरविलित्तओ ॥ छु ॥

कामधेणु णं सइं अवइण्णी
जाव ण पिसुणु को वि उर्वेलक्खइ
सुललियंगि भुक्खासमरीणी
तेणियं भणिवि भुणहिं समत्थिउ
हैरि जोईवि णिवंतहिं णयणहिं
संबलाहणमिसेण संपासिवि
भायणाइं होइवि' संतोसहु

गलियथण्णथणि जणणि णिसण्णी ।
ता तहिं संकरिसणु सइं अक्खइ । 5
उववासेण पमुच्छिय राणी ।
दुद्धकलसु देविहि पव्हत्थिउ ।
मणि आणंदु पणच्चिउ सयणहिं ।
आउच्छणमिसेण संभासिवि ।
गयइं ताइं महुराउरिवासहु ।

५ B कंसु. ६ P णमंतइ. ७ P °दीवय°; S दीवइ. ८ A मंडिय°. ९ ABS धियऊरहिं.
१० A भाऊभूणाहें; BK भाइभूणाहें. ११ B सुमहइं; PS सण्हइं. १२ P उण्णरे. १३ B खीर.
१४ S °विग्हाविय°. १५ S वासु. १६ S केसु.

15 १ B णंदु णंदु. २ B णामि. ३ B °थण्णथलि. ४ B ओलक्खइ. ५ A तिं इय भणेवि;
P तें इय भणेवि. ६ BAIs. समुत्थिउ. ७ A omits this line. ८ BS जोयवि. ९ A omits
8 a. १० A भोयणाइं. ११ P होयवि.

6 a ण वंत इ नतया मात्रा. 8 a अल्लयदल° पत्रभाजनम्; °द हि ओ ल्लिय° दधिभिः. 9 b
भा वि भूणाहें भविष्यद्भूनायेन. 11 a सुण्हइं सूक्ष्माणि.

15 1 णं दणंदु नन्दस्य आनन्दः. ; 3 b गलियथण्णथणि गलितस्तन्यस्तनी. 5 a भुक्खा-
स मरीणी क्षुधाश्रमश्रान्ता. 6 a तेणिय भणिवि तेन सीरिणा इय इदं भणित्वा; b समत्थिउ उद्धुतः
उच्चलितः; b देविहि देवक्युपरि. 7 a णीवंतहिं णयणहिं आप्यायमानैः शीतीभवद्भिर्नैः;
b सयणहिं स्वजनेषु मनसि. 8 a संबलाहणमिसेण विलेपनच्छद्मना; b आउच्छण° वयं गच्छामः
इति पृच्छा.

काले जंते छज्जइ पत्तउ आसाढागमि वासारत्तउ । 10
 घत्ता—हरियउं पीयलउं क्षीसइ जणेणे तं सुरघणु ॥
 उवरि पओहरहं णं णहलच्छिहि उप्परियणु ॥ १५ ॥

16

दुवई—विट्ठउं इंदचाउ पुणु पुणु मइं पंथियहिययभेयहो ॥
 घणवारणपवेसि णं मंगलतोरणु णहणिकेयहो ॥ छु ॥

जलु गलइ	झलझलइ ।	
दरि भरइ	सरि सरइ ।	
तडयडइ	तडि पडइ ।	5
गिरि फुडइ	सिहि णडइ ।	
मरु चलइ	तरु घुलइ ।	
जलु थलु वि	गोउलु वि ।	
णिरु रसिउ	भयतसिउ ।	
थरहरइ	किर मरइ ।	10
जा ताव	थिरभाव- ।	
धीरेण	वीरेण ।	
सरलाच्छ-	जयलच्छि- ।	
तण्हेण	कण्हेण ।	
सुरथुरण	भुयजुइण ।	15
वित्थरिउ	उद्धरिउ ।	
महिहरउ	रउ ।	
तमजाडिउं	पायडिउं ।	
महिविधरु	फणिणियरु ।	
फुंफुवइ	विसु मुयइ ।	20
परिघुलइ	चलवलइ ।	
तरुणाइं	हरिणाइं ।	

१२ APS जणेण सुरवरघणु.

16 १ AP अहपंथिय°. २ S घर वारण°. ३ A तडयलइ. ४ P दिहिहरउ. ५ AB पुफुवइ; PS पुफुयइ.

10 a छज्जइ शोभते वर्षर्तुः प्राप्तः. 11 तं सुरघणु तत् इन्द्रधनुः. 12 पओहरहं मेघानाम्.

16 1° भेयहो भेदकस्य. 2 घणवारणं मेघ एव गजः; णहणिकेयहो नभोगृहस्य. 6 b सि हि मयूरः. 9 a रसिउ आरटितः. 13 a-b सरलच्छिजयलच्छि° सरलाक्षी जयलक्ष्मीः. 16 a वित्थरिउ विस्तृतः. 17 b वि हि यरउ धृतिकरः.

तट्टाईं	णट्टाईं ।	
कायराईं	वणयराईं ।	
पंडियाईं	रडियाईं ।	25
घिसाईं	चसाईं ।	
हिंसाल-	चंडाल-	
चंडाईं	कंडाईं ।	
तावसाईं	परवसाईं ।	
दरियाईं	जरियाईं ।	30

घत्ता—गोवद्धर्णपरेण गोगोमिणिभारु व जोइउ ॥
गिरि गोवद्धणउ गोवद्धणेण उच्चाईउ ॥ १६ ॥

17

दुवई—ता सुरखेयरेहिं दामोर्यरु वासारसंघणो ॥

गोवद्धणु भणेवि हकारिउ कयगोजूहवद्धणो ॥ छ ॥

कर्णे बाहुदंडपरियैरियउ	गिरि छत्तु व उच्चाइवि धरियउ ।	
जलि पवहंतु जंतु ण उवेक्खिउ	धारावरिसे गोउल्लु रक्खिउं ।	
परउवयारि सजीविउ देंतहं	दीणुद्धरणु विहूसणु संतहं ।	5
पविमल कित्ति भमिय मैहिमंडलि	हरिगुणकह हूईं आहंडलि ।	
कालि गलंतइ कंतिइ अहियइं	कलिमलपंकपडलपविरहियइं ।	
महुरापुरवरि अमरहिं महियइं	अरहंतालइ रयणइं णिहियइं ।	
तिण्णि ताइं तेलोकपसिद्धइं	रघटंकारदेहसुहणिद्धइं ।	
तं रयणत्तुं कहिं मि णिरिक्खिउं	पुच्छिउ कसें वरुणे अक्खिउं ।	10
णायामिज्जइ विसहरसयणे	जो जलयरु आऊरइ वयणे ।	
जो सारंगकोडि गुणु पावइ	सो तुज्जु वि जेमपुरि पडु दावइ ।	

६ B वडियाईं. ७ AP रत्ताईं. ८ A रडियाईं. ९ A गोवद्धणभरेण; P गोवद्धणयरेण. १० A उच्चायउ; S उच्चारउ.

17 १ S दामोर. २ B वासारत्तु. ३ S परियरिउ. ४ A उपेक्खिउ; BP उवक्खिउ. ५ P °वरिसहो; Als. वरिसें against Mss. ६ A गहमंडलि. ७ S हूईं. ८ AP °परिरहियइं. ९ S रयणत्तिउं. १० BS गुण. ११ P °पुरे.

26 a घिसाईं क्षित्तानि. 30 a दरियाईं भयं प्राप्तानि; b जरियाईं ज्वरस्तापः. 31 गोवद्धणपरेण धेनुवृद्धिकरेण; गो गो मि णि ° भूः लक्ष्मीश्र.

17 4 a उवेक्खिउ निराहतम्. 7 a कंतिइ अहियइं कान्या अधिकानि. 8 b अरहंतालइ जिनमन्दिरे. 9 b रव° शंखः; °टंकार° धनुः; °देहसुह° नागशय्या. 10 b वरुणे नैमित्तिकेन विप्रेण. 11 a णायामिज्जइ न दुःखीक्रियते; b जलयरु शंखः. 12 a सारंगकोडि गुणु पावइ धनुश्चटप्रायति.

घत्ता—उग्गसेणसुयणु विहुरंधैरासि तारिव्वउ ॥
तेण णराहिवइ जरसिंधुं समरि मारिव्वउं ॥ १७ ॥

18

दुवई—पत्तिय कंस कुसल्लु णउ पेक्खमि पत्ता मरणवासरा ॥
पूयण वियडसयडजमल्लुणतलखरदुहियहयवरा ॥ छ ॥

जित्तां जेण णंदगोवालें	पडिभडमंथणदप्पुत्तालें ।
जाउहाणु पसु भणिवि ण मारिउ	जेण अरिट्ठवसहु ओसारिउ ।
फुल्लकंडंबविडविदिण्णाउसि	सत्त दियह वरिसंतइ पाउंसि । 5
गिरि गोवद्धणु जें उच्चइउ	सो जाणमि तुम्हारउ दाइउ ।
जीविउं सहुं रज्जेण हरेसइ	दइवहु पोरिसु काइं करेसइ ।
तं गिसुणिवि णियबुद्धिसहाणं	पुरि डिंडिमु देवाविउ राणं ।
जो फणिसयणि सुयइ धणु णावइ	संखु ससासैं पूरिवि दावइ ।
तहुं पहु देई देसु दुहियइ सहुं	तां धाइयउ णिवहु सइं महुं महुं । 10

घत्ता—दसदिसु घत्त गय मंडलिय असेस समागैय ॥
णं गणियारिकए दीहरकर मयमत्ता गैय ॥ १८ ॥

19

दुवई—भाणु सुभाणु णाम विसकंधर वरजरसिंधणंदणा ॥
संपत्ता तुरंत जउणायंडि थिय संचियंससंदणा ॥ छ ॥

अरिकरिदंतमुसलहय कल्लुसिय जइ वि तो वि अरविदहिं वियसिय ।

१२ ABPS विहुरंधुरासि. १३ PS जरसैंधु. १४ S मारेवउ.

18 १ AP °जुणतरुखर°. २ B जित्तउ. ३ A °कयंब°; P °कदंब°. ४ B पावसि.
५ AP जेणुच्चायउ. ६ S जाणंवि. ७ P पहो. ८ A देसु देइ. ९ B दुहिए. १० BAls. ता धाइय
णिव होसइ महुं महुं. ११ S समागया. १२ P दीहरयर. १३ AP मयमत्त. १४ S गया.

19 १ PS °जरसैंधु°. २ AP जउणातडे. ३ A संचिय°.

13 वि हुरं धरा सि दुःखान्धकारश्रेणिः.

18 1 पत्तिय प्रतीतिं कुट. २ °जमल्लुण° सादडीवृक्षयुगमम्; °तल° ताडवृक्षः; °खर-
दुहिय° गर्दभी. 4 a जा उ हाणु राक्षसोऽरिष्टः. 5 a °कडंबविडवि° कदम्बवृक्षः. 9 a णावइ
नामयति. 10 a दुहियइ सहुं पुत्र्या सह; b णिवहु नृपाणां निवहः समूहः मम मम इति भणन्, मे सर्वे
भविष्यतीति वाञ्छया. 12 गणियारिकए हस्तिन्याः कृते.

19 1 भाणु सुभाणु भानोः पुत्रः सुभाणुः; विसकंधर वृषभस्कन्धौ. 2 जउणायडि यमुना-
तटे; °ससंदणा स्वरथाः.

काली कंतिह जइ वि सुहावइ	तो वि तंब जणघुसिषे भावइ ।
जइ वि तरंगहिं चर्वेल्हिं वञ्चइ	तो वि तुरंगहं सा ण पडुच्चइ ।
जइ वि तीरि वेल्लीहर दावइ	तो वि ण दूसहं संपय पावइ ।
पविउल्लु विट्टुं सिविहं पमुक्कउं	गोवर्बिउं साणंदु पडुक्कउ ।
तणकयवलयविहूसियथिरकरु	वणंकणियारिकुसुमरयपिंजरु ।
ससुसिरवेणुसइमोहियजणु	काणणधरणिधाउमंडियतणु ।
कूरणिबंधणवेढियकंदलु	कंदलदलपोसियमहिसीउलु ।

घत्ता—गुंजाहलजडियदंडयविहत्थु संबल्लिउ ॥

महिवइतणुरुहेण आसण्णु पडुक्कउ बोळ्ळिउ ॥ १९ ॥

20

दुवई—भो आया किमत्थु किं जोयह दीसह पवेर दुज्जया ॥

पभणइ णंदपुत्तु के तुम्हइं कहिं गंतुं समुज्जया ॥ छ ॥

अम्हइं णंदगोव फुडु वुत्तउं	आया पुच्छहुं भणहुं णिरुत्तउं ।
भणइ सुभाणु जणणु अम्हारउ	अद्धमहीसरु रिउसंधारउ ।
वढ जाएसहुं महरापट्टणु	संखाऊरणु फणिदल्लवट्टणु ।
तहिं विरपवि सरासणक्केप्पणु	कण्णारयणु लएसहुं घणयणु ।
पुलयवसेणुग्गयरोमंचुय	तं णिसुणिवि जीयंतं णियभुय ।
हउं मि जांमि गोविंदं भासिउं	करमि तिविहु जं पइं णिदेसिउं ।
तरुणि ण लहमि लहमि विहि जाणइ	हालिउ किं नृवधीयउ माणइ ।
तं णिसुणेप्पिणु बाले बालउ	जोयउं कंसहु अयसु व कालउ ।

घत्ता—माहवपयजुंयलु उदिट्टुं सुभाणुं रत्तउं ॥

दिसकरिकुंभयलु सिदूरं णावइ छिसेउं ॥ २० ॥

४ B कालिप. ५ S चवल पवचइ. ६ APS तीरवेल्ली°. ७ AP सिमिर ८ B गोवबंदु. ९ A वरकणियार°; BP वणकणियार°. १० B दंडहत्थु.

20 १ AP परमदुज्जया. २ B भणहि; P भणइ. ३ S संखाओरणु. ४ S फणिदल. ५ A सरासणक्केप्पणु. ६ AP णियंतं. ७ S जांवि. ८ ABP णिवधूयउ. ९ APS जोइउ. १० A कंतिहि अजसु. ११ AP °जुवल. १२ P ओदिट्टु. १३ A लिउत्तउ.

4 a सुहावइ शोभते; b तं च ताम्रा रक्ता. 6 b दूसहं संपय वस्त्राणां शोभाम्. 8 a तणकय° तृणकृतम्; b °कणियारि° कर्णिकारवृक्षः. 9 a ससुसिर° सच्छिद्रः; b °धाउ° गैरिकादिः. 10 a कूर° ईषत्; °कंदलु मस्तकम्; b कंदलदल° वल्लीपत्रैः. 12 महिवइतणुरुहेण चक्रिपुत्रेण.

20 2 समुज्जया समुद्यताः. 5 a वढ मूर्ख. 6 b लएसहुं ग्रहीष्यामः. 8 b तिविहु त्रिविधं कार्यम्. 9 a विहि जाणइ कन्यां लभे न वा लभे इति विधिरेव जानाति; b हालिउ कर्षको गोपः. 10 a बाले चक्रि (जरासंध) पुत्रेण; बालउ कृष्णः; b अयसु अपकीर्तिः; 11 सुभाणुं सुभानुना. 12 छिसेउं स्पष्टम्.

21

दुवई—द्वप्यणसांणिहाइं रुइवंतइं विरइयचंदहासइं ॥

णकखइं वसुह णाइं मुहपंकयपविलोयणविलासइं ॥ छ ॥

जंघउ पुणु लक्खणाहिं समग्गउ
ऊरुउ वहुसोह्वगपविसिउ
मयणगिरिं वणियंबु व कडियलु
मज्झंपसु किसु पिसुणपहुत्ते
वल्लिरेहंकिउं उयरु सुपत्तलु
दीह बाहु पालियणियवक्खहं
हारेण वि विणु कंतु वि रेहइ
मुहुं सुहमुहुं जममुहुं पडिवण्णउं
कण्णजुवंलु कयकमलहिं सोहिउं
केस कुडिल बुद्धं मंता इव

वारणआरोहणकिणैजोग्गउ ।
तियमणकंदुंययुलणधरिसिउ ।
सोहइ जुवयहु जर वि अमेहलुं । 5
णांहि गहीर हिययगहिरत्ते ।
विरहिणिपणइणिसरणु व उरयलु ।
कालसप्पु णावइ पडिवक्खहं ।
पट्टबंधु मालयलु समीहइ ।
सज्जनदुज्जणाहं अवइण्णउं । 10
णं लच्छीइ सच्चिंयु पसाहिउं ।
मइ परमणहाराणि कंता इव ।

घत्ता—ते तहु माहवहु जो जो पपंसु अवलोइउ ॥

सो सो तहु जि समु उवमौणविसेसु पंदोइउ ॥ २१ ॥

22

दुवई—चितइ सो सुभाणु सामण्णु ण पहु अहो महाभडो ॥

णिज्जउ णयरु करउं तं साहसु रमणीरमणलंपडो ॥ छ ॥

अग्गि व अंबरेण ढंकेपिणु
जिणघरसुरदिसि जक्खीमंदिरि

गय ते तं पुरु कण्हु लपपिणु ।
तहिं मिलियइ णैरणियरि णिरंतरि ।

21 १ AP वसुहणाहमुह; Als. वसुहणारिमुह° against Mss. and against gloss..
२ P समग्गउं. ३ B किं ण. ४ B °कंदुव°; P °कंडुय°. ५ S अमेलहु. ६ B मज्झयेसु. ७ B णाही
गहिर. ८ B मुहु मुहु मुह; P मुहुं मुहुं मुहुं; K महु सुहमुहुं. ९ P उंजुयलु. १० P पवेसु. ११ B
उवमाणु. १२ A अदोइउ; P व दोइउ.

22 १ P णिज्जइ. २ P करइ. ३ APS णरणियर°.

21 1 रुइवंतइं कान्तियुक्तानि; विरइयचंदहासइं चन्द्रतिरस्कारकाणि. 2 वसुह पृथिव्याः;
मुहपंकयपविलोयणविलासइं सुखकमलप्रविलोकने आदर्शः इव. 3 b °किण° मांसग्रन्थिः. 4 b
तियमण° स्त्रीचित्तम्. 5 b अमेहलु मेखलारहितम्. 6 a पिसुणपहुत्ते कंसस्य प्रभुत्वचिन्तया;
b हिययगहिरत्ते हृदयगम्भीरत्वेन. 8 a °णियवक्खहं निजपक्षणांम्. 10 a मुहुं इत्यादि मुखं
सज्जनानां सुखमुखं शुभमुखं वा, शत्रूणां यममुखप्रायम्. 11 a कयकमलहिं कृतैः धृतैरवतंसितैः कमलैः.
12 b मइ मतिः. 14 सो सो इत्यादि उपमानं उपमेयं च सदृशमेव, तादृशमन्यस्य नास्ति.

22 2 णिज्जउ नीयताम्. 3 a अंबरेण वस्त्रेण; ढंकेपिणु झंपित्वा.

विट्टी णायसेज्ज विट्टुं धणु
गोविंदे मयवंत सुदुम्मह
पडिय भुयंगमजंतं पीडिय
ता हरिणा फणि तणु व वियप्पिउ
लइउ संखु णं जसतरुवरफलु
दीसइ धवलु दीडु णं मउलिउं
अरिवरकिसिवेल्लिकंदो इव
मुहणीलुप्पलि इंसु व सारिउ
पेच्छालुयमाणवैउलु पुलइउं

विट्टुउ पंचयण्णु गुरुणीसणु । 5
दिह्व चउंत पुरिस णाणाविह ।
फेणताडिय अच्छोडिय मोडिय ।
कुप्परकरकडिदेसें चाप्पिउ ।
उरसरि तासु अहिहि णं सयव्लु ।
णावइ कालिदीद्विहि विलुलिउं । 10
करंराहुं धरियंउ चंदो इव ।
केसवेण कंबुउ आऊरिउ ।
पायंगुट्टएण धणु वलइउं ।

घत्ता—एह्ण ण चाउ जगि अण्णु वि णयमग्गे आयउं ॥

गुणणवणे सहर सुविसुद्धवंसि जो जायउ ॥ २२ ॥

15

23

दुवई— विसहरसयणरावजीयारवजलरुहरवपऊरियं ॥

भुवणं ससरि सदरिगिरिवलयमहो णिहिलं पि जूरियं ॥ छ ॥

विहडियफुडियपडियघरपंतिहिं
खरखुरहणणवणियमणुयंगहिं
कण्णदिण्णकरणरहिं मरंतहिं
पउरहिं महिमंडलि घोलंतहिं
हल्लोहलिउ णयरु ता पेक्के
पूरिउ संखु जलहिगंअणसरु
अहि अकंतउ चाउ चडाविउं

मुडियालाणसंभगयदंतिहिं ।
चउंदिसिवहि णासंततुरंगहिं ।
हा हा एउं काइं पलवंतहिं । 5
धावंतहिं कंदंतकणंतहिं ।
कंसहु वत्त कहिय पारिके ।
परमारणउ मयंदभयंकरु ।
पट्टणु तेण णिणाणं ताविउं ।

४ A मयवंति. ५ AP फडताडिय; K फणिताडिय. ६ P अच्छोडिय. ७ AP कोप्परकरकडियल-
संचप्पिउ; S कोप्पर. ८ AP कालिदिदहि. ९ AP किर राहु व. १० PS धरिउ. ११ A कंटउ
ओसारिउ. १२ B पिच्छालुव. १३ A मागव अवलोइउ.

23 १ A सयणचाव. २ AP जलहररवपूरियं; B जलरुहरावऊरियं. ३ BP चउदिसु.

४ P डरंतहिं. ५ AP एक्कहिं. ६ AP पाइक्कहिं. ७ ABPS गज्जण. ८ AP पईहु भयंकरु; BS
मयंधु भयंकरु; Als. मयंधभयंकरु.

5 b पंच यण्णु शंखः; गुरुणी सणु महाशब्दः. 7 a भुयंग मजंतं सर्पयन्त्रेण; b अच्छो डिय आस्फा-
लिताः. 9 b तासु तस्य हरेर्हृदयतडागे शंखः स्थितः; क इव ? अहेः वप्रस्य मध्ये कमलमिव. 10 b
द्रहि हदे. 11 b करराहुं हस्तराहुणा. 12 a सारिउ स्थापितः. 13 a पेच्छालुयं प्रेक्षकाः.

23 1 सयणराव शय्याशब्दः; पऊरियं प्रपूरितम्. 4 a वणियं वणितानि. 5 a
कण्णदिण्णकरं रौद्रशब्दत्वात् कर्णे कराभ्यां श्रुपितौ. 6 a पउरहिं पौरैः. 8 a गंजणं तिरस्कृतः;
b मयंधु भयंकरु सिंहवन्द्यानकः. 9 a अकंतउ आक्रान्तः.

कालरण कालु व आहचें अंपसिद्रेण सुभाणुहि भिच्चें । 10
 घत्ता—णिसुणिवि तं वयणु जीवजसवइ तहु अक्खइ ॥
 वहरिउ लहु मइ एवहिं मारमि को रक्खइ ॥ २३ ॥

24

दुवई—इय पभणंतु लेंतु करवालु ससेणु सरोसु णिग्गओ ॥
 ता रोहिणिसुणण अवलोइउ भायरु जित्तदिग्गओ ॥ छ ॥

फणदलि देहणालि फणिपंकइ	अच्छइ भायरुं मुक्कउ संकइ ।
संखें णं चंदेण पयासिउ	सावणमेहुं व वलपं भूसिउ ।
सो संकरिसणेण संभासिउ	तुहुं दुव्वासणाइ किं वासिउ । 5
किं आओ सि एउं किं रइयउं	गोउलु तेरउं भिल्लहिं लइयउं ।
णियसुहुं डत्ततेयपरियरियउ	तं णिसुणिवि पुराउ णीसरियउ ।
वसहुं विंदेक्कारविंसट्टहि	लग्गउ गोवउ गोउलवट्टहि ।
अवरहिं गंपि पहेण तुरंतहिं	कंपियदेहपहिं संयभंतिहिं ।
सुयवित्तंतु पिउहि समईरिउ	चंपिउं ^० चाउ संखु आऊरिउ । 10
विसहरवरसयणयलु णिसुंभिउं	तं आयणिवि पुत्तवियंभिउं ।
णट्टउ कहिं मि रायभयतासिउं	गोउलु अणत्तहिं आवासिउं ।
घरु आयउ रोमंचियगत्तई	अवरुंडिउ हारिसंसुंयणेत्तई ।

घत्ता—मायइ भणिउ हरि णउ मुक्कउ पुत्तु दुंवालिइ ॥

पत्थिवसयणयलि किहं चडियउ डिंभयकेलिइ ॥ २४ ॥ 15

१ P कालुएण कालुय. १० A अविसिद्रेण.

24 १ B एम भणंतु; S इय भणंतु. २ B ससेणु. ३ AP भमरु व. ४ AP^०मेहु व चावें भूसिउ. ५ P आयो सि. ६ B सुहइत्तु. ७ ABS वसहवंद^०. ८ B^०विसइहि. ९ A भयवंतहिं; BK सयभंतिहिं and gloss in K उत्पन्नशतसंदेहै; PS सयभंतहिं; Als. भयभंतहिं against Mss. १० AP चप्पिउ. ११ S आओरिउ. १२ A^०गत्तउ. १३ A हरिअंसुव^०; P हरि अंसुय^०. १४ A^०णत्तउ. १५ P दुयालिइ. १६ AP कह.

10 a काल एण कृष्णवर्णेन; आ ह चें आघातकेन. 11 तहु भृत्यस्य.

24 २ जित्त दिग्ग ओ जितदिग्गजेन्द्रः. ३ a फणदलि फणा एव पत्रं, शरीरमेव नालं, सर्प एव कमलं तत्र. 4 b वलपं धनुर्वलयेन. 8 b^०विसट्टहि^०समूहायाम्; b^०वट्टहि मार्गे. 9 a अवरहिं अन्यगोपि; b सयभंतिहिं किं भविष्यतीति उत्पन्नशतसंदेहैः. 12 a णट्टउ नद्यो नन्दगोप; ० तासिउ त्रासितः. 15 पत्थिव^० पार्थिवो राजा.

25

दुवई—णंदं णंदणिञ्जु णियणंदणु ससंणेहें णिहालिओ ॥

पाहुणयाइं जाहुं सुयबंधुहुं इय वज्जरिवि चालिओ ॥ छ ॥

तावग्गइ पारद्दु णिहेलणु
मिलिय जुवाण अणेय महॉबल
को वि ण संचालईं जे थामें
उच्चाइवि सुरकरिकरचंडहिं
अरिवरणरणियरें परियाणित
आउ जाहुं हो पुत्त पडुच्चइ
एव भणेप्पिणु कण्हपयावें
मलवज्जिइ महिदेसिं समाणइ
आणिवि गोविंदु वि गोविंदु वि

तैहिं मि परिट्टिउ माहिवइरक्खणु ।

पायपहरकंपावियमहियैल ।

ते महुमहणें जयसिरिकामें । 5

पत्थरखंभैणिहियभुयदंडहिं ।

णंदगोउ लहु जणणिइ णीणिउ ।

गोउल्लु सुण्णउं सुइरु ण मुच्चइ ।

परिसुक्काइं ताइं भयभावें ।

पुणरवि तेत्थु जि ठाणि चिराणइ । 10

थियइं ताइं दैइउ जि अहिणंदिवि ।

घत्ता—सुपसिद्धउ भरहि सो णंदगोउं गुणराहंहिं ॥

पुप्फयंतसैमहिं वण्णिज्जइ वरणरणाहहिं ॥ २५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए महा-
भव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे णारायणबॉलकीलावण्णणं णाम
पंचासीमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८५ ॥

25 १ AP वंदणिज्ज. २ B ससिणेहें. ३ A माहिवइ तहिं मि परिट्टिउ रक्खणु. ४ A महाभड. ५ A ०णह्यल. ६ AP संचालइ णियथामें. ७ B ०धंभ?. ८ A पइं सुक्काइं. ९ B महिदेस?. १० A देउ जि; BS दइतु जि. ११ B णंदगोउ; P णंदगोउ; S णंदगोउ; Abs. णंदगोउ. 13 P पुप्फदंत?. १४ A बालकीडा ०. १५ S पंचासीतित्तमो.

25 1 णं द णि ञ्जु वर्धमानः. 2 पा हु ण या इं प्रापूर्णाका वयं गच्छामः. 3 a णि हे ल णु मार्गमध्ये आवासः. 5 a ते पाषाणस्तम्भाः. 7 b णी णि उ प्रेरितः. 10 a स मा ण इ उच्चनीचरहिते; b चि रा ण इ पूर्वस्मिन्निजस्थाने. 11 a गो विं दु हरिः; गो विं दु गोसमूहः; b द इ उ दैवम्. 12 णं द गो उ गोकुलम्; ० रा ह हिं शोभायुक्तैः.

वहरि जसोयहि पुत्तु इय कसैं मणि परिछिण्णउ ॥
कमलाहरणु रउडु तैं गण्डु पेसणु दिण्णउं ॥ धुवकं

सिह्चिंरुलिभूउ	गउं रायदूउ ।	
तैं भणिउ गण्डु	मा होहि मंडु ।	
जहिं गरलगाहि	णिवसइ महाहि ।	
जउणासरतु	तं तुडुं तुरंतु ।	
जायैवि जवेण	कयजणरवेण ।	
आणहि वराइं	इंदीवराइं ।	
ता गण्डु कणइ	सिरकमलु धुणइ ।	
जहिं दीणसरणु	तहिं दुक्क मरणु ।	10
जहिं राउ हणइ	अण्णाउ कुणइ ।	
किं धरइ अण्णु	तहिं विगयगण्णु ।	
हउं काइं करमि	लइ जामि मरमि ।	
फणि सुट्टु चंड	तं कमलसंडु ।	
को करिण छिवइ	को सैंपें घिवइ ।	15
धगधगधगंति	हुयवहि जलंति ।	
उप्पणसोय	कंदइ जसोय ।	
महु पक्कु पुत्तु	अहिमुहि णिहिट्तु ।	
मा मरउ बालु	मइं गिलउं कालु ।	
इय जा तसंति	दीहरैं ससंति ।	20
पियरइ रसंति	वा विहियसंति ।	
अलिकायकंति	रंणि धीरु मंति ।	
पभणइ उर्विदु	णिहंणवि फण्णिदु ।	
णलिणाइं हरमि	जलकील करमि	
घत्ता—इय भंणिवि गउ कण्डु संप्राइउ जउणासरवरु ॥		25
उब्भडफडविथंडंगु जमपासु व धाइउ विसहरु ॥ १		

1 १ P °चुरलिय भूउ. २ P गय. ३ APS जाइवि. ४ A विगयमण्णु. ५ ABP संप. ६ B गिलिउ. ७ S दीहरु. ८ A रणवीर मंति; S रणधीरु मंति. ९ APS णिहणेवि. १० B मणेवि. ११ P संपाइउ. १२ A °विहडंगु.

1 1 परि छिण्ण उं ज्ञातम्. 3 a सि हि चुर लि भूउ अग्निज्वालाभूतः. 6 a°सरंतु हृदमध्ये, 7 b कयजणरवेण तत्र हृदे लोककोलाहलेन सर्पस्य भयोत्पादनार्थम्. 9 a कणइ क्रन्दति. 12 b विगयगण्णु गणनारहितः. 15 b सैंप संपा. 19 b मइं माम्. 21 b विहियसंति कृतशान्तिः.

2

णं कंसकोवहुयवहहु धूम
 णं ताहि जि केरउ जलतरंगु
 सियदाढाविज्जेलियहिं फुरंतु
 हरिसउहुं फडंगुलिरयणणक्खु
 णं दंडवाणु सरसिरिइ मुक्खु
 फणि फुफ्फुयंतु चलु जुज्झलोलु
 दीसइ हरि देहिं भसलउलकालु
 तणुकंतिपेरज्जियघणतमासु
 सिरि माणिक्खइ विसहरवरासु
 तंबेहिं^१ कुसुंममणियरहिं तंबु
 अहि शुलिउ अंगि महुसूयणासु

णं णइतरणीकडिसुत्तदासु ।
 णं कालमेहु दीहीकयंगु ।
 चलजमलजीहु विसलव मुयंतु ।
 पसरिउ जमेण करु घायदक्खु ।
 गइवेयउ कण्हइहु पासि दुक्खु । 5
 णं तिमिरहु मिलियउ तिमिरलोलु ।
 णं अंजणीगिरिवरि णवतमालु ।
 णक्खइं फुरंति पुरिसोत्तमासु ।
 दीसंतइं देति व देहणासु ।
 णं^६ सरिवेळ्ळिहि पल्लउ पलंबु । 10
 णं कत्थुरीरेहाविलासु ।

घत्ता—विसहरघोलिरदेहु सरि भमंतु रेहइ हरि ॥

कच्छालंकिउ तुंगु णं मयमत्तउ दिसकरि ॥ २ ॥

3

फणि दाढाभासुरु फुकरंतु
 फणि उरुफणाइ ताडइ तड ति
 फणि वेढइ उव्वेढइ अणंतु
 फणि धरइ सरइ सो वासुपउ
 इय विसमजुज्झंसंमहु सहिवि
 पीयलवासं हउ उत्तमंगि

महुमहणु वं जुज्झइ हुंकरंतु ।
 पडिखलइ तलपइ हरि झड ति ।
 फणि लुंचइ वंचइ लच्छिकंतु ।
 णउ बीहइ सप्पहु गरुडकेउ ।
 दामोयरेण पत्थाउ लहिवि । 5
 मणिकिरणसिहासंताणसंगि ।

2 १ S °हुयवहो. २ B ° विजलियहिं. ३ S °जवल°. ४ B °लक्खु. ५ A दंडवाणु सरसरिपयुक्क. ६ BP गयवेयउ. ७ S कंसहो पासु. ८ A पुफ्फवंतु; PS पुफ्फुयंतु. ९ A देहि णं भसल°; P देहए; S देहे. १० S अंजगिरि°. ११ S °परिजय°. १२ B पुरसो°. १३ B देहमासु in second hand; P दीहणासु. १४ S णंतेहिं. १५ P कुसुमणियरेहिं. १६ A सरवेळ्ळीपल्लवपलंबु; S सरिवेळ्ळिउ. १७ S पल्लउ. १८ B कत्थूरिय°.

3 १ AP वि. २ P °फडाए. ३ A तडप्पए. ४ S सरइ धरइ. ५ P जुज्झु समदु. ६ APS उत्तिमंगि. ७ A °किरणसहासं तेण संगि.

2 २ b दी ही कयंगु दीर्घीकृतशरीरः. 3 a सिय° श्वेता. 4 a हरिसउहुं हरिसंसुखम्; फडंगुलिरयणणक्खु फटायां अङ्गुलिसदृशनखः. 7 a दहि हदे. 10 a तंबेहिं ताम्ने; कुसुममणिवरहिं पुष्परागमणिकरैः. 12 सरि जले. 13 कच्छा° वरत्रा.

3 2 a उरुफणाइ गरिष्ठफणया. 5 b पत्थाउ लहिवि प्रस्तावं प्राप्य. 6 a पीयलवासं पीतवक्षेप वासुदेवेन; b °सिहासंताणसंगि ज्वालासमूहसंगे उत्तमाङ्गे.

गउ णासिवि विवरंतरि पइहु जयसिरिह विह्वसिउ झ सि विहु ।
जलि कीलइ अमरगिरिदधीरु कल्लोलुपीलियविउंलतीरु ।
विह्वडियसिंपिउंडसमुग्गयाइं मुत्ताहलाइं दसदिह्वुं गयाइं ।
मीणउलइं भयरसमंधियाइं णं सत्तुकुंडुंवरं दुत्थियाइं । 10

घत्ता—उड्ढिवि गयणि गयाइं कीलंतहु हरिहि ससंसहु ॥
दिह्वइं हंसउलाइं अट्टियइं णाइं तहु कंसहु ॥ ३ ॥

4

भसलउलइं चउदिसु गुमुगुमंति णं कंसमरणि बंधव रुयंति ।
कण्हहु तेयं जाया विर्णाय रंगंति कंक णं पिसुण भीय ।
कमलाइं अलीढइं तेण केंव खुडियइं अरिसिरकमलाइं जेंव ।
हरियइं पीयइं लोहियसियाइं महुरापुंरणाहहु पेसियाइं ।
पयपम्भइइं मलिणंगयाइं खलविहिणा सुकयाइं व हयाइं । 5
पाडिवक्खभिष्णकरपेल्लियाइं बद्धाइं घरंगणि घल्लियाइं ।
णलिणाइं णिवेण णिहालियाइं णं णियसयणइं उंम्मूलियाइं ।
अण्णाहिं दिणि भुर्यंबलवूढंगाव हक्कारिय सयल वि णंदगोव ।
परजीवियहारणु मंतगुज्जु पारद्धउं रायं मल्लुज्जु ।

घत्ता—कंसहु णाउं सुणंतु तिव्वकोवपरिणामे ॥ 10
चल्लिउ देउ मुरारि णं केसरि गयणामे ॥ ४ ॥

5

संचेलिय णंदगोवाल सयल दीहरकर णं मायंग पबैल ।
वियइल्लुफुलबद्धकेस उडुंत थंतं जमदूयवेस ।

८ A जुयसिरिह. ९ APS उप्पेल्लिय°. १० AP विउलणीरु. ११ PS विउडिय°. १२ A सिंपिउल°. १३ P दसदिसि. १४ B कुंडुंवरं; P कुंडुंवरं.

4 १ AP महुराउरि°; P महुरापुि°. २ A णिमूलियाइं; B णिमूलियाइं. ३ B °भुव°. ४ P °ऊढ°. ५ AP सुणंतु णिरु तिव्व°. ६ A चल्लिउ मुरारि समोउ णं; P चल्लिउ मुरारि सगोउ णं.

5 १ AP ता चल्लिय. २ AP चवल. ३ A पवर. ४ P वियउल्ल°. ५ P ठंत.

9 a विह्वडिय° स्फुटितानि. 11 ससंसहु प्रशंसायुक्तस्य. 12 अडियइं अस्थीनि.

4 2 b कंक वकाः. ३ a अलीढइं अक्केरोन. 5 a पयपम्भइइं स्थानच्युतानि जलच्युतानि च; b सुकयाइं पुण्यानि. 10 णाउं नाम. 11 गयणामे गजनाम्ना.

5 2 a वियइल्लु° विकसितानि.

सिंदूरधूलिधूसरियदेह
कालाणल कालकयंतधाम
बलतोलियमहिमहिहर रउह
सणिदिट्टिविट्टिविसविसहराह
कयभुयरव विसि उट्टियणिहाय
खलमलणकउज्जम जमदुपेच्छ
रत्तच्छणियंच्छिर मच्छरिल्ल

घत्ता—तौ तं रोलविमहु उव्वगणसंचालियधरु ॥

गोवयविंदुं णियवि आरुसिवि धायउं कुंजरु ॥ ५ ॥

गज्जिय णं संझारायमेह ।
भसलउलगरलघणजालसाम ।
मज्जायरहिय णं खयसमुह । 5
रणि दुण्णिवार अरिहरिणवाह ।
पडुपडहसंस्वकाहलणिणाय ।
जयलच्छिणिवेसियवियडवंच्छ ।
महुंरापुरि पत्त महल्ल मल्ल ।

10

6

मउल्लियगंडु
सरासणवंसु
घणंजणवण्णु
विसागयभिंणु
महाकरि तेण
पडिच्छिउ पंतु
सिराग्गि तड त्ति
भएण गयस्स
बलेण समत्थि
विरेहइ चारु
रिउस्स पयंडु
पयासिउ दीहु

घत्ता—अप्पडिमल्लहु मल्लु पडिभडमारणमग्गियमिसु ॥

अक्खाडइ अवहण्णु हर्यवाहुसद्वयहिरियविसु ॥ ६ ॥

पसारियसुंहुं ।
सयापियपंसु ।
समुण्णयकैण्णु ।
धराधरतुंगु ।
जलोयसुएण । 5
णियंद्धिवि दंतु ।
गओ हउ झ त्ति ।
विसाणु गयस्स ।
सिरीहरहत्थि ।
जसो इव सारु । 10
जमेण व वंडु ।
मुरारि नृसीहु ।

5

10

६ S सेंदूर°. ७ AP कयंतधाम. ८ B °काहलि°. ९ A वियडविच्छ. १० B °णियच्छिय. ११ S महुराउरि. १२ A तं तहि रोलविसदु. १३ P °वेदु; S °वंदु. १४ AS धाइउ.

6 १ P मओल्लिय°. २ PS °सौंडु. ३ P °कंतु. ४ B णिवट्टिवि; S णियट्टिवि. ५ A हउ गओ झत्ति; P हओ गओ झत्ति. ६ ABP णिसीहु. ७ PS °मल्लहं. ८ BAs. हयवहुसद्व; PS ददवाहु°.

3 b संझारायमेह संझारागेण वेष्टिता मेघा इव. 4 a कालकयंतधाम मारणयमसदशतेजसः; b °घण जाल° मेघजालम्. 6 a सणि दि ट्टि वि ट्टि° शनिदष्टिसदशाः विष्टिसदशाः. 7 a °णि हा य निघातो वज्रनिर्घोषः. 8 a जमदुपेच्छ यमवत् दुःप्रेक्षाः. 10 उव्वगण° परस्परसंघट्टशब्दः.

6 1 a मउल्लियगंडु मदार्द्रकपोलः. 2 b सयापियपंसु सदाप्रियधूलिः. 6 a पडिच्छिउ आकारितः; b णियट्टिवि आकृष्य. 8 a गयस्स गतस्य नष्टस्य; b विसाणु दन्तः. 9 b सिरीहरहत्थि श्रीधरहस्ते. 12 b नृसीहु नृसिंहो महामल्लः. 14 अक्खाडइ युद्धभूमौ.

सुयपक्खु धरिवि	परिछेउ करिवि ।	
ओहामियक्खु	संगाहिवि थक्खु ।	
गयलीलगामि	वसुपवसामि ।	
कण्हहु बलेण	सुहिवच्छलेण ।	
पइसरिवि रंगि	लग्गेवि अंगि ।	5
वज्जरिउं कञ्चु	गोविंदं अञ्चु ।	
जुज्जेवि कंसु	दलवद्वियंसु ।	
करि बप्प तेम	णउ जियइ जेम ।	
तुह जम्मवेरि	उव्वूढखेरि ।	
खलु खयहु जाउ	उग्गिणघाउ ।	10
भइभुयरवालि	कोवग्गिजालि ।	
पडिवक्खजूरि	वज्जंतूरि ।	
आहवरसिल्लि	णञ्चंतमल्लि ।	
धिप्पंतफुल्लि	कुंकुमजलोल्लि ।	
अण्णणवण्णि	विक्खित्तञ्चुण्णि ।	15
आसण्णवज्झि	तहुं बाहुज्जि ।	
रिउणा विमुँक्खु	चाणूरु दुक्खु ।	
पसरियकरासु	दामोयरासु ।	
ता सो वि सो वि	आलग्ग दो वि ।	
संचालणेहि	अंदोलणेहिं ।	20
आवट्टणेहिं	अंवि लुट्टणेहिं ।	
परिभमिवि लद्धु	संरंद्धु बद्धु ।	
बंधेणं बंधु	रंधेणं रंधु ।	
बाहंहाइ बाहु	गाहेण गाहु ।	
दिट्ठीइ दिट्ठि	मुट्ठीइ मुट्ठि ।	25
चित्तेण चित्तु	गत्तेण गत्तु ।	

7 १ S ऊहामियं. २ BP गोविंदु. ३ A उव्वूढवेरि. ४ AP भइभुयवमालि.
 ५ AP णिक्खित्तपुण्णे. ६ ABPS तहिं. ७ AP पमुक्खु. ८ A वे. ९ AP add after
 20 b: उल्लालणेहिं; आवील्लणेहिं. १० AP पविल्लट्टणेहिं. ११ B संरद्ध. १२ AP खंधेण खंधु.
 १३ AP बंधेण बंधु. १४ P बाहेण बाहु.

7 1 b परि छेउ करि वि स्वपक्षो विभागीकृतः 2 b संगं हि वि संनह्य. 4 a बलेण बलभद्रेण.
 7 b दलवद्वियंसु चूर्णितभुजशिखरः. 9 b उव्वूढखेरि धृतवैरः. 11 a °भुयरवालि भुजमेलापके
 भुजास्फालननिनादे वा. 21 b अवि अपि.

परिकलिषि तुलिषि	उल्ललिषि मिलिषि ।	
तासियगहेण	सो महुमहेण ।	
पीडिषि करेण	पेल्लिषि ^{१५} उरेण ।	
संभिषि छलेण	मोडिउ बलेण ।	30
मैणि जणियसल्लु	चाणूरमल्लु ।	
कउ मासपुंजु	णं गिरिणिउंजु ।	
गेरुयविलिचु	थिप्पंतरसु ।	
महियलणिहिचु	पंचसु पसु ।	
घत्ता—विणिवाइवि चाणूर पहु बहुदुंवेयणं दूसिषि ॥		35
पुणु हक्कोरिउ कंसु कण्हें कालेण व रूसिषि ॥ ७ ॥		

8

णवर ताण दोण्हं भुयारणं	जाययं जणापंदकारणं ।	
सरणधरणसंवरणकोच्छरं	भिउडिभंगपायडियमच्छरं ।	
करणकत्तरीबंधबंधुरं	कमणिवायणावियंवसुंधरं ।	
मिलियवलियमहिंल्लुलियदेहयं	णहसमुल्ललणवलियमेहयं ।	
पवरणयरणरमिह्णतोसणं	परिघुलंतणाणाविह्णसणं ।	5
परंपरकमुल्लुहियदूसणं	जुज्जिउण सुइरं सुभीसणं ।	
चरणचैप्पणोणवियकंधरो	वरमयाहिवेणेव सिंधुरो ।	

घत्ता—कह्णुउ पपहिं धरिषि णिहल्लिउ गल्लियरुह्णिरोल्लिउ ॥
कंसु कयंतहु तुंडिं कण्हेणं भमाडिषि घल्लिउ ॥ ८ ॥

१५ B पेल्लवि. १६ APS मण°. १७ P दुव्वयणेहिं. १८ P हक्कारिवि.

8 १ A बंधुबंधुरं. २ A णामिय°. ३ P मिथुण°. ४ A परपरकमं लुहियदूसणं;
B परपरकमउल्लुहियदेहयं; S मुल्लिहिय°. ५ A चप्पणोणामिय°. ६ A वरमहाहवेण व्व; B वरमया-
हिवेणेव्व. ७ S सिंधुरो. ८ BK गल्लिउ. ९ APS तौडि. १० BP केसवेण.

32 b गिरिणिउंजु गिरिनिक्कुज्जः. 33 b थिप्पंतरसु श्रयोतद्दुधिरः. 35 विणिवाइवि मारयित्वा.

8 2 a °कोच्छरं कौतुकोत्पादकम्; b °पायडिय° प्रकटितः. 3 a करणेत्यादि आवर्तन-
निवर्तनप्रवेशादि; b कमणिवायणाविय° चरणनिपातनामिता. 5 a °णयरणर° नागरिकाः.
6 a पर° उत्कृष्टः; °उल्लुहिय° दत्तं भर्त्सनबलात्. 8 पपहिं पादाभ्याम्. 9 कयंतहु तुंडि
यमस्य मुखे.

9

हइ कंसि वियंभिय तियसतुट्टि
किंकर वर णरवइ उतंथरंत
मा मइ आरोडंडहु गलियगव्व
तहिं अवसरि हरि संकरिसणेण
वसुएवें भणिये म करहं भंति
भो मुर्यह मुर्यह णियमणि अखंति
उप्पणणउ देविहि^{१०} देवईहि
कुलधवलु वसुंधरभारधारि
पच्छण्णु पवह्तिउ णंदगोट्टि
जो कुज्झइ जुज्झइ सो जि मरइ

आयासहु णिवडिय कुसुमविट्टि ।
कण्हेण भणिय भंडणि भिडंत ।
मा एयहु पंथे^३ जाहुं सव्व ।
आलिंणित्त जयहरिसियमणेण ।
इहु केसरि तुम्हइं मत्त दंति । 5
कण्हहु बलवंत वि खयहु जंति ।
गब्भम्मि पसण्णि महासईहि ।
सुउ मज्झु कंसविद्धंसकारि ।
एवहिं करु ढोइउ कालवट्टि ।
गोविंदि^{१२} कुइइ किं कोइं धरइ । 10

घत्ता—जाणिवि जायवणाहु णियगोत्तहु मंगलगारउ ॥

वंदिउ नुं वणियरेहिं दामोयरु वहरिवियारउ ॥ ९ ॥

10

कण्हेण समाणउ को वि पुत्तु
दुद्धेरभरणधुरदिण्णखंधु
भंजिवि णियलइं गयवरगईइ
अहिणंदियजिणवरपायरेणु
कइवयदियहहिं रइकीलरीहिं
पंगुत्तउं पइं माहव सुहिल्लु
एवहिं महुराकामिणिहिं रत्तु

संजणउ जणणि विहवियसत्तु ।
उद्धरिय जेण णिवडंतं बंधु ।
सहुं माणिणीइ पोमावईइ ।
महुरहिं संणिहियउ उग्गसेणु । 5
बोलाविउ पहु गोवालिणीहिं ।
कालिंदित्तिरे मेरउं कडिल्लु ।
महुं उप्परि दीसहि अथिरचित्तु ।

9 १ P ओत्थरंत. २ P आरोलहु. ३ S पंथे. ४ S जाह. ५ B भणित्त. ६ B करहि;
P करहु. ७ A पहु. ८ B मुअहि मुअहि. ९ A बलवंतहो. १० B देवीदेवईहिं. ११ A कालविट्टि;
B कालवट्टि. १२ A गोविंदे कुइं. १३ AP को वि. १४ AP णिव°.

10 १ B संजणित्त. २ AAls. दुद्धरणभरणधुरदिण्णखंधु; B दुद्धरभरणदिण्णखंधु.
३ BAls. अहिवंदिय°. ४ AP °कीलणीहिं; B °कीलरीहिं.

9 1 हइ कंसि हते कंसे; b आ या सहु गगनात्. 3 a आ रो ड हु अस्माकं मा रोषमुत्पादयन्तु.
6 a अखंति क्रोधः. 9 b कालवट्टि कालवृष्टनाग्नि धनुषि. 11 जायवणाहु यादवनाथः.

10 5 a रइकीलरीहिं रतिक्रीडनशीलाभिः. 6 a पंगुत्तउं पूर्वे परिहितम्; b कडिल्लु
कटीवल्लम्. 8 b उन्मंति याइ उद्धान्तया.

क वि भणइ दहिउँ मंथंतियाइ
लर्वणीयलित्तु करु तुज्जु लग्गु
तुहुं णिसि णारायण सुयहि णाहिं
सो सुयराहि किं ण पउण्णवंछुं

तुहुं मरं धरियउ उब्भंतियाइ ।
क वि भणइ पलोयइ मज्जु मग्गु ।
आलिगिउ अवरहिं गोवियाहिं । 10
संकेयकुडंगुणीणरिंछु ।

घत्ता—का वि भणइ णासंतु उद्धरिवि खीरभिंणारउ ॥
किं वीसरियउ अज्जु जं मेइं सित्तु भडारउ ॥ १० ॥

11

इय गोवीयणघयणइं सुणंतु
संभासिउ मेळ्ळिवि गव्वभाउ
परिपालिउ थणैथण्णेण जाइ
कइवयदियहइं तुहुं जाहि ताम
इय भणिवि तेण चिंतविउ दिण्णु
आलाविय भाविय णियमणेण
पट्टविउ णंदु महुसूयणेण
सहुं वसुएवं सहुं हलहरेण

कीलइ परमेसरु दरहसंतु ।
इहजम्महु महुं तुहुं ताय ताउ ।
वीसरमि ण खंणुं मि जसोय माइ ।
पडिवक्खकुलक्खउ करमि जाम ।
वरवसुंहारइ दालिहु छिण्णु । 5
गोवालय पूरिय कंच्चणेण ।
ओहामियैदेवयपूयणेण ।
सहुं परियणेण हरिकरिज्जेणेण ।

घत्ता—सउरीणयरि पइहु अहिसुरणरेहिं पोमाइउ ॥ 10
भरहधरिसिसिरीइ हरि पुप्फयंतु अवलोइउ ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभवभरहाणुमणिए महाकव्वे कंसचाणूरणिहणणो णाम
छासीतिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८६ ॥

५ AP महिउ. ६ A णवणीय°. ७ A °वत्थु. ८ AP उद्धरमि. ९ AP मरं अहिसित्तु भडारउ.

11 १ B संभासिवि मेळ्ळिउ. २ B यणि थण्णेण. ३ B वीसरमि. ४ B खणु वि.
५ S चित्तविउ. ६ PS वसुधारए. ७ AP बाले आकरिसियपूयणेण. ८ B वसुएवह. ९ APS हरि-
करिभरेण. १० A छायासीमो; P छायासीमो; S छासीतितमो.

9 a ल व णी य लि त्तु नवनीतलिप्तः. 11 a प उ ण्ण वं छु प्रपूर्णवाञ्छु; b °कु डं ग ° हृत्वशाखः स्वल्पवृक्षः.

11 2 b तुहुं नन्दगोपः. 3 b मा इ हे मातः. 5 a चिंतविउ वाञ्छितं वस्तु; b °व सु हार इ
सुवर्णधारया. 7 b ओ हा मि य दे व य पू य णे ण तिरस्कृतदेवतापूतनेन. 8 b हरि° अक्षाः. 9 सउरी-
णयरि झौरिपुरे; पो मा इ उ प्रशंसितः.

मारिय मद्दुराणाहे जीवञस जसच्चिधहु ॥

गय सोपण वयंति पिडेहि पासि जरैसिधहु ॥ ध्रुवकं ॥

दुवर्ह—दुम्मण णीससंति पियविरहहुयासणजालजालिया ॥

वणद्वदहणहुणियणववेळ्ळि व सव्वावयवकालिया ॥

गयकंकण दुहिक्खलीला इव

णट्टपत्त फग्गुणवणाराइ व

मोक्कलकेस कउलदिक्खा इव

पउरविहार बउद्धपुरी विव

कंचिविवज्जिय उत्तरमहि विव

णिरलंकारी कुकइहि वाणि व

गलियंसुयजलसिप्तपओहर

भणइ जणणु गुरु आवइ पाविय

भणु तुह केण कयउं विहवत्तणु

जीविउं अज्जु जि कासु हरेसइ

पुप्फविरहिय भेलमाहिला इव । 5

सुट्टु श्शीण णवचंदकला इव ।

ण्हाणविवज्जिय जिणसिक्खा इव ।

वरविमुक्क काणीणसिरी विव ।

पंडुछाय छणदंयहु सहि विव ।

दुक्खहं भायण पारयजोणि व । 10

अवल्लोपवि धीय मउलियकर ।

किं कज्जेण केण संताविय ।

को ण गणइ महं तणउ पइत्तणु ।

कासु कालु कीलालि तरेसइ ।

घत्ता—जीवञसइ पवुत्तुं गुणि किं मच्छरु किज्जइ ॥

15

ताय सत्तु बलवत्तु तुज्झु समाणु भणिज्जइ ॥ १ ॥

दुवर्ह—वासारत्ति पत्ति बहुसलिलुप्पेल्लियणंदगोउले ॥

जेणेक्केण धरिउ गोवद्धणु गिरि हत्थेण णहयले ॥ छ

1 १ A पहुहे पासि. २ AP जरसैधहो. ३ P दुभिकख°. ४ P काणीणे. ५ P महि उत्तर.

६ A पंडुछाय सहि छणइंदहो इव. ७ AP कयउ केण. ८ B अज्जु वि. ९ AP पउत्तु; S उपत्तु.

2 १ S गोवद्धणगिरि.

1 4 ° दवदहणहुणिय° अमौ हुता. 5 a गयकंकण गतकङ्कणा, पक्षे दुर्मिक्षकाले गतं नष्टं कं जलं कणं धान्यम्; b मेलमहिला वृद्धा जरती तस्या ऋतुपुष्पं न. 6 a णट्टपत्त नष्टवाहना, नष्टानि नागवल्लीइलानि वा; ° वणराइ वनश्रेणी. 7 a कउलदिक्खा योगिजटा. 8 a पउरविहार प्रकर्षेण उरसि विगतो हारो यस्याः; पक्षे प्रचुरा विहारा यत्र बौद्धानां नगरे; b वरविमुक्क वरो भर्ता व्ययश्च. 9 a कंचि° कठिमेखला, पक्षे उत्तरदेशे काञ्चीपुरी न. 12 a गुरु आवइ पाविय गरिष्ठामापदं प्राप्ता. 14 a हरेसइ यमो हरिष्यति; b कालु यमः; कीलालि रुधिर.

वहरिणि गियथामेण विणासिय
 मायासयहु जेण संचूरिउ
 जेण तालु धरणीयल्लु पाविउ
 तरुर्जुवलउं मोडिउं भुयजुयलें
 चाउ पणाविउ संखापूरणु
 कालियाहि तासिवि अरविंदइं
 दंतिहि जेण वंतु उप्पाडिउ
 जो वग्गिवि भैंडरंगि पइइउ

बालसणि जें पूयण तासिय ।
 जेण तुंरंगु तुंगु मुसुमूरिउ ।
 जेण अरिद्वयणु वंकाविउं । 5
 णायसेज्ज आयामिय पबलें ।
 किथउं जेण गियपिसुणविसूरणु ।
 खुडियइं जेण पउरमेयरदइं ।
 सो जि पुणु वि कुंभत्थलि ताडिउ ।
 कालसलोणउ लोपं दिइउ । 10

घत्ता—जेण मल्लु चाणूरु जममुहकुहरि णिवेइंउ ॥

तेण णंदगोवेणें मारिउ तुइ जामाईउ ॥ २ ॥

3

दुघई—वसुपवेण पुत्तु सो घोसिउ भायरु सीरहेइणा ॥

ससयणमरणवयणु णिसुणेप्पिणु ता कुद्धेण राइणा ॥ छ ॥

पेसिया सणंदणा	ससंदणा ।	
धाविया सवाहणा	ससाहणा ।	
सूरपट्टणं चियं	धयंचियं ।	5
कण्हपक्खपोसिरा	सुरोसिरा ।	
णिग्गया दसारुहा	जसारुहा ।	
जाययं सकारणं	महारणं ।	
दिण्णघायदारुणं	पलारुणं ।	
रत्तवारिरेल्लियं	रसोल्लियं ।	10
दंतिदंतपेल्लियं	विहल्लियं ।	
छिण्णल्लत्तचामरं	णयामरं ।	

२ A तिय थामेण. ३ S बालत्तें. ४ B तुंरंगतुंग. ५ BAs. अरिद्व. ६ APS °जुयलउं.
 ७ ABPS संखाऊरणु. ८ ABP कयउं. ९ B पवर. १० PS महु. ११ PS णिवाइउ.
 १२ B णंदगोविंदें. १३ P जामाइओ.

3 १ A धाइया. २ PS सुरोसिरा. ३ A दहारुहा. ४ S वसोल्लियं. ५ A वहिल्लियं.
 ६ A णियामरं; P णयामरं.

2 3 a वहरिणि वैरिणी पूतनादेवी; °थामेण बलेन. 4 a °सयहु शकटम्. 5 b
 अरिद्व° वृषभः. 6 b णायसेज्ज नागशय्या; आ यामिय चम्पिता. 8 a कालियाहि कालियसर्पः.
 9 a दंतिहि गजस्य.

3 3 b ससंदणा सरथाः. 4 b ससाहणा ससैन्याः. 5 a चियं चित्तं वेष्टितम्; b धयंचियं
 च्चजसद्वितम्. 7 b जसारुहा यशोयोग्याः. 10 b रसोल्लियं रुधिरार्द्रम्. 11 b विहल्लियं कम्पितम्.

पुष्पवासवासियं गिसंसियं ।
घत्ता—णवर दुरंतरयाहं दुप्येकखहं गयणायहं ॥
णट्टा वहरिणरिदं णारायणणारायहं ॥ ३ ॥

15

4

दुवई—णासंतेहिं तेहिं महि कंणइ णाणामणियरुज्जला ॥

महुमंथणरयाहि महिमहिलहि हल्लइ जलहिमेहला ॥ छ ॥

णियपयपंकयतलि आसीणा
रापं अवरु पुसु अवरायउ
तेण वि जाँइवि जयसिरिलोहं
सउरीपुरु चउदिसहिं णिरुद्धउं
करिकरवेढणेहिं असरालिहिं
चंडगयौसणिवलियधुरिल्लहिं
फुरियकिरणमालांपहरिक्हहिं
भडकैरगाहधरियसिरंमालहिं
व्रणोवियलियलोहियकल्लोलहिं
वाढाभासुरभइरवकायहिं

ते अवलोइवि संगरि रीणा ।
पेसिउ जो केण वि ण पराइउ ।
रहकिंकरहयगयसंदोहं ।

5

णीसरियउं जायवबलु कुद्धउं ।

रहसंकडि पडंतमहिवालहिं ।

णिवडियकौंतसूलहल्लेहल्लहिं ।

विहाडियमउंडेकडयमाणिक्हहिं ।

असिसंघट्टणहुँयवहजालहिं ।

10

दिसिविदिसामिलंतवेयालहिं ।

किलिकिलिसहहिं भुयपिसायहिं ।

घत्ता—जुज्झहं णरघोरोईं करि करवालु कैरेप्पिणु ॥

छायालीसहं तिण्णि सयहं पम जुज्जेप्पिणु ॥ ४ ॥

5

दुवई—गइ अवराइयम्मि वसुएवतणुंरुहसरणिसुंभिण ॥

पविउलसयलैभुवणभवणंगणजसवडहे वियंभिण ॥ छ ॥

4 १ B णिवपंकयतलं. २ B जायवि. ३ P णेरुद्धउं. ४ A °विभलेहिं; B °वेडणेहिं.
५ APS असरालिहिं. ६ P °महिपालहिं. ७ B °गयासिणि°. ८ AP °हलभल्लहिं. ९ B °पयरिक्कहिं.
१० APS °कडयमउडं. ११ B °करवाल. १२ AP °सिरवालहिं. १३ B °हुयवय°. १४ ABP
वण°. १५ BKP मिलंति. १६ A णरघोरेहिं; B णरघोराहं. १७ A लएप्पिणु.

5 १ B अवरायम्मि. २ B °तणुरुह°. ३ S °सयलभुवणंगण°.

13 b णि संसियं नरैः प्रशस्तं नृशंसं वा. 14 दुरंतरयाहं दुष्टावसानवेगानाम्; गयणायहं गगनागतानां गजनादानां वा. 15 °णारायहं बाणानाम्.

4 1 °मणियरुज्जला मणिकिरणैः उज्ज्वला. २ महुमंथणरयाहि वासुदेवे रतायाः भूमेः.
7 a असरालिहिं बहुलैः. 8 a °धुरिल्लहिं °मुख्यैः सारथिभिर्वा. 9 a °पहरिक्कहिं प्रचुरैः.
10 a सिरमालहिं सीसकैः (शिरस्त्राणैः) शिरोगताभिः पुष्पमालाभिर्वा. 13 जुज्झहं युद्धानाम्.
14 छायालीसहं तिण्णि सयहं षट्त्वारिंशदधिकानि त्रीणि शतानि युद्धानां युद्धा.

5 1 अवराइयम्मि अपराजिते गते सति; °सरणिसुंभिण्णैः विष्वस्ते.

अण्णु वि सुउ जरसिंधहु केरउ
कालु व वहरिबीरजीवियहरु
पभणइ ताय ताय आयण्णहि
पिप्पिहं सहुं समरि धरेप्पिणु
पुलउ जणंतु णराहिवदेहहु
जलि थलि णहयलि कहिं मि ण माइउ
गंपिणु पिसुणचारिउं जं दिट्टुं
तं णिसुणेप्पिणु जाणियणाएं
बंधुवग्गु मंतणइ पइट्टुउ
जइ सबलेहिं अबलु आढप्पइ
बेणिण जि^१ होंति विणासहु अंतरु
तहिं पहिलारउ अज्जु ण जुजइ
हरि असमत्थु देईउ को जाणइ
खलरामाहिरामसुविरामें

घत्ता — बोल्लिउं महुमहणेण हउं असमत्थु ण बुच्चमि ॥

मइं मेळइ रणरंगि पक्खु जि रिउंहुं पट्टुच्चमि ॥ ५ ॥

विहंलियसुयणहं सुहइं जणेरउ ।
उट्टिउ कालजमणु दट्टाहरु ।
दीण वईरि किं हियवइ मण्णहि । 5
आर्णमि णंदगोउ बंधेप्पिणु ।
सहुं सेण्णेण विणिग्गउ मेहहु ।
सो सरोसु सहरिसु उच्चाइउ ।
तं तिह हरिहि चरेणं उवइट्टुं ।
सहुं मंतिहिं सुहुं सुहिसंघाएं । 10
मंतिहं मंतु महंतउ दिट्टुउ ।
तो णासइ जइ सो पडिकुप्पइ ।
तप्पवेसुं अहवा देसंतरु ।
देसगमणु पुणु णिच्छउं किज्जइ ।
को समरंगणि जयसिरि माणइ । 15
तं णिसुणेप्पिणु अलिउलसामें

दुवई—णासिउ जेहिं वहरिविज्जागणु भेसिउ जेहिं विसहरो ॥

मारिउ जेहिं कंसु चाणूरु वि तोलिउ जेहिं महिहरो ॥ छ ॥

ते भुय होंति ण होंति व मेरा

किं एवहिं जाया विवरेरा ।

इय गज्जंतु मुरारि णिवारिउ

हलिणां मंतमग्गि संचालिउ ।

जं केसरिसरीरसंकोयणु

तं जाणसु करिजीवविमोयणु । 5

अज्जु कण्ह ओसरणु तुहारउं

पुरउ प्होसइ परखयगारउं ।

४ PS जरसिंधहो. ५ A विहडिय°. ६ AP दीणवयणु. ७ K पिप्पिण, but gloss पितृव्यैर्नवमिः सह. ८ S आणेवि. ९ B चरं उव°. १० AP णिसुणेवि वियाणियणाएं; S णिसुणेविणु जाणियणाएं. ११ P मंतिउ मंतु महंतहिं. १२ A वि. १३ P तप्पविसु. १४ P दइउ. १५ P रिउंहुं.

6 १ S हरिणा.

3 b विहलिय° दुःखितानाम्. 6 a पिप्पिहं पितृव्यैर्नवमिः सह; b णंदगोउ कृष्णः. 9 a पिसुणचारिउं शत्रुचेष्टितम्. 12 a आढप्पइ मारयितुमारभ्यते; b णासइ म्रियतेऽबलः. 16 a खलेत्यादि खलरामाणामभिरामस्य रमणीयत्वस्य सुष्ठु विरामो यस्मात्.

6 1° विजागणु देवतासमूहः; भेसिउ भयं प्रापितः कालाहिः. 2 महिहरो गोवर्धनगिरिः. 3 a मेरा मम. 4 b मंतमग्गि मन्त्रमार्गे; संचालिउ प्रवर्तितः. 6 b पुरउ अग्ने; प्होसइ प्रभविष्यति; पर° शत्रुः.

इय कहेवि मच्छर ओसारिउ
 गयउरसउरीमहुरापुरवह
 वहइ सेणु अणुदिणु णउ थक्कइ
 भूवइ भूमि कमंतकमंतहं
 कालु व कालायरणि ण भग्गउ
 जलियजलणजालासंताणइं
 हरिकुंलदेवविसेसहिं रइयइं
 णायरणाारिरूवेण रुवतिउं

महुंइ दाणवारि णिसारिउ ।
 णिग्गय जायव सयल वि णरवइ ।
 महि कंपइ अहि भरहु ण सक्कइ ।
 जंतहं ताहं पहेण मैहंतहं । 10
 कालजमणुं अणुमग्गे लग्गउ ।
 उज्जमाणपेयाइं मसाणइं ।
 सिवजंबुयवार्यससयउइयइं ।
 दिट्ठउ देवयाउ सोयंतिउ ।

घत्ता—हा समुद्दविजयंक हा धारण हा पूरण ॥

15

थिमियमहोयंहिराय हा हा अचल अकंपण ॥ ६ ॥

तुवई—हा वसुएव वीर हा हलहर दुम्महदणुयमइणा ॥

हा हा उग्गसेण गुणगणाणिहि हा हा सिसु जणइणा ॥ छ ॥

हा हा पंडु चंड किं जायउं
 हा हा धम्मपुत्त हा मारुइ
 हा सहएव णउल कहिं पेक्खमि
 हा हा कौंति महि हा रोहिणि
 हा महिणाहु कुइउ जमदूयउ
 तं आयणिणावि चोञ्जु वहंतै
 कज्जे केण दुहेण विस्सण्णौ
 तं णिसुणेवि देवि तहु ईरइ
 तंहु भीपई सिबिई संचालिउ

पत्थिववइरु विट्ठरु संप्रायउ ।
 हा हा पत्थ विजयमहिमारुइ ।
 वत्त कासु कहिं जाईवि अक्खमि । 7
 हा देवइ अणंगसुहवाहिणि ।
 सर्व्वहं केम कुलक्खउ हूयउ ।
 पुच्छिउ णिवसुएण विहसंतै ।
 किं सोयह के मरणु पवण्णा ।
 भणु णरणाहि कुञ्जि को धीरइ । 10
 महियलि सरणु ण कहिं मि णिहालिउं ।

२ AP मंडुए; B मंडुय. ३ B वहंतहं. ४ A कालजमण. ५ S हरिउलवंसविसेसहिं. ६ A °जंबू°; P °जंबुव°. ७ ABP णयरणारिरूवेण; S णायरणारीरुवि. ८ P रुयंतिउ. ९ P °महोवहिं°.

7 १ P कें. २ A संजायउ; P संपाइउ. ३ P जायवि. ४ ABPS सर्व्वहुं. ५ B चुञ्जु. ६ P दुहेहि. ७ A णिसण्णा. ८ S णरणाह. ९ A तुह. १० PS सिमिह.

9 b अहि भरहु ण सक्कइ शेषनागः भारं न शक्नोति. 10 a भूवइ राजानः; भूमि कमंतकमंतहं भूमि क्रमन्तो गच्छन्तः. 11 a कालायरणि कालस्य मरणस्य आचरणे आदरणे वा. 12 b °पेयाइं मृतकानि. 13 b सिव° शृगाली; °जंबुय° शृगालः. 16 थिमियमहोयहिराय स्तिमितसागर.

7 3 b पत्थिववइरु विट्ठरु संप्रायउ शत्रुभिः कृत्वा दुखं प्रापितः. 4 a मारुइ भीमः; b विजयमहिमारुइ विजयमहिम्ना रुचिर्दीप्तिर्यस्य. ५ b वत्त वार्ताम्. 6 b °वाहिणि नदी. 8 a चोञ्जु वहंतै आश्चर्यं धरता.

द्वयं पुण्णकस्सइ णं जरपायव
तं णिसुणेप्पिणु रणभरजुत्तं

अग्गिपवेसु करिवि मय जायव ।
भासितं खोणीयलवइपुत्तं ।

घत्ता—भल्लंउ सुहडणिहाउ णिग्घिणजलणं तं^{१३} खड्डउ ॥

आहवि सँउहुं भिडेवि मइं जसु जिणिवि ण लद्धउं ॥ ७ ॥

8

दुवई—हा मइं कंसमरणपरिहवमलु रिउरुहिरे ण धोइओ ॥

इय चितंतु थंतु मलिणाणणु जणणसमीवि आइओ ॥ छ ॥

पायपणामपयांसियविणणं
जोइउं सुयउं सच्चुं विण्णवियउं
अत्थमिण णियाहियवंदं
एत्तहि पहि पवहंत महाइय
विट्टउ भहिपैण रयणायरु
वाडवग्गिजालाहिं पलित्तउ
णवपवालसरलंकुररत्तउ
जलयरघोसें भणइ व मंगलु
तलणिहित्तणामणिकोसें
परंगंभीरु पयइगंभीरउ
महुमह आउ आउ साहारइ

दिट्टउ ताउ तेण पियंतणणं ।
अरिउँलु णिरवसेसु सिद्धिखवियउं ।
थिउ मेइणिपहु परमाणंदं । 5
हरि बल जलहितीरु संप्राइय ।
वेलाळिगियचंदद्विवायरु ।
जलकरिकंरजलधारहिं सित्तउ ।
णं कुंकुमराएण विलित्तउ)
हसइ णाइ मोसियदंतुज्जु । 10
णंश्चइ संवहियसंतोसें ।
ण सहइ मलु णं अरुहु भडारउ ।
णं तरणंहथ्ये हकारइ ।

घत्ता—भूसणदित्तिसिवालु णावइ तारायणु थक्कउं ॥

जायवणाहें तेत्थु सायरतडि सिबिरे विमुक्कउं ॥ ८ ॥

15

११ AP णियपुण्ण^०. १२ AP भग्गउ. १३ ABPS om. तं. १४ B समुहु.

8 १ B पयासियपणणं. २ S णियतणणं. ३ K सच्चु and gloss सर्वे सत्यं वा; ABPS सच्चु. ४ P अरिक्खु. ५ A णियाहियवंदं. ६ AP संपाइय. ७ A भहएण. ८ AP वेलाळकिय^०. ९ B^० करजलधारासित्तउ; S^० करधाराहिं सित्तउ. १० AP गजइ णं वट्टिय^०. ११ AP परहु दुलंयु. १२ ABPS हत्यहिं. १३ S सिमिरु.

12 a जरपायव जीर्णवृक्षाः. 14^० णि हाउ समूहः; ^० णि ग्घि ण जलणं निर्दयामिना. 15 सउहुं संमुखम्.

8 4 a जो इउं सुयउं दृष्टं श्रुतम्. 5 a णि या हियवंदं निजशत्रुसमूहेन. 6 a महाइय महर्षिकाः. 7 a भहि एण हरिणा. 8 a पलित्तउ प्रखलितः. 10 a जलयर^० शंखः. 12 a पर-गंभीरु परैरक्षोभ्यः; पयइगंभीरउ प्रकृत्या गम्भीरो जिनः. 13 a महुमह हे कृष्ण; आउ आउ आगच्छामच्छ; सा हारइ धीरयति. 15 जायवणाहें यादवनाथेन समुद्रविजयेन; सिबिरु सैन्यम्.

तुवई—खंघिय रह तुरंग मायंगोयारियसारिभारया ॥

खंभि णिवद्ध के वि गय के वि कराहयभूरिभूरया ॥ छ ॥

णियंसंतावयारिरविसयणं	उम्मूलंति के वि करि णलिणं ।
केण वि पंकु सरीरि णिहिसउ	सीर्यलु मइलु विलेवणु थकउं ।
दाणबिंदुचंदियविचलजलु	दीसइ काणणु चूरियदुमदलु ।
मुक्कइं खलिणं मणिपरियाणं	तुरयहं भइहं विविहत्तणुताणं ।
थाणुणिवद्धं तवसिउलाइं व	गुणपसरियं सुधम्मफलाइं व ।
उब्भियाइं दूसइं बहुवण्णं	चलियाविंधं मंडेवि वित्थिण्णं ।
कइवय दियह तेत्थु णिवसंतहं	गय दुग्गमपपसें जयंतहं ।
पुणु अण्णहि दिणि मंतु समत्थिउ	गुरुयणेण माहउं अम्मत्थिउ ।
हरि तुहुं पुण्णवंतु जं इच्छहि	तं जि होइ णियंसत्ति णियच्छहि ।
तिह करि जिह रयणायरेपाणिउं	वेइ मग्गु मयरोहरमाणिउं ।
णिरसणु अट्ट दियह मलणासणि	ता रक्खसरिउ थिउ व्भासणि ।
णइगमु अमरु णिसिहि संपत्तउ	हरिवेसें हरि तेण पवुत्तउ ।

घत्ता—आउ जिणिदु णवेवि जणियंतायजयतुट्टिहि ॥

15

माहँव चितहि काइं चइ महु तणियंदिहि पुट्टिहि ॥ ९ ॥

10

तुवई—ता हय गमणभेरि कउ कलयलु लंघियदसदिसामरे ॥

मणिपल्लाणपट्टेचलचामरि चाडिउ उर्विदु हयवरे ॥ छ ॥

चवलंतुरंगतरंगणिरंतरि

तुरउ पइदु समुहभंतरि ।

9 १ B °गोत्तारिय°. २ S खंभ°. ३ A के वि कराहाहिय वसइ वि भूरिभारया; BPS कराहिय°. ४ AP णिव°. ५ APS केहिं मि. ६ AP सीयलु णाइं विलेवणु चित्तउं. ७ B विलेयणु. ८ A °वदिय°. ९ AP चूरिय°. १० B °भंग. ११ A मंडव°. १२ APS पवेसु. १३ S माहउ. १४ A णियसंति. १५ AP °यस्वाणिउं. १६ AP जणियजयत्तयतुट्टिहे. १७ K माहउ. १८ B तणिहिं.

10 १ P °पट्टे. २ A चंचलु तुरउ तरंग°; P चलतरंगरंगंतणिरंतरि.

9 1 °ओ या रि य सा रि ° अवतारितपर्याणाः. 2 करा ह य भूरि भूर या शुण्डाहतप्रनुरभूमिरजसः. 5 a दाणे त्या दि दानविन्दुभिर्मदलवैः जले जनितचन्द्रकामिश्रित्रितं जलम्. 6 a खलिणं इं कविकाः; °परियाणं इं पल्याणानि; b °तणुताणं इं गान्त्राणानि. 7 a थाणु° स्थाणुः कीलकः; b गुण° रज्जुः. 11 b णियच्छहि पद्य. 12 b °ओ हर° जलचरविशेषः. 13 b रक्खसरिउ हरिः. 14 b हरि वेसें अश्वरूपेण. 15 जणियतायजयतुट्टिहि उत्पादितत्रातजगजुष्टी.

10 3 a °तुरंगतरंग° तुरक्खजुक्काः तरक्काः; b तुरउ अश्वः.

हरिवरगद्मज्जायद् धरियं
तद्दु अण्णुमग्गे साहणु चल्लिउं
थियउं सेण्णु सुराणिम्मिद् गयमलि
भवसंसरणदुक्खदुक्खियहँरि
तित्थंकरु सिवदेविहि होसद्
एयहं दोहिं मि पंकयणेत्तहं
जक्खराय तुहुं करि पुरु भल्लउं

पाणिउं विहिं भाईहिं ओसरिउं ।
हयहँकारवहरिसरसोल्लिउं । 5
वेसादप्पणसंणिहिं महियलि ।
बावीसमु समुद्दिवजयद्दु घरि ।
छम्मासहिं सुरणाद्दु पघोसद् ।
वाणि णिवसंतहं वहुवरद्दुत्तहं ।
चित्तजयंतिपंतिसोहिल्लउं । 10

घत्ता—इत्ति पसाउ भणेवि गउ पेसिउ सहसक्खे ॥
पुरि परिहाजलदुग्ग कय दारावद् जक्खे ॥ १० ॥

11

दुवई—कच्छारामसीमणंदणवणफुल्लियफलियतरुवरा ॥

सोहई पंचवण्णचलचिंधिं दूरोरुद्धरवियरा ॥ छ ॥

घरइं सत्तभउंमईं मणिरंगइं
प्रंगणाइं माणिक्कणिबद्धइं
जलइं सकमलइं थलइं ससासइं
कुंकुमपंकें धूलि कप्पूरै
महुयर रुणुरुणांति महु थिप्पद्
कह कहंतु जायउ रसु खंचद्
कुसुमरेणु पिंगलु णैहि दीसद्
वेणिण वि णं संशाघण णवघण
जहिं जिणहरइं वरइं रमणीयइं

रयणसिहरपरिहद्दुपयंगइं ।
तोरणाइं मरगयदलणिद्धइं । 5
माणुसाइं पालियपरिहासइं ।
पउ धुप्पद् संसिकंतद्दु णीरै ।
परहुयं वासद् पूसउ कुप्पद् ।
कलमकणिसु पमेव विलुंचद् ।
कालायरुधूमउ दिस भूसद् ।
जहिं दुद्दु णउ मुणांति णायरजण । 10
धीणावंसविलासिणिगेर्यइं ।

घत्ता—तैहिं सभवणि सुत्ताए रयणिहिं दुक्कियहारिणि ॥

दिट्ठी सिविणयपंति सिवदेविद्दु सिवकारिणि ॥ ११ ॥

३ APS भायहिं. ४ P °ढकारए हरिस°. ५ A °दुक्किय°. ६ AP करि तुहुं.

11 १ B सोहिय. २ P °भोमइं. ३ AP पंगणाइं. ४ B °पंक°. ५ A ससियंतहो.
६ BS परहुव. ७ AP णहु. ८ P °गीयइं. ९ AB तहिं जि भवणि.

4 b वि हिं भा इ हिं द्वाभ्यां भागाभ्याम्. 5 a तद्दु अश्वस्य. 6 a गयमलि निर्मले महीतले द्वीपे;
b वेसा° वेस्या. 7 a °दुक्खियहरि दुःखितानां प्राणिनां धारके गृहे. 8 b पघोस इ कथयति धनदस्य.
9 b वणि वने जले; वहुवरद्दुत्तहं वधुवरयोः. १० b °जयंति° ध्वजा.

11 1 कच्छ° गृहवाटिका. 2 दूरोरुद्ध° दूरादवरुद्धाः. 3 a मणिरंगइं मणिस्थानानि
मण्डपस्थानानि; b परिहद्दुपयंगइं वृष्टमूर्त्याणि. 5 a ससासइं धान्ययुक्तानि; b पालिय° कृतः.
6 b धुप्पद् प्रक्षाल्यते. 7 a महु मकरन्दः; थिप्पद् क्षरति; b वासद् शब्दं करोति; पूसउ शुक्रः.
8 a कह कहंतु कथां कथयन्. 10 a वेणिण वि पुष्परजः अगुरुधूमश्च द्वौ. 12 रयणि हि रात्रौ.

12

दुवई—वियलियदाणसलिलचलधारासित्तकभोलमूलओ ॥

पसरियकण्णतालमंदाणिलधोलिरभसलमेळओ ॥ छ ॥

दिट्टउ मत्तउ णयणसुहंवावउ

कामधेणुकीलारसलीणउ

रायसीहु उल्लंघियवरिगिरि

सुल्लंतउं णहि भमरझुणिल्लउं

सारयंससहरु जोण्हइ जुट्टउ

मीण झसंकझसा इव रइघर

सरु माणसु समुहु खीरालउ

सेहीरासणुं जणमणमोहणु

रणणुंहुं हुयवहु अवलोइउ

संमुहुं पंतउ करि अहरावउ ।

विसु ईसाणविसिंदसमाणउ ।

सिरि पुणुं दिट्टी णं तिहुयणसिरि । 5

सुरतरुकुसुमदामजुयल्लुउं ।

हेमंतागमदिणैयरु दिट्टउ ।

गंगासिंधुकलस मंगलधर ।

मयरमच्छकच्छवरावालउ ।

इंदविमाणु फणिंदणिहेलणु । 10

मुद्धइ सिविणउ पियंहु णिवइउ ।

घत्ता—सिविणयफलु जंउजेहु कहइ सेंइहि णिवकेसरि ॥

होसइ तिहुयणणाहु तुज्जु गब्भि परमेसरि ॥ १२ ॥

13

दुवई—द्विरिसिरिकंतिसंतिदिहिबुद्धिं देविहिं कित्तिलच्छिहिं ॥

सेविय रायमहिंसि महिसांमिणि अहिणवपंकयच्छिहिं ॥ छ ॥

सकणिओइयाहिं पणवंतिहिं

तहिं पहुप्रंगणिं पउरंदरियइ

अवरैरहिं मि उवयरणइं देंतिहिं ।

आणइ पउरपुणणपरिचैरियइ ।

12 १ PS °कवोल°. २ B °सुहावइ. ३ B अहरावइ. ४ B पुण. ५ S सायरसस°. ६ AP जुत्तउ. ७ A °दिणयरि दित्तउ; P °दिणयरदित्तओ. ८ A रइयर; P रइयर. ९ B कच्छमच्छव°. १० B सेरीहासणु. ११ B °पुंज. १२ B पियहि. १३ A जणजेहु; B जउजिहु. १४ AP पियहे. १५ P तिहुवण°.

13 १ S दिट्टि. २ A सासामिणि; P तियसामिणि. ३ A अमराहिवउवयरणइं देंतिहिं. ४ AP °पंगणि. ५ APS परियरियइ.

12 4 b ईसाण विसिंदसमाणउ रुद्रवृषभसदृशः. 5 a रायसीहु सिंहराज इत्यर्थः. 6 a सुल्लंतउं अवलम्बमानम्. 7 a सारय° शरत्काल°; जुट्टउ प्रीत्या सेवितः. 8 a झसंकझसा कामध्वजमस्त्यौ; रइघर रतिग्रहौ; b गंगा सिंधु कलस गङ्गासिन्धुभ्यां यौ चक्रिणे मङ्गलार्थं धृतौ तादृशौ. 9 b °रावालउ शब्दयुक्तः. 12 जउजेहु यादवज्येष्ठो राजा.

13 3 a सकणि ओइयाहिं इन्द्रनियोजिताभिः सेविता राज्ञी; b अवरहिं अपराभिश्च; उवयरणइं उपकरणानि. 4 a पउरंदरियइ पुरंदरस्य इन्द्रस्य.

मणिमयमउडपसाहियमत्थउ
उडुमाणां तिण्णि पविउडुउ
कात्तियसुकखपक्खि छँडुइ दिणि
देउ जयंतु णाणंसंपण्णउ
आय देव देवाहिव दाणव
पुज्जिन्नि जिणपियराइं महुच्छवि
णवमासावसाणकयमेरे^{१०}
पंचलकखवरिसैइं णरसंकरि
सावणमासि समुग्गइ ससहरि
तक्कालंतजीवि णिम्मलमणु

पुव्वमेव णिहिकलसविहत्थउ । 5
धणयमेहु धणघारहिं बुडुउ ।
उत्तरआसाढइ मयलंछणि ।
गयरूवेण गग्भि अवइण्णउ ।
वंदिवि भावे सफणि समाणव ।
णश्चिय पवियंभियभंभारवि । 10
पुणु वसुपाउसु विहिउ कुबेरे ।
संजायइ णमिणाहजिणंतरि ।
पुण्णजोइ पुव्वुत्तइ वासरि ।
जणणइ जाणुउ देउ सामलतणु । 15

घत्ता—उपपण्णे जिणणाहे सग्गि सुरिंदहु आसणु ॥

कंपइ ससहावेण कहइ व देवइ पेसणु ॥ १३ ॥

14

दुवई—घंटाञ्जुणिविउडु कप्पामर हरिसवसेण पेळिया ॥

जोइस हरिरवेहिं वेंतर पडुपडेहरवेहिं चळिया ॥ छ ॥

भावण संखणिणायहिं णिग्गय
सिवियाजाणहिं विविहविमाणहिं
मोरकीरकारंडहिं चासहिं
करिदसणाहयणीलवराहिं
दारावइ पइडुं परियंचिवि
जय परमेट्टि परम पभणंतिइ
पाणिपोमि भसलु व आसीणउ
अणिमिसणयणहिं सुइरु णियच्छिउ

गयणि ण माइय कथइ ह्य गय ।
उल्लोवेहिं दियंतपमाणहिं ।
फणिमंजारमरालहिं मेसहिं । 5
आया सुरवर सहुं सुरणाहिं ।
मायाडिंभं मायरि वंचिवि ।
उच्चाइउ जिणु सुरवइपत्तिइ ।
इंदहु दिण्णउ तिहुयणैराणउ ।
कयपंजलिणा तेण पडिच्छिउ । 10

६ AP परितुडुउ; S परितुडुउ. ७ P छडुहि. ८ P जयंत. ९ B माणु. १० B मेरं. ११ P
वरिसहं. १२ B पुण्णु. १३ S उपपण्णहि. १४ A दइवहो; S दइयहो.

14 १ P हरिवचसेण. २ APS पडहसरेहिं. ३ APS मजार°. ४ B पयट्ट. ५ S सुरवर°. ६ AP पाणिपोम°. ७ AP तिहुवण°.

6 a उडुमाणां तिण्णि ऋतुत्रयं षण्मासानित्यर्थः; पविउडुउ प्रवृष्टः; धणयमेहु कुबेर एव मेवः.
10 b पवियंभिय° प्रविजृम्भितः. 11 b वसुपाउसु धनवृष्टिः. 13 b पुण्ण जो इ त्वष्टृयोगे; पुव्वुत्तइ
षष्ठ्याम्. 14 a तक्कालंतजीवि तत्कालः पञ्चलक्षवर्षकालः तस्यान्यं यद्रूपसहस्रं तत्कालान्यजीवी.

14 1 °विउडु सावधाना जाताः. 2 हरिरवेहिं सिंहनादैः. 4 b उल्लोवेहिं उल्लोचैः;
दियंतपमाणहिं दिगन्तप्रमाणैः. 6 a णीलवराहिं मेवैः. 7 a परियंचिवि त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य;
b मायुरि मातरम्. 8 b सुरवइपत्तिइ इन्द्रपत्न्या शच्या.

अंकि णिहिउ कंषणवण्णुज्जलि हरिणीलु व सोहइ मंदरयलि ।
 यत्ता—ईसाणिदेँ छत्तु देवहु उप्परि धरियउं ॥
 सोहइ अहिणवमेहिँ ससिबिबु व विष्कुरियउं ॥ १४ ॥

15

दुवई—मंगलतूरवीरणिग्घोसेँ महिहरभित्तिदारणो ॥
 चरणंगुट्टुएँहिँ संचोइउ सुरवइणा सवारणो ॥ छ ॥
 तारायणगहपंतितु लंघिवि सुरगिरिसिहरु झ त्ति आसंघिवि ।
 दसदिसिँवहिँ धाईयँजोण्हाजलि अद्धचंदसंकासि सिलायलि ।
 णच्चियसुररामारसणासाणि णिहिउ सुणासीरें सिँहोँसाणि । 5
 णाहणाहु परमक्खरमंतें सायारें हविँदुरेहंतें ।
 इंदजलणजमणेरियवरुणहं पवणकुबेररुद्धिमकिरणहं ।
 पाडिवत्तीइ दिणेसफणीसँहं जण्णभाउ ढोइवि णिसिसहं ।
 पंडुरेहिँ णिज्जियणीहारहिँ कलसहिँ वयणविणिग्गयखीरहिँ ।
 णं किँत्तीथणेहिँ पयलंतहिँ णं संसारमलिणु णिहणंतहिँ । 10
 णावइ रइरसतिस गिरसंतहिँ णं अट्टारहदोस धुयंतहिँ ।
 सित्तउ देवदेउँ देविँदहिँ गजंतहिँ सिहरि व णवकंदहिँ ।
 यत्ता—इँदेँ जिणणिहियाइं पुष्पइं तंतुयबंदइं ॥
 णं वम्महकंडाँइं आयमसुत्तणिबद्धइं ॥ १५ ॥

16

दुवई—हरिणा कुंकुमेण पविलित्तउ छज्जइ णाहदेहओ ॥
 संझारायणण पिहियंगउ णावइ कालमेहओ ॥ छ ॥

८ P ईसाणंदेँ. ९ B भेहेँ.

15 १ A °दारुणो. २ PS °गुट्टण. ३ AS °वह°. ४ AP °पसारियजोण्ह°. ५ BP सीहासणि. ६ P °फणेसहं. ७ B कंतीथणेहिँ; P किँत्तीथणेहिँ. ८ S देवदेवु. ९ P तंतुहिँ बद्धइं. १० P °कुंडाँइं.

11 हरिणी छ इन्द्रनीलमणिः. 13 अ हि ण व मे हि नवीनमेघे.

15 4 a °वहि मागें. 5 a °रसणासणि कटिमेखलाशब्दे. 6 b सायारें हविँदुरेहंतें स्वाकारेण परमाक्षरेण, हकारेण बिन्दुना ओंकारेण राजता, बिन्दुरोंकारवाचकः, ॐ स्वाहा इत्येवंरूपेणेत्यर्थः. 8 a पडिवत्तीइ प्रतिपत्या आदरेण. 10 a किँत्तीथणेहिँ किँर्तिस्तनैरिव कलशैः; पयलंतहिँ प्रगलन्निः. 11 a °तिस गिरसंतहिँ तृष्णास्फेटकैः. 12 b सिहरिव णवकंदहिँ नवमेघैर्गिरिवत्. 14 आयमसुत्तणिबद्धइं आगमसूत्रेण बन्धनं प्रापितानि.

16 1 हरिणा इन्द्रेण.

णिवसणु कांइं तासु वण्णिज्जइ
सहइ हारु वच्छंयलि विलंबिरु
कुंडलाइं रयणावलितंबइं
भणु कंकणहिं कवण किर उण्णइ
पहु मेल्लेसइ अम्हइं जोपं
सयमहु जाणइ जिणहु ण रुच्चइ
लोयायारें सब्बु समारिउं
णाणासइमहामणिखाणिइ
तुच्छइ जिणगुणपारु ण पेक्खइ

जो णिग्गंथभाउं पडिवज्जइ ।
णं अंजणगिरिवरुं सराणिज्जइ ।
कण्णालग्गइं णं रविबिंबइं । 5
भुयबंधणइं व मुणिवइ वण्णइ ।
पयणेउरइं कणंति व सोपं ।
भूसणु सो परिहइ जो णच्चइ ।
तियंसिंदे थुइवयणु उईरिउं ।
पुणु लज्जिउ वण्णंतु सवाणिइ । 10
अण्णु जहण्णु मुक्खु किं अक्खइ ।

घत्ता—अमर मुणिद थुणंतु बाल वि बुद्धिइ कोमलं ॥

तो सब्बहं फलु एक्खु जइ मणि भत्ति सुणिम्मल ॥ १६ ॥

17

दुवई—दहिअक्खयसुणीलदुवंकुरसेसासीहिं णंदिओ ॥

धम्ममहारहस्स गइगुणयरु णेमि सदिओ ॥ छु ॥

पुणु दारावइपुरु औवेप्पिणु
तियरर्णसुविसुद्धिइ पणवेप्पिणु
णच्चइ सुरवइ दससयलोयणु
दिसिदिसिपसरियचलदससयकरु
माहि हल्लइ विसु मेल्लइ विसहरें ।
दिण्णुइं डवाउ णहि णज्जइ
चलइ जलहि धरणीयलु रेल्लइ

सुद्धंभाउं भावें भावेप्पिणु ।
जिणु जणणउिच्छंंगि थवेप्पिणु ।
देहसयदेपहसियपवराणणु । 5
डोल्लइ णहयलु सरवि सससहरु ।

पायंगुट्टणक्खु ससि छज्जइ ।
लीलइ बाहुदंडु जहिं घल्लइ ।

16 १ A तासु कांइं. २ S °भावु. ३ S वच्छयल°. ४ A गिरिवर. ५ P तियसिंदे.
६ B समीरिउ. ७ P सवाणिउ. ८ PS पेक्खइ. ९ S जघण्णु. १० A कोसल.

17 १ S °दुवंकुर°. २ ABPS °पुरि. ३ BS आणेप्पिणु. ४ AP read ३ b as 4 a.
५ S °भावु. ६ B पणवेप्पिणु. ७ AP read 4 a as 3 b. ८ AB तिरयण°; K तिरयण in second
hand but gloss त्रिकरण. ९ AB सुविसुद्धि; P सुद्धबुद्धि. १० ABP दस°. ११ A सहसअद°. १२ B adds तंतीमहलआइमहरसरु. १३ A दिण्णदंडपाउ वि णहि; P ओहुंड°.

4 b सरणिज्जइरु जलनिर्झरः. 5 a रयणावलि° रत्नश्रेणिः. 6 a कंकणहिं कङ्कणेपु; उण्णइ
गर्वः. 7 a जोपं दीक्षावसरेण. 10 a णाणेत्यादि नानाविधशब्दमहारत्नखाणिरिव; b सवाणिइ
स्ववाण्या. 12 कोमल मुग्धाः.

17 1 °सेसासीहिं शोपापुष्पैः आशीर्वादैश्च. 2 गइगुणयरु गमनस्य गुणकर्ता; णेमि व
चक्रधारवत्. 4 a तिरयण° त्रिकरणस्य. 6 b सरवि सूर्यसहितः. 8 a °वाउ पादः; णच्चइ शायते.

तद्धि कुलमहिहरणिर्येह विसदृह	विष्फुरंति तारावलि तुदृह ।	10
णैश्चिवि एम सरसु आणदें	वंदिवि जिणुं सहुं सुरवरैवंदें ।	
गउ सोहम्मराउ सोहम्महु	पुरवरि णाहहु पालियधम्महु ।	
णिवसंतहु वउ णिरुवमरूवउं	दहधणुदंडपमाणुं पड्ढयउं ।	
णवजोव्वणु सिरिहरु णित्तामसु	सामिउं एक्कु सहसवरिसाउसु ।	
घत्ता—थिउ भुंजंतु सुहाइं णोमि सबंधवसंजुउ ॥		15
भरहसरोरुहसूरु पुष्फदंतगणसंथुउ ॥ १७ ॥		

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्कर्यंतविरहए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे गेमितिथकरउप्पत्ती णाम
सत्तासीतिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८७ ॥

१४ AB °सिहरु. १५ B णच्चवि. १६ P जिणवरु सहुं सुरविदें. १७ PS सुरविदें. १८ B णिरुपम°. १९ S पवाणु. २० A सामिउ एक्कु वरिसु सहसाउसु; P सामिउ सहसु एक्कु वरिसाउसु. २१ A °तिथंकर°; S °तिथयर°. २२ P सत्तासीमो; S सत्तासीतितमो.

14 a णि त्ता म सु अदैन्यः.

धनुगुणमुक्कविसक्कसरु ओरुद्धदिवायरकरपसरु ॥
णं वणकरि करिहि समावडिउ जरसिंधु रणि मुरारि मिडिउ ॥ धुवकं ॥

1

दुवई—सउरीपुरि विमुंकि जउणाहें मउलियंसयणवत्तए ॥

णिवसुइ कालजमणि कुलदेवयमायावसणियत्तए ॥ छ ॥

गज्जिइ हरिपयाणभेरीरवि

पंधि पंडरि कप्पूरें वासिइ

दसदिसिवहंमयणिवेंहि पणोंसिइ

पित्तिहें मंति^१ महंति अणुट्टिइ

आवाहिइ मणहरसुरहयंवरि

लद्धइ मग्गि विणिग्गंइ हरिबलि

जिणपुण्णाणिलकंपियंसयमहि

बारहजोयणाइ वित्थिण्णइ

घत्ता—संगामदिक्खसिक्खाकुसालि

असुरिंदमहाभडमयमहाणि

खंचिइ अमरिसविसरइ णंवि णवि । 5

करिघंटाटंकारविलसिइ ।

सायरतीरि सेण्णि आवासिइ ।

णारायणि कुससयणि परिट्टिइ ।

दोहाईहयइ रयणायरि ।

पुणरवि चलिहेंमिलियजलणिहिजलि ।

रयणकिरणमंजरिपिंजरणाहि ।

रइयइ णयरि रिद्धिसंपण्णइ ।

वसुएवचरणसरंरुहभसालि ॥

सिरिरमणीलंपडि महुमहाणि ॥ १ ॥

P has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza:—

बम्भण्डाखण्डलखोणिमण्डलुच्छलियकित्तिपसरस्स ।

खण्डस्स समं समसीसियाइ कइणो ण लज्जन्ति ॥ १ ॥

This stanza occurs at the beginning of xxxii for which see Vol. I. page 511. ABKS do not give it at all.

1 १ PS °मुक्कपिसक्क°. २ ABP रुद्ध°; KS ओरुद्ध. ३ P °करिहो; S °करिहे. ४ PS जरसंधहो. ५ A विकमु. ६ A मउलियइ; P मिलियए. ७ BK माय°. ८ B गज्जिय°. ९ B णवणंवि. १० A पवर°; PS पउर°. ११ AP °टंकारए. १२ P °दिसिवहे. १३ B °णिवह°. १४ S पयासिए. १५ B पित्तए; P पित्तिय°; S पितृमथंते; Als. पितृयमंते against Mss. १६ B मंत. १७ BP आवाहिय°. १८ B सुरवरहरि. १९ B विणिग्गय. २० B चलिए मलिए P वलिय मिलिय; Als. वलिए मिलिए against Mss. २१ Als. °कंपिए. २२ B सरोरुह°.

1 1 °मुक्क विसक्क सरु मुक्कवाणशब्दः, वाणेन सह मुक्कहुंकार इत्यर्थः; ओरुद्ध° अवरुद्धः. 3 विमुक्कि विमुक्ते रिपुभयान्छे सति; जउणाहें विष्णुना. 4 णिवसुइ जरासंधपुत्रं निवर्तिते सति किं जातम्. 5 b अमरिसविसरइ क्रोधविपरये वेगे. 7 a °मयणिवहि मृगसमूहे. 8 a पित्तिइ पितृव्ये समुद्रविजये. 9 a °सुरहयवरि नैगमदेवचराश्वे; b दोहाईहयइ द्विभागीभूते. 14 a °मय° मदः.

2

दुवई—दीहरकंसविडविउममूलणगयवरगरुयसाहसे ॥

थियै सुहिसीरिविहियआणाविहिकयर्णयभयपरवसे । छ

उपपणइ सामिइ णेमीसरि
कालि गॅलंतइ पइहि णिरंतरि
मगहाहिउ अत्याणि बइट्टउ
ढोइयाइं रयणाइं विचित्तइं
सपसाएण वयणु जोएपिणु
कहिं लइइं माणिक्कइं दिव्वइं
भणइ सोट्टि हउं गउ वाणिज्जहि
दुव्वापं जलजाणु ण भग्गउं
मइं पुच्छिउ णरु एक्कु जुवाणउ
कहइ पुरिसु पडिभडदलवट्टणु
किं ण मुणहि बहुपुणहं गोयरु
ता हउं णयरि पइट्टउ केही

घत्ता—तैहिं णिवधेरु संणिहु मंदरहु
णैर सुर सुतिरैच्छणियच्छिरउ

तवहुयवहमुहुहुयवम्मीसरि ।
एत्तहि रायगिहंकरइ पुरवरि ।
केण वि वणिणा पणविवि दिट्टउ ।
तासु तेण करि णिहिय पवित्तइं ।
पुच्छिउ रापं सो विहसेपिणु ।
मलपरिचित्तइं णावइ भव्वइं ।
पत्थिव दविणावज्जणविज्जहि ।
जाइवि कत्थइ पुंरवरि लग्गउं । 10
पुरवरु कवणु एत्थु को राणउ ।
किं ण मुणहि दारावइ पट्टणु ।
राणउ एत्थु देउ दामोयरु ।
मणहारिणि सुरवरंपुरि जेही ।
अणुहरैइ णरिंदु पुरंदरहु ॥ 15
णारिउ णावइ अमरच्छरउ ॥ २ ॥

3

दुवई—तं पेच्छंतु संतु हउं विभिउं गेण्हवि रयणसारयं ॥

आयउ तुज्जुं पासि मगहाहिव पसरियकरवियारयं ॥ छ ॥

तं णिसुणिवि विहिवंचणढोइउं
मइं जियंति जीवंति ण जायव

पहुणा कालजमणमुहुं जोइउं ।
हुयवहु लग्गु धरंति ण पायव ।

2 १ P उमूलणे. २ S गरुव°. ३ Als. थिए against Mss. ४ A णहयरपरवसे; BS णयहय°. ५ P गलेति पइहे. ६ S मगहाहिवु. ७ S दविणायज्जण°. ८ S दुव्वाहं. ९ B पुरि वरि. १० P पुरे जेही. ११ P ताहै. १२ S नृवघरु. १३ A अणुहवइ. १४ A णवसरभिसिणिणियच्छिरउ. १५ APS तिरिच्छि°; B तिरिच्छि°.

3 १ S विग्गिउ. २ S तुज्ज. ३ A करदिवायरं.

2 1 °विडवि° वृक्षः; °गय° गजवत्. 2 सुहि° सुदत्. 4 a पइहि पतेः प्रजाया वा. 13 a गोयरु स्थानम्. 15 b अणुहरइ उपमां धरति. 16 a णर सुर नराः सुरसमाः; सुतिरच्छ-णि यच्छिरउ शोभनं तिर्यगवलोकनं यासाम्; b अमरच्छरउ अमराप्सरसः.

3 2 °करवियारयं किरणसंघातम्. 3 b कालजमणमुहुं ज्येष्ठपुत्रस्य मुखम्.

कहिं वसंति णियजीविउं लेप्पिणु
 हउं जाणउं ते सयल विवण्णा
 णवरज्ज वि जीवंति विवक्खिय
 मारमि तेण समउं णसेस वि
 ता संगामंभेरि अप्फालिय
 उट्ठिय जोह कोहदुइंसण
 चावचक्कंतासणिभीसण
 खलकुलदूसण णियकुलभूसण
 हक्कारिय दिसिविदिससवासण
 इच्छियजयसिरिकरसंफासण
 घत्ता—रह रहियंहिं चोइय ह्यपवर
 णहि कहिं मि ण माइय सुरखयर

वणि सियाल सीहदु लिहकेप्पिणु । 5
 सिहिपैइट्टु प्राणंभयइण्णा ।
 णंदगोवभुयबलपैरिरक्खिय ।
 फेडमि बलविलासु पसरच्छवि ।
 गुरुरवेण मेइणि संचालिय ।
 कंचणफवयविसेसविहसण । 10
 गुंलुगुलंति मयमयगलणीसण ।
 हिलिहिलंत हरिवर बद्धासण ।
 रुहिरासोसण डाइणिपोसण ।
 मग्गियभमरविलासिणिवंसण ।
 धाइय सुहदुक्खयखग्गकर ॥ 15
 गुरुडंभेरिडिडिमोमुक्कर ॥ ३ ॥

4

दुवई—लहु संचालिउ राउ जेरसंधु मयंधु महारिदारणो ॥

गउ कुरुखेत्तमरुणचरैणंगुलिचोइयमत्तवारणो ॥ छ ॥

भुयबलचपियसयणफणिदहु
 कहिउ गहीर वीर गोवद्धण
 दुज्जउ पहुं जरसंधु समायउ
 अच्छइ कुरुखेत्तइ समरंगणि
 अज्ज वि किरं तुहुं काइं चिरावाहि
 किं संघारिउ तहु जामाइउ
 तं णिसुणिवि हरि कयपहरणकैरु

णारयरिसिणा गंपि उर्विदहु ।
 णियपोरिसगुणरंजियतिहुयेण ।
 बद्धुविज्जाणियरोहिं समेयउ । 5
 सुहडविण्णसुरवहुआलिगणि ।
 णियदुयालि किं णउ मणि भौवहि ।
 किं चाणूरु रणंगणि घाइउ ।
 उट्ठिउ हणु भणंतु द्ढाहरु ।

४ P जाणमि. ५ P सिहिहि पइड. ६ AP पाण°. ७ PS पडिरक्खिय. ८ AB °विलास.
 ९ BPS संग्राहमेरि. १० ABPS गुलुगुलंत. ११ B रहियइं. १२ AB °डामर°.

4 १ ABPS जरसंधु. २ B °खेत्त अरुण°; P °खेत्तिमरुण°. ३ B चरणगुलि°. ४ S °सयल°. ५ P °तिहुवण. ६ B इहु; PS एहु. ७ PS जरसंधु. ८ P समाइउ. ९ AP °दित°. १० AP वहुं किर. ११ P दावहि. १२ S संहारिउ. १३ P °पहरणु.

6 a वि व ण्णा विपन्ना मृताः; b °द ण्णा विदीर्णा भग्नाः. 7 a वि व क्खिय शत्रवः. 8 b पसरच्छवि प्रकृष्टशरसदृशः, अथवा, प्रसरन्ती छविः कान्तिर्यस्य. 11 b गुल गुलंति शब्दं कुर्वन्ति; मयमयगल° मदोन्मत्ताः. 13 a °स वा स ण राक्षसाः शवाशनाः. 15 a रहिय हिं सारथिभिः; b उक्कयखग्गकर उस्वातखङ्गकराः. 16 b °डमर° भयोत्पादकः; °ओयुक्क° अवयुक्तः.

4 1 मयंधु मदान्धः. 3 a °स य ण° नागशय्या. 7 a चिरावहि कालक्षेपं किं करोषि; b णियदुयालि निजोत्सकत्वं (?) स्वआलीगारपणु (?).

हलहर अज्ज वहरि णिहारिमि	दे आपसु असेसु वि मारमि ।	10
ता संणद्ध कुद्धं ते णरवर	चोइय गयवर वाहिय ह्यवरं ।	
पहयइं रणतूराइं रउइं	रवपुरियगिरिकुहरसमुइं ।	
जायवबल्लु जलणिहिजल्लु लंघिवि	थिउ कुरुखेत्तु म्म सि आसंघिवि ।	
घत्ता—संणद्धइं वहियमच्छरइं	करवालसुलसरम्मसकरइं ॥	
अम्भिइइं कयरणकलयलइं	कामोयरजरंसिंधहं बलइं ॥ ४ ॥	15

5

दुवई—हयगंभीरसमेरभेरीरववहिरियणहदियंतंयं ॥

उक्खयखगैतिकखखणखणरवखंडियदंतितदंतंयं ॥ ६ ॥

कौतकोडिचुंभियकुंभयलइं	रुहिरवारिपुरियघरणियलइं ।	
खुयमुत्ताहलणियरुज्जलियइं	विळुलियंतंभलपक्खलियइं ।	
सेल्लुविहिण्वीरवच्छयलइं	सरवरपसरपिहियगयणयलइं ।	5
उच्छलंतघणुं गुणटंकारइं	जोहविमुक्कफारहुंकारइं ।	
तोसियफणिदिणयरंससिसक्कइं	वज्जमुट्टिचूरियसीसक्कइं ।	
हयमत्थइं मत्थिंकरसोल्लइं	दलियट्टियवीसदवंसगिल्लइं ।	
मोडियधुरइं विहिण्णतुरंगइं	लैउडिघायजज्जरियरहंगइं ।	
पग्गैहणिल्लूरणैविहिभीसैइं	करकहियसारहिसिरंकेसइं ।	10
भग्गरहाइं लुणियधंयदंडइं	मौसखंडपीणियभेरुंडइं ।	
लुद्धगिद्धखद्धगपंपसइं	सुरकामिणिकरघलियसेसइं ।	
वणविथंलियधाराकीलालइं	किलिकिलंतं जोइणिवेयालइं ।	
घत्ता—ता रहवरहरिकरिवाहणहं	जुज्जंतहं दोहं ²¹ मि साहणहं ॥	15
जो सुहडहं मच्छरगि जलित	तैहु धूमं व रउ णहि उच्छलित ॥ ५ ॥	

१४ B णिहारिमि. १५ ABP कुद्ध णिव णरवर. १६ PS रहवर. १७ B^०जरसिंधवलइं; PS^०जरसैधइं.

5 १ P^०त्रमेरी^०. २ BPSAls. ^०दियंतइं. ३ APAls. ^०तिकखखगं. ४ BPSAls. ^०दंतइं. ५ P विळुलियंतं^०. ६ A ^०पिहिण्ण^०; S ^०विहीण^०. ७ P ^०घणगुण^०. ८ APS हयमत्थय^०. ९ B मंकिक्क^०. १० A रसगिल्लइं. ११ P लगुडि^०. १२ AP खगाह^०. १३ A णिल्लुरियहय^०. १४ AP ^०सीसइं. १५ B ^०करकेसइं. १६ S लुलिय^०. १७ B मंस^०. १८ A ^०पवेसइं. १९ B ^०विगलिय^०. २० ABP किलिकिलंतं^०; S किलिकिलंतं^०. २१ B दोहिं. २२ P तहे भूम. २३ B धूमरओ.

13 a जा य व ब ल्लु यादवसेन्यम्.

5 3 a ^०चुं भिय^० स्तुष्टानि. 5 a सर^० बाणाः. 7 b ^०सीसक्कइं शिरस्त्राणानि. 8 b ^०वीसद^० बीमत्ता. 9 b लउडि^० यष्टिः; ^०रहंगइं चक्राणि. 10 a पग्गह^० रजुः. 12 a ^०खद्धगपएसइं भक्षितशरीरप्रदेशानि; b ^०सेसइं पुष्पाणि. 13 b किलिकिलंतं शब्दं कुर्वन्ति. 14 a ^०हरि^० अश्वाः. 15 b रउ रजो धूलिः.

6

दुवई—णं मुहवडु णिहिच्चु जयलच्छिहि लोयणपसरहारओ ॥

णं रणोरक्खसस्स पवणुद्धु उ पिगलकेसभारओ ॥ छु ॥

असिघारातोपण ण पसैमिउ
उरु गंपि कुंभत्थलि पडियउ
गंडि थंतु कण्णेण झडपिउ
वंसि थंतु चिघेण गलत्थिउ
करपुक्खरि पइसइ गणियारिहि
चेलंचलपडिपेह्लिउ गच्छइ
दिट्ठिपसई असिपंसरु णिवारइ
मंणि विलग्गु वीसासु अं मग्गइ
हरिखुरखउ रोसेण व उट्टइ
ढंकइ मणिसंदणजंपाणइं

पंडुरच्छत्तहु णवरुपेरि थिउ ।
णिच्चभासें गयवरि चडियउ ।
मइलणसीलउ कासु ण विप्पिउ । 5
दंडि थंतु चमरेणवहत्थिउ ।
लोलइ थोरथणत्थलि णारिहिं ।
चैउदिसि णिब्भंछिउ किं अच्छइ ।
अंतरि पइसिवि णं रणु वारइ ।
पैयणिवडिउ णं पैयइ लग्गइ । 10
जं जं पावइ तौहिं तहिं संठइ ।
जोयंतहं सुरवरहं विमाणइं ।

घत्ता—धूलीरउ रुहिररसोल्लियउं

थिउ रंतु पउ वि णंउ चल्लियउं

णं रणवहुरापं पेह्लियउं ॥
णं वम्महैषाणे सल्लियउं ॥ ६ ॥

दुवई—पसमिइ धूलिपसरि पुणरवि रणरहसुद्धाइया भडा ॥

अंकुसवैस विसंत विसमुग्गइ चोइय मसगयघडा ॥ छु ॥

कासु वि णारायहिं उरु दारिउं

णायहिं णं वसुहयल्लु वियारिउं ।

6 १ A गहरक्खसस्स. २ S पवणुद्धु. ३ A पसरिउ. ४ P उपरि. ५ B गल्ल. ६ P चमरेण विहत्थिउ. ७ A रउविसु; PS चउदिसु. ८ AB णिब्भच्छिउ; S णिब्भंछिउ. ९ AP add after this: अंधारउ कंतु दिस गच्छइ, A मंतु पपुच्छइ कहिं किर गच्छइ, P अह चंचल्लु किं णिच्चल्लु अच्छइ. १० AP उपर. ११ A सवणि पइसि वीसासु. १२ APS व. १३ PS पयवडि-यउ. १४ APS पायहिं. १५ A तं तहिं. १६ B रत्तपओ वि; P रत्तउ पउ वि; Als. रत्तउं पउ वि against Mss. १७ S ण चल्लियउं. १८ A उबाणइं.

7 १ S उद्धाविया. २ A उविसविसंत.

6 1 मुहवडु मुखवच्चं अन्तरपटः. 2 प व णुद्धु उ पवनकम्पितः. 4 b णिच्चभासें गजो जले ज्ञानं करोति तदनन्तरं शुण्डया निजपृष्ठे रजः क्षिपति; तस्य तु रजसो गजपृष्ठोपरिपतनाभ्यासः संजातः; तदभ्यासवशेन तस्य पृष्ठे रजः पतितम्. 7 a करपुक्खरि शुण्डाग्रे मुखे; गणियारिहि हस्तिन्याः. 8 b चउदिसि णिब्भंछिउ सर्वत्र भस्सितः. 10 a वीसासु अ मग्गइ विश्वासं याचते; b पयणिवडिउ पादल्लम्. 13 b रणवहुरापं रणवधूरागेण. 14 a पउ वि पादमपि.

7 3 a णारायहिं नाराचैर्बाणैः; b णायहिं नागैर्वसुधातलं विदारितमिव.

को वि अद्दइंदे सिरि^४ मिण्णउ
 गुणमुक्केहिं सगुणसंजुत्तउ
 को वि सुहइ धरणि^५येलु ण पत्तउ
 केण वि जगु धवलितु णिरु णिदं
 धरहुं ण सक्किउ छिण्णकरग्गहिं
 कासु वि सिरु अञ्चंततिसाइउं
 कासु वि अंतइं पय^६जुंयघुलियेइं
 कासु वि गलितुं रत्तु गत्तंतहु
 कासु वि सिव कामिणि व णिरिक्खइ
 को वि सुहइ पहरणुं णउ मुज्झइ
 को वि सुहइ जहिं जहिं परिसक्कइ
 घत्ता—चलवामरपट्टांलंकरिय
 अंभिडिय गरुयरणभारधर

सोहइ भइ रुहु व अवइण्णउ ।
 बहुलोहेहिं लोहपरिचत्तउ । 5
 मग्गणेहिं चाई व उक्खित्तउ ।
 असिधेणुयैविदंत्तजसदुद्धं ।
 केण वि धरितुं चक्कु दंतग्गहिं ।
 असिवरपाणि^७यंधारहिं धायेंउं ।
 पहरिणबंधणाइं णं दुलियेइं । 10
 फेइइ तिस णिरु तिसियकंयंतहु ।
 णहहिं वियारिवि हियवउं चक्खइ ।
 मुंछित्तउ उम्मच्छित्तउ पुणु जुज्झइ ।
 ताहिं तहिं समुहुं को वि ण दुक्कइ ।
 हरिवाहिय मच्छरफुरंहुंरिय ॥ 15
 पवरासवारकरवालकर ॥ ७ ॥

8

उवई—हयसंगाहवेहणिव्वट्टियलोट्टियंतुरयसंकडे ॥

के वि समोवडंति पडिभइथडि विरसियतूरसंघडे ॥ छ ॥

जयसिरिरामालिंणलुद्धइं
 असिसंघट्टणि उट्टिउ हुयवहु
 दसविदिसासइं तेण पलित्तइं
 ता पडिवक्खपहरभयतट्टुं

एकमेक्क पहरंतहुं कुद्धइं ।
 कढकढंतु सोसितु सोणियदहु ।
 पक्खरचमरइं चिंधइं छत्तइं । 5
 महुमहवलु दसंदिस्सिवहणट्टुं ।

३ APS अद्दयंदे. ४ AP सिरु. ५ AP धरणियले. ६ A णावइ उक्खित्तउ. ७ P^७धेणुव^०.
 ८ B^०विदंत^०. ९ A णच्चंतु; P अच्चंतु. १० PS^०धारहे. ११ PS धाइउं. १२ P^०जुव^०. १३ A
 घुलियउ. १४ A ललियउ; P चलियइं; S वलियइं. १५ P^०कंतहो. १६ A पहरणि ण समुज्झइ; P
 पहरणे णउ. १७ A मुच्छित्तउ पुणु उ मुच्छित्तउ जुज्झइ; P मुच्छित्तउ मुच्छित्तउ पुणु पुणु जुज्झइ. १८ P^०समुहुं.
 १९ A^०पट्टालंकरिय. २० A^०हुरुहरिय; S^०फुरहरिय. २१ AP अंभिड गरुव^०; S अंभिडिय.

8 १ A^०णिघट्टिय^०. २ B^०छट्टिय^०; P^०लोहिय^०. ३ A^०तूरसंकडे. ४ P^०दिसिवहे;
 S^०दिसिवह^०.

4 a अद्दइंदे अर्धचन्द्रेण. 5 a गुणमुक्केहिं मार्गणैर्योचकैश्च; सगुण^० त्यागी दातृवत्. 6 b
 उक्खित्तउ उद्दः (उर्ध्वः) स्थापितः. 9 a अच्चंततिसाइउं अतीव तृषितं जातम्; b धायउं
 तृप्तम्. 11 a गत्तंतहु देहमध्यात्. 12 a सिव शृगाली. 13 a णउ मुज्झइ न विस्मरति.
 14 a परिसक्कइ प्रसरति.

8 2 समोवडंति अवपतन्ति; ^०संघडे युग्मे उभयसैन्यतूर्यत्वात्. 4 b कढकढंतु कायं कुर्वन्;
 सोणियदहु रक्कहदः. 5 a^०आसइ मुखानि; पलित्तइं प्रज्वालितानि. 6 a^०तट्टुं भीतम्.

पोरिसगुणविभौवियवासर्ज
 णरहरि तुरय रहिर्णं संचूरइ
 धीरइ हृकारइ पञ्चारइ
 दमइ रमइ परिभमइ पयट्टइ
 सरइ घरइ अवहरइ ण संचइ
 उल्लालइ वालंई अण्णालइ
 ईहइ संखोहइ आवाहइ
 अंतं ललंतइ गाढंई ताडइ
 वेढइ उव्वेढइ संदाणइ
 वग्गइ रंगंइ णिगंई पविसंई

घत्ता—कुसपास विलुंचइ हयवरहं
 वरवीर रणंगणि पडिखलइ

हणु भणंतु सैंइ धाइउ केसउ ।
 सारइ दारइ मारइ जूरइ ।
 हणइ वणइ विहुणइ विणिवारइ ।
 संघट्टइ लोट्टइ आवट्टइ । 10
 खंचइ कुंचइ लुंचइ वंचइ ।
 रूसइ दुसइ पीलइ हूलैइ ।
 रोहइ मोहंई जोहइ साहइ ।
 रुंडमुंडखंडोहं पाडइ ।
 रक्खे भुक्खोरीणं पीणइ । 15
 दलइ मलइ उल्ललइ ण दीसइ ।
 गलगिज्जउं तोडइ गयवरहं ॥
 मंडलियहं रयणमउड दलइ ॥ ८ ॥

9

दुवई—जुज्झइ वासुएउ परमेसरु परबलसलिलमंदरो ॥

सुरकामिणिणिहित्तकुसुमावलिणवमैयरंवर्पिजरो ॥ छ ॥

गयमयपंकभेमिइ चलमहुयरि
 संदणसंदाणियइ दुसंचरि
 लोहियंभेथिभेहिं सुसंचुर्णइ
 सामिपसायदाणरिणणिग्गामि

हयलालांजलवाहिणि दुत्तरि ।
 रुंडमुंडविच्छंडभयंकरि ।
 कडयमउडकुंडलहारंचिइ । 5
 दुक्क विहंगमि तहिं रणंसंगमि ।

५ S °विग्हाविय°. ६ S °वासु. ७ AP संघायउ. ८ S केसउ. ९ AP सो णरहरि
 तुरयहिं (P तुरयहं) संचूरइ; BAls. णरकरि though Als. thinks that क is written in
 second hand; K records a *p*: णरकारि इति वा पाठः; T also records a *p*: णरकर
 (रि ?) इति वा पाठः. १० S रणेण. ११ ABS लुंचइ; P कौंचइ. १२ A चालइ. १३ B
 अण्णालइ. १४ P ल्हइ. १५ S जोहइ मोहइ. १६ A अंतललंतं; S अण्णेणणं. १७ APS गाढं.
 १८ AS °रीणे; P रिण (हं) १९ S रग्गइ. २० B णिवसइ. २१ P पइसइ.

9 १ A °मंदरो. २ ABS °कुसुमंजलि°. ३ PS °मयरिंद°. ४ P °भमिय°. ५ K °जलि
 वाहिणि दुत्तरि but gloss नदी on जलिवाहिणि. ६ BPS °विच्छंडु°. ७ S °थंभेहिं. ८ APS सुसि-
 चिए; B सुसंचिए. ९ B रणि.

7 a °वासउ इन्द्रः. 8 a णरहरि नरैरारूढा अश्वाः; रहिण रथिकान्. 9 a धीरइ स्वपक्षान् धीरयति.
 10 a पयट्टइ प्रवर्तते. 12 a हूलइ प्रोह (?) शूलप्रोतं करोति (?) 15 b रक्खे राक्षसान्.
 17 a कुसपास तर्जनकान्; ° गिज्जउं श्रीवाभरणम्.

9 1 °सलिलमंदरो °सलिलमन्थने मन्दरः. 3 a गयमयपंक° गजमदकर्दमे. 4 b
 °विच्छंड° समूहेन. 5. a °थिंभेहिं विन्दुभिः.

सिरिसंकुलससामत्थमयं
 णंदगोव घियदुञ्जं मत्तउ
 तं जाणहि करिमयरउद्दइ
 पइं विणु गाइहिं महिसिहिं रुण्णउं
 जाहि जाहि गोवाल म दुक्कहि
 णिवकुंलकमलसरोवरहंसहु
 तं भुयबलु तेरउं वक्खालहि
 एवहिं तुज्जु ण णासहुं जुत्तउं
 घत्ता—पइं मारिवि द्वारिवि अज्जु रणि
 उज्जालिवि णंदहु तणउ कउं

माहउ पञ्चारिउ जैरसंघे ।
 जं तुहुं महु करि मरणु ण पत्तउ ।
 लिहक्खिवि थक्कउ लवणसमुद्दइ ।
 णंदहु केरउं गोउलु सुण्णउं । 10
 अज्जु मज्जु कमि पडिउ ण चुक्कहि ।
 जेण परक्कमु भग्गउ कंसहु ।
 पेक्खहुं कुलकलंकु पक्खालहि ।
 ता णारायणेण पडिबुत्तउं ।
 तोसौवमि सुरवेर णर भुवणि ॥
 गोमंडलु पालमि गोउं हउं ॥ ९ ॥

10

दुवई—अवरु वि पेक्खु पेक्खु हरिसुज्जलसिरिथणकुंकुमारुणा ॥
 एए बाहुदंड महुं केरा वहरिकरिददारणा ॥ छ ॥

एए बाण एउं बाणासणु
 इहु सो तुहुं रिउ एउं रणंगणु
 जइ णियकुलपरिहउं ण गवेसमि
 तो बलएवहु पय ण णमंसमि
 हउं णउ णासमि घाउ पयासमि
 इयं गज्जंतहिं भंगुरभावइं
 उट्टिउ गुणटंकारिणायउ
 सहभएण व तेण चमक्कइ
 ससि तसियउ हुउ झीणैकलालउ
 जलणिहिजलइं चलइं परिघुलियइं
 कपियाइं सत्त वि पायालइं

एहु इंदु करिवरखंधासणु ।
 एउं सक्खि सुरभरिउं णहंगणु ।
 जइ पइं कंसपहेण ण पेसमि । 5
 अरहंतहु सासणु ण पसंसमि ।
 अज्जु तुज्जु जीविउं णिण्णासमि ।
 दोहिं मि अप्फालियइं सत्तावइं ।
 वेविउ वाउ वरुणु जहु जायउं ।
 सुरकरि दाणु देतु णउ थक्कइ । 10
 थिउ जमु णं भयभीए कालउ ।
 गहणक्खत्तइं महियलि लुलियइं ।
 गिरिसिहरइं णिवडियइं करालइं ।

१० AP सिरिकुलबलसामत्थं. ११ P जरसंघे. १२ S दृवकुलं १३ A तोसाववि; P तोसावेमि.
 १४ सुर णरवर णर. १५ A उज्जालउं; S उज्जालमि. १६ P गो हउं.

10 १ S पेक्खु once. २ S वहरिददारणा. ३ P एहुं. ४ S परिहवु. ५ P जाइउ.
 ६ PS चवक्कइ. ७ ABPSAls झीणु कलां. ८ APS भयभीयए.

7 a° सकुल° स्वकुलम्. 10 a रुण्णउं रुदितम्. 13 b कुलकलंकु त्वं गोपपुत्रो जनैर्ज्ञायते
 इति कुलकलंकुः. 16 a कउं क्रमः; b गोमंडलु भूमण्डलम्; गोउ गोपः.

10 3 b इंदु बलभद्रः. 4 b सक्खि साक्षिभूतम्. 5 a गवेसमि स्फेट्यामि. 9 b वेविउ
 कम्पितः; जहु जलजातः. 10 a चमक्कइ विभेति.

घत्ता—अमरासुरविसहरजोर्यइं तोणीरइं खंधारोर्यइं ॥
उपुंखविचित्तइं संगर्यइं णं गरुडहं पिच्छं गिग्येइं ॥ १० ॥ 15

11

दुवई—वलर्ययरयणेसारि बहुपहरण चडुलसमीरधुयधया ।
ता जैरसिंघरायदामोयरपयजुयचोइया गया ॥ छ ॥

करडगलियमयमिलियमहुयरा	जलहर व्व पविमुक्कसीयरा ।	
सायर व्व गज्जणमद्वारवा	वइवसु व्व तईलोकभइरवा ।	
मुणिवर व्व कयपाणिभोयणा	थीयण व्व लीलावल्लोयणा ।	5
पत्थिव व्व सोहंतचामरा	खलैणर व्व परिचत्तभीयरा ।	
सुपुरिस व्व ददबद्धकच्छया	रक्खस व्व मारणविणिच्छया ।	
सुररह व्व घंटांलिमुहलिया	घासर व्व पहरेहिं पयलिया ।	
णैवणिहि व्व रयणेहिं उज्जला	कज्जलालिपुंज व्व सामला ।	
चरणचालचालियधरायला	खलखलंतसोवण्णसंखला ।	10
पुक्खैरग्गसंगहियगंधया	एक्कमेक्कमारणविलुद्धया ।	
रोसजलणजालोलिच्छोइया	बिहिं मि कुंजरा सैंउंइ धाइया ।	

घत्ता—कालउ सुरचावालंकरिउ कैंडिडुरियेइं विज्जुइ विप्फुरिउ ॥
सरधारहिं बुद्धउ महुमहणु णं णवपाउसि ओरैर्यरिउ घणु ॥ ११ ॥

12

दुवई—सरणीरंधंपसरि संजायइ खगु वि ण जाइ णहयले ॥
विद्धंतेणे तेण भड सूडिय पाडिय मेइणीयले ॥ छ ॥

८ BP रोहियइं. ९ S संगइं. १० BP पिच्छइं. ११ K गिग्यइं.

11 १ P वलविय°. २ A °रणसारि. ३ PS जरसैंध°. ४ ABS वइवस व्व. ५ B तिलुक्क°;
P तेलोक्क°. ६ BAIs. लीलावल्लोयणा. ७ S खलयण व्व. ८ AB परचित्त°. ९ ABP सुरहर व्व.
१० BS घंटाहिं मुह°. ११ P णिवणिहि. १२ P पुंखर व्व. १३ S दाइया. १४ A सहुउहुं; BP
समुहुं. १५ B करि. १६ P °डुरिए. १७ P विप्फुरियउ. १८ B उर्यरिउ.

12 १ AP °णीरंधयारे. २ S विंधेतेण.

14 b खंधारोइयइं स्कन्धारोपितानि. 15 a संगयइं गतानि.

11 1 °रयण° दन्ताः; °सारि° पत्याणमू; °धुयधया कम्पितध्वजाः. 4 b वइवसु व्व
यमवत्. 7 a °कच्छया वरत्रा ब्रह्मचर्ये च. 8 a सुररह व्व देवरथवत्; b पहरेहिं यामैर्घातैश्च. 9 a
रयणेहिं रत्तेर्दन्तैश्च. 11 a पुक्खरग्ग° शुण्डाग्रमू. 14 a सर° जलं बाणश्च.

. 12 1 सरणीरंधंपसरि निबिद्धतया शरप्रसरे, निरन्तरे; खगु पक्षी. 2 तेण नारायणेन.

वरधम्मेण जइ वि परिचत्ता
परणरजीवहारि दुइंसण
वम्मविहंसण पिसुणसमाणा
धणुहें दिणुणं जइ वि णवेप्पिणु
लक्खहु धावेंइ णं तिट्ठालुय
मग्गणा वि णिय मोक्खहु कण्हे
ता मगहाहिवेण रूसंतें
णियसरेहिं विणिवारिय रिउसर
घत्ता—ता कण्हे विद्धउ पइसरिवि
णरवइ णारायहिं वणिउ किह

लोहणिबद्धा वित्तवित्ता ।
चंचलयर णावइ कामिणियेण ।
दुरोसारियअमरविमाणा । 5
कोड्डिउ ताउं दो वि मेल्लेप्पिणु ।
अह किं किर करंति जइ गुणबुय ।
वइरिवीरणिहारणतण्हे ।
इरिधणुवेयैणाण दूसंतें ।
विसहरेहिं छिण्णा इव विसहर । 10
धयच्छत्तइं चमरइं कप्परिवि ॥
धुत्तेहिं विलासिणिळोउ जिह ॥ १२ ॥

13

दुवई—ता देवइसुयस्स बलसत्ति पलोइवि णिज्जियावणी ॥

मणि चित्तवियं विज्ज जेरसिंधे विसरिसविविहैरुचिणी ॥ छ ॥

दंडउ—णवर पवररायाहिराएण संपेसिया दारणी मारणी मोइणी थंभणी
सव्वविज्जाबलच्छेइणी ॥ १ ॥

पलयंधरवारणी संगया खग्गिणी पासिणी चाक्किणी सूलिणी हूलणी
मुंडमालाहरी कालकावालिणी ॥ २ ॥

पयडियमुहवंतपंतीहिं हीं हि ति हासेहिं पिंगुद्धकेसेहिं मायाविरुद्धेहिं
भीमेहिं भूर्पेहिं रुद्धा रहा ॥ ३ ॥

हरिकरिवरे किंकरे छत्तदंडम्मि चावम्मि चिंधम्मि जाणे विमाणम्मि
कण्हेणं जुज्जे रिउं दीसए ॥ ४ ॥

३ S कामिणिज्जण. ४ AP तो वि वेणिण; BAls. ताउ दोणि. ५ PAls. धाइय. ६ AP कुणंति.
७ PS णाणु.

13 १ B बलसत्तिए लो°. २ S पलोयवि. ३ S णिज्जया°. ४ A चित्तविय; S चित्तवीय.
५ PS जरसिंधे. ६ P वेविहरूपिणी. ७ A omits दंडउ. ८ S omits मोइणी. ९ B °छेयणी.
१० AP पलयघणधारिणी; B पलयघरवारिणी; Als. पलयघरवारणी against Mss. and against
gloss in all Mss. ११ A omits हूलणी; S हूलिणी. १२ S हा इ ति. १३ AP मायाविरुद्धेहिं.
१४ P भूवेहिं. १५ K omits चावम्मि चिंधम्मि. १६ P कण्हेण कुद्धेण जुज्जेवि रिउ. १७ BK रिउ.

5 a व म्म वि हंसण मर्मविध्वंसकाः. 7 a तिट्ठालुय तृष्णालवः. 8 a मोक्खहु मोक्षं लख्यं प्रति बाणाः
प्रेषिताः. 9 b °धणुवेयणाण दूसंतें धनुर्वेदज्ञानदूषणं कुर्वता. 11 a विद्धउ राजा विद्धः. 12 a
व णिउ ऋणितः.

13 4 पलयघरवारणी यमादप्यधिकबलयुक्ता इत्यर्थः; संगया एकत्रीभूता; कालकावा-
लिणी कृष्णा कापालिनी.

विहुर्णेइ सयलं बलं जाव फुट्टंतंसंघट्टिअंगेहिं तावंतराले चलंतुग्ग-
पकिंखदकेऊहरो संठिओ ॥ ५ ॥

फणिंसुररणरसंथुओ सूरसंग्रामसंघट्टसोढो महामंतवार्इसरो तप्पहावेण
णिण्णासिया ॥ ६ ॥

जलहरसिहरे खलंती चैलंती घुलंती तसंती रसंती सुसंती चलायास-
मग्गे सुदूरं गया देवया ॥ ७ ॥

घत्ता—हरिदंसणि णहयलि दिण्णपय जं बहुरुविणि णासेवि गय ॥ 10
तं परतरुणीगलहारहर पट्टणा अवलोइय णिययकर ॥ १३ ॥

14

दुवई—पभणइ कोवजलणजालारुण विट्ठि घिवंतु माहवे ॥

किं कीरइ खलेहिं भूपहिं थिपहिं गपहिं आहवे ॥ छ ॥

तेण दुंछिओ हरी नृपिंडमुंडखंडणे	किं बह्वहिं किंकरेहिं मारिपहिं भंडणे ।
होई भू हप णिवे ण बुज्जेसे किमेरिसं	पहिं कट्ट थिट्टु दुट्ट पेच्छ मज्ज पोरिसं ।
केसरि व्व दुद्धरो करग्गणकखराइओ	सो वि तस्स संमुहो समच्छरो पधाइओ ।
ता महीसरेण झ त्ति पाणिपल्लवे कयं	लोयमारणेणक्कविंसंणिहं सचक्कयं । 5
उत्तमेण कुंकुमेण चंदणेण चच्चियं	भामियं करेण धीरदेहरत्तसिंचियं ।
गुंथपंचवण्णपुर्णकदामपहिं पुज्जियं	राहियामणोहरस्स संमुहं विसज्जियं ।
चंडसूररंस्सिरासिचिच्चियच्चिसंछंहं	कालरुवभीमभूयमच्चुदूयदूसहं ।
वेरितासयारि भूरिभूइभाइ भासुरं	भीयजीयभेदुवेदुत्तदुक्किणरासुरं । 10

१८ BKP विहुणेइ. १९ B पुट्टंत; P फुट्टति. २० B सब्वट्टिअंगहि. २१ A °केऊरहो; P °केऊरहे. २२ A फणिणरसुर°. २३ APS °संगाम°; P °संगामि संधाविओ सो महापुण्ण-
णेमीसरो तप्पहा° in second hand. २४ A वलंती. २५ B तट्टु दंसणि in second hand; S जिणदंसणि.

14 १ A दोच्छिओ; B दुच्छिओ; S दोच्छिओ. २ ABP णिपिंड°. ३ P होउ. ४ B
डुज्जेसे; P जुज्जेसे. ५ Als. °मारणक्क° against Mss. misunderstanding the gloss.
६ A °विंसंणिहं पिसक्कयं. ७ A गुत्तु; PS गुंथ°. ८ BP °पुष्प°. ९ A चंदसूररसि°; B चंडसूरतेय-
रासि°. १० A °सच्छिहं. ११ A °भट्टकिट्टणट्टकिणरा°.

0 जाणे वाहने; जुज्जे युद्धविषये. 7 चलंतुग्गपकिंखदकेऊहरो संठिओ चलोप्रगरुद्धकेतुधरः
संस्थितः. 9 चला चपला. 11 a °हर अपहर्ता.

14 3 a दुंछिओ तिरस्कृतः; नृपिंड° मनुष्यशरीरम्. 4 a होइ इत्यादि नृपे हते सति
पृथ्वी भवति स्ववशा. 5 a करग्गणकखराइओ कराग्रस्थितखल्ल एव नखराजितः. 6 b लोयमारणे S-
क्कविंसंणिहं लोकमारणे प्रलयाकैविम्बसदृशम्. 8 b राहिया° गोपाङ्गना. 9 a °विच्चियच्चि°
अग्न्यन्विः. 10 a °तासयारि त्रासकारि; भूरिभूइभाइ प्रचुरविभूतिदीप्या.

घत्ता—णाणामाणिक्कहिं वेयेंडिउं तं रिउरहंगु हरिकरि चडिउं ॥
णियकंकणु तिहुयणसुंदरिय णं पाहुहु पेसिउं जयसिरिय ॥ १४ ॥

15

दुवई—तं हत्थेण लेवि दुब्बोछिउ पुणरवि रिउ णरांहिओ ॥
अज्ज वि वेहि पुंहावि मा णासहि अणुणहि सीरि सौमिओ ॥ छ ॥
तं णिसुणेवि बुत्तुं मगहेसैं आरुहुं कयंतभडभीसैं ।
तुहुं गोवालु बालु णउं जाणहि संदु होवि कामिणियणु माणहि ।
जड किं सिहि सिहाहिं संतावहि महु अग्गइ सुहडत्तणु दावहि । 5
चैके एण कुलालु व मत्तउ अज्जु मिसैं कहिं जाहि जियंतउ ।
ओसरु सरुं परिसरु मा जमपुरु जाम ण भिदमि सत्तिइ तुह उरु ।
राउ समुहविजउ कम्माराउ वसुएउ वि पाइक्कु महारउ ।
तुहुं धं तासु पुत्तु किं गज्जहि धिट्ठ धरणि मगंतु ण लज्जहि ।
हरिणु व सीहें सहं रणु इच्छहि भिम्भु 'होवि रायंतहु वंछहि । 10
खल खज्जिहिसि पाव पावें तुहुं णासु णासु मा जोयहि महुं मुहुं ।
ता हरिणा रहचरणु विमुक्कउं रविबिबु व अत्थयैरिहि दुक्कउं ।
घत्ता—णरणाहहु छिण्णउं सिरकमलु णावें 'रहंगु णवकुसुमदलु ॥
थिउ हरि हरिसैं कंटइयभुउ पवरच्छरकोडीहिं थुउ ॥ १५ ॥

16

दुवई—हइ जरसिंधराइ महुमहसिरि रंजियंमहुयरालओ ॥
सुरवरकरविमुक्कु णिवडिउ णववियसियकुसुममेलओ ॥ छ ॥

१२ B वियडियउं.

15 १ PS णराहिनो. २ B पुहइ. ३ PS पत्थिवो. ४ P पउत्तु. ५ B ण हु. ६ AP चकेणेण. ७ B भिन्नु. ८ AP अधित्तउ. ९ P ऊसर. १० B पइसर. ११ A तहु परं ताहु; B वर; P वरि. १२ BS होइ. १३ ASAIs. रायत्तणु. १४ APS अत्थइरिहि. १५ A णाहं. १६ AP रहंगे.

16 १ B जरसिंधु; P जरसेंधे; S जरसेंध°. २ S रंजियं. ३ P °विमुक्क.

11 a वे य डि उं जटितम्.

15 2 अणुण हि प्रार्थय. 5 a सि हि सि हा हिं संता व हि अग्निं ज्वालाभिर्ज्वालयसि. 6 a कुला लु व कुम्भकारवत्. 7 b उरु हृदयम्. 9 a घइं पादपूणे. 10 b भिन्नु हो वि इत्या दि भृत्यो भूत्वा राजत्वं वाञ्छसि. 12 b अत्थय रि हि अस्ताचले.

अरिणरिंदणारीमणजूरं
 पायपोमपाडियगिब्बाणं
 चिरभवचरियपुण्णसंपुण्णं
 एकसहसवरिसाउणिबंधं
 मागहु वरतणु समउं पहासं
 सुरसरिसिंधुवकंठणिकेयं
 सिरिविरइयकडकखविकखेवें
 विप्पुरंत णहयलि पेसिय सर
 जिणिवि गरुडसोहंतं धयग्गें
 णियपयमुहिय दप्पुल्लियहं
 घत्ता—कोत्थुयमाणंक्कु दंहु अवरु
 सिद्धं सहुं सत्तिइ सत्त तहु

कउ कलयलु पहरयं जयतूरं ।
 दहधणुतणुउच्छेहपमाणं ।
 णवघणकुवलयकज्जलघण्णं । 5
 रणभरघरणथोरथिरंकेधं ।
 साहिय कयदिव्विजयविलासं ।
 मेच्छरायमंडलं अणेयं ।
 णिज्जियां णारायणदेवं ।
 विज्जाहरदाहिणसेढीसर । 10
 महि तिखंडमंडिय जिय खग्गें ।
 चूडामणि णाणामंडलियंहं ।
 गय संखु चक्कु घणुहु वि^० पवरु ॥
 रयणं मेइणिपरमेसरु ॥ १६ ॥

17

दुवई—अट्टसहास जासु घरदेवहं मणहररिद्धिरिद्धं ॥

सोलह बलणिहत्तदिण्णायहं रायहं मउडबद्धं ॥ ७ ॥

कइयवकरणालिगणणिलैयहं
 रुप्पिणि सच्चहाम जंबावइ
 हावभावविभमपाणियणइ
 पर्यउ साहिय पुहइणरिंदहु
 बलएवहु माणवमणहारिहिं
 रयणमाल गय मुसलु सलंगलु
 कसण धवलं बेणिण वि णं जलहर

घरि तेत्तियं सहासं विलयहं ।
 पुणु सुसीम लकखण मंथरगइ ।
 सई गंधारि गोरि पोमावइ । 5
 अट्टमहापविउ गोधिदहु ।
 अट्टसहासं मंदिरि^० णारिहिं ।
 चउ रयणां तासु बहुभुयबलु ।
 पुरि दारावइ गय हरि हलहर ।

४ PS °खंधे. ५ A °सिंधुकंठं; PS °सिंधुकंठं. ६ BS °सोहंति. ७ P °मंडुलियहं. ८ P कोत्थुहं.
 ९ P माणिक. १० B मि पवरु; P वि अवरु.

17 १ B °देवहिं. २ BK कइयव^० but gloss in K कैतव; P कइविय. ३ A °णलि-
 यहं. ४ A तेत्तियं जेहे वरविलयहं; P तेत्तिय सहसं वरविलयहं. ५ B सहुं. ६ B एइउ. ७ A
 मंदिरणारिहिं. ८ AP धवल णं बेणिण वि.

16 4 a °णिब्बाणं कृष्णेन मागधवरतन्वादयः साधिता इति संबन्धः. 5 b णवघणं श्रावण-
 मेघः. 7 b कयदि व्विजयविलासं कृतदिव्विजयविलासेन. 8 a सुरसरीत्यादि गङ्गासिन्धूपकण्ठ समीप-
 निकेतनानि. 12 a °मुहिय मुद्रिता अलंकृताः चूडामणयः; दप्पुइलियहं दपेणोल्लितानाम्
 13 b गय गदा.

17 2 °दिण्णायहं दिग्गजानाम्. 3 a कइयव^० कैतवम्; b विलयहं वनितानाम्. 5 a
 °पाणिगुणइ जलनद्यः.

अहिसिचिउ उविउ सु सामंतहि
 बखउ पट्टु विरेहर केहउ
 दिव्वकामसोकखइं भुंजंतहु
 अण्णहि दिवंसि कंसमहुवइरिउ
 घत्ता—पप्फुल्लवेह्लिपल्लवियवणि
 गउ जलकेलिहि हरि सीरधरु

गिरि व घणेहि णवंबु सवंतहि । 10
 तडिविलासु वरमेहहु जेहउ ।
 नेमिकुमारहु तहि णिवसंतहु ।
 णियअंतेउरेण परिवारिउ ।
 गयपाउसि सरयसमागमणि ॥
 णामेण मणोहरु कमलसरु ॥ १७ ॥ 15

18

दुवई—सोहर चिक्कमंति जहि चारु सलील मरालपांतिया ॥

णं रंदारविंदकयणिलयहि लच्छिहि देहंकाठिया ॥ छु ॥

पोमहि णियबहिणियहि गवेसिय
 उड्डिय भमरावलि तहि अंगं
 बहुगुणवंतु जइ वि कोसिल्लउं
 तो वि णलिणुं सालूरं चण्णिउं
 जहि सारसइं सुपीयलियंगइं
 तहि जलकील करइ तरुणीयणु
 काँहि वि वियलिय हारावलिलय
 पयलिउं थणकुंकुमु पइ सित्तउ
 काहि वि सुण्हुं वत्थु तणुघडियउं
 काहि वि सित्तहि णवविह्लि व वरं
 काहि वि उल्लहणंउ कवलियबल्लुं

णं चंदेण जोण्ह संपेसिय ।
 अयसकित्ति णं कित्तिहि संगं ।
 जइ वि सुपत्तु सुमिचु रसिल्लउं ।
 जडपसंगु किं ण करइ विण्णिउं ।
 णं सरसिरिथणवट्टइं तुंगइं ।
 अहिसिचंतु देउ णारायणु ।
 सयदलदलजलकणसंसय गय ।
 णावइ रइरसु रावियगत्तउ । 10
 अंगावयवु सव्वु पीयडियउं ।
 णं णिग्गय रोमावलिअंकुरं ।
 कण्हजलंजलिहउ विरहाणलु ।

१ S omits °वर°. १० B दियहि.

18 १ B कयणिलहि; K कयणियलहि but gloss कृतनिलयायाः. २ ABS देहकतिया.
 ३ B तहु; S तहं. ४ B सुमुत्तु. ५ B °णलिण. ६ BP °वट्टइं. ७ B काह. ८ A पयसित्तउं; B पइ-
 सित्तउं; K पइ सित्तउ and gloss भर्ता; K records a p: पय पाठे जलसिक्तः; S पयइसित्तउं;
 T पयसित्तउ जलसिक्तः. ९ A सण्ह. १० BK पायडिउ. ११ A तियवेह्लिहे वर; P णिव; Als.
 णववेह्लिहे वर. १२ B वर. १३ B °अंकुर. १४ ABAls. उण्हाणउ; P ओज्झाणउ. १५ P °पल्ल.

10 b णवंबु नवजलम्. 13 a °महु° जरासंधः. 14 b सरयसमागमणि शरत्कालागमने.

18 1 मरालपांतिया हंसश्रेणिः. 2 रंदारविंदकयणिलयहि विस्तीर्णकमले कृतनिलयायाः.
 लक्ष्म्याः. 3 a पोमहि इत्यादि लक्ष्म्याः पद्मायाः चन्द्रेण भ्रात्रा ज्योत्स्ना प्रेषिता इव. 4 a तहि अंगं
 तस्याः हंसपक्तेः अङ्गेन. 5 a कोसिल्लउ कर्णिकायुक्तः; b सुमिचु सूर्यः; रसिल्लउ मकरन्दयुक्तः. 6 a
 सालूरं मेकेन. 7 a सुपीयलियंगइं पीतशरीराणि; b सर° जलम्; °वट्टइं पृष्ठानि. 9 b सयदल-
 दल° कमलपत्रे. 10 a पइ भर्ता. 11 a तणुघडियउं शरीरसंलम्भम्. 12 a वर वरा विशिष्टा. 13 a
 कवलियबल्लु कवलितबलः.

कौहि वि दिणुं कण्णि णीलुप्पलु
का वि कण्हतणुकंतिहि णासइ
कंठि लग्ग क वि णेमिकुमारहु
घत्ता—तहि सच्चैहामदेविइ सइइ
अइसरसवयणरोमच्चियउ

णेण्हइ णाह णयणवइहवहलु ।
बंलदेवहु धवलत्तं दीसइ । 15
णौइं अहिंस धम्मवित्थारहु ।
णं विंझसिहरि रेवाणइइ ॥
णीरं णेमीसरु सिंचियउ ॥ १८ ॥

19

दुवई—जो देविंदचंदफणिवंदिउ तिहुयेणणाहु बोल्लिओ ॥

सो वि णियंबिणीहिं कीलंतिहिं जलकीलाजलोल्लिओ ॥ छ

देवें चारुचीरु परिहंतें
पुणु वि तेण तहि कील करंतें
णिप्पीलेहि कडिल्लु परिबोल्लिये
णारिउ णउ मुणंति पुरिसंतरु
जासु पायधूलि वि वदिज्जइ
ता देवेण भणिउ णउ मण्णिउं
भणु भणु सच्चैभामि सच्चउं तुहुं
ता वीलावसमउलियणयणइ
बहुकल्लाणणाणवित्थिण्णइं
तो वि ण र्पहु महापहु जुज्जइ
किं पइं संखाऊरणु रइयउं
किं तुहुं फणिसयणयलि पसुत्तउ
होसि होसि भत्तारहु भायरु
घत्ता—इय जं खरदुब्बयणेण हउ
णारायणपहरणसाल जहिं

तरलतारैणयणेहिं णियंतें ।
उप्परि पोत्ति धिस विहसंतें ।
धिय सुंवरि णं सल्लें सल्लिय । 5
जो देवाहिदेउं सइं जिणवरु ।
तहु ओल्लणियं किं ण पीलिज्जइ ।
पेसणु दिण्णउं किं अवगण्णिउं ।
किं कालउं किउं जरकमलु व मुहुं ।
उत्तउं उत्तरु तहु ससिवयणइ । 10
जइ वि तुम्ह पुण्णइं संपुण्णइं ।
एणं महुं सरिरु णिरु सिज्जइ ।
किं सारंगु पणांमिवि लइयउं ।
जं कडिल्लु मज्झुप्परि धिसत्तं ।
किं तुहुं देवेंदेउ दामोयरु । 15
तं लैग्गउ तहु अहिमाणमउ ॥
परमेसरु पत्तउ झत्ति तहिं ॥ १९ ॥

१६ P काए. १७ PS कण्णे दिणु. १८ B णामि. १९ ABPS बलएवहो. २० B णामि.
२१ S सच्चभाम°.

19 १ P तिहुवण°. २ P °ताल°. ३ BAIs. णिप्पीलेहि. ४ AS पव्वोल्लिय; BAIs.
पव्वोल्लिय; P पचेल्लिय. ५ S °देवु. ६ ABPS उल्लणिय. ७ BP सच्चहामे. ८ PS एउं. ९ B
जिज्जइ. १० PS पणावेवि. ११ AP किं फणीससयणयले पसुत्तउं; S किं पइं फणि°. १२ S देवदेव.
१३ A लग्गउ तहो मणे अहिमाणगउ.

14 b णयणवइहवहलु नैत्रवैभवफले गृह्णातीव. 15 a णासइ प्रच्छाद्यते. 17 b रेवाणइइ नर्मदानया.

19 2 °जलो ल्लिओ जलाद्रीकृतः. 3 b णियंतें पश्यता. 5 b धियइत्यादि वल्लनिश्चोत्तनं
हीनकर्म मम कथितमित्यभिप्रायेण. 7 b ओल्लणियपोत्तिका (ज्ञानशाटी). 9 b जरकमलुव जीर्ण-
कमलवत्. 10 a वीला° व्रीडा; b ससिवयणइ चन्द्रवदनया.

20

दुवई—चप्पिउं कुप्पेरेहिं फणिसयणु पणाविउं वामपापेणं ॥

धणु करि णिहिउं संखु आऊरिउ जगु बहिरिउं णिणापेणं ॥ छ ॥

महि थरंहरिय डरिय णिग्गय फणि

बंधविसट्टइं सरिसरतीरइं

मुडियखंभं भयवस गय गयवर

कण्णदिण्णकर महिणिवडिय णरं

हरिणा रयणंकिरणविप्पुरियहि

हल्लोहलउ णयरि संजायउ

वट्टइ पलयकालु कंहि गम्मइ

तहिं अवसरि किंकरु गउ तेत्तहि

तेण तेत्थु पत्थाउ लहेप्पिणु

घत्ता—तुह किंकर बलिमडुई घरिवि

धणु णाविउं जलयरु पूरियउ

गयणंगणि कंपिय ससि दिणमणि ।

पडियइं पुरगोउरपायारइं ।

गलियणिबंधण णट्टा ह्यवर । 5

पडिय ससिहर सधय णाणाघर ।

उप्परि हत्थु दिण्णु कडिछुरियहि ।

जंपइ जणु भयकंपियकायउ ।

किं ह्यदईयडु पसरइ दुम्मइ ।

अच्छइ घरि महुँसूयणु जेत्तहि । 10

दाणघारि विण्णविउ णवेप्पिणु ।

घरि णेमिकुमारं पइसरिवि ॥

सयणयलि महोरउ चूरियउ ॥ २० ॥

21

दुवई—पइं रइयाइं जाइं परिवाडिइ ह्यजणसवणधम्मइं ॥

एक्कहिं खाणि कयाइं बलवंतं तिण्णि मिं तेण कम्मइं ॥ छ ॥

सिंथंसंखसरु जो तहिं णिग्गउ

सच्चंभाम पवियंभिय एत्तिउं

महिलहं णत्थि मंतणेउण्णउं

चावपणोमणु विसहरजूरणु

अवरु भणिउं णउ हरि संकरिसणु

तं णिसुणिवि हियउल्लउं कलुसिउं

ता कण्णेण कयउं कालंउं मुहुं

तेण असेसु वि जणवउ भग्गउ ।

णिप्पीलिउं ण चीरु वरि चित्तउं ।

जणि पयडंति जं पि पच्छण्णउं । 5

वण्णिउं तेरउं संखाऊरणु ।

किह महुं उप्परि घल्लुहि णिवसणु ।

इय एहउं णेमीसं विल्लसिउं ।

णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुहुं ।

20 १ PS कोप्पेरेहिं. २ A घरहरिय. ३ P omits °खंभ. ४ P कर. ५ S omits ण in रयण°. ६ APS °दइवहो. ७ B महसूअणु. ८ A °मंडए. ९ AP णामिउं.

21 १ BS वि. २ B सिंथ°. ३ B सच्चहाम; P सच्चिहाम; ४ A णिप्पीलिउण. ५ S. °पणावणु. ६ AP ववसिउ. ७ BPS दायज्ज°.

20 1 पणा विउं प्रणम्रीकृतम्. 4 b °पायारइं प्राकाराः. 5 a गय गता नष्टाः. 6 a क ण्ण दि ण्ण कर कराभ्यां कर्णो पिधाय; b ससि हर शिखरैः सहितानि. 12 b घरि आयुधधालायाम्.

21 1 परि वा डि इ अनुक्रमेण; °सवणधम्मइं कर्णस्वभावानि, बधिरत्वं कृतमित्यर्थः. 3 a सिंथ° प्रत्यञ्चा. 7 a णउ हरि त्वं हरिर्न; सं करि सणु बलभद्रोऽपि न. 9 b दा इ ज्ज थोत्ति स्वगोत्रस्तुतौ.

बलपवेण भणिउं लइ जुज्जइ
जसु तेपं कंणइ रविमंडलु
सगिरि ससायर महि उच्चलइ
जासु णाउं जगि पुज्जु पहिल्लउं
खुब्भइ संखु सरासणु पिंजणु
घत्ता—हलहर दामोयर बे^{१३} वि जण
जिणबल्लेपविलोयणगलियमय

मच्छरु तेथु भाय णउ किज्जइ । 10
पायहिं जासुं पडइ आहंडलु ।
जो सत्त वि सायर उत्थंल्लइ ।
कुसुमसयणु तहु फणिसयणुल्लउं ।
किं सुहडत्तं गियमहि गियमणु ।
ता मंतिमंतंविहिदिणमण ॥ 15
ते चित्तकुसुममहिभवणु गय ॥ २१ ॥

22

दुवई—मंतिउ मंतिमंतु गोविंदे लहु काणाणि णिहिप्पए ॥

कुलवइ सत्तिवंतु तेयाहिउ जइ दाइउ ण जिप्पए ॥ छ ॥

पइं मि मइं मि सो समरि जिणेप्पिणु
तं णिसुणिवि संकरिसणु घोसइ
चरमवेहु भुयणत्तयसामिउ
परमेसरु परु णउ संतावइ
रज्जु पंथु दावियभयजरयहं
रज्जे जहु माणुसु वेहविथंउं
जिणु पुणु तिणसमाणु मणि मण्णइ
जइ पेच्छइ णिव्वेयहु कारणु
करइ णाहु तवचरणु णिरुत्तउं
तणुलायणवण्णसंपण्णी
मग्गिउ उग्गसेणु सुवियक्खण
घत्ता—णिरु सालंकार सारसरस
परमेसरि मुणिहिं मि हरइ मइ

भुंजेसइ महिलच्छि लपप्पिणु ।
णारायण णउ पइउं होसइ ।
सिवपवीसुउ सिवगइगामिउ । 5
रज्जु अकज्जु तासु मणि भावइ ।
धूमप्पहतमतमपहणरयहं ।
अम्हारिसहुं रज्जु गउरवियउं ।
रायलच्छि दासि व अवगण्णइ ।
तो पंचिदियेभडसंधारणु । 10
ता महुमहणे कवइ णिउत्तउं ।
जयवइदेविउरियरि उप्पण्णी ।
रायमइं ति पुत्ति सुहलक्खण ।
भुयणयलि पयडसोहग्गजस ॥
णं वरकइकवहु तणियं गइ ॥ २२ ॥

८. AP एत्थु. ९ APS पडइ जासु. १० PS ओत्थल्लइ. ११ ABPS णामु. १२ ABPS खुब्भउ.
१३ AP वेणि जण. १४ AP^० मंतसंदिणमण. १५ A जिणवर^०.

22 १ APS भासइ. २ B वेहावियउ. ३ P तेणु समाणु; S तणसमाणु. ४ PS पंचेदिय^०.
५ P जइवइ^०; K जयवय^०. ६ AP^० गन्भि. ७ P संपण्णी. ८ P राइमइ. ९ P तणि गई.

10 a जुज्जइ मत्सरो न क्रियते इति युज्यते योग्यं भवति. 13 a णाउं नाम. 14 b गियमहि
नियमितं सुभट्टवेन निश्चितं किं करोषि. 15 b मंति मंत वि हि दि ण म ण मन्त्रिमन्त्रविधिदत्तमनसौ.
16 b चित्तकुसुममहि भवणु चित्रकुसुममन्त्रशालागृहम्.

22 1 मंति मंतु मन्त्रिणां मन्त्रः; णि हि प्प ए स्थाप्यते. 2 कुलवइ कुलपतिः. 7 a रज्जु
इत्यादि राज्यं नरकाणां मार्गः. 12 b जयवइ इत्यादि उग्रवंशोत्पन्नोऽग्रसेनशयवतीसुता, रात्रिमतिरि-
त्यार्थे. 14 a सारसरस सारा चासौ सरसा च.

23

दुवई—पत्थिय माहवेण महरावइधरु गंपिणु सराहहो ॥

सुय तेरी मरालगयगामिणि ढोयहि नेमिणाहहो ॥ छ ॥

तं आयणिणवि कंसहु ताएं

जं जं काइं मि णयणाणंविरु

तं तं सब्बु तुहारुं माहव

अवरु वि देवदेउं जामाइउ

ता मंडवि चामीयरघडियइ

कंचणपंकयकेसरवण्णहि

जयजयसईं मंगलघोसें

णाहविवाहकालि णर ससि रवि

पंडुरदेवंगइं वरणिवसणु

दंडाहयपहुपडहणिणाएं

कामपाससंकासलयाभुय

सुंदरेण सुहवत्तणरूढे

विरसोरसणसमुट्टियंकलयलु

घत्ता—अहिसेयधोयसुरमहिहरिण

भणु भणु कंदंतइं भयगयइं

दिण्ण वाय गोविंदु राएं ।

जं जं धरि अम्हारइ सुंदरु ।

धीयइ किं जियवईरिमहाहव । 5

कहिं लब्भइ बहुपुण्णाविराइउ ।

पंचवण्णमाणिकहिं जडियइ ।

अंगुत्थलउ छुट्टुं करि कण्हहि ।

द्विणदाणकयविहलियतोसें ।

आय सुरासुर विसहर खयर वि । 10

कडयमउडमणिहारविहसणु ।

णच्चंतें सुरवरसंघाएं ।

पहु परिणहुं चाल्लिउ पत्थिवसुय ।

ताम तेण मणिसिबियारूढे ।

वइवेडिउं अवलोइउं मिगंउलु । 15

ता सहयर पुच्छिउ जिणवरिण ॥

किं रुद्धइं णाणामिगंसयइं ॥ २३ ॥

24

दुवई—ता भणियं णरेण पारद्धियदंडहयाइं काणणे ॥

पयइं तुह विवाहकजागयणिधपारद्धभोयणे ॥ छ ॥

डरियइं धरियइं वाहसहासें

देवदेव गोविंदापसें ।

23 १ AP पत्थिउ. २ ABPS मरालगइगामिणि. ३ AP तुम्हारउ. ४ B °वयरि°. ५ S देवदेउ. ६ B छुट्टु किर. ७ A देवंगंवर°. ८ B परियणहुं चलिउ. ९ ABP समुट्टिउ. १० S मृगउलु. ११ S मृगसयइं.

24 १ A °वृव°.

23 1 सराहहो शोभायुक्तस्य. 3 a कंसहु ताएं आर्षपुराणे उग्रवंशोत्पन्नोऽग्रसेनराजा कथितः, तदभिप्रायेण तस्य राज्ञोऽपि कंसनामा पुत्रोऽस्ति, अन्यथा स्वगोत्रमध्ये विवाहो न घटते. 8 b छुट्टु मुद्रिका क्षिप्ता. 9 b °विहलिय° दरिद्राः. 13 b परिणहुं परिणेतुम्. 15 a °ओरसण° अवरसनं शब्दः; b वइवेडिउं वृतिवेष्टितम्. 16 a °धोयमहिहरिण धौतमेरुणा; b सहयर सहचरो भृत्यः.

24 2 विवाहेत्यादि विवाहकार्यागतराज्ञां भोजननिमित्तं धृतानि. 3 a वाह° व्याधा मिल्हाश्च.

आणियाहं सालणयणिमित्तं
 जे भक्खंति मासु सारंगहं
 खद्धुं जेहिं^२ पिसिउं मोराणउं
 जंगलु जेहिं गैसिउं तित्तिरयहु
 जेहिं जूहु विद्धंसिउ रउरउ
 कवल्लिउ जेण देहिदेहामिसु
 पासिउ कव्वु जेण तं हारिणु
 होइ अणंतदुक्खच्चिंतावइ
 सो अट्टियसंबंधु ण पावइ
 जहिं मृगमौरणु भोज्जु णिउत्तउं
 घत्ता—जइ इच्छइ सासयपरमगइ
 महु मासु परंगण परिहरइ

ता चिंतइ जिणु दिव्वं चित्तं ।
 ते णर कहिं मिलंति सारंगहं । 5
 तेहिं ण कियउं वयणु मोराणउं ।
 ते पेच्छंति ण मुहुं तित्तिरयहु ।
 ते पाविहहिं णरउ णिरु रउरउ ।
 तहु खंडंति कालदूयामिसु ।
 तहु दुक्किउ वड्ढई णं हा रिणु । 10
 जो पसुअट्टिउं हुयवहि तावइ ।
 किं किज्जइ रायाणीपावइ ।
 तेण विवाहें महुं पज्जत्तउं ।
 तो खंचंह परहंणि जंतं मइ ।
 सिरिपुफ्फयंतु जिणु संभरइ ॥ २४ ॥ 15

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे जंरैसिंधणिहणणं णाम
 अट्टासीतिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ८८ ॥

२ AP पिसिउ जेहिं; B जेण पिसिउं. ३ AP असिउं. ४ AP भुंजंति. ५ AP कोलदेहामिसु.
 ६ A वड्ढइ. ७ AB मिगमारणु. ८ B इच्छइ. ९ BP खंचहु. १० A परहण. ११ P जंतं.
 १२ P^० पुप्फदंतु. १३ A जरसंधणिवाणं. १४ S अट्टासीमो.

4 a सालणय^० शाकम्. 5 b सारंगहं उत्तमशरीराणाम्. 6 a मोराणउं मयूरसंबन्धि; b मोराणउं
 मम संबन्धि. 7 b तित्तिरयहु तृप्तियुक्तस्य सुरतस्य. 8 a रउरउ ररूणाम्. 9 b कालदूयामिसु काल-
 दूताः आमिषम्. 10 a हारिणु हरिणानामिदम्; b हारिणु ऋणमिव हा कष्टम्. 11 a^० चिंतावइ
 चिन्तापतिः. 12 a अट्टियसंबंधु ण पावइ गर्भे एव विलीयते; b रायाणीपावइ रात्रीप्राप्त्या.
 15 b मरंगण परखी.

जोइवि हरिणइं तिहुयणसामिहि ॥
मणि करुणारसु जायउ णेमिहि ॥ भुवकं ॥

1

दुवई—एकहु तित्तिं णिविसु अण्णेक्क वि जहिं प्राणिहिं^३ विमुच्चप ॥
तं भवविहुरकारि पलभोयणु महुं सुंदरु ण रुच्चप ॥ छ ॥

संसारु घोरु चिंतंतु संतु	गउ णियणिवासु एवं भणंतु ।	5
णाणं परियाणिउं कज्जुं संचु	णारायणकउ मायापवंचु ।	
रोहियसससूयरसंवराइं	जिह धरियइं णाणावणयरइं ।	
अवियाणियपरमेसरगुणेण	कुद्धेण रज्जलुद्धेण तेण ।	
णिब्बेयहु कारेणि दरिसियाइं	रोवंतइं वेवंतइं थियाइं ।	
एपं जीएण असासएण	किं होसइ परदेहे हएण ।	10
झायंतु एम मउलियकरेहिं	संबोहिउ सारस्सयसुरेहिं ।	
जय जीय देव भुयणयलभाणु	पइं दिट्टउ पर अप्पेहं समाणु ।	
तुहुं जीवदयालुउ लोयबंधु	लहुं दोयहि संजमभेरहु खंधु ।	
तुहुं रोसमुसाहिंसाबहिंथु	जगि पयडहि बावीसमउं तिथु ।	

घत्ता—अंमरवरुत्तइं णिज्जियमारहु ॥ 15
वयणइं लग्गइं णेमिकुमारहु ॥ १ ॥

2

दुवई—तहिं अवसरि सुरिंदसंदोहे सिंचिउ विमलवारिहिं ॥
वीणातंतिसइसंताणं गाइउं विविहणारिहिं ॥ छ ॥

उत्तरकुरुसिबियारुढदेहु	णं गिरिसिहरासिउ कालमेहु ।
सोहइ मोत्तियहाँरं सिएण	णहभाँउ व ताराविलसिएण ।

1 १ P तिहुवण°. २ AP णिमिसतित्ति; P णिविस तित्ति; Als. णिमिसतित्ति. ३ AP पाणहिं; B पाणिहिं; S प्राणहिं. ४ B कज्ज°. ५ P कारण. ६ APS दरिसियाइं. ७ APS अप्पयसमाणु. ८ B °दयालुधु. ९ S °भरहं. १० S अमरु.

2 १ APS °संताणहिं. २ BK गायउ. ३ P °हारिए. ४ B °भावउ.

1 3 णि विसु निमेषमात्रं तृप्तिः. 4 पलभो यणु मांसभोजनम्. 6 a संचु संबन्धः. 7 a रो हि य° रोहितमत्स्यः. 10 a जी एण जीवितेन. 14 a °ब हि त्थु बहिः स्थितम्.

रत्नुप्लमालइ सोह वैतु
ससिसेयसियैयसोहासमेउ
सिरि बलईयवरमउडेण वित्तु
पियवयणाउच्छियमित्तबंधु
पहुपडहसंखकाहलसैरेहिं
तरुसाहासयदंकियपयंगु
मंदारकुसुंमरयपसरपिगु
कंकल्लिलुलियवलवैलयतंबु
गउ सई पौरिलुंविउ केसभारु
तरुणीयणु बोळइ रोवमाणु
उपपणहु एयहु ववगयाइं
सिवणंदणु अंजि वि सुंहु बालु

णं जउणादहु जणमल हरंतु । 5
णं अंजणमहिहरु तुहिणतेउ ।
णं सो जिं रयणकूडेण जुत्तु ।
णिच्छिंहुं सिद्धिलीकयपणयबंधु ।
उच्चारुउ णरखयरामरेहिं ।
फलरसणिवाडियणाणाविहंगु । 10
गुसुगुमुगुमंतपरिभमियभिगु ।
सहसंबयवणु फुल्लियकैयंबु ।
पडिवणुउ दहु जिणवइविहारु ।
हा हा अर्थमियउ कुसुमबाणु ।
हलि माइ तिणिण वरिसहं सयाइं । 15
रिसिधम्महु एहु ण होइ कालु ।

घत्ता—एण विमुक्किया रायमई सई ॥

महुराहिवसुंथा किह जीवेसई ॥ २ ॥

3

दुवई—चामरधवलछत्तसीहासणधरणिधणाइं पेच्छेहे ॥

णिरुं जरतणसमाइं मणि मणिणवि थिउ मुणिमग्गि दूसेहे ॥ छ ॥

जिणु जम्मं सहुं उपपणवोहि
सावणपवेसि ससिकिरणभासि
चित्ताणक्खत्तइ चित्तु धरिवि
सहुं रायसहासैं हासहारि
माणवमणमइलणधंतभाणु
अच्चंतवीरंतवतावतविउ

हलि वणुणइ को एयहु समाहि ।
अवरणहइ छट्टइ विणि पयासि ।
छट्टोववासु णिम्भंतु करिवि । 5
जायउ जहुत्तचारित्तधारि ।
संजमसंपण्णचउत्थणाणु ।
यलएववासुएवेहिं णविउ ।

५ S °द्रहु. ६ P जणमणु; S जणमउ. ७ A °सिचय°; B °वत्थ for सियय°; S °सिअय°.
८ AB विरइय°. ९ S अ for जि. १० B णिच्छिह. ११ B °काहलरवेहिं. १२ B °कुंदरय°.
१३ B °वयल°. १४ S °कलंबु. १५ ABPS आलुंविउ. १६ B अत्थिमियउ. १७ B अज.
१८ B सुहु. १९ B उगसेणसुअ in second hand.

3 १ B °सिहासण°. २ B पिच्छहो. ३ B णिच्छउ जरतणाइं मणि मणिणवि. ४ A °संपत्त°;
B °संपुण्ण°. ५ A °धीर°; B °धीर. ६ B °वासुएवहिं.

2 6 a °सियय° सिचयं वल्लम; b तुहि णतेउ चन्द्रयुक्तो गिरिः. 8 b णिच्छिहु निःस्युहः.
10 a °पयंगु सूर्यः.

3. 4 a ससि किरण भासि शुकूपक्षे. 5 a चित्तु धरिवि मनोव्यापारं संकोच्य.

पिंडहु कारणि णिद्धाइ णिद्धु	अण्णाहिं दिणि दारावइ पइडु ।	
वरयत्तणरिंदहु भवणि थक्कु	णं अब्भंभंतरि भासुरक्कु ।	10
परमेट्टिहि णवविहपुण्णठाणु	तहु दिण्णउं तेणाहारदाणु ।	
माणिकविट्ठिं णवकुसुमवासु	गंधोअयंवरिसणु देवघोसु ।	
दुंदुहिणिणाउ जिणु जिमिउ जेत्यु	जायाइं पंच चोजाइं तेत्यु ।	
माहवंपुरि मेल्लिवि जंतु जंतु	पासुयपपंसि पय वंतु वंतु ।	
छप्पण दिर्यंह ह्यमोहजालु	वोलीणहु तहु छम्मत्थकालु ।	15

घत्ता—कुसुमियमहिरुहं द्विडियसावयं ॥

पत्तो जईवई रेवेर्यपीवयं ॥ ३ ॥

4

दुवई—पविउलवेणुमूलि आसीणउ जाणियजीवमग्गणो ॥

तवचरणुंगखग्गधाराहयदुद्धरकुसुममग्गणो ॥ छु ॥

परियाणिवि चलु संसारु विरसु	रसगिद्धिलुद्धु णिज्जिणिवि सरसु ।	
परियाणिवि धुउं परमत्थरूउ	आसत्तु रूवि णिज्जियउं रूउं ।	
परियाणिवि सुहुं परियालियसहु	जोईसरेण णियमियउ सहु ।	5
परियाणिवि मोक्खु विमुक्कगंधु	पक्कु वि ण समिच्छिउ तेण गंधु ।	
परियाणिवि सिद्धहं णत्थि फासु	णिज्जिउ णेमिं वसुविहु वि फासु ।	
अवइणियाहि सिसुचंदसियहि	आसोयमासि पांडिवयदियहि ।	
णक्खत्ति चारुचित्ताहिहाणि	पुव्वण्हयालि पयलंतमाणि ।	
गुणभूमितुंगि तिहुयंणपहाणि	चडियउ तेरहमइ साहु ठाणि ।	10
उप्पणणउ केवलु दलियदप्पि	उट्ठियं घंटारवें कप्पि कप्पि ।	

घत्ता—चैल्लियं आसणं हरिसुप्पिल्लिओ ॥

जिणसंथुईमणो इंदो चल्लिओ ॥ ४ ॥

७ A णं अब्भंतरि भाभासुरक्कु. ८ B उट्ठि. ९ B गंधोवयं; P गंधोयपवरिसणु. १० P पुरे. ११ B पदेसे. १२ B दियहइ हउ. १३ AB जयवई. १४ B रेवइ. १५ P पव्वयं.

4 १ BAIs. चरणग्गं. २ P परियाणेविणु संसारु. ३ AS णिज्जियउ; P णिज्जिउ. ४ S धुउ. ५ S रूउ. ६ BP णेमिं. ७ A वसुविहि. ८ A पडिवइयं. ९ B तिहुवणं. १० S उट्ठिउ. ११ BS घंटारउ. १२ AS चलियं. १३ A संथुउ मणे.

12 b गंधो अयं गंधोदकम्. 14 a माहवपुरि द्वारवतीम्. 16 b सावयं श्रापदम्. 17 b रेवयपावयं ऊर्जयन्तगिरिम्.

4 4a धुउ परमत्थरूउ शाश्वतं परमार्थरूपमात्मा; b आसत्तु इत्यादि रूपे आत्मनि आसक्तः, तथा सति नेत्रेन्द्रियं जितम्. 6 b समिच्छिउ वाञ्छितः. 8 a अवइणियाहि अवतीर्णायां प्रतिपदि.

5

दुवई—बहुमुहि बहुयदंति बहुसयदलपत्तपणश्चियच्छरे ॥

आरूढउ करिदि अइरावइ विलुलियकण्णचामरे ॥ छ ॥

दंडउ—विणयपणयसीसो सुरेसो गओ वंदिउं^५ देवदेवो अताओ असाओ
महाणीलजीमूयवण्णो पसण्णो ॥ १ ॥

गणहरसुरवंदो अमंदो अणिंदो जिणिंदो मइंदासणत्थो महत्थो
पसत्थो असत्थो समत्थो ससत्थो अवत्थो विसत्थो ॥ २ ॥

वियलियरयभारो गहीरो सुवीरो उयारो अमारो अछेओ अमेओ
अमेओ अमाओ अरोओ असोओ अजम्मो ॥ ३ ॥

विसहरधरसंरुद्धणाणादुवारंतरो पंडुडिंडीरपिंडुज्जलुहामभाभूरिणा
चामरोहेण जक्खेहिं विज्जिज्जमाणो ॥ ४ ॥

अमरकरविमुच्चंतपुप्फंजलीगंधलुद्धालिसामंगणो देवसामंगणाणश्च-
णारद्धगेयज्जुणीदिण्णतोसो ॥ ५ ॥

सयलजणपिओ धम्मवासो सुभासो हयासो अरोसो अदोसो सुलेसो
सुवेसो सुणासीरईसो ससीरीसिरीसंथुओ ॥ ६ ॥

सुरवरतरुसाहासुराहासमिल्लो जयंको जणाणं पहाणो जरासंध-
रायारिभीसावहो भिण्णमायाकयंको ॥ ७ ॥

पविउलपरंभामंडलुभूयदित्ति विहिज्जंतघोरंधयारो विराओ विरेहं-
तच्छत्तओ पत्तसंसारपारो ॥ ८ ॥

अमरकरणिहम्मंतभेरीरवाह्वयतेलोकलोयाहिरामो सुधींमो सुणामो
अधामो अपेम्मो सुंसोम्मो ॥ ९ ॥

कलिमलपरिवज्जिओ पुज्जिओ भावणिंदेहिं चंदेहिं कप्पामरिंदाहमि-
देहिं णो णिज्जिओ भीमंपंचिंदियत्थेहिं णिगंथपंथस्स णेयारओ ॥ १० ॥

- 5 १ P बहुमुयदंते. २ A आरूढ करिदे. ३ P अइरावण. ४ P वंदिओ. ५ PS अताओ.
६ PS असाओ. ५ P मइंदासण°. ६ A समत्थो असत्थो; P समगो समत्थो. ७ ABS सुवीरो.
८ P अमाओ. ९ AP °वर° for धर°. १० P दिव्व°. ११ S °जणपीओ. ११ P पविउलपभा-
मंडल°. ११ AB सधम्मो सुधुवंतणामो अवामो. १२ AP सुसम्मो. १३ PS °पंचेदिय°.

- 5 3 असाओ अश्रापः. 4 °मइंदासण° सिंहासनम्; ससत्थो सशालः; अवत्थो नमः.
5 अमारो अकन्दर्पः. 6 पंडु° श्वेतः. 7 °सामंगणो कृष्णप्राङ्गणः. 8 ससीरीसिरीसंथुओ बलभद्र-
सहितेन विष्णुना स्तुतः. 9 सुराहासमिल्लो सुशोभासहितः. 10 भिण्णमायाकयंको भिन्नमाय इति कृतः
अङ्को विरुदं यस्य.

कलसकुलिससंखंकुसंभोयसयलिंदैवत्तीधैरिस्तीधरामहातीरिणी-
लकखणालंकिओ वंकभावेण मुक्को रिसी अज्जवो उज्जुओ सिट्टुतच्चो
सुसच्चो ॥ ११ ॥

जणमणगयसंसयाणं कयंतो महंतो अणंतो कणंताण ताणेण हीणाण
दुक्खेण रीणाण बंधू जिणो कम्मवाहीण वेज्जो ॥ १२ ॥

यत्ता—सुरवरवंदिओ महसु महाहियं ॥

15

सिवपवीसुओ देवो^{१०} माहियं ॥ ५ ॥

6

दुवई—णिम्मलणाणवंत सम्मत्तवियक्खण चरियंमणहरा ॥

धरदत्ताइ तासु पयारह जाया पवर गणहरा ॥ छ ॥

साहुहुं सव्वंहं संपयरयाइं
पासुयभिकखासणभिकखुयाहं
परिगणियइं अट्टसयाहियाइं
पण्णारह सय अवहीहैराहं
संसोहियवम्महसरवणाहं
मणपज्जयणाणिहिं जहिं पयासु
परवयणविणासविराइयाहं
चालीससहासइं संजईहिं
परिवहियवयपालणरईहिं
संखाय तिरिय सुरवर असंख
जहिं पइसइ लोउ असेसु सरणु

जहिं पुव्ववियहुइं चउसयाइं ।
पयारहंसहसइं सिक्खुयाहं ।
अर्पणत्थि परत्थि सया हियाइं । 5
केवल्लिहिं मि जाणियसंवराहं ।
पयारह सर्य सविउव्वणाहं ।
एक्के सएण ऊणउं सहासु ।
वसुसमइं सयाइं विवाइयाहं ।
जहिं एक्कु लक्खु मंदिरजईहिं । 10
लक्खाइं तिणिण वरसावईहिं ।
वज्जंति पडह महल अंसंख ।
तहिं किं वणिणज्जइ समवसरणु ॥

१४ Als. °सइलिंदवन्ती°; P °सइलिंददन्ती°. १५ BS धरत्ती. १६ P अज्जवो. १७ BP देउ.
१८ AP समाहियं.

6 १ B °णाणवत्त. २ BAIs. चरियधणहरा; S चरियधण मणहरा. ३ B वरयत्ताइ. ४ A
सव्वहं संजयरयाइं; P सुव्वयसंजयरयाइं. ५ S °सहइं. ६ P omits this foot. ७ B अवहीसराहं.
८ ABKS सहस विउव्वणाहं; B has ह for य in second hand. ९ S वज्जंत. १० P ससंख.

13 सय लिंद वत्ती मेरुयुक्ता भू; °धरा° पताका; अज्जवो उज्जुओ वाक्कायाभ्यामवक्रः. 14 °संस-
याणं कयंतो संशयस्फेटकः. 15 b महसु त्वं पूजय. 16 b माहियं मायै लक्ष्म्यै हितं यथा भवति,
लक्ष्मीवृष्ट्यर्थमित्यर्थः.

6 1 चरिय° चारित्रेण. 3 a संपयरयाइं मोक्षसंपद्रतानि. 4 a °भिकखुयाहं भोजकानाम्.
5 b अपत्थि इत्यादि आत्मारथे परार्थे च सदा हितानि. 7 a °वणाहं व्रणानाम्.

घसाँ—जियकूरारिणा वसुमइहारिणा ॥

जेमी सीरिणा णविवि मुरारिणा ॥ ६ ॥

15

7

दुवई—धम्माधम्मकम्मगाइपुग्गलकालायासणामहं ॥

पुच्छिउ किं पैमाणु परमाणमि चेउदहभूयगामहं ॥ छ ॥

किं खणविणासि किं णिष्णु पक्कु

किं देहत्यु वि कम्मेण मुक्कु ।

किं णिष्चेयणु वेयणसरूउ

किं चउभूयहं संजोयैभूउ ।

किं णिग्गुणु णिक्कल्लु णिव्वियारि

किं कम्महं कारउ किं अकारि । 5

ईसरवसेण किं रयवसेण

संसरइ देव संसारि केण ।

परमाणुमेत्तु किं सव्वगामि

अप्पउ केहउ भणु भुवणसामि ।

तं णिसुणिवि जेमीसरिण वुत्तु

जइ खणविणासि अप्पउ णिरुत्तु ।

तो किं जाणइ णिहियउं णिहाणु

घरिसहं सप वि णिहिद्वंवाणु ।

णिष्णहु किं ई कहिं उप्पत्ति मष्णु

जंपइ जणु रइलंपइ असणु । 10

जइ पक्कु जि तइ को संगि सोक्खु

अणुहुंजइ णरइ महंतु दुक्खु ।

जइ भूयवियारु भणंति भाउ

तो किं ई किं लब्भइ महविहाउ ।

णिक्किरियहु कहिं करणइ ह्वंति

कहिं पयइबंधुं जुत्ति वि थवंति ।

जइ सिववसु हिंडइ भूयसत्थु

तो कम्मकंडु सयलु वि णिरत्थु ।

घत्ता—जइ अणुमेत्तउ जीवो पइउ ॥

15

तो सज्जीवउ किह करिदेहउ ॥ ७ ॥

8

दुवई—जीवुं अणाइणिहणु गुणवंतउ सुहुमु सकम्मकारओ ॥

भोत्तउ गत्तमेत्तु रयचत्तउ उक्कुगई भडारओ ॥ छ ॥

१९ S omits घत्ता lines. १२ BK जेमि.

7 १ A कि पि माणु. २ APS चोदह°. ३ PS संजोए हूउ. ४ APS जेमीसेण. ५ A खणि विणासि. ६ APS णियदव्व°. ७ APS कहिं किर. ८ S सगगोक्खु. ९ P सक्खु. १० APS किर कहिं. ११ P वहंति. १२ A °बंधजुत्ति. १३ A कम्मकंडु.

8 १ APS जीउ.

15 b मुरारिणा पृष्ठ इत्युत्तरेण संबन्धः.

7 6 a रय° रजः. 9 b णि हि दव्व° निधिद्रव्यम्. 12 a भाउ भावो जीवपदार्थः; b मह-विहाउ मतिज्ञानविभागः स्वरूपम्. 14 b कम्मकंडु क्रियाकाण्डम्. 16 b करि देहउ चेदणुमात्रः तर्हि गजशरीरं महत्, तत्सर्वं सचेतनं कथम्.

8 2 भोत्तउ भोक्ता.

इय वयणइं सवणसुहासियाइं
बलपवें गुणहरिसियमणेण
अरहंतहु केरी परम सिक्ख
अवरेहिं चारुसावयवयाइं
पत्थंतरि सुरगयवरगईइ
संजमसीलेण सुहाइयाइं
जइजुयलइं तिणिण पलोइयाइं
किं किर कारणु पणयाणुराइ
पिहुजंबुदीवि इह भरहखेत्ति
सपयावपरज्जियवइरिसेणु
तेत्थु जि पुरि वणिवइ भाणुदत्तुं
तहुं पढमपुत्तु णामें सुभाणु
पुणु भाणुसेणु पुणु सूरवेउ

आयणिणवि जिणवरभासियाइं ।
सम्मत्तु लइउ णारायणेण ।
अवरेहिं लइय णिगंथदिक्ख । 5
णिव्वूढइं परिपालियदयाइं ।
वरदत्तु पेपुच्छिउ देवईइ ।
चरियामग्गें घरें आइयाइं ।
महुं णयणइं णेहें छाइयाइं ।
ता भणइ भडारउ णिसुणि माइ । 10
महुराउरि जिणवरघरपविसि ।
णरवइ तहिं णिवसइ सूरसेणु ।
जउणायत्तांसइरइहि रत्तु ।
पुणु भाणुकिसि पुणु अवरु भाणु ।
पुणु सूरदत्तु पुणु सूरकेउ । 15

घत्ता—तेत्थु महारिसी समजलसायरो ॥

जियपंचेदिओ णाणदिवायरो ॥ ८ ॥

9

दुवई—पणविवि अभयणंदि णरणाहें णिसुणिवि धम्मसासणं ॥
मुइवि सियायवत्तचलचामरमेइणिहरिवरासणं ॥ छ ॥

णरवरसाहियसग्गापवग्गि
वणिणाहु वि तवसिरिभूसियंगु
जउणादत्तइ वणि फुल्लणीवि
ते पुत्त सत्त वसणाहिइय
णिद्धाडिय रापं पुरवराउ
तें गय अवंति णामेण वेसु
तहिं संपत्ता रयणिहि मसाणु

लइयउं मुणित्तुं जइणिंदमग्गि ।
थिउ तेण समउ णिम्मुकुसंगु ।
वउं लइयउं जिणदत्तासमीवि । 5
सत्त वि दुद्धर णं कालदूय ।
मयपरवस णं करिवर सराउ ।
उज्जेणिणयरु मणहरपपेसु ।
जुज्झंतकुद्धसिबसाणठाणु ।

२ B समत्तु लयउ. ३ B लयइय. ४ AP वि पुच्छिउ. ५ S तहिं आइयाइं. ६ PS भाणुयत्तु.
७ AP °दत्तासइरत्तचित्तु. ८ S तहे.

9 १ B सयायवत्त° २ P मुणिवउ. ३ AP वउ. ४ APS गय ते. ५ S °पवेसु.

9 a ज इ जु य ल इं यतियुग्मानि. 10 a महारिसी अभयनन्दी.

9 5 a फुल्लणी वि फुल्लनीपे फुल्लकदम्बे. 7 b सराउ तडागात्. 9 b °सा णं शुनकः.

संणिहिउ तेत्थु सो सूरकेउ अवर वि पइइ पुरु चर्वलकेउ । 10
 तहिं चोर किं पि चोरंति जाम अण्णेक्कु कहुंतरु होईं ताम ।
 पुरपहु वसहइउ तासियारि सहसभइु भिञ्चु तहु दढपहारि ।
 वण्णसिरि धरिणि सिसुहरिणदिट्ठि तहि तणुरुहु णामें वज्जमुट्ठि ।

घत्ता—विमलतणूरुहा रइरसवाहिणी ॥

णामें मंगिया तहु पियगेहिणी ॥ ९ ॥

10

दुवई—तें सहुं पत्थिवेण महुसमयदिणागमणि वणं गया ॥

जा कीलंति किं पि सव्वाइं वि ता पिसुणा सुणिहया ॥ छ ॥

आरुइ दुइ वरइत्तमाय मुहि णिग्गय णउ कहुंययर वाय ।
 सुकुसुममालइ सहुं अइमहंतु घडि धित्तु सण्णु फुक्कार देंतु ।
 ससिमुहि छउंओयरि मज्झखाम संपत्त सुण्ह णवपुप्फकाम । 5
 आलिंगिय कोमलयरभुयाइ मणुं जाणिवि बोळिउं सासुयाइ ।
 तुह जोगी चलमहुयररवाल मइं णिहिय कलसि वरपुप्फमाल ।
 अमुणंतिइ गइ असुहारिणीहि पच्छण्णविरुद्धहि बइरिणीहि ।
 बालांइ कुंभि करयलु णिहित्तु उद्दाइउ फाणि चँलु रत्तणेत्तु ।
 हा हा करंति सा खइ तेण णिवडिय महियलि मुच्छिय विसेण ।
 तणवेढंइ वेढिवि पिहियणयण गयकायतेय मउलंतवयण । 10
 पेसुण्णसलिलसंगहसरीइ घल्लिय पिउवाणि पइमायरीइ ।

घत्ता—तांवाओ पिओ भणइ सुसंगिया ॥

कहिं सामंगिया अव्वो मंगिया ॥ १० ॥

६ B धवलकेउ. ७ दुक्कु ताम.

10 १ ABP ते सह. २ B कहुइययर; P कहुअवर. ३ A फुंकार. ४ B खामोअरि; P तुच्छोयरि. ५ A ०जाणेविणु बोळिउं. ६ ABPS बालए कुंभे. ७ A चलरत्त^०. ८ S भणंति. ९ A तणुवेडिपवेडिए; BAIs. तणविंडए वेडिवि; P तणवेडिए. १० A तावायउ; B तावाइउ.

12 a वसहइउ वृषभध्वजः. 14 a विमलतणूरुहा विमलस्य पुत्री.

10 2 पिसुणा वप्रश्रीः. 3 a वरइत्तमाय वज्रमुष्टिमाता. 5 a ससिमुहि चन्द्रवदना; छउओयरि क्षामोदरी. 7 b कलसि घटे. 8 a गइ स्वभावः कपटम्; b पच्छण्णविरुद्धहि अभ्यन्तरकपटायाः. 11 तणवेढंइ तृणवेष्टनेन. 13 a पिओ भर्ता वज्रमुष्टिः; b सुसंगिया शोभनसङ्गा. 14 a सामंगिया श्यामाङ्गी.

11

दुवई—कहियं अंबियाइ विसहरदाढागरलेण घाइया ॥

पुत्तय तुज्झं घरिणि खयकालमुहे विहिणा णिवाइया ॥ छ ॥

अम्हेहिं मोहरसपरवसेहिं

दङ्गी ण जीवियासावसेहिं ।

घल्लिय कत्थइ दुग्गंतरालि

पेयग्गिजालमालाकरालि ।

ता चल्लिउ सो संगरसमत्थु

उक्कंखायतिक्खकरवालहत्थु । 5

हौं हे सुंदरि परिसोयमाणु

परिभमइ पेयमहि जोवमाणु ।

ता तेण दिट्ठु तहिं धम्मणामु

रिसि दूसहत्तवसंतावखामु ।

ओवाइउं भासिउं तासु एम

जइ पेच्छमि पिययम कह वं देव ।

चलचंचरीयधुयकेसरोहिं

तो पइं पुज्जमि इंदीवरोहिं ।

इय भणिवि भंमंतं तहिं मसाणि

अणवरयदिण्णणरमासदाणि । 10

दिट्ठी पणइणि णासियगरेणं

मुणिवरतणुपवणोसहभरेण ।

जीवाविय जाय सचेयणंगि

पेरिमिट्ठु रहंगं णं रहंगि ।

रमणीदंसणपुलइयसरीरु

गउ कमलहं कारणि कहिं मि धीरं ।

गइ पिययमि मंगीहिययथेणु

कवडेण पदुक्कउ सूरसेणु ।

घत्ता—तेण मणोहरं तहिं तिह बोल्लियं ॥

15

जिह हियउल्लयं तीइ विरोल्लियं ॥ ११ ॥

12

दुवई—परपुरिसंगसंगरइरसियउ मयणवसेण णीयओ ॥

महिलउ कस्स हौंति साहीणउ बहुमायाविणीयओ ॥ छ ॥

परिहरिवि चिराणउ चारु रमणु

पडिवण्णउं तं सहुं तीइ रमणु ।

तहिं अवसरि आयउ वज्जमुट्ठि

कंतहि करि अप्पिय खगलट्ठि ।

11 १ APS तुज्झु. २ P घरणि. ३ A णिवेइया. ४ A उक्कय^०; P omits this foot. ५ ABPS हा हा हे सुंदरि सोयमाणु. ६ AS चिया^०; P चिहा^०. ७ APS जोयमाणु. ८ B वि. ९ B महंते; but notes a *p*: भंमंते वा पाठः. १० A adds after this: अवलोइवि परबलरिउमहेण. ११ AS परिमट्ठ; B पइमट्ठ. १२ B कमलहो. १३ AP वीर.

12 १ B गमणु.

11 4 *a* दुग्गंतरालि वनमध्ये इमशाने; *b* पेयग्गि^० प्रेताग्निः. 11 *b* मुणिवरेत्यादि मुनिशरीरपवनौषधेन जीविता. 12 *b* परिमिट्ठ परिमृष्टा. 14 *a* मंगीहिययथेणु मङ्गीहृदयचौरः. 15 *b* तहिं तिहबोल्लियं तत्र तथा जल्पितम्.

12 1 णीयओ नीचाः; नीता गृहीता वा. 2^० मायाविणीयओ मायायुक्ताः. 3 *b* रमणु क्रीडनम्.

इच्छिवि^१ परणररइरसपवाहु
 ता वणिसुपण उड्डिउ सबाहु
 अंगुलि खंडिय णं पावबुद्धि
 चित्तवइ होउ माणिणिरपण
 दुग्गंभुं पुरंधिहिं तणउ देहु
 रण्पिज्जइ किं किर कामिणीहिं
 किं वयणं लालाणिग्गमेण
 किं गरुयगंडसरिसेण तेण
 परिगलियमुत्तसोणियजलेण
 पररत्तिइ गुणविहावणीइ
 मइं खग्गु मुक्कु भीयाइ माइ

सा ताइ जाम किर हणइ णाहु । 5
 णित्तिसु पडिउ णं कालगाहु ।
 कम्मवसमेण वड्ढिय विसुद्धि ।
 दरिसावियधणजीवियखएण ।
 मणु पुणु बहुकवडसहासगेहु ।
 वइसियमंदिरि चूडामणीहिं । 10
 अहरं किं वल्लूरोवमेण ।
 माणिज्जंतं घणथणजुपण ।
 किं किज्जइ किर सोणीयलेण ।
 एत्थंतरि दढमायाविणीइ ।
 वरइत्तहु उत्तरु दिण्णु ताइ । 5

घत्ता—घेत्तुं^२ परहणं सुहु अकारयरां ॥

ताम पराइया ते^३ तहिं भायरा ॥ १२ ॥

13

दुवई—दिण्णं तेहिं तस्स दविणं तहिं तेण वि तं ण इच्छियं ॥

हिसाअलियवयणचोरत्तणपरयारं दुग्गुच्छियं ॥ छ ॥

तणमिव मण्णिउं तं चोरदव्बु
 खलमहिलउ किं किर णउ कुणंति
 तियेचरिउं कहंते भायरेण
 तं णिसुणिवि मेल्लिवि मोहजालु
 वसिकिय पंचेदिय णियमणेहिं
 आसंधिउ धम्ममहामुण्णिंदु
 जिणदत्तहिं खांतिहिं पायमूलि
 वउं लइयउं लहुं तणुअंगियाइ

मंगीविलसिउं वज्जरिउं सव्बु ।
 भत्तारु जारकारणि हणंति ।
 छिण्णंगुलि दाविय ताहं तेण । 5
 सरकरिहरि दयदाढाकरालु ।
 णिव्वेइएहिं वणिणंदणेहिं ।
 तउ लइउं तेहिं पणविवि जिण्णिंदु ।
 उवसामियभवयरसल्लसूलि ।
 णियचरियविसण्णइ मंगियाइ । 10

२ A इच्छियं. ३ B खयेण. ४ B दुग्गंध. ५ AP'S 'मंदिर'. ६ AP घित्तं. ७ S अकारया.
 ८ B तहिं ते.

13 १ B तिण. २ B परयाइं. ३ Als. तय; S प्रियचरिउं. ४ A सरहरिकरिहयदाढा'.
 ५ ABP वउ. ६ S तणुअंगि'.

5 b ताइ तथा खङ्गयष्ट्या. 6 a सबाहु स्वबाहुः. 10 b वइसिय' माया. 11 b वल्लू-
 रोवमेण शुष्कमांसोपमेन. 12 a 'गंड' स्फोटकः; b माणिज्जंतं भुक्तेन. 15 a मइं इत्यादि मातः
 इत्यादरे, कपटेन वा; परनरं दृष्ट्वा भीताया मम करात्पतितं खङ्गम् (?). 16 a घेत्तुं गृहीत्वा.

13 6 a सरकरात्यादि स्मरकरिहरिर्दयादंष्ट्राकराल इति धर्ममहामुनेर्विशेषणम्; दया एव
 दंष्ट्रा. 9 b भवयरसल्लसूलि संसारकरशल्यस्फोटके. 10 a तणुअंगियाइ क्षामशरीरया.

हिंतालतालतालीमहंति
अच्छंति जाम संपुण्णतुट्टि
अंचिवि णवकमलहिं सच्चदिट्टि
पुच्छियउं तेण णिवसह वणम्मि
मंगीवियारु तवचरणहेउ
विद्धंसिवि लइयउं रिसिंवेरित्तु
सोहम्मसग्गि सोहासमेय
संगासु करेप्पिणु लद्धसंस

उज्जेणीवाहिरि काणणांति ।
परमेट्टि पणासियमोईपुट्टि ।
संपत्तु ताम सो वज्जमुट्टि ।
पव्वज्जइ किं णवजोव्वणम्मि ।
वज्जरिउं तेहिं तं मयरकेउ । 15
तहु गुरुहि पासि गुणगणपवित्तु ।
चारित्तवतं चंदकतेय ।
सुर जाया सत्त वि तांयतिंस ।

घत्ता—तांहीतो चुया धादइसंडप ॥

भरहे खेत्तप वरतरुसंडप ॥ १३ ॥

20

14

दुवई—णिच्चालोयणयरि अरि करि कुंभुंइलणकेसरी ॥

पत्थियउं चित्तचूलु तँहु पियपणइणि णामे मणोहरी ॥ छ ॥

चित्तंगउ जायउ पढमपुत्तु
अण्णेक्कु गरुलवाहणु पसत्थु
पुणु णंदणचूलु वि गयणचूलु
मेहँउरि धणंजउ पहु हयारि
कालेण ताइ णं मयणजुत्ति
तेत्थु जि णिण्णासियरिउपयाउ
सिरिकंत कंत हरिवाहणक्खु
साकेयणयरि णं हरि सिरीइ
तहिं चक्कवट्टि पुरि पुष्पदंतु
पावेण तेण णववेणुवण्ण

धयवाहणु पंकयपत्तणेत्तु ।
मणिचूलु पुष्पचूलु वि महत्थु ।
तेत्थु जि दाहिणसेट्ठिहि विसालु । 5
सच्चसिरि णाम तहु इट्टणारि ।
धणसिरि णामे संजणिय पुत्ति ।
आणंदणयरि हरिसेणु राउ ।
सुउ संजायउ कमलाहचक्खु ।
सोहंतु महंतु सुहंकरीइ । 10
तहु सुट्टु दुट्टु तणुरुहु सुदत्तु ।
हरिवाहणु मारिवि लइय कण्ण ।

७ A संपण्णबुद्धि; BPS संपण्णतुट्टि. ८ AP मोहबुद्धि. ९ APS पावजए. १० Als. तँ against Mss. ११ A तवचरित्तु. १२ B तायतीस. १३ P ताइतो. १४ B भारहे खित्तप.

14 १ PS णिच्चालोए. २ ABP °कुंभत्यलदलण°; S °कुंभत्यलदलण°. ३ S पत्थियउ. ४ AP तहो पणइणि सइ णामे. ५ S गरल°. ६ P णंदणु चूलु. ७ Als. मेहउरे; S मेहउरु. ८ A तं लद्ध सयंवरि सामवण्ण.

11 a हिं ताल° पिण्डखर्जरुः. 12 b °पुट्टि पुट्टिः. 14 a णि व स ह यूयं निवसथ. 19 a ता हिं तो तस्मात् सौधर्मस्वर्गात्. 20 b °संडए वने.

14 1 णिच्चा लो य ण य रि नित्यालो क न ग रे. 7 b ध ण सि रि सा ध न श्रीः हरिवाहनं हत्वा चक्रि-
पुत्रेण सुदत्तेन गृहीता. 10 a हरि सि री इ श्रिया इन्द्र इव. 11 a पुरि अयोध्यापुरे. 12 a ण व-
वे णु व ण्ण नीलवंशवद्गर्णा; b क ण्ण ध न श्रीः.

सुविरत्तचित्त संसारवासे
तं पेच्छिवि ते चित्तंगयाइ
अरिमित्तवग्गि होइवि समाण

भूयाणंदहु जिणवरहु पासि ।
मुणिवर संजाया जइणवाइ ।
अणसणतवेण पुणु मुइवि प्राण । 15

घत्ता--सग्गि चउत्थए सामण्णा सुरा ॥

ते संजाययीं सत्त वि भायरा ॥ १४ ॥

15

दुवई—सत्तसमुहमाणु परमाउसु भुंजिवि पुणु वि णिवड्डिया ॥
काले इंद चंद धरणिंद वि के के गेय विहड्डिया ॥ छ ॥

इह भरहखेत्ति सुपसिद्धणामि
गयउरि घणपीणियणिच्चणीसु
बंधुमइ धरिणि तहि धम्मकंखु
तहि पुरवरि राणउ गंगदेउ
उप्पण्णउ गंदणु ताहं गंगु
पुणु गंगमित्तु पुणु गंदवाउ
पुणु गंदसेणु णिद्धंगराय
अण्णम्मि गग्भि संभूइ राउ
मा एहउ महुं संतावयारि
उप्पण्णउ रेवइधाइयाइ
बंधुमइहि बालु विइणु गंपि
णिण्णामउ कोक्किउ ताइ सो वि
छं वि ते भायर भुंजंति जाम

कुरुजंगलि देसि विचिसधामि ।
वणिणाहु सेयवाहणु णिहीसु ।
हुउ सुउ सुभाणु णामेण संखु । 5
गंदयैसघरिणिमणमीणकेउ ।
गंगसुरु अवरु णावइ अणंगु ।
पुणरवि सुणंदु संपुण्णकाउ ।
अवरौप्परु गेहणिवद्धंजोय ।
उव्वेइउ वर गंदणु म होइ । 10
डहुं पावयम्मु संतोसहारि ।
रायाएसै संचोइयाइ ।
रक्खइ माणुसु भवियब्बुं किं पि ।
अण्णहिं दिणि उववणि सह भमेवि ।
णिण्णामु परांइउ तहिं जि ताम । 15

घत्ता—संखे योल्लिउं महु मणु रंजहि ॥

आवहि बंधव तुहं सेंहुं भुंजहि ॥ १५ ॥

१. A °तावेण. १० AP पाण. ११ B संजाया.

15 १ A ण य. २ P धरणि. ३ P गंदजस°. ४ APS गंदसेणु. ५ S °ठाय.
६ S संभूये. ७ A adds after this: जइ हुवइ एहु वर खयहो जाउ; K writes it but
scores it off. ८ B दहु; P इहु. ९ S भवियत्थु (?). १० P omits छ वि. ११ B परायउ.
१२ B सुहुं; S सह.

14 b जइणवाइ जैनवादिनः. 16 b सामण्णा सामानिकाः.

15 4 a °पीणियणिच्चणीसु दरिद्रा नित्यं प्रीणिता येन सः. 5 b सुभाणु पूर्वोक्तसप्तभ्रातृषु
मध्ये सुभानुचरः; संखु बलभद्रजीवः. 6 b °मीणकेउ कामः. 7 a ताहं गङ्गदेवनन्दयशसोः.
8 a गंदवाउ नन्दपादः. 9 a णिद्धंगराय स्निग्धाङ्गरागाः. 10 a अण्णम्मि अन्यस्मिन् सप्तमे पुत्रे
गर्भे आगते सति. 13 a बंधुमइहि शंखस्य मातुः.

16

दुवई—ता भुजंतु पुत्तुं अवलोइवि सरसं गोट्टिभोयणं ॥

वयणं रोसपण णंदजसहि जायं तंबलोयणं ॥ छ ॥

दुव्वयणसयाइं चवंतियाइ
सोयाउरमणु संखेण दिट्टु
तं दुक्खु सदुक्खु धं मणि वहंतु
अण्णहिं दिणि बह्णिकिरसपहिं
गउ सो णिण्णामु वि विस्सरामु
गुणवंतसंगसम्भाववुद्धु
संखे पुच्छिउ णंदयस देव
रुसइ परमेसरि कहउं तेम
तं णिसुणिवि अवहिविलोयणेण
सोरट्टुदेसि गिरिणयरवासि
तहु केरउ विरहयपावपंकु
पहुणा जिंभिदिदियंलंपडेण

चरणयलें हउ असहंतियाइ ।
एमेवें को वि जणु कहु वि इट्टु ।

दुत्थियवच्छलु महिमामहंतु । 5
सहुं णरणाहें ह्यंगयरहेहिं ।
दुमसेणमहारिसिणमणकामु ।
वंदिउ जोईसरु जोयसुद्धु ।
णिण्णामहु विणु कज्जेण केम ।
हउं जाणमि पर्येडपयत्थु जेम । 10
बोल्लिउं तवसंजमभायणेण ।
चित्तरहु राउ आसत्तु मासि ।
सूयारउ अमयरसायणंकु ।
पलपयणवियक्खणु मुणिवि तेण ।

घत्ता—तूसिवि राइणा पायवियाणउ ॥

15

बारहंगामहं किउ सो राणउ ॥ १६ ॥

17

दुवई—णवर सुधम्मणाममुणिणाहें संबोहिउ महीसरो ॥

थिउ जह्णिददिक्ख पडिवज्जिवि उज्झियमोहमच्छरो ॥ छ ॥

पुत्तेण तासु सावयवयाइं
मेहरहें णिंदिय मासतित्ति
आरुट्टु सुट्टु सो मुणिवरासु

गहियाइं छिण्णबहुभवंभयाइं ।
हित्ती सूयारहु तणिय वित्ति ।
हा केम महारउ हित्तु गासु । 5

16 १ BAl. सो; PS तो. २ S पत्तु. ३ A णंदजसहो; BS णंदयसहे. ४ BS एमेय.
५ Als. तहुक्खु against Mss.; P सदुक्खु. ६ B वि for व. ७ APS रहहयगएहिं. ८ P णंदजस.
९ B परमेसरु. १० AS कहहिं; B कहइ. ११ B पइड°. १२ APS जीहिंदिय°. १३ PS बारहं.

17 १ A °भवसयाइं; P °भयभयाइं.

16 २ वयणं मुखम्. 4 b एमेव वृथा. 5 a सदुक्खुव स्वदुःखमिव. 7 a विस्सरामु
विश्वमनोहरः. 10 b परमेसरि नन्दयशा राज्ञी. 12 b मा सि मांसे. 14 b °पयण° पचनं पाकः.
15 b पायवियाणउ पाकज्ञाता.

17 3 a पुत्तेण मेघरथनाम्ना. 4 b हित्ती अपहृता.

वेहाविय बेणि वि बप्पपुत्त
मारउं मारिज्ज इ गत्थि दोसु
गोयारि पइइउ ता सुधम्म
स्यारं पत्थिउ दिट्ठि देहि
ता थक्कु सूरि संचियमलेण
फरुसाइं विसाइं सवक्कलाइं
सिद्धइं संभारविमीसियाइं
मेल्लिवि अभक्ख तच्चावलोइ
गउ उज्जंतहुं संगणसु करिवि
अहमिंदु इंदु उवरिल्लठाणि
रसपंडिउ तइयइ णरइ पडिउ
कालेण दुक्खेणिकखविउं खामु
इह मल्लेयविसइ वित्थिण्णणीडि
तहिं णिवसइ गहयइ जक्खदत्तु
जायउ कोक्किउ जक्खाहिहाणु

सवणेण जिणागमवहि णिउत्त ।
मणि एम जाम सो वहइ रोसु ।
सद्धालुउ छंडियछम्मकम्म ।
परमेट्टि साहु रिसि ठाहि ठाहि ।
पच्छण्णेण जि कुज्जे खलेण । 10
करि दिण्णइं घोसायइंफलाइं ।
जइपुंगमेण संभ्रासियाइं ।
परदिण्णु विं विसु भुजंति जोइ ।
मुणि समंभावे जिणु सरिवि मरिवि ।
संभूयउ अवराइयविमाणि । 15
कम्मेण ण को भीमेण णडिउ ।
णरयाउ विणिग्गउं अमयणामु ।
विकखायइ गामि पलासकूडि ।
पिय जक्खदत्त सो ताहं पुत्तु ।
अण्णेकु वि जक्खलु सउलभाणु । 20

यत्ता — गरुवउं णिइओ दुक्कियमाणिओ ॥

लहुउ दयालुओ तहिं जैगि जाणिओ ॥ १७ ॥

18

दुवइ—अण्णहिं दिणि दयालुपडिसेहे कए वि सधवलु ढोइओ ॥

सयडो णिइएण पहि जंतहु उरयहु उवरि चोइओ ॥ छ ॥

फणि मुउ हुउ सेयवियारुणीहि

वासवपत्थिवहु वसुंधरीहि ।

रायाणियाहि णंदयस धूयं

कइयाणियतणुलायणरुयं ।

२ B मारउ. ३ B छंडिय^१. ४ S सवक्कलाइं. ५ A घोसाइंफलाइं; Als. घोसायइफलाइं
against his Mss. ६ AP विसमार^१. ७ AP संपासियाइं. ८ P विसु वि. ९ P उज्जंतहो.
१० A सम्भावे. ११ S दुक्खु. १२ B णिकखविय. १३ B विणग्गउ. १४ B मल्लइ. १५ APS
गरुओ. १६ AS जणे; B जण^१.

18 १ A ^१पडिसेवहे. २ P सेयवियार^१. ३ P धूव. ४ P ^१रुव.

6 a वेहा विय वच्चित्तौ; b सवणेण मुनिना; ^१वहि मार्गे. 7 a मारउ मारिज्जइ हनन् (घ्नन्) हन्यते.
8 a गोयारि भिक्षायाम्; b ^१छम्मकम्म पापण्डकर्म. 11 a विसाइं विपामश्रितानि; सवक्कलाइं
त्वचायुक्तानि; b घोसायइं फलाइं कोपातर्काफलानि. 12 a सिद्धइं पक्कानि. 16 a रसपंडिउ
सूपकारः. 18 a ^१णीडि गृहे. 19 b सो सूपकारः. 20 b सउल^१ स्वकुलम्. 21 a गरुवउ ज्येष्ठः.

18 1 ^१पडिसेहे कए वि प्रतिपेधे कृतेऽपि; सधवलु बलीवर्दसहितः. 2 उरयहु उवरि
सर्पस्योपरि.

भायरवयणें उवसंतभाउ
 णिण्णामउ ओहच्छइं ण भंति
 इय णिसुणिवि चल परिचत्तं फारु
 छ वि णिवणंदण पावज्ज लेवि
 सो संखु वि सहुं णिण्णामएण
 सुव्वय पणवेप्पिणु संजईउ
 ए सत्त वि दढपडिबद्धपणेंय
 इय णंदयसइ बद्धउं णियाणु
 कालें जंतें सयलइं मुयाइं
 सोलहसमुइभुत्ताउयाइं
 सो संखणामु बलएउ जाउ

णिक्खिउं णंदर्यसहि पुत्तु जाउ । 5
 तें वासवतणयहि मणि अखंति ।
 संसारु असारु सरीरं भारु ।
 थिय मिच्छासंजमु परिहरेवि ।
 ण्हायउ मुणिवरदिक्खामएण ।
 जायउ णंदयसारेवईउ । 10
 अण्णहिं मि जम्मि महुं होंतु तणय ।
 को णासइ विहिलिहियउं विहाणु ।
 दहमईं दिवि अमरत्तणु गयाइं ।
 पुणु तहिं होंतइं सव्वइं चुयाइं ।
 रोहिणिहि गग्भि जायवहं राउ । 15

घत्ता—छुहधवलियघरि धणपरिपुण्णए ॥

मयवइदेसइ णयारि दसेण्णए ॥ १८ ॥

19

दुवई—जाया देवसेणराएण सुया धणएविगग्भए ॥

सा णंदयसं पुत्ति देवइ णामेण पसिद्धिया जए ॥ छ ॥

वरमलंयदेसि पुरि भद्विलंकि
 धणरिद्धिवंतु तहिं वसइ सेट्ठि
 रेवइ तहु सेट्ठिणि अलयणामै
 छह तणुरुह देवइगग्भि जाय
 दरिसियसज्जणसुहसंगमेण
 वणिघरिणिहि अप्पिय भहणंयारि

पासायतुंगि वियलियकलंकि ।
 वइसवणसरिसु णामं सुदिट्ठि ।
 इई पीणत्थणि मज्झखाम । 5
 लक्खणलक्खिय ते चरमकाय ।
 इदाएसें णिय णइगमेण ।
 कलहोयसिहूरकीलंतखयारि ।

५ S णिक्खिउ, ६ P^oजस पुत्तु. ७ B उहइच्छइ in first hand and तुह इच्छइ in second hand; S ओच्छइइ; Als. एहु अच्छइ against Mss. ८ S वासतणयहि, omits व. ९ A परियत्तपारु. १० S सरीरु. ११ S नृवणंदण. १२ A^oपरिवद्ध^o. १३ A दसइं; P दसमए. १४ P दसणवे.

19 १ P णंदजस. २ A^oमहिलदेसे. ३ B णाउं. ४ B^oखामु. ५ B भद्वियारि. ६ B^oसिहरि.

5 a भायरवयणें लघुभ्रातृवचनेन; b णिक्खिउ निर्दयचरः. 6 a ओहच्छइ एष तिष्ठति; b तें इत्यादि तेन कारणेन वासवपुत्र्या मनसि अक्षमा. 7 a फारु स्फारः प्रचुरः संसारः त्यक्तस्तैः. 9 b^oदिक्खामएण दीक्षामृतेन. 17 b दसणए दशार्णे.

19 3 a भद्विलंकि भद्रिलनाम्नि. 4 b वइसवणसरिसु धनदसमः. 7 b णिय नीताः; णइगमेण नैगमदेवेन. 8 a वणिघरिणिहि रेवतीचर्याः अलकायाः; b कलहोय^o सुवर्णम्.

सिसु देवदत्तु पुणु देवपालु
अण्णेक वि पुत्तु अणीयपालु
जरमरणजम्मविणिवारणेण
पिंडत्थिं णयदि घरि घरि पइइ
वियलियथणंथणं सित्तं देहु
पुब्बिल्लि^{१२} जम्मि चलगरुडकेउ
तवचरणजलणहुयकामपण
पही दावियवसुहद्धसिद्धे

पुणु अणियदत्तु भुयबलैविसालु ।
सत्तुहणं जित्तसत्तु वि जसालु । 10
ह्या रिसि केण वि कारणेण ।
चिरभवतणुरुह पइं माइ दिइ ।
तें कज्जे तुह उप्पणु णेहु ।
पेच्छेवि सयंभु पंहु वासुंदेउ ।
बद्धं णियाणु णिण्णामपण । 15
आगामि जम्मि महं होउ रिद्धि ।

घत्ता—कप्पि^{१४} सुरो हुउ चुउ किसलयभुप ॥

रिसि णिण्णामउ आयण्णहि सुप ॥ १९ ॥

20

दुवई—कंसकठोरकंठमुसुमूरणभुयबलदलियरिउरहो ॥

णिवजरसिधंगरुयंजरतरुवरसरजालोलिहुयवहो ॥ छ ॥

भीसणपूयणथणरत्तलित्तु
उत्तुंगंतुरंगमसिरकयंतु
उप्पाडियमायार्वसहसिगु
उद्दावियजउणासरविहंगु
धोरेउ धराधरधरणबाहु
तुह जायउ तणुरुहु रिउविरामु
तं णिसुणिवि सीसें देवईइ

घरु आय कायवहणेकचित्तु ।
जमलञ्जणभंजणमहिमहंतु ।
णित्तेईकयखयदिणपयंगु । 5
करतिकखणकखणत्थियभुयंगु ।
कमलावह्लंहु सिरिकमलणाहु ।
णारायणु णवंधणभसलसामु ।
गुरु वदिउ सुविसुद्धइ मईइ ।

७ P भुयबलि. ८ B सत्तुहण. ९ B पिंडत्थिए पुरि घरि. १० P °घणयणं. ११ ABS सित्तु.
१२ ABS पुब्बिल्लं. १३ A णिच्छेवि; S पच्छेवि. १४ A सयंभु; B सहंभु; S सहंभू. १५ P
वासुपउ. १६ BAl. कप्पसुरो.

20 १ PS °कठोर°. २ PS °जरसंघ°. ३ B °गरुव°. ४ A °पहणेक°; S °ग्रहणेक°.
५ AS उत्तुंगु तुरंगासुरकयंतु; P उत्तुंगतुरंगासुरकयंतु. ६ S °वसहिसंगु. ७ B णित्तेइयकय°; S णित्ते-
कय°. ८ A °वल्लहो. ९ B घणघण°.

12 a पिंडत्थि आहारार्थम्. 14 b सयंभु स्वयंभू; तृतीयनारायणः. 17 b कि सलयभुप हे कोमलभुजे.

20 1 °कंठमुसुमूरण° गलचूर्णकः; °रहो रथः. 2 °सरजालोलिहुयवहो बाणजाल-
भेणिवैश्वानरः. 5 b °खयदिणपयंगु प्रलयकालदिनसूर्यः. 6 b °णत्थियभुयंगु नायितकालनागः.
7 a °धराधर° गिरिः; b °कमलणाहु पद्मनाभो नारायणः; कृष्ण इत्यर्थः. 8 a रिउविरामु
शत्रुदिच्छेदकः. 9 a सीसें मस्तकेन.

केहिं मि लइयाइं महव्वयाइं तहिं केहिं मि पंचाणुव्वयाइं । 10
 भो साहु साहु विच्छिण्णकम्मु जिणु नेमि भणिउ पच्छण्णधम्मु ।
 घत्ता—इय सोउं कइं भरंहसुरमणिया ॥
 गिसहं पइसिया सुकुसुमदसणिया ॥ २० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहप
 महाभव्वभरहाणुमणिणप महाकव्वे देवइबलपवसभोयरदामोयर-
 भवावलिबण्णं णाम पच्छण्णवदिमो
 परिच्छेउ समत्तो ॥ ८९ ॥

१० S पच्छण्णु धम्मु. ११ B भारह°. १२ A गिसह. १३ P कुसुम° (omits सु). १४ A
 °सभायरवण्णं. १५ S °भवावली°.

11 b पच्छण्णधम्मु धर्मो नेमिरूपेण स्थित इत्यर्थः. 12 b भरहसुरमणिया भारतकुलोत्पन्नकौरव-
 वंशजाता देवकी. १३ a गिसहा पइसिया नृणां सभा च कथां श्रुत्वा हृष्टा.

गिस्तुणिवि देवदेविहि भवहं पाय णवेप्पिणु णेमिहि ॥
हरिकरिसररुहगरुडद्वयहु धम्मचकैवरणेमिहि ॥ ध्रुवकं ॥

दुवई—तो सोहगरुवसोहावहि गुणमणिमहि महासई ॥

पभणइ सच्चभौम मुणिपुंगमं भणु मह जम्मसंतई ॥ छ ॥

भासइ गणहरु विरैसियतरुवरि	मालइगंधि मलयवेसंतरी ।	5
भहिलपुरि मेहरहु णरेसरु	सूहउ णं पंचमु मणसियसरु ।	
णंददेवि चंदर्षिबाणण	णहपहरंजियदिच्चकाणण ।	
अवरु वि भूइसम्मु तहिं बंभणु	कमलाबंभणिथणलोलिरमणु ।	
णंदणु णाम मुंडसालायणु	अइकामुयं कामियंबालायणु ।	
जाणि जायई चुयचारुविवेयइ	सीयलणाहतिथि वोच्छेयइ ।	10
तेण जिर्णिद्वयणु विद्धंसिवि	गाइभूमिवाणां पसंसिवि ।	
कव्हु करिवि रायहु वक्खाणिउं	मूठं रायं अण्णु ण याणिउं ।	
किं किज्जइ घोरे तवचरणे	किं णरिंद संणासणमरणे ।	
विप्पहं वाहणु णयणाणंदिरु	दिज्जइ कण्ण सुवण्णे सुंमंदिरु ।	

घत्ता—मंचउ सहं महिलइ मणहरइ रयणैविहसणु णिवसणु ॥ 15

जो ढोवई धम्मं बंभणहं मेइणि मेह्लिवि सासणु ॥ १ ॥

दुवई—धीर वि णर तसंति घरदासि व णिवसइ गोमिणी घरे ॥

तस्स णरिंदचंद किं बहुपं होइ सुहं भवंतरे ॥ छ ॥

केसालुंचणु णिच्छेलत्तणु

णग्गसणु तणुमलमइलत्तणु ।

1 १ ABPS पय णवेप्पिणु. २ S °कररुह°. ३ A धम्मचक्रु. ४ B ता. ५ ABP सच्चहाम.
६ B °पुंगव in second hand. ७ P विहसिय°. ८ S भहलपुरे. ९ APS °कामुउ. १० B
कमीवाल्लोयणु. ११ S जाए. १२ सुवण्णु. १३ P समंदिरु. १४ PS रयणु. १५ S दोयइ.

1 2 हरीत्यादि मालामृगेन्द्रादिध्वजायुक्तस्य. 6 b पंचमु मणसियसरु पञ्चमो मारणः
कामबाणः. 7 b °दिच्चकाणण दिक्समूहसुखम्. 9) b अइकामुय अतिकामुकः; कामियंबालायणु
वाञ्छितल्लीजनः. 10 a चुयचारुविवेयइ च्युतचारुविवेके जने जाते सति; b वोच्छेयइ उच्छिन्ने सति.
12 a कव्हु शास्त्रम्. 14 a विप्पहं वाहणु विप्राणां वाहनं दीयते; b कण्ण कन्या; सुवण्ण शोभनवर्णा.

• 2 2 सुहं शुभम्, 3 b णमात्तणु पर्णाद्यावरणत्यक्तम्.

माणसु समणधम्मविगुत्तं
अम्हारइ महयालि महु पिज्जइ
अम्हारइ णिर्ध वियलियमइरइ
अम्हारइ गोसंउ विरइज्जइ
धम्म परिट्टिउ वेयपमाणे
कंताणेहणिबंधणबद्ध
जहु धुत्तागमकरणे णडियउ
दीहरकालचक्कि णिद्धाडिइ
पुणु तिरिक्खि पुणु णरइ णिहम्मइ
विमलगंधमार्येणगिरिणिग्गय
णीरपूरपूरियमहिहरेदरि
ताहि तीरि णं दुक्कियवेल्लिहि
सो^१ सालायणु भवविम्भुल्लउ

मरइ परत्तपिसापं भुत्तं ।
सिद्धउं मिट्ठं मासुं गसिज्जइ । 5
होइ सग्गु सउयामेणिमइरइ ।
जणणि वि बहिणि वि तहिं जिं रमिज्जइ ।
किं किर खवणपण अण्णाणे ।
जीहोवत्थासत्तिइ खद्धउ ।
सत्तमणरइ डोडुं सो पडियउ । 10
इयर वि छ वि हिंडिउ परिवाडिइ ।
को दुक्खाइं ण पावइ दुम्मइ ।
जलकल्लोलगलत्थियदिग्गय ।
गंधावइ णामेण महासरि ।
पसुअसुहरभैल्लं कियपल्लिहि । 15
कालु णाम जायउ सवरुल्लउ ।

घत्ता—वर धम्मरिसिहि णिसुणेवि गिर मासाहारु मुंएप्पिणु ॥
वेयाड्ढि पंवरअलयाउरिहि खेयर हुयउ मरेपिणै ॥ २ ॥

दुवई—पुरुबलपत्थिवस्स जुइमालाबालाललियतणुरुहो ॥
सो वि अणंतवीरकहियामलतवणिरओ महाबुहो ॥ छ ॥

मरिवि ढव्वसंजउ रिसि अइबलु
खगमहिहरि रहुणेउरपुरवरि
पुत्ति सयंपहाहि संभूई

सुरु सोहम्मि लहिवि जिणवयइलु ।
पहुंदि सुकेउहि णहयरकुलहरि ।
सच्चभौम णं कामविहूई । 5

2 १ B समणु. २ P °धम्म. ३ S °विगुत्तं. ४ AP महालि; S महयाले; Als. महयलि.
५ APS मासु वि खज्जइ. ६ S नृव. ७ B सउयामिणि°. ८ S गोसु विरज्जइ. ९ P मि for जि.
१० AB डोडु. ११ A °मायणि. १२ S °महिहरि. १३ S °भल्लंकी°. १४ S सा साला°. १५B मुए-
विणु. १६ A पउर. १७ P मुएप्पिणु.

3 १ A पुरबल°. २ B पुहुहि. ३ ABP सच्चहाम.

4. b परत्तपिसापं परलोकपिशाचेन. 5 a महयालि यज्ञकाले; b सिद्धउं निष्पन्नम्. 6 a वियलिय-
मइरइ विगलितमतिपापया मदिरया; b सउयामिणिमइरइ सौत्रामणियज्ञमदिरया. 9 b जीहोवत्था-
सत्तिइ जिहोवत्थाशक्त्या भक्षितः. 10 b डोडु स्थूलः. 11 b इयर वि छ वि अन्येषु अपि षट्सु नरकेषु;
परिवाडिइ क्रमेण. 13 a °गंधमार्येण° मलयाचलः.

3 1 पुरुबलपत्थिवस्स महाबलराज्ञः. 2 सो वि अतिबलनामा.

णेमिसिथेणरेहिं तुहुं विट्टी
पुसि तुहारी सियं माणेसह
परिणिय रापं जायवचंढे
एवहिं मुक्की बहुभवकम्मं
महुं केहाइं देवै कयळम्मइं
कहइ मुणीसेरु इह दीवंतरि
सोमरिगामि विष्णु सोमिल्लउ
तहु सा बंभणि वप्पणु जोवैइ
ताम समाहिगुंत्तपाडिबिबउं

एही वत्त णरिवहु सिट्टी ।
अद्धवक्कवट्टिहि पिय होसइ ।
णायसेज्ज चप्पिवि गोविंढे ।
महपवित्तणु लद्धउं धम्मं ।
पभैणइ रुप्पिणि भणु भणु जम्मइं । 10
भरहवरिसि मागहदेसंतरि ।
लच्छीमइहि कंतु रिद्धिल्लउ ।
घुसिणपंकु मुहि मंडणु दोवैइ ।
अहइ दिट्टउं मुक्कविडंबेउं ।

घत्ता—पुव्वक्कयकम्मविहिण्णमइ भणइ लेच्छि उब्भेवि करे ॥ 15
णिल्लैज्जु अमंगलु विट्टलउ किह आयउ मेरुंउं घर ॥ ३ ॥

दुवई—खरसूयरसमाणु दुग्गंभु दुरासउ दुक्कभायणो ॥

किह मइं दिट्टुं एहुं मलमइल्लिउ भिक्खाहारभोयणो ॥ छ ॥

वप्पिट्टहि दुट्टहि णिक्किट्टहि
मच्छियमिट्टइ सुट्टु अणिट्टहि
तक्खणि सडियइं रोमइं णक्खइं
परिगालियउ वीस वि अंगुलियउ
रुहिरपूयकिमिपुंजकरंडउ
पावयम्म पुरिलोएं तज्जिय
जणि भिक्ख वि मग्गंति ण पावइ
भोयणु धणु हियवइ संमरेप्पिणु

एम चवंतिहि तेहि गुणभट्टहि ।
अंगु विणट्टउं उंबरकुट्टइ ।
भग्गइं णासावंसकडक्खइं । 5
तणुलायणोवणुं खाणि ढालियउ ।
देहु परिट्टिउ मासहु पिंडउं ।
बंधवंयणभत्तारविवज्जिय ।
पाविट्टइं को वण्णइ आवइ ।
सुय सा सुण्णालइ पंइसेप्पिणु । 10

४ S णेमिय^०. ५ P तुहारी. ६ S सुय. ७ A देवि कयकम्मइं. ७ S पणइ. ८ B रूपिणि.
९ B मुणीरु. १० P सोमरि^०. ११ AS जोयइ. १२ AS दोयइ. १३ P^० गुत्तु. १४ P^०
विडंबिउ. १५ P बाल. १६ B करि. १७ S णिल्लु. १८ B मेरए घरि.

4 १ AP दुट्टु दिट्टु मल^०. २ B एहउ. ३ B चवंतिहि तिहि. ४ A मच्छियसिट्टे.
५ P^० लावण^०; S^० लायणु. ६ B^० वणु. ७ S उंडउ. ८ APS पुरलोए. ९ P^० बंधवजण^०
१० APS सुयेप्पिणु. ११ S पपेत्तेप्पिणु.

6 a णे मि त्ति य^० नैमित्तिकैः. 7 a सिय लक्ष्मीम्. 11 b अहइ दर्पणे; मुक्क वि डंब उ मुक्ककन्दर्पः.
15^० वि हि ण^० विघटिता; उन्नि वि ऊर्ध्वीकृत्य.

4 4 a मच्छियमिट्टइ मक्षिकामृष्टया. 10 a भो यणु इत्यादि भर्तृग्रहस्य भोजनं धनं च
स्मृत्ता; b सुण्णालइ शून्यग्रहे.

णियवरइत्तहु मंविदि सुंदरि
 धाइय रमणहु उवरि सणेहें
 घाल्लिय अच्छोडिवि घरप्रंगेणि
 मुयें तहिं पुंणु गहहजमंतरु
 पुव्वभासें गयणपियारउं
 चंडदंडसिलघाएं तासिउ
 अवडि पंडिउ मुउ सूवरु जायउ

इई दीहदेहें^{१२} छुच्छुंदरि ।
 तेण वि सभयेंचमक्रियदेहें ।
 अंगरुहिरु उच्छलितं गहंगणि ।
 भुत्तउं भीसणु दुक्खु णिरंतरु ।
 घर आवंतु सणाहहु केरउं । 15
 गहहु बहुवंपैहिं विंझंसिउ ।
 पेक्खिवि थोरमाससंघायउ ।

घत्ता—सो खंडिवि पउलिवि घइ तलिवि^{१०} संभारंभें सेंचिवि ॥
 सद्धउ जीहिंदियलुद्धैहिं लोइहिं^{१३} लुंचिवि^{१३} लुंचिवि ॥ ४ ॥

5

दुवई—मंदिरणांभगामि मंडुक्किहि मैच्छंधिणिहि इइया ॥

सूर्यरु मरिवि पुत्ति दुग्गंधतणू णामेण पइया ॥ ७ ॥

मायइ मइयइ मायांमहियइ
 वप्पु ताहि कहिं जीवई पावहि
 विदिगिच्छांसरितीरि अहिट्टिहि
 चिरु दप्पणि दिट्टहु तहु संतहु
 दंस मसय णिवडंत णिवारइ
 दुरियतिमिरहर णासियबहुभव
 संजमभारु वहंतहं संतहं
 तासु किलेसु असेसु वि णासइ

पालियरुणांभवे सइयइ ।
 बहुदालिइदुक्खसंतावहि ।
 मुणिहि समाहिगुत्तरमेट्टिहि । 5
 पडिमाजोयठियहु भयवंतहु ।
 चेलंचलपवणेणोसारइ ।
 मलइ चल्लण कोमलकरपल्लव ।
 जेण चाहु विरइउं गुणवंतहं ।
 रविउग्गमणि धम्मुरिसि भासइ । 10

घत्ता—तुहु पुंत्तिइ जीवहं करहि दय मज्जु मासु महु वज्जहि ॥

दुज्जर्यबल पंचिंदिय जिणिवि जिणुं मणसुद्धिइ पुज्जहि ॥ ५ ॥

१२ P देहदेह. १३ PS °चवक्रिय°. १४ BP °पंगणे. १५ APS मय. १६ AP गय for पुणु.
 १७ AP बहुयएहिं. १८ P वडिउ. १९ APS सूयर. २० AP तलियउ. २१ APS °लुद्धरणः
 B °लुद्धयहिं. २२ APS लोएण; लोएहिं. २३ P लुंचिवि once.

5 १ S °णामगामे. २ S omits मच्छंधिणिहि. ३ B सूअर. ४ A मायासहियए.
 ५ P °भावए. ६ B जीवहि. ७ A विदिगिच्छा°; B विजिगिच्छा°; PS विजिगिच्छा°. ८ P °सरे.
 ९ A दप्पणु. १० APS °चरण. ११ AS संजमसार महंतु वहंतहं; B संजमसार वहंतु वहंतहं;
 PAls. संजमभारु महंतु वहंतहं. १२ BS पुत्तिय. १३ P omits °बल°. १४ S omits जिणु.

11 a वरइत्तहु भतुं; सुंदरि सुन्दरे. 16 b बहुवएहिं छात्रैः. 17 a अवडि कूपे; b पेक्खिवि
 पापिभिल्लोकैदंष्ट्रा; माससंघायउ मांससमूहः. 18 पउलिवि पक्त्वा; घइ धृते; संभारंभें संभारोदकेन.

5 3 a मायामहियहि मातृमात्रा (मातामह्या). 4 a पावहि पापिन्याः. 5 a अहिट्टिहि
 मुनेः. 9 b चाहु चाटुवचनं विनयश्च. 11 पुत्तिइ हे पुत्रिके. 12 मणसुद्धिइ भावपूजया.

6

दुवई—इय धम्मकस्सराइं आयणिवि मणिवि ताइ कण्णप ॥

अणुवयगुणव्वयाइं पंडिवण्णइं उवसमरसैपसण्णप ॥ छ ॥

मुणिपायारावेहुं सेवंतिहि

भोयदेहसंसारविहेयउ

गामा गामंतरु हिंडंतिहि

गयइ कालि जरकंथाघाराणि

सिद्धसिद्धणिद्धाइ सुणिट्टिय

पव्वि पव्वि उववासु करंती

अण्णइ बालइ बालवयंसिय

अणसणु कैरिवि तेत्थु मुणिमंतिणि

पणपण्णासपल्लथिरदेही

तिहुयाणि अण्णं ण दीसइ तेही

चविवि विवब्भदेसि कुंडलपुरि

आसि कालि जा होंती^{१०} बंभणि

णियजम्मंतराइं णिसुणंतिहि ।

हियउल्लइ वड्डिउ णिव्वेयउ ।

आज्जियाहिं सहुं जिण वंदंतिहि । 5

पासुयपाणाहारविहारिणि ।

वउं चरंति गिरिविवरि परिट्टिय ।

दुक्कियाइं घोराइं हरंती ।

पुण्णवंत तुहुं भणिवि पसंसिय ।

हुई अच्चुइंदसीमंतिणि । 10

रुवें जोव्वणेण सा जेही ।

तं वण्णंती कइमइ केही ।

वासवरायहु सइसिरिमइउरि ।

सा तुहुं पवहुं हुई रुप्पिणि ।

घत्ता—कोसलपुरि भेसहु पुहइवइ मदि तासु पियं गेहिणि ॥

15

सोहग्गभवणचूडामणि व णं सिसिरयरहु रोहिणि ॥ ६ ॥

7

दुवई—जायउ ताहं बिहिं मि सिसुपांलु कयाहियकंदभोयणो ॥

पसरियस्वरपयार्वं मत्तंडु व चंडैवहु तिलोयणो ॥ छ ॥

अण्णहिं दिणि^{१०} णिमिस्सिउ भासइ

जं दिट्ठे तइयच्छि पणोसइ ।

6 १ S omits मणिवि. २ S omits पडिवण्णइं. ३ B ०रससंपुण्णइए. ४ P ०विंद.

५. B ०विदेहउ. ६ ABP वउ. ७ AP तेत्थु करेवि. ८ S सा हेजी. ९ P दीसइ अण्ण ण.

१० BS होंति. ११ S प्रिय.

7 १ B सिसुवालु. २ P ०पयाउ; S ०पयाउ. ३ B चंडयवहु; P चंडु पट्ट. ४ S दिणिहि

णिमिस्सिउ. ५ AP विणासइ.

6 4 a ०वि हे यउ विमेदः त्रिप्रकारः. 7 a सिद्धसिद्धणिद्धाइ महर्षिभिः कथितचारित्रेण.

9 a अण्णइ बालइ अन्यया स्त्रिया. 10 a मुणि मंतिणि पञ्चनमस्कारयुक्ता. 15 भेसहु भेपजराजा.

16 सिसिरयरहु चन्द्रस्य.

7 1 कया हियकंदभोयणो कृतशत्रुकन्दभोजनः, तस्य भयाद्रिपत्रो वनं गता इत्यर्थः.

2 मत्तंडुव सूर्यवत्; चंडवहु प्रचण्डानां वधकर्ता रुद्रवत्, त्रिनेत्रो वा चण्डी शतचण्डी पावती वधूर्यस्या

3 b तइयच्छि तृतीयनेत्रम्.

तद्दु हत्येण मरणु पावेसइ
 तं सुइविरसु वयणु णिसुणेपिणु
 सहसा संगयाइं दारावइ
 तहंसणि भालयलुवरिदुं
 जाणिउं तक्खणि मायाताएं
 भइउ वारवार ओलग्गिबि
 महुं तणुरुदुइइ रइयसुहिडाहहं
 तं पडिवणुणउं कण्हें मणहरु
 वइरिहि सउं अवराहहं पुंणउं
 सो णिह्णिवि तुहुं परिणिय कण्हें
 तं णिसुणिवि मुणिवरकुलें वंदिउं

घत्ता—ता जंबवईं णमंसियउ पुच्छिउ भौवें मुणिवरु ॥

आहासइ जलहरगहिरसरु णिसुणहि सुंइ सभवंतरु ॥ ७ ॥

महीसुउ जमपुरु जापसइ ।
 मायापियरइं तणउ लपप्पिणु । 5
 दिदुउ हरि सिरिकयमारावइ ।
 बालहु तइयउं णयणु पणहुउं ।
 पुत्तु मरेसइ महुमहघाएं ।
 पत्थिउ मंदिइ पायहिं लग्गिबि ।
 पइं खमियव्वउं सउं अवराहहं । 10
 ताइं गयाइं पुणु वि णियपुरवरु ।
 विसंदिउं हरिणा मदिहि दिणुणउं ।
 औणिय दारावइ जसतण्हें ।
 अप्पुंणु देविइ पुणु पुणु णिदिउ ।

15

8

दुवई—जंबूणामदीवि पुव्विल्लविदेहईं पुक्खलावईं ॥

देसु असेसदेसलच्छीहरु पसमियमाणवावईं ॥ छ ॥

वीयसोयपुंरि दमयहु वणियहु
 देविल सुय सउमिच्चहु दिण्णी
 मुणि जिणदेउ णाम आसंघिउ
 गुरुचरणारविंदु सुमरेपिणु
 देवय णघपल्लवपायवघाणि

देवमंइ ति घरिणि^५ धणधणियहु ।
 पइमरणेण भोयैणिविण्णी । 5
 वम्महु ताइ तवेणवलंघिउ ।
 कालि पउण्णइ तेत्थु मरेपिणु ।
 उप्पण्णी मंदरणंदणवणि ।

६ AS जमपुरे; B जमउरु. ७ S सुणेपिणु. ८ B °वरिदुं. ९ P महए. १० B पणुउं.
 ११ P विसहिवि. १२ AP कय महएवि पेम्मजलतण्हें. १३ P °कुलु. १४ A अप्पउं; PS अप्पणु.
 १५ PAls. जंबवइए. १६ P मुणिवरु भावें. १७ B सइ.

8 १ S पुव्विल्लविल्लवि°. २ B °विदेहे. ३ B असेसु. ४ B °सोयउरि. ५ B देमइ.
 ६ B घरिणी. ६ PAls. घणधणियहो. ७ A सोयणि°. ८ ABP तवेण विलंघिउ. ९ P सुयरेपिणु.

5 a सुइविरसु कर्णविरसम्. 6 b सिरिकयमारावइ श्रियः कृता मारापदा कामापदा येन सः.
 7 a भालयलुवरिदुउ भालोपरि स्थितम्. 9 a भदिउ हरिः. 10 a रइयसुहिडाहहं कृतः
 सुहदां दाहो यैः. 12 b विसहिउं क्षमितः. 16 सुइ हे पुत्रि.

8 1 °आवई आपत्. 3 a दमयहु दमयस्य; b घणधणियहु धनं चतुष्पदं सुवर्णादि च
 तद्विद्यते यस्य. 4 a सउमिच्चहु सौमित्रस्य. 5 b तवेणवलंघिउ तपसा उल्लंघितः. 7 a देवय देवता
 उत्पन्ना; b मंदरणंदणवणि मेरुसंबन्धिनि नन्दनवने.

तहि भुंजंतिहि^{१०} सोक्खु सहरिसहं
पुणु महुसेणबंभुवइणामहं
बंधुजसंक विहियजिणसेवहु
सा जिणयत्त णाम विक्खाई
जिणकमकमलजुयलगयमइयउ
पढमसाग्गि तुहुं देवि कुबेरहु
पुणु वि पुंडरिंकिणिपुरि तरुणिहि
तुहुं सुय सुमइ णाम संभूई
सुव्वय भिक्खांमग्गि पइट्टी
सहुं पणिवापं पय धोपप्पिणुं
अवई वि तणुसंतवियपयासें
मुय संणासें णिह णिम्मच्छर

चउरासीसहास गय वरिसहं ।
तुहुं इई सि पुत्ति सुहकामहं ।
अवर धूय सुंदरि जिणदेवहु । 10
तुज्जु वयंसुल्लिय पियं इई ।
वेणिण वि संणासेण जि मुंइयउ ।
चिरसंचियसेंकम्मसुंदेरहु ।
वज्जे वणिपं सुप्पहघरिणि ।
तौ णं धम्मं पेसिये वूई । 15
भवणंगणि चंडंति पइं दिट्टी ।
दिण्णउं दाणु समाणुं करेप्पिणु ।
रयणावलिणामेणुववासं ।
इई बंभलोइ तुहुं अच्छर ।

घत्ता—इह जंबूवीवइ वरभरहि इह खैयरंकिई महिहरि ॥ 20
उत्तरसेदिहि ससियरभवणि जणसंकुलि जंबूपुरि ॥ ८ ॥

9

दुवई—भरिकरिरेत्तलित्तमुत्ताहलमंडियखग्गभासुरो ॥

खगवइ जंबवंतु तहि णिवसइ बलाणिजियसुरासुरो ॥ छ ॥

जंबुसेणदेविहि गयवरगइ
पवणवेयखयरहु कोमलियहि
णमि णामे कामाउरु कंपइ
बालकयलिकंदलसोमाली

पुणु इई सि पुत्ति जंबावइ ।
तुह मेहुणउ पुत्तु सामलियहि ।
एक्कहि दिणि सो एम पजंपइ । 5
माम माम जइ देसि ण साली ।

१० A भुंजंते सोक्खु; B भुंजंतिहिं सोक्ख; P भुंजंति सोक्ख सहयरिसहं. ११ B विअंसुल्लय.
१२ S प्रिय. १३ ABS महयउ. १४ B °सकम्मसंदेरहो; P° सुकम्मसंदेरहो. १५ AP° पुंडरीकिणि-
उरि; Als. पुंडरीगिणि° against Mss.; S पुंडरिंकिणिपुरि. १६ B णामे. १७ B omits ता.
१८ B संपेसिय. १९ P° मग्ग पइट्टी. २० P° चंडंत. २१ S धोवेप्पिणु. २२ BS सुमाणु. २३ B
अवर. २४ B° णामे उववासं. २५ S खरयरंकिइ. २६ B° कियमहिहरे. २७ P° सेहिदे.

9 १ A °लित्तत्त°. २ AP° इई सुपुत्ति; S हूसि. ३ AP° बाली.

10 a बंधुजसंक बन्धुयशाः नाम. 11 b वयंसुल्लिय सखी. 13 b चिरेत्या दि चिरसंचितस्वकर्म-
सौन्दर्यस्य, 'अत्रकन्दुकसौन्दर्यादावेत्' इति अनेन सूत्रेण आदेरस्य एत्वं, अत्रस्थाने एत्स्य, कंदुक, गेदुव,
सौंदर्य, सुंदर. 17 b समाणु सन्मानपूर्वकम्. 21 ससियरभवणि चन्द्रकिरणयुक्ते गृहे.

9 4 b मेहुणउ विबाहवाच्छकः; पुत्तु नमिनामा. 6 a बालकयलि° नवीनकदली; b साली
कन्या.

तो अर्वहरमि जेमि^१ बलदप्ये
मच्छियविज्जइ सो खावाविउ
किंणरपुरणाहेण ससैल्ले
मच्छियाउ विद्धंसिवि घित्तउ
णिरु गज्जंतु णाह खयसायरु
तेण असेसउ विज्जउ छिण्णउ
णैमिणा सह दिणयरकरपविमलि
तहिं अवसरि संगामपियारउ

तं णिसुणेवि तेण तुह बप्ये ।
भाइणेउ ससुरे संताविउ ।
आवेप्पिणु ससयणवच्छल्ले ।
जंभुकुमारं तां व तहिं पत्तउ । 10
जंबवंतंसुउ तेरउ भायरु ।
पडिभइणियरु दिसाबलि दिण्णउ ।
जकखमालि गउ णासिवि णैहयलि ।
जाइवि कण्हहु अकखइ णारउ ।

घसा—जंबूपुरि जंबवंतखगहु जंबुसेण पणइणि सह ॥

15

रुवे सोहग्गे णिरुवमिय तैहि धीय जंबावइ ॥ ९ ॥

10

दुवई—ता सरसुच्छुदंडकोवंडेविसज्जियसरवियारिओ ॥

रणि मयरद्धपण गरुडद्धउ कह वि हु ण मारिओ ॥ छ ॥

हरि असहंतु मयणबाणावलि
खयरगिरिदणियंबु पराइउ
उववासिउ दग्भासाणि सुत्तउ
जक्खिल्लु चिरभवभाइ सहोयरु
साहणविहि फणिखेयरपुज्जहं
गउ तियसाहिउ तियसविमाणेहु
मंतं खीरसमुहु रपप्पिणु
विज्जउ साहियाउ गोधिंदे
तुहुं परिणिय कण्हें बरुंगावे

गउ जिणपयणिहिं सकुसुमंजलि ।
जाणिउ जंबवंतु अवराइउ ।
तावायउ सिणेहसंजुत्तउ । 5
भासिवि तासु महासुक्कामरु ।
खोहेणिमोहणिमारणविज्जहं ।
लग्गु जणइणु भणियविहाणहु ।
तहिं अहिसयणहु उवरि चडेप्पिणु ।
पुणु रणि जुज्झिवि समउं खगिंदे । 10
महपवित्तु दिण्णु सम्भावें ।

४ S अवहरेवि. ५ P णिमि. ५ A समल्ले. ६ AP मक्खियाउ. ७ B °कुमार. ८ S संपत्तउ.
९ B णामि. १० BP °वंतु. ११ S मणिणा. १२ P महियले. १३ S जायवि. १४ AP जाहि.

10 १ S सरसुच्छुदंड°. २ P °कोदंड°. ३ °णिहित्तु. ४ जंबुवंतु. ५ AP गरुडसीहि
(B मीहि) बाहिणियहं विज्जहं. ६ S तियसाहिउ. ७ AP विवाणहो (P विहाणओ also).
८ S बल्लगामे.

7 a णेमि मयामि. 8 a मच्छियविज्जइ मक्षिकाविद्यया. 9 a किंणरपुरणाहेण यक्षमालिना राज्ञा.
14 b णारउ नारदः.

10 4 a °णियंबु तटम्. b अवराइउ अपराजितः जेतुमशक्यः. 6 a जक्खिल्लु सदयचरः.
7 a साहणविहि विद्यानां साधनविधिः. 8 b भणियविहाणहु देवकथितविधेः. 9 b अहिसयणहु
उवरि नागशम्भोपरि.

तां जबबइइ सभंभु सुणंतिइ मुंणिकमकमलजुयलु पणवंतिइ ।
 घत्ता—भत्तिइ पणिवाउ कैरंतिइ संचियसुइदुइकम्मइ ॥
 ता भणिउं सुसीमइ वज्जरहि महुं वि देव गर्यंजम्मइ ॥ १० ॥

11

दुवई—पभणइ मुणिवरिंदु सुणि सुंदरि धावइसंडदीवप ॥
 पुव्विल्लम्मि भाइ पुव्विल्लविदेहि पडुल्लणीवप ॥ छ ॥

मंगलवइजणवइ मंगलहरि	रयणंचियइ रयणसंचियपुरि ।
वीसंदेउ पडु देवि अणुंधरि	मुउ पिययमु रणि अरि करिवरहरि ।
करि करवालु करालु करेप्पिणु	उज्झाणाहें सहुं जुज्जेप्पिणु । 5
पणइणि समउं पइट्टी हुयवहि	पयडियथावरजंगमजियवहि ।
वितरेंसुरि खयरायलि हई	दससहसइहं भुत्तविहई ।
भवाविम्भमि भमेवि इह दीवइ	भरइखेत्ति पुणु सामरिगामेइ ।
र्यकखहु-हलियहु रइरसवाहिणि	देवसेण णामें तहु गेहिणि ।
तहि उप्पणी वरमुहसररुह	जकखदेवि णामें तहु तणुरुह । 10
धम्मसेणुं मुणि महियाणंगउ	कयमासोववासु खीणंगउ ।
पय पक्खालेप्पिणु विणु गावें	ढोइउ तासु गासु पइ भावें ।

घत्ता—अण्णहिं दिणि वाणि कीलंति तुहुं महिहरविवरि पइट्टी ॥
 तहिं भीमें अजंयरेण गिलिय मुय सयणेहिं ण दिट्टी ॥ ११ ॥

12

दुवई—हरिवेरिसंतरालि उप्पणी मज्झिमभोयभूमिहे ॥
 किह आहारदाणु णउ विज्जइ जिणवरमग्गगामिहे ॥ छ ॥

तहिं मरेवि बहुसोफखरणिरंतरि	णायकुमारदेवि भवणंतरि ।
पुणु इह पुव्वविदेहि मणोहरि	देसि पुक्खलावइहि सुहंकरि ।

१ P जा. १० P सभउ; S सभउ. ११ ABP मुणि वंदियउ सीसु विहणंतिइ. १२ S करंतिइ.
 11 १ S रयणंचिय. २ B °संचिय°; P °संचिय. ३ A वीसंदउ. ४ S वैतरसुर. ५ S °गावइ. ६ APS जकखहो. ७ Als तुहुं; PS तुहु. ८ P धम्मसेण. ९ AP पक्खालेप्पिणु पय विणु.
 १० AS अजगरेण.

12 १ B °वरसंतरालि.

11 2 °णीवप नीपे, कलंबे. 4 a वी स दे उ विश्वदेवः. 5 a करि हस्ते. 6 a पण इ णि अनुंधरी; b °जियव हि °जीववचे अम्रौ. 7 a खयरायलि विजयार्थे. 11 महियाणंगउ मथितकामः.

पुरिहि पुंडरीकिणिहि असोयैहु
 सुय सिरिकंत णाम होपपिणु
 कणयावल्लिउववासु करेपिणु
 जुइपम्भारपरजियचंदइ
 जणणिहि जेट्टुहि णयणरविंदहु
 तुहुं सुसीम सुय हरिघरिणित्तणु
 पुणु लक्खेणइ वियक्खणसारउ
 अक्खइ गणहुरु वरिसियमेइइ
 पवरपुक्खलावइविसयंतरि
 वासवरायं वसुमइदेविहि
 ताएं संजमेण अइसइयउ

सोमसिरिहि भुंजियणिर्वभोयहु । 5
 जिणयत्तहि सैमीवि वउं लेप्पिणु ।
 सल्लेहणजुत्तीइ मरेपिणु ।
 इइ देवि कपि माहिंदइ ।
 पुणु सुरट्टुवट्टणहु णरिंदहु ।
 पत्ती मांइ परमगुणकित्तणु । 10
 णियभवं पुच्छिउ देउ भडारउ ।
 जंबुदीवइ पुव्वविदेइइ ।
 सारि अरट्टिणयरि कुवलयसरि ।
 सिसु सुसेणु जायउ सियसेविहि ।
 सैयरसेणपासि तउ लइयउ । 15

घत्ता—अइअट्टुज्झाणवसेण मुय पुत्तसैणेहं वसुमइ ॥

इइ पुंलिंदि गिरिवरकुहरि मिच्छसै मइलियमइ ॥ १२ ॥

13

उवई—विट्टउ ताइ कहिं मि तहिं काणणि सायरणंदिबद्धणो ॥

चारणमुणिवरिंदु पणवेप्पिणु सिद्धिलियकम्मबंधणो ॥ छु ॥

सावयवयइं तेण तहिं दिण्णइं
 भत्तपाणपरिचायपयासै
 इइं हावभावविम्भमखणि
 पुणु इइ भरहखेत्ति खयरायलि
 पुरि चंदउरि मेहिंदु महापहु
 तुहुं तहिं कणयमाल देहुम्भव
 लइयउ पइं रइरमणैरसालइ

उज्झियधम्मइं कम्मइं छिण्णइं ।
 सवरि मरेवि तेत्थुं संणासै ।
 अट्टमसग्गसुरिंदहु णञ्चणि । 5
 दाहिणसेदिहि चंदयरुज्जलि ।
 तासु अणुंधरि णामे पियवहु ।
 इइं हंसवंसवीणारव ।
 वरु हरिवाहु सयंवरमालइ ।

२ S पुंडरिगिणिहि. ३ A असोयहे. ४ A णिवभोयहे; S नृव°. ५ S समीहे. ६ ABP वउ.
 चरेपिणु; B धरेपिणु. ७ A सुरट्टुपट्टणहो. ९ B तुहुं. १० B माय. ११ A लक्खणपवियक्खण°. १२ ABS °भउ; P °मउ. १३ ABP सायरसेणपासि; S सायरेण पासित्तउ. १४ A °सिणेहं.
 १५ P पुल्लिदिप.

13 १ S तित्थ. २ A महिंद. ३ ABPAIs. °रमणविसालइ.

12 8 a जुइ° व्युत्तिः; b कपि स्वर्गे. 9 a णयणरविंदहु कमललोचनस्य; b सुरट्टुवट्टु-
 णहु सुराष्ट्रवर्धनस्य. 10 a हरिघरिणित्तणु कृष्णभार्या संजातेत्यर्थः. 11 a लक्खणइ लक्ष्मण्या.
 13 b सारि उत्तमे. 15 a ताएं वासवराज्ञा. 16 वसुमइ राज्ञी.

13 4 b सवरि भिच्छी. 8 a देहुम्भव पुत्री. 9 b वरु भर्ता.

अण्णहिं दिणि तिहुयणचूडामणि
बोलीणाहं भवाहं सुणेप्पिणु
तइयसग्गि देविंदेहु वल्लह
णवपल्लोवमाहं जीवेप्पिणु
संवररापं हिरिमइकंतहि
पउमसेणधुयसेणहु अणुई

वंदिवि सिद्धकूडि जमहरमुणि । 10
मुत्तावलिउववासु करेप्पिणु ।
हई पुण्णविहूणहु दुल्लह ।
पुणु सुँरबोदि अणिद चणप्पिणु ।
तुहुं संजणिय विविहगुणवंतहि ।
लक्खण णाम पुत्ति तणुतणुई । 15

घत्ता—पढंमेव पसंसिवि गुणसयइं णहसायरचलमयरें ॥

तुहुं आणिवि अप्पिय महुंमहहु पवणवेयवरखयरें ॥ १३ ॥

14

दुवई—तेण वि तुज्जु दिण्णु देवित्तणु पट्टणिबंधभूसियं ॥

ता तीए वि णमिउं णेमीसरु दुच्चरियं विणासियं ॥ छ ॥

पुच्छइ माहवुं मयणवियारा
गंधारि वि गोरि वि पोमावइ
भणइ भडारउ महुंमह मण्णहि
जंबुदीवि कोसलदेसंतरि
विणयसिरि त्ति पत्ति पत्तलतणु
मुणिहि तेण पुण्णेणुत्तरं कुरु
घरिणि मरेप्पिणु जोण्णहंरुदहु
एत्थु दीवि पुणु खयरमहीहरि
विज्जुंवेयकंतहि सदित्तिहि
णिञ्चालोयणयरि रुइरुंदहु
मुणि विणीयचारणु वंदेप्पिणु

महुं अक्खहि वरयत्तभडारा ।
किह पत्ताउ भवेसु भवावइ ।
गंधारिहि भवाहं आयण्णहि । 5
पहु सिद्धत्थु अत्थि उज्जाउरि ।
बुद्धत्थु करि दिण्णउं सुअंसणु ।
तहिं मुउ णाहु कहिं मि जायउ सुरु ।
चंदवई पिय हई चंदहु ।
उत्तरसेदिहि णहवल्लहपुरि । 10
पुत्ति पहुई उत्तमंसत्तिहि ।
णाम सुंरुविणि दिण्ण महिंदहु ।
अण्णहिं दिवंसि धम्मु णिसुणेप्पिणु ।

घत्ता—तउ लइउ महिंदे पत्थिविण पंच वि करणइं वंडियइं ॥

अट्ट वि मय धाडिये णिज्जिणिवि तिण्णि वि सल्लइं खंडियइं ॥१४॥ 15

४ P तिहुवण°; S तिहूयण°. ५ S देवेंदहो. ६ A सुरवंदि; B P सुरवोदि; S सुरवोदि. ७ AP पणवेवि पसंसिवि. ८ S माहवहो.

14 १ B °णिबद्ध°. २ S णविउ. ३ P माहउ. ४ B मउमह. ५ S उज्जायरे. ७ S °णुत्तरु कुरु. ८ B चंदमई. ९ P विज्जवेय°. १० A उत्तम°. ११ A सरुविणि. १२ S दिवसे. १३ A धाडिवि; B धाडिउ.

12 b °विहूणहु विहीनस्य. 13 b सुरबोदि देवशरीरम्. 15 a अणुई लघुभगिनी; b तणु तणुई मध्यक्षामा. 16 णहसायरचलमयरें नभःसमुद्रमत्स्येन खगेन.

14 4 b भवावइ संसारापत्. 7 a पत्ति पत्नी भार्या; b बुद्धत्थु करि बुद्धार्थस्य मुनेः करे; सु असणु सुणु अशानम्. 11 a सदित्तिहि सदीप्तिनाम राशः.

दुवई—ताइ सुहदियाहि पयमूलइ मूलगुणेहिं जुत्तउं ॥

तउं अशंतघोरु मारावहु तणुतावयरु तत्तउं ॥ छ ॥

मुयै संणासें पुणु णिरु णिरुवमु
भुत्तउं ताइ चारु देविसंणु
इह गंधारिविसइ कोमलवणि
सुपसिद्धहु रायहु इंदइरिहि
मेरुमईहि गब्भि उप्पण्णी
किर मेहुणयहु दिज्जइ लग्गी
पइं जाइवि तं पडिबल्लु जित्तउं
णिसुणि साम पियराम पयासमि
गायणयरि हेमाहु णरेसरु
चारणु जसहुरु पियइ णियच्छिउ
तं संभरिवि पइहि वक्ख्खाणिउं
वड्ढमाणपुंरिसित्थीपंडइ
पुव्वामरगिरिअवरविदेहइ
आणंदहु जायै णियवस
ताइ दयालुयाइ गुणवंतइ
दिण्णउं अण्णदाणु भैयतंदहु
णहि देवइं पच्चक्खइं आयइं

पडिहइ सग्गि एह्लु पल्लोवमु ।
दुक्कउं तहिं वि कालि परियैत्तणु ।
विउंलपुक्खलावइवरपट्टणि । 5
असिधारादारियणियवइरिहि ।
धूय एह गंधारि रवण्णी ।
अक्खिउं णारपण तुह जोग्गी ।
कण्णारयणु एउं रणि हित्तउं ।
गोरीभवसंभवणु समासमि । 10
जससइभज्जथणंतरकयैकरु ।
वंदिवि णियजम्मंतरु पुच्छिउ ।
जं णियगुरुसंभीवि सुवियाणिउं ।
भणइ महांसइ धादइसंडइ ।
पवरासोयणयरि वरगेहइ । 15
णंदयसा सयसा कयरइरस ।
णैवविहु पुण्णवंतु वणिकंतइ ।
अभिर्याइहि सायरहु मुणिदहु ।
पंचच्छरियइं घरि संजायइं ।

घत्ता—मुय काले जेतं मृगैणयण उत्तरकुरुहि हवेप्पिणु ॥

20

पुणु भावैणिदमहएवि हुय हँउं उप्पण्ण चएप्पिणु ॥ १५ ॥

15 १ B °गुणाहिं. २ PS तवु. ३ B मुइ. ४ S देवत्तणु. ५ APS परिवत्तणु. ६ B वर-
पुक्खलावइ°; S विउंले पोक्खलावइ°. ७ S °करकर. ८ A omits this line. ९ AS °समीवि खल्ल
जाणिउं; B °समीवि सुयाणिउं; P समीसुवियाणिउं. १० BS वट्टमाण°; P वद्धमाण°. ११ B पोरिसि-
थियसंडइ. १२ AP महारिसि. १३ ABPS जाया जाया वस. १४ S णवविहपुण्णवंतु; P पुण्णु पत्तु;
Als. णवविहपुण्णवंतवणि°. १५ AP हयणिंदहो; BAls. भयवंदहो. १६ P अभियायहि. १७ AP
मिग°; P मिगणयणे. १८ B भावणेंद°. १९ A तहे तं देहु मुएप्पिणु; P हउं तं देहु मुएप्पिणु.

15 2 मारावहु कामापघातकम्. 4 b परियत्तणु मरणम्. 6 a इंदइरिहि इन्द्रगिरेः.
10 a साम हे वासुदेव; पियराम हे प्रियभार्य, प्रिया रामा यस्य; b °भवसंभवणु भवभ्रमणम्. 11 b
जससइ° यशस्वती. 14 a वड्ढमाणेत्यादि वर्षमानपुरुषस्त्रीनपुंसके; b महासइ महासती स्वभर्तुंश्रे
कथयति. 16 a आणंदहु वणिजः; णियवस भार्या वशं जाता; b सयसा स्वयशाः, यशोयुक्ता. 18 a
भयतंदहु भये तन्द्रा आलस्यं यस्य, निभयस्येत्यर्थः; b अभियाइहि सायरहु अमितसागरस्य. 21 हउं
इत्यादि अहं तस्मान्च्युत्वा नन्दयशश्चरी यशस्वती जाता.

16

दुवई—पुणु केयारणयरि णरवइसुय संजमंदमदयावरं ॥

झ सि समासिऊण सभ्भावेँ साँयरयत्तमुणिवरं ॥ छ ॥

किउं तवचरणु परमरिसिआणइ

सुमइहु सर्मइहि धणजलवाहहु

पुणरवि अमरालावणिसइहि

जणवपण कोक्खि सुहकम्मिणि

अइखंतियहि समीवि पसत्थी

वीयसोयपुरि पुणु कयणिरइहि

गोरी एह धीय उप्पण्णी

आणिवि तुज्जु कण्ह कयणेहें

परिणिय पीणियरइमयरद्धउ

पुणु आहासइ देउ दियंबरु

पत्थु जि उज्जेणिहि विजयंकउ

तासु देवि अवैराइय णामें

मयें गय थिय सोहम्मविमाणइ ।

कोसंबिहि णयरिहि वणिणाहहु ।

इई सुय सेट्टिणिहि सुहइहि ।

धम्मसील सा णामें धम्मिणि ।

जिणवरणुणसंपत्ति वउत्थी ।

मेरुचंदरायहु चंदमइहि ।

विजयपुरेसैं विजपं विण्णी ।

पइं वि अणंगबाणहयवेहें ।

महपवित्तंणपट्टु णिबद्धउ ।

णिसुंणहि पोमावइजम्मंतरु ।

पहु सोमत्तगुणेण सैंसंकउ ।

गुणमडिय धणुलट्टि वैं कामें ।

घत्ता—तहि पुत्ति सलक्खण विणयसिरि हत्थसीसैंपुरि रायहु ॥

दिण्णी हरिसेणहु हरिसिएण तापं लच्छिसहायहु ॥ १६ ॥

17

दुवई—गयपंचेंदियत्थपरमत्थसिरीरथेरमणधुत्तहो ॥

दिण्णउं ताइ भोज्जु घरु आयहु रिसिहि समाहिगुत्तहो ॥ छ ॥

तेण फलेण सोक्खसंपत्तिहि

पुणु वि वरामरचित्तणिरोहिणि

हुय हेमवयइ भोयधरिसिहि ।

इई देवहु चंदहु रोहिणि ।

16 १ B पुण. २ P समसंजमदया°. ३ P°दयाधरं. ४ A सायरपरममुणिवरं; BP सायरदत्त°. ५ P सुय. ६ P सुमइहे. ७ A अमरालाविणि°; PS °लाविणि°. ८ BS अइखंति°. ९ BPS add after this: सा मह (P महि) सुक्कसग्गे देवी हुय, तेत्थु सोक्खु भुंजेवि पुणरवि चुय. १० AP°त्तणे; BS °त्तणु. ११ S णिसुणइ. १२ S संकंसउ. १३ S अवराय. १४ S य for व. १५ P हत्थिसीसे.

17 १ B °रहरमण°. २ B आयहि. ३ APS देवय.

16 1 °दयावरं मुनिम्. 2 समासिऊण समीपमाश्रित्य. 4 a सुमइहु सुमते: श्रेष्ठिनः; समइहि मत्तिसहितस्य. 5 a °आलावणि° वीणा. 7 a अइखंतियहि जिनमत्याः. 8 a कयणिइहि पुण्यनिरतायाः. 9 b विजपं तव सुहदा. 13 b संसंकउ चन्द्रः. 14 b कामें कामेन गुणमण्डिता धनुयैष्टिः कृतेव. 16 हरिसिएण हर्षेण.

17 1 °परमस्य° मोक्षभीः; °रय° रतम्. 4 a °चित्तणिरोहिणि मनोरोधिका.

पहु पलु तहिं सुहुं माणेपिणु
घणकणपउरि मगहदेसंतरि
विजयदेवहलियहु पिय देविल
पउमदेवि तैहु दुहिय घणत्थणि
रिसिणाहहु कर मउलि करेपिणु
गहिउं ताइ रसणिदियणिगहु
मुहमरुविलसियभिर्गयसइहिं
भवणदविणणासैं विहाणउ

जोइसजम्मसरीरें मुपपिणु । 5
सामैलगामि वेणुविरहयघरि ।
सुमुहि सुभासिणि सुहयलयाइल ।
सा चंदाणी गुणचितामणि ।
वरधम्महु पयाइं पणवेपिणु ।
अवियाणियतरुहलहु अवग्गहु । 10
णिहंउ गाउं णाहलहिं रउइहिं ।
भइयइ लोउ असेसु पलाणउ ।

घत्ता—गउ काणणु जणु णिरु दुक्खियउ विसवेह्लिहि फलु भक्खइ ॥
अमुणंतणामु सा हलियसुय पर तं किं पि ण चक्खइ ॥ १७ ॥

18

दुघई—मुउ णरणियरु सयलु वयभंगभएण ण खांइ विसहलं ॥
जीविय पउमदेवि विहुंरे वि मणं गरुयाण णिच्चलं ॥ ३ ॥

कालें मय गय सा हिमैवयहु
पलिओवमु जि तेत्थु जीवेपिणु
दीवि सयंपहि देवि सयंपह
इई पुणुं इह दीवि सुहावहि
चारुजयंतणयरि विक्खायहु
सिरिमइदेविहि विमलसिरी सुय
दिण्णी जणणें पालियणांयहु
तिविहेण वि णिव्वेपं लइयउ

देसहु कप्परुक्खभोयमयहु ।
भोयभूमिमणुयत्तु मुपपिणु ।
सुरहु सयंपहणामहु मणमह । 5
चंदसुरभावंकइ भारहि ।
सिरिमंतहु सिरिसिरीहररायहु ।
णवमालइमालाकोमलभुय ।
भहिलपुरवरि मेहणिणायहु ।
रंजु मुपवि सो वि पव्वइयउ । 10

४ S °सरीर. ५ A सामरिगामे; BPS सामलिगामे. ६ B समुहि. ७ APS तहि. ८ B °सिगय°. ९ AP गहिउ. १० A भवणि दविणु. ११ BP सुक्खियउ.; B records a p: 'जण णिरु दुक्खियउ' वा पाठः. १२ ABPS अमुणंति.

18 १ S जणणियरु. २ BAls. खाएवि विसहलं and Als. thinks that वि in his other Ms is lost. ३ A विहुणेवि. ४ A गरुयाण; B गरुवाण. ५ APS हेमवयहो. ६ S मुयेपिणु. ७ P पुण. ८ B देवि. ९ S °णाहहो. १० AP वरधम्महो समीवि पावइयउ.

6 b वेणुविरहय° वंशविरचितम्. 7 सुहयलयाइल सुभगलताभूः. 8 b चंदाणी रोहिणीचरी. 10 b अवि या णियेत्या दि अज्ञातफलस्य व्रतं गृहीतम्. 11 a मुहमरु° मुखवातः; °भिर्गय° मधुकरी-महिषशृङ्गवाद्यशद्वैः; b णाहलहि भिल्लैः.

18 2 गरुयाण गरिष्ठानाम्. 3 a हिमवयहु हेमवतक्षेत्रे. 6 a °भावंकइ भा प्रभा वक्रा यत्र धनुराकारा क्षेत्रम्; अथवा भावंकए स्वरूपचिह्निते. 7 b सिरिसिरीहररायहु श्रीश्रीधरराज्ञः. 9 a °णायहु न्यायस्य.

घत्ता—मुउ जइषरु हुउ सहसारवइ मेहरींउ मेहाणिहि ॥
गोवईखंतिहि पासि कय विमर्लीसिरीइ सुतवविहि ॥ १८ ॥

19

दुवई—अच्छच्छंबिलेण भुंजंती अणवरयं सुरीणिया ॥

जाया तस्सं चैय णियदइयहु पवरच्छरपहाणिया ॥ छ ॥

पुणु अरिदुपुरि सुरपुरसिरिहरि

मरुणच्चवियमंदणंदणवणि

राउ हिरणवम्मं णिम्मलमइ

ताहि गन्भि सहस्रारंदाणी

पोमावइ इई णियैपिउपुरि

कुसुममाल उरि चित्त गुरुक्की

पइं मि कण्ह सुललिय गम्भेसरि

जहिं संसारहु आइ ण दीसइ

नृवं अणणंणहि भावहि वच्चइ

णञ्जाविज्जइ चित्तारियं

इय आयणिवि कुवलयणयणहि

घत्ता—देवइयइ हरिणा हलहरिण महएविहिं अहिणंदिउ ॥

सिरिणेमिभडारउ भरहगुरु पुप्फयंतंजिणु वंदिउ ॥ १९ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए

महाभवभरहाणुमणिय महाकव्वे गोविंदमहोदेवीभर्वावलि-

वण्णणं नाम णवैदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९० ॥

११ S मेहणाउ. १२ A पोमावइ^०; S गोवय^०. १३ B विमलसरीए; S विमलसिरिए.

19 १ A अच्छच्छंबिलेण. २ A तस्स देवि णिय^०. ३ B हिंडिय^०. ४ S ^०णीसरे.
५ P ^०वासु. ६ S सहस्रारंदाणी. ७ AP णियपिय^०. ८ P देवि गम्भेसरि. ९ ABP णिव.
१० BPS जिउ रंगंगउ. ११ PS चित्ताहरियं. १२ P ^०रुय^०. १३ PS ^०भरियं. १४ P पुप्फदंतु.
१५ S महाएवी^०. १६ AS भवावण्णं. १७ S णउदिमो.

11 मे ह रा उ मेघनिनादः; रा उ शब्दः; मे हा णि हि बुद्धिनिधिः.

19 1 अच्छच्छंबिलेण काञ्जिकाहारेण; सुरीणिया श्रान्ता. 2 णियदइयहु मंघनिनाद-
चरदेवस्य; ^०पहाणिया मुख्या. 3 a सुरपुरसिरिहरि इन्द्रनगरशोभापहारके. 7 b एयइ एतया
पद्मावत्या. 9 a गम्भेसरि गर्भे घनवती.

पञ्चुण्णभंवाइं पुच्छिउ सीरहरेण मुणि ॥
तं णिसुणिवि तासु वयणविणिगउ दिव्वद्दुणि ॥ धुवकं ॥

इह दीवि भरहि वरमगहदेसि
दुंभिरगोहणमाहिसपगामि
सोत्तिउ सुंहुं णिवसइ सोमदेउ
तहि पहिलारउ सिसु अग्गिभूइ
बिण्णि वि चउवेयसडंगधारि
ते अण्णहिं वासरि विहियजण्ण
णच्चंतमोरकेक्कारवंति
कुसुमसरासीसरकरकुइयराहु
बिण्णि वि जण वेयायारणिट्ठ
आवंतं णिहालिय जइंवरणेण

पुरपट्टणणयरायरविसेसि ।
बहुसालिछेत्ति तहिं सालिगामि ।
कयसिहिविहि अग्गिलवहुसमेउ । 5
लहुयारउ जायउ वाउभूइ ।
बिण्णि वि पंडियजणवित्तहारि ।
पुरु कहिं मि णंदिवद्धणु पवण्ण ।
तहिं णंदियोसणंदणवणंति ।
रिसि अवलोइउ रिसिसंघणाहु । 10
ते दुट्ट कट्ट दप्पिट्ट धिट्ट ।
जइ बोह्लियं मउ महुरे सरेण ।

घत्ता—किज्जइ उप्पेक्ख पावि ण लग्गइ धम्ममइ ॥
लोयणपरिहीणु किं जाणइ णडणट्टगइ ॥ १ ॥

गुरुवयणु सुणिवि खयकामकंद
जे खलु जोइवि णियतणु चयंति
जे जीविउं मरणु वि समु गणंति
जे मिगै जिह णिज्जणि वणि वसंति

थिय मौणु लपप्पिणु मुणिवरिंदं ।
उवसमि वि थंति जिणु संभरंति ।
परु पहणंतु वि णउ पडिहणंति ।
मुणिणाहहं ताहं मि वइरि होंति ।

1 १ P पट्टणु°. २ S °भावइं. ३ P °विणिगाय. ४ A दुद्धिरो°. ५ A सुउ; P सुहे.
६ PS वाइभूइ. ७ AP °किंकार°; B °किक्कार°. ८ PS णंदघोस°. ९ S आवंते. १० A जयवरेण.
११ A बोह्लिउ.

2 १ A °कंदु. २ A °वरिंदु. ३ S मृग.

1 2 वयणु° मुखम्. 4 a दुभिर° दोहनशीलम्; °पगामि प्रकारमे. 5 b °सि हि वि हि
अग्गिभूइम्. 9 b णंदिघोस° वृषभशब्दयुक्तम्. 10 a कुसुमसरेत्यादि कामचन्द्रस्य राहुः. 11 a
वेयायारणिट्ठ वेदाचारतत्परौ. 12 b बोह्लिय उक्ताः. 13 उप्पेक्ख निरादरः.

2 1 a खयकामकंद खनितकन्दर्पकन्दाः. 2 a जे खलु इत्यादि तेषामपि कारणं विनापि
शत्रवो भवन्ति.

आया ते पभाणिवि अभणियाइं
 णिगगय गय पिसुण पलंबबाहु
 सो भणिउ तेहिं रे मूढ णग्ग
 पसु मारिवि खज्जु ण जण्णि मासु
 ता सच्चयमुणिवरु भणइ पंव
 तो सूणागारहु पढमुं सग्गु
 जंपिउं जणेण जइ भणंइ चारु
 अण्णाहिं दिणि जोइयभुयबलेहिं
 आवाहिउ भीसणु आसिपहारु
 ते बिण्णि वि थंभिय खग्गहत्थ
 वरदेवपहावणिपीलियाइं
 अलियउं ण होइ जिणणाइसुत्तु

घत्ता—तणुरुहतणुरोहु अवलोइवि उव्वेइयंइ ॥

मायापियराइं जक्खहु सरणु पराइयंइ ॥ २ ॥

खमदमंदिहिंवंतहिं णिसुणियाइं । 5
 गामंतरि दिट्ठउ अवरु साहु ।
 मलमालिण मोक्खवाएण भग्ग ।
 तुम्हारिसाहं कहिं तियसवासु ।
 जइ हिंसायर णर ह्वांति देव ।
 जाएसइ को पुणु णरयंमग्गु । 10
 जायउ विप्पहं माणावहारु ।
 णिवसंतहु संतहु वाणि खेलेहिं ।
 कंचणजक्खे किउं दिव्वचारु ।
 णं मेट्ठियमय थिय किय णिरत्थ ।
 अटुंगोवंगइं खीलियाइं । 15
 पावेण पाउ खज्जइ णिरत्तु ।

3

कंपंति णाइं खगहय भुयंग
 सोवण्णजक्ख जय सामिसाल
 ता भणइ देउ पसुजीवहारि
 हिंसाइ विवज्जिउ सच्चगम्मुं
 तां करमि सुयंगइं मोक्कलाइं
 गहियाइं तेहिं पालियदयाइं
 णिवडिय ते कुगइमहंधयरि

जंपंति विप्प माहिणिवडियंग ।
 रक्खहि अम्हारा बे वि बाल ।
 जइ ण करंइ कम्मं कुजम्मकारि ।
 जइ पडिवज्जह जइणिंधम्मु ।
 पेक्खहु अज्जु जि सुक्कियफलाइं । 5
 मायाभावे सावयवयाइं ।
 णीसारसारि तंवारवारि ।

४ P °विहिंवंतहिं. ५ A सुव्वय°. ६ P ता. ७ BAIs. पढमसग्गु. ८ B णयरमग्गु. ९ A दियखलेहिं;
 P° वियखलेहिं. १० APS कउ. ११ BS मट्ठियकिय थिय णर णिरत्थ. १२ B उव्वेइयउ.
 १३ B पराइयउ.

3 १ S जंपंति. २ AP करहु; S करह. ३ AP जण्णु. ४ P °कम्म. ४ ABPS तो.

5 a अभणियाइं अवक्तव्यानि. 8 a जण्णि यजे. 9 a सच्चय° सात्यकिः; b हिंसायर हिंसाकराः.
 13 b °चारु चेष्टितम्. 17 तणुरुहतणुरोहु पुत्रशरीररोधः.

3 1 a खग° गरुडः. 3 a पसुजीवहारि यज्ञकर्म. 5 a सुयंगइं पुत्रशरीरम्; b सुक्किय°
 पुण्यस्य. 7 a ते पितरौ; b णीसारसारि महानिःसारे; तंवारवारि प्रथमनरकद्वारे. 8 a °सयरुएहि
 शतव्याधिभिः.

अणुहवियभीमभवसयरुपहिं	पुणु पालिउं वेंउं वियवरसुर्पा	
गय सोहम्महु कयसुररमाइं	भुत्ताइं पंच पलिओवमाइं	10
पुणु सिहरासियकीलंतखयरि	इह दीवि भरहि साकेयणयरि ।	
णरणाहु अरिजउ वैहरितासु	वणि वणिउलंपुंगमु अरुहदासु ।	
वप्पसिरि घरिणि सुउ पुण्णभहु	अण्णेक्कु वि जायउ माणिभहु ।	

घत्ता—सिद्धत्थवणंतुं सहं राणं जाइवि वरइं ॥

गुरु णविवि महिंदु आयण्णिवि धम्मक्खरइं ॥ ३

4

णियलच्छि विइण्ण अरिंदमासु	पावइयउ जायउ अरुहदासु ।	
सिरसिहरचडावियणियभुपहिं	पुणु मुणि पुच्छिउउ वणिवरसुपहिं ।	
चिरभवमायापियराइं जाइं	जायाइं भडारा केत्थु ताइं ।	
रिसि भणइ बद्धमिच्छत्तराउ	जिणधम्मविरोहउ तुज्झु ताउ ।	
रयणप्पहसप्पावत्तविवरि	हुउ णरइ णारर्यदित्तैसमरि ।	5
अणुहुंजिवि तंहिं बहुदुक्खसंगु	मायंगु पह्यउ कयजंगु ।	
कुलगव्वे णडियउ पावयम्मु	सो सोमदेउ संपुण्णैल्लम्मु ।	
तहु मंदिरि तुम्हहुं बिहिं मि माय	सा सारमेयं इइ वराय ।	
अग्गिलंबंभणि तं सुणिवि तेहिं	तहिं जाइवि मउवयणामएहिं ।	
संबोहियाइं बिण्णि वि जणाइं	उवसंतइं जिणपयगयमणाइं ।	10
मुउ कायजंगु कयवयविहीसु	संजायउ णंदीसैरि णिहीसु ।	
परिपालियाणियं कुलहरकमेण	संजणिय णिवेणारिंदमेण ।	
अग्गिलसुणी वि सिरिमइहि धीय	सुइ सुप्पबद्ध णामे विणीय ।	

घत्ता—आसीणणिवासु उग्घोसियमंगलरवहु

णवजोव्वणि जंति बाल सयंवरमंडवंहु ॥ ४ ॥

15

५ ABP वउं. ६ A °सुहरमाइं; P सुररसाइं. ७ A वयरि°. ८ A वणिवरपुंगमु. ९ P °वणते. १० जाइ विरइ.

4 १ B °विदिण°. २ S तेहिं. ३ A संपत्तल्लम्मु. ४ AP सारमेइ. ५ B जायवि. ६ A णंदीसर°. ७ B °कुलहरणिय°. ८ A आसीणवरासु. ९ B °मंडहो.

9 °रमा° लक्ष्मीः. 11 a व इ रि ता सु शत्रूणां त्रासकः.

4 1 a वि इ ण्ण वितीर्णा. 5 a सप्पावत्तविवरि सर्पावर्तबिले. 6 a मायंगु चाण्डालः. 7 b °ल्लम्मु पाषण्डः. 8 b सारमेय शुनी. 9 b मउवयणामएहिं मृदुवचनामृतैः. 11 b णि ही सु यक्षः. 13 b सुइ प वि त्रा. 14 आ सी ण णि वा सु आसीना नृपा यत्थ.

5

पइणा पडिवज्जिवि णारिदेहु
सुणहत्तणु तं वज्जरिउ ताहि
तं णिसुणिवि सा संजयेमणाहि
तउ करिवि मरिवि सोहम्मि जाय
ते भायर सावर्यवय धरेवि
तत्थेव य वियलियमलविलेव
वोलीणइ देहि समुहकालि
गयउरि णिउ णामे अरुहदासु
महु कीडय णामे ताहि तणय

मायंगजम्मु बहुपावगेहु ।
हलि अग्गालि किं रइ तुह विवाहि ।
पावइय पासि पियदरिसणाहि ।
मणिचूल णाम सुरवइहि जाय ।
ते^३ पुण्णमाणिभइंक बे वि । 5
जाया मणहर सावर्णदेव ।
हुयं कुरुजंगलैदेसंतरालि ।
कासव पिययम वल्लहिय तासु ।
ते जाया गुणगणजाणियपणय ।

घत्ता—आयणिवि धम्मु भवसंसरंणहु संकियउ ॥

10

विमलप्पहपासि अरुहदासु दिक्खंक्रियउ ॥ ५ ॥

महु कीडय बद्धसणेहभाव
ता अवैरकंपपुरवइ पसण्णु
आयउ किर किंकरु महुहि पासु
पीणत्थणि णामे कणयमाल
असहंते पहुणा सरपिसक्कु
जहु दुजंडतवसिपयमूलि थक्कु
कणयरहे सोसिउ णियेयकाउ

गयउरि संजाया बे वि राय ।
कणयरहु णाम कणयारवण्णु ।
ता तेण वि इच्छिय घरिणि तासु ।
पहुमणि उग्गय मयणग्गिजाल ।
उहालिय वहु वियलियविर्यक्कु । 5
तिर्यंसोणं कउ तउं भेसियक्कु ।
विसहिउ हुसहु पंचग्गिताउ ।

5 १ P संयम°. २ AP सावर्यवउ चरेवि. ३ B जे. ४ P सामण°. ५ A वोलीणदेहि दुसमुह°. ६ P चुय. ७ AB °जंगलि. ८ A गयउरि णामे णिउ अरुहदासु. ९ A तहि. १० AP °संसारहो.

6 १ PS भाय. २ AS जाया ते बे वि; P ते जाया बे वि. ३ AB अमरकण°; P अवर-कंक°. ४ P णामु. ५ A कणयार°; S कणियार°. ६ AP तेण पलोइय. ७ महो मणि. P महुमणि. ८ B °वितक्कु. ९ B दुजडु. १० S तृय°. ११ S तउ. १२ B णियइ°.

5 1 a पइणा यः पूर्वं पतिः पश्चाच्चाण्डालस्ततो यक्षस्तेन. 2 b किं रइ तुह विवाहि विवाहे का रतिः तव. 3 a संजय° संयतं बद्धम्. 4 b जाय भार्या. 6 a तत्थेव सौधर्मस्वर्गैः; b सावर्ण देव सामानिकाः. 7 a वोलीण इ देहि च्युते शरीरे. 8 a णिउ नृपः; b कासव काश्यपी. 9 a महु कीडय

6 2 b कणयार° पीतवर्णपुष्पम्. 3 a किंकरु मधुराज्ञः कनकरथः सेवकः; b तेण मधु-राज्ञा. 5 a सरपिसक्कु स्मरबाणः; b वियलियवियक्कु विगलितवितर्कः. 6 a दुजडतवसि° द्विजट-तपस्वी; b भेसियक्कु त्रासितार्क तपः.

वंदेवि भडारउ विमलबाहु
 परियाणिवि तञ्चु तवेण तेहिं
 चिरु दहमइ साग्गि महापसत्थु
 हरिमहएविहि रुष्णिणिवि गम्भि
 महु संभूयउ पञ्चण्णु णामु
 घत्ता—कणयरहु मरिवि जायउ भीसणैवइरवसु ॥
 णहि जंतु विमाणु खलिउं कुईउं जोइसतियसु ॥ ६ ॥

थक्कइ विमाणि सो भिण्णकेउ
 चिरु जम्मंतरि सिसुहरिणणेत्तु
 सो जायउ अञ्जु जि एत्थु वेरि
 घल्लमि काणणि आविवेयभाउं
 गयणयललग्गतालीतमालि
 परियणु मोहेप्पिणु सयलणयरि
 पुरि वड्डिउं सोउ महायणाहं
 ता विउंलि सेलि वेयड्डणामि
 दाहिणसेदिहि घणकूडणयरि
 तहिं कालि काँलसंवरु खग्गिदु

घत्ता—सविमाणारूहु कंचणमालइ समउं तहिं ॥

संपत्तउ राउ अचल्लइ महुमहडिंभु जहिं ॥ ७ ॥

आरूढेउ गज्जइ धूमकेउ ।
 अवहरिउं जेण मेरउं कलत्तु ।
 मरु मारमि खल्लु णिव्वुडखेरि ।
 दुहुं अणुहुंजिवि जिह मरई पाउ ।
 इय मंतिवि खयरवणंतरालि । 5
 सिसु धँल्लिउ तक्कियंसिलहि उवैरि ।
 हलहरुरुष्णिणिणारायणाहं ।
 अमयवइदेसि वित्थिण्णगामि ।
 णहसंयारि विलसियच्चिधमयरि ।
 गणियारिविह्वसिउ णं गइदु । 10

8

अवलोइउ वालउ कर धिवंतु
 बोल्लिउ पड्डुणा लायण्णजुत्तु

लुडु लुडु उग्गउ णं रवि तवंतु ।
 लइ लइ सुंदरि तुह होउ पुत्तु ।

१३ P °कीडएहिं. १४ AP °चरियउ विमलअब्भि. १५ ABPS भीसणु. १६ A कुयउ.

7 १ A सोहिल्लकेउ. २ AP आरुडुउ. ३ S मारेमि. ४ S °भावु. ५ S मरण पावु. ६ S घल्लिय. ७ B उअरि; P उपरि. ८ B वड्डिउ. ९ B °रुष्णिणि°. १० B विउल°. ११ APS णहसायर°. १२ B कालसंभवु.

7 1 a भिण्णकेउ भिन्नग्रहः, विद्धध्वजो वा. 3 b °खेरि वैरम्. 6 b तक्कयसिलहि उवरि तक्कशिलोपरि. 7 a महायणाहं महाजनानाम्. 9 a घणकूड °मेघकूटम्. 10 b गणियारि° हस्तिनी. 12 महुमहडिंभु कृष्णस्य पुत्रः.

8 1 a कर धिवंतु स्वहस्तौ प्रेरयन्.

बालु लक्ष्णलक्ष्मं कियंगु
ता ताइ लइउ सुउ ललियबाहु
वरतणयलंभहरिसियमणाइ
परमेसर जइ मइं करहि कञ्जु
जिह्व होइ देव तिह्व 'देहि वाय
तं गिसुणिवि पहुणा विप्फुरंतु
बद्धउ पुत्तहु जुवरायपट्टु

रुवें णिच्छउ होसइ अणंगु ।
णं णियदेहहु मयणग्गिडाहु ।
पुणु पत्थिउ णियपिययमु अणाइ । 5
तो तुह परोक्खि पयहु जि रञ्जु ।
रक्खिज्जउ महु सोहग्गछाय ।
उव्वेळ्ळिवि कंतहि कणयवत्तु ।
पुलपं जणणिहि कंचुउ विसट्टु ।

घत्ता—णियणयरु गयाइं पुण्णपहावपहारियइं ॥

10

णंदणलाहेण विण्णि वि हरिसाऊरियइं ॥ ८ ॥

9

मंदिरि मिलियइं सज्जणसयाइं
काणीणञ्जं दीणहुं दिण्णुं दाणु
बंदियइं अणेयइं पुज्जियाइं
विरइउ तणयहु उच्छवपयत्तु
आगंदु पणञ्चिउ सज्जणेहिं
णं कित्तिवेळ्ळिविथरिउ कंदु
संजाउ णिहिलविण्णाणकुसलु
मंडलियणियरकलियारएण
रुप्पिणिहि महंतंगयविओउ
णिर्वमउडरयणकंतिल्लपाय

णाणामंगलतूरइं हयाइं ।
पूरियदिहिं अइइच्छापमाणु ।
कारागाराउ विसज्जियाइं ।
तहु णामु पइट्टिउ देवयत्तु ।
उच्छाहु विमुक्कउ दुज्जणेहिं । 5
परिवुंहु बालु णं बालयंदु ।
जिणणाहपायरार्इवभसलु ।
एत्तहि हिंडंतं णारएण ।
कणहहु जाइवि अवहरिउ सोउ ।
गोविंदु णिसुंणि रायाहिराय । 10

घत्ता—मेइणि विहरंतु पुव्वविदेहि पसण्णसंरि ॥

हउं गउ णरणाह चारु पुंडरीकिंणिणैयरि ॥ ९ ॥

8 १ S देवि वाय.

9 १ PS दिण्ण. २ AP पूरियदिहियइं. ३ B उच्छउ. ४ B णाउ; S णाइं. ४ A परि-
चुहु. ५ B रूपिणिहि. ६ S नृव°. ७ S णिसुणेवि. ८ B °सिरि. ९ AS पुंडरिगिणि°; P पुंडरि-
किणि°; १० S °णयरहिं.

3 a लक्ष्ण लक्ष्मं कियंगु लक्ष्णलक्षसहितः. 5 b अणाइ अनया राइया. 8 b कणयवत्तु कनक-
पत्रम्. 10 पुण्णपहावपहारियइं पुण्यप्रभावेण प्रभारितौ परिपूर्णौ. 11 °लाहेण लाभेन.

9 6 a परिचुहु परिवर्धितः. 8 a °कलियारएण कलहकारिणा. 9 a महंतंगयविओउ
महान् अङ्गजवियोगः. 10 g °कंतिळ्ळ° कान्तियुक्तौ.

10

तहिं मेहुं विद्धंसियमयगहेण
 जिह णिउ देवें वहरायरेण
 जिह पालिउ अवरें खेयरेण
 जिह जायउ सुंदरु णवजुवाणु
 तं णिसुणिवि रूपिणिहरिहि हरिसु
 एत्तहि वि कुमारें हयमलेण
 अप्पिउ णियतायहु णीससंतु
 कंचणमालहि कामग्गिजाल

अक्खिउं अरुहेण सयंपहेण ।
 जिह धिंनु रणिण परमारएण ।
 सुउ पडिवाज्जिवि पर्णयंकरेण ।
 सोलहसंवच्छेरपरिपमाणु ।
 संजायउ हरिसंसुयंइ वरिसु ।
 रणि अग्गिराउ बंधिंवि बलेण ।
 अवलोइवि णंदणु गुणमहंतु ।
 उट्ठिय हियउल्लइ णिरु कराल ।

5

घत्ता—अहिलसिउ संपुत्तु मायइ विरहंवि सटुलइ ॥

कामहु बलवंतु को वि णत्थि मेइणियलइ ॥ १० ॥

11

पंगणि रंगंतु विसालणेत्तु
 जं थणचूयइ लाइउ रूवंतु
 जं जोइउ णयणहि वियसिपहिं
 तं एवहि पेमुग्गयरसेण
 पुत्तु जि पइभावें लइउ ताइ
 हकारिवि दरिसिउ पेम्मभाउ
 मइ इच्छहि लइ पण्णत्त विज्ज
 तं णिसुणिवि भासिउं तेण सामु
 गलिउत्तरिज्जपयडियथणाइ

जं उच्चाइउ धूलीविलिन्तु ।
 जं कलरखुं परियंदिउ सुयंतु ।
 जं बोलाविउ पियंजंपिपहिं ।
 वीसरिय सव्वु वम्महवसेण ।
 संताविय मणरुहसिहिसिहाइ ।
 तुहुं होहि देव खयराहिराउ ।
 णिव्वूढमाण माणवमणोज्ज ।
 करपल्लवि ढोइउं पाणिपोसु ।
 संगहिय विज्ज दिण्णी अणाइ ।

5

10 १ A मुह. २ A अरहेण. ३ AP चित्तउ वणि. ४ P पणयंघरेण. ५ B संवत्सरपरिय-
 माणु. ६ ABPS रुष्पिणि°. ७ A °सुवपवरिसु; Als. °सुयपवरिसु against Mss.. ८ S सुपुत्तु.
 ९ APS मयणविसंठुलए; B records a *p*: मयण इति वा पाठः.

11 १ AP अंगणे. २ A थणजुयहे; B थणजुवलइ; PS थणचूयहे. ३ APS रुयंतु.
 ४ P कलरउ. ५ B अयंतु. ६ P जोयउ. ७ B जं पियवएहिं. ८ AP वीसरिउ; S विसरिय.
 ९ S हकारिवि दरिसिउ.

10 1 *a* °मय° मदः. 2 *a* वहरायरेण वैराकरेण. 3 *b* पणयंकरेण स्नेहकारिणा.
 5 *b* °अंसुय° अश्रु. 9 सपुत्तु निजपुत्रः.

11 2 *a* थणचूयइ स्तनचूचुकाग्ने; *b* परियंदिउ आन्दोलितः. 5 *a* पइभावें पतिपरि-
 णामेन; *b* मणरुहसिहि सिहाइ कामामिशिलया. 7 *b* लइ गृहाण. 9 *a* गलिउत्तरिजेत्यादि हृदयो-
 परितनबल्लप्रान्तप्रकटितस्तनया.

गयणंगणलग्गविचित्तचूडं
अवलोद्धंवि चारण विणिण तेत्थु
आयणिणवि बहुरसभावभरिउं
तप्पायमूलि संसारसाह

गउ सुंदरु जिणहेंरु सिद्धकूडु । 10
मुणिवर जयकारिवि जगपयत्थु
सिरिसंजयंतरिसिणाहचरिउं ।
विरइउ विज्जासाहणपयारु ।

घत्ता—पुणु आर्यंउ गेहु सुउ जोयंति विरुद्धपण ॥

उरि विद्धी झ सि कणयमाल मयरद्धपण ॥ ११ ॥

12

णिरत्था सरेंगं
हणंती कणंती
कओले विचित्तं
विइणं पुसंती
रसेणं विसट्टं
णिसामेइ गेयं
पढंतं ण कीरं
घणं दंसिऊणं
वरं चित्तचोरं
पहाए पुरंतं
ण मण्णेइ हंसं
ण प्हाणं ण खाणं
ण भूसाविहाणं
ण कीलाविणोयं
सरीरे घुलंती
णवंभोयमाला
ण तीए सुद्धिळी

उरगं करेणं ।
ससंती धुणंती ।
विसापण पत्तं ।
अलं णीससंती ।
ण पेच्छेइ णट्टं ।
ण कव्वंगभेयं ।
पढावेइ सारं ।
कलं जंपिऊणं ।
ण णाडेइ मोरं ।
सलीलं चरंतं ।
ण वीणं ण वंसं ।
ण पाणं ण दाणं ।
ण एयत्थठाणं ।
ण भुंजेइ भोयं ।
जलहा जलंती ।
सिहिस्सेव जाला ।
मणे कामभल्ली ।

5

10

15

१० ABP °कूडु. ११ PS जिणघर. १२ S अवलोद्धएवि. १३ PS आइउ.

12 १ णेट्टं. २ AP ण कव्वंगभेयं, णिसामेइ गेयं. ३ B पुरंतं. ४ B चलंतं. ५ S माणेइ.
६ A सिहिस्सेवजाला, णवंभोयमाला.

10 a °चूडु शिखरम्. 11 b जग पयत्थु जगत्पदार्थः जीवादिः. 13 तप्पायमूलि संजयन्तपादमूले.
14 विरुद्धपण कामेन.

12 1 a सरेंगं स्मरेण; b उरगं हृदयम्. 3 a कओले कपोले; b पत्तं पत्रावलिं स्फेट-
यन्ती. 6 a णिसामेइ दृणोति; b कव्वंगभेयं काव्याङ्गभेदम्. 8 a घणं इत्यादि मेघं दर्शयित्वा
मयुरं न नाटयति. 16 a °अंभोयं कमलं मेघश्च.

णिरुत्तणमण्णा	जरालुत्तसण्णा ।	
विमोत्तूण संकं	सगोत्तस्स पंकं ।	
पकाउं पउत्ता	सरुत्तत्तगत्ता ।	20
सपेम्मं थवंती	पएसुं णंमंती ।	
पहासेइ एवं	सुयं कामएवं ।	
अहो सच्छभावा	मइं ईच्छ देवा ।	
तओ तेण उच्चं	अहो हो अजुत्तं ।	
विइण्णंगळाय़ा	तुमं मज्झु माया ।	25
थंणंगाउ थण्णं	गलंतं पसण्णं ।	
मए तुज्झ पीयं	म जंपेहि वीयं ।	
असुद्धं अबुद्धं	बुद्धं विरुद्धं ।	
घत्ता— ता ससिवयणैइ जंपिउं जंपहि णेहचुउ ॥		
तुहुं काणाणि लद्धु णंदणु णउ महु देहेहुउ ॥ १२ ॥		30

13

तक्खयसिल णामं तुज्झु माय	महुं कामांसत्तहि देहि वाय ।	
तं वयणु सुणिवि मउलंतणयणु	अवहेरं करेप्पिणु गयउ मयणु ।	
ता धिट्ठ दुट्ठ दुब्भावगेहु	णियणहहिं वियारिवि णिययदेहु ।	
आरुद्ध सुट्ठे णिडुर हयास	अक्खइ णियवइयहु जायरोस ।	
तुहुं देव डिंभकरुणाइ भुत्तु	परजणिउ होइ किं कहिं मि पुत्तु । 5	
कामंधु पाणिपल्लवि विलग्गु	जोयहिं णहदारिउं महुं थणग्गु ।	
तं णिसुणिवि राएं कुद्धएण	जलणेण व जालारिद्धएणं ।	
भीसणपिसुणहं मारणमणाहं	आएसु दिण्णु णियणंदणाहं ।	
णिल्लज्ज अज्जु दायज्जं महहुं	पच्छण्णाउं पसुं वहाइ वहहुं ।	
तणयहं जयगहणुक्कंठियाहं	ता पंच सयाइं समुट्ठियाइं । 10	

७ P मरुत्त^०. ८ AP सुपेम्मं. ९ BS णवंती. १० B इच्छि. ११ A थणग्गाण थण्णं; Als. थणग्गाउ थण्णं against Mss. १२ PS ससिवयणाए. १३ S देहे हुओ.

13 १ AP कामाउरोहे पदेहि; B कामाऊरहि. २ ABS अवहेरि. ३ B सुट्ठ. ४ B^० पल्लव. ५ AP^० रुद्धएण. ६ PS दाइज्ज. ७ AP महह. ८ A पसुवहाइ. ९ AP वहाइ.

18 a णिरुत्तणमण्णा निश्चयेन अन्यमनाः उद्गतचित्ता; b जरालुत्तसण्णा विरहज्वरेण छससंज्ञा. 20 b सरुत्तत्तगत्ता स्मरोत्तत्तगात्रा. 20 b वीयं द्वितीयम्, अन्यत्. 28 a अबुद्धं अज्ञानम्. 29 णेहचुउ स्नेहन्युतम्.

13 2 b अवहेर अवज्ञा. 3 b णियणहहिं निजनखैः. 9 a महहु मयय; b वहाइ बधेन, प्राकृतत्वात् लिङ्गभेदः. अत्र स्त्रीलिङ्गं दर्शितम्.

घत्ता—प्रियंघयणु भणेवि सिंरिरमणंगउ साहसिउ ॥
णिउ रण्णहु तेहिं सो कुमार्हे कालारसिउ ॥ १३ ॥

14

णं पलयकालजमदूयतुंहे
णियजणणसुपेसणपेरिपहिं
भो देघयत्त दुक्करु विसंति
तं णिसुणिवि विहसिवि तेत्थु तेण
अण्णउ घल्लिउं सहस ति केम
पुज्जिउ देवाइ महाणुभाउ
सोमेसमहीहरमज्झि णिहिउ
वीरेण तेण संमुह भिइंत
पुणु जक्खिणीइ जगसारपहिं
साहसियहु तिहुयणु होइ सज्जु

तहिं हुयवहजालाजैलियकुंडु ।
दक्खालिवि बोल्लिउं वइरिपैहिं ।
पयहु दंसणि कायर मरंति ।
महुमहणरायरुप्पिणिसुपण ।
सीयलचंदणचिक्खिल्लि जेम । ७
अण्णहिं जाइवि पुणु सोमकाउ ।
कूरेहिं तेहिं चउदिसंहिं पिहिउ ।
थहरुं व धरिय गिरिवर पडंत ।
पुज्जिउ वत्थालंकारपहिं ।
दुग्गु वि अदुग्गु दुग्गेज्जुं गेज्जु । 10

घत्ता—सयलेहिं मिलेवि वइरिहिं करिकरदीहरंभुउ ॥
सूररगिरिरंधि पुणु पइसारिउ कण्हसुउ ॥ १४ ॥

15

तहिं महिहरु धाईउ हौवि कोलु
दाढाकरालु देहंणिविलित्तु
अरिदंतिदंतणिहसणसंहेहिं
मोडिउ रईसुग्गु खरु अमंडु

धुरुधुरणरावकयघोरैरालु ।
णीलालिकसणु रंसंतणेत्तु ।
भुयदंडैहिं चूरियरिउरहेहिं ।
वइकंडु पुत्तं कंडकंडु ।

१० BP णिय°. ११ B कुमार.

14 १ PS °तौडु. २ PS °जलिउ. २ P °कुंड; S °कोंडु. ३ APS वेरिपहिं. ४ P
इरिसणे. ५ A घित्तउ. ६ B °चिक्खिल्लु; S °चिक्खेल्लु. ७ APS सोमकाउ. ८ S °महीहरे.
९ P °दिसिहिं. १० A बहुरुव. ११ P सुदुगेज्जु. १२ APS °दीहभुउ.

15 १ A धाविउ. २ P होइ. ३ B °घोर. ४ A देहिणिं; B देहिण°. ५ B रत्त°. ६ A °सपहिं. ७ B °दंडिहिं. ८ ABPS रोसुग्गु. ९ ABPS वइकंडुहो.

11 सिरिरमणंगउ कृष्णपुत्रः.

14 ३ दुक्करु विसंति ये प्रविशन्ति तद्दुःकरम्. ४ b यह रूव छागरूपम्.

15 1 a हो वि कोलु शूकरो भूत्वा; b °रोलु कोलाहलः. 2 a देहणिं कर्दमः, दिह
उपचये; b °क सणु कृष्णवर्णः. ३ a °णि ह सण सह हिं निघर्षणसमर्थान्यां भुजाभ्याम्; b चूरियरिउ-
रहे हिं चूर्णितरिपुरथाभ्याम्. 4 a खर तीव्रम्; अमंडु अमनोशः; b वइ कंडु पुत्तं हरिपुत्रेण; कंडकंडु
सुकरग्रीवा.

सुथिरसें णिज्जियमंदंरासु
 देवयंइ विइण्णउ विजयघोसु
 अण्णेक्कु पिसुणपाठीणजालु
 सज्जणहु वि दुज्जणु कुडिलचित्तु
 रयणीयरेण सूहउ पसत्थु
 विसंसदणु भडकडंमहणासु
 पुणु वम्महेण दिट्टउ खयालि
 विज्जाहरु विज्जाबलहरेण
 तहु वसुणंदइ अवलोइयाइ
 णरदेहसोक्खंसंजोयणीइ
 मेल्लाविउ भाविउं भाउ ताउ
 हरितणयहु दरपहंसियमुहेण
 उवयारहु पड्डिउवयारु रइउ

घत्ता—दुज्जणवयणेण परिवह्वियअहिमाणमउ ॥

सहसाणणसप्पविवरि पइट्टउ जयविजउ ॥ १५ ॥

तं विलसिउं पेच्छिंवि सुंदरासु । 5
 जलयरु परवाहिणिहियंसोसु ।
 ढोइयउ महाजालु वि विसालु ।
 पुणु कालणामगुहंसुहि णिहिसु ।
 पणवेवि महाकालेण तेत्थु ।
 तहु दिण्णउ केसवणंदणासु । 10
 पम्भट्टवेट्टु रुक्खंतरालि ।
 कील्लिउ केण वि विज्जाहरेण ।
 णियकरयलसयदलढोइयाइ ।
 गुल्लियंइ णिबंधणमोयणीइ ।
 उप्पणणउ तासु सणेहंसुभाउ । 15
 दिण्णाउ तिण्णि विज्जाउ तेण ।
 भणु को ण सुयणसंगेण लइउ ।

16

तहिं संखाऊरणणिग्गएण
 पव्वालंकिउ जयलच्छिवणु
 बहुरूवजोणि णरवरविमइ
 जोएवि दुव्वाल्लिइ लोयणेट्टु
 तहिं गयणंगणगमणउ चुयाउ
 सुविसिट्टइट्टुपावियसिवेण

णाएण सणाइणिसंगएण ।
 धणु दिण्णउं कामहु चित्तवण्णु ।
 अण्णेक्क कामरुविणिय मुहं ।
 थामं कंपाविउ तरुक्कविट्टु ।
 लइयाउ कुमारं पाउयाउ । 5
 पुणु तूसिवि पंचफणाहिवेण ।

१० BP °मंदिरासु. ११ S पेच्छिउ. १२ S देवए. १३ B विदिण्णउ. १४ B °हियइ. १५ B गुहसुह°. १६ S विसदंसणु. १७ AP °कडवंदणासु. १८ दिण्णिउ. १९ APS °सोक्खु. २० B अंगुलिए. २१ A लाविउ भाउभाउ. २२ A सिणेह°. २३ A दरिसियसियमुहेण; P दरवियसियमुहेण.

16 १ P मुहे. २ P दुआलिए; S दुयालिए. ३ APS लोयणिट्टु. ४ APS °इच्छियसिवेण.

6 a विजयघोसु नाम शंखः; b °वाहिणि° सेना. 7 a पिसुणपाठीण° शत्रुमत्स्याः. 8 a सज्जणहु वि दुज्जणु सज्जनस्यापि दुर्जना भवन्ति. 9 a रयणीयरेण राक्षसेन. 10 a विससंदणु वृषस्यन्दननामा रथः; °कड° समूहः; 11 a खयालि विजयार्थं खगाचले. 15 a भाविउ रुचितः भ्राता पितावत्. 19 सहसाणण° सहस्रमुखः सर्पः; जयविजउ जगति विजयो यस्य.

16 1 b णाएण सर्पेण; सणाइणि संगएण स्वस्त्रीकेन. 2 a °वण्णु संपन्नं परिपूर्णम्. 3 a बहुरूवजोणि बहुरूपोत्पत्तिकारणम्. °विमइ मर्दनकरी. 4 b कविट्टु कपिच्छः. 5 b पाउयाउ पादुके द्वे. 6 a इट्टुपावियसिवेण इष्टस्य प्रापितसुखेन; b पंचफणाहिवेण पञ्चफणसर्पेण.

दोह्य हरिपुसद्दु पंच बाण
 तप्पणु पुणु तावणु मोहणक्खु
 पंचमु सरु मारणु चित्तविउडु
 चलचमरजुयँलु सेयायवत्तु
 गुणरंजिएण जसलंपडेण
 कइवमुहिवाविहि नायवासु
 तद्दु संपय पेच्छिवि भायरेहिं
 पच्छणुज्जाणियकोवौणलेहिं
 जइ पइसहि तुहुं पायालवावि
 घत्ता—पिसुंणिगिउं एम ज्जाणिवि सुंदरु ओसरइ ॥
 वाविहि पण्णत्ति तद्दु रूवे सइ पइसरइ ॥ १६ ॥

णंदयधणुजोग्गो उहयमाण ।
 विलवणु मग्गणु हयवहरिपक्खु ।
 ओसहिमालइ सहुं दिण्णु मउडु ।
 णं सिरिणवभिसिणिहि सहसवत्तु । 10
 खीरवणणिवासं मक्कडेण ।
 दिण्णउ एयहु रिउदिण्णतासु ।
 तिलु तिलु शिज्जंतकलेवरेहिं ।
 पुणरवि पडिचोइउ हयखँलेहिं ।
 तो तुह सिरि होइ अउव्व का वि । 15

17

पच्छणु ण दिट्ठउ तेहिं बालु
 सिलवीदें छाइय वावि जाम
 ते तेण णायंपासेण बद्ध
 णिक्खित्त अहोमुह सलिलरंधि
 णियसयणविदुरविणिवारएण
 जोइप्पहेण सा धरिय केम
 तहिं अवसरि परबलदुम्महेण
 आसणु पत्तु तें भणिउ कामु
 तुज्झुप्परि आयउ तुज्झु ताउ
 ता रूखिवि पडिभडमहेण
 ह्यं गय ह्यं गय चूरिय र्होह

अप्पाणहु कोक्किउ पलयकालु ।
 रुप्पिणितणुरुहुं मणि कुइउं ताम ।
 सुहिअवयारं के के ण खद्ध ।
 सिल उवरि णिहियं जायइ तमंधि ।
 खगवइतणं लहुयोरएण । 5
 उप्परि णिवडंती मारि जेम ।
 णहि एंतुं पलोइउ वम्महेण ।
 भो दिट्ठु जम्मणेहहु विरामु ।
 भो मयरद्धय लइ ससंरु चाउ ।
 देवें दामोयरणंदणेण । 10
 विच्छिण्णत्त महिघित्त जोह ।

५ ABP जोग्गाउहपहाण. ६ B मोहसक्खु. ७ B °जुवल. ८ BPS मंक्कडेण. ९ A कइममुहिं.
 १० ABPS °जलियं. ११ A णलेण. १२ A खलेण. १३ A पिसुणंगिउ; K पिसुणिगउ. १४ S जाणवि.

17 १ B °तणरुहु; S तरुहु. २ P कुविउ. ३ S °वासेण. ४ P omits this foot.
 ५ A विहिय. ६ P °तणुएं. ७ B लहुवारएण. ८ PS णहें. ९ B इंतु. १० B समरु. ११ A ह्यं
 ह्यं गय गय.

7 णं दयधणु° नन्यावर्तधनुः; उहयमाण फलमानशरमानोपेताः. 9 a चित्तविउडु चित्रामेण (?)
 विकटः प्रकटो विपुलो वा. 10 b सहसवत्तु कमलम्. 12 b कइवमुहिं कर्दममुखी वापी. 13 b
 शिज्जंत° क्षीणम्. 15 b अउव्व अपूर्वा. 16 a पिसुणिगिउ पिसुनस्येज्जित्तं चेष्टितम्.

17 3 b सुहि अवयारं सुहृदामपकारेण. 4 a सलिलरंधि वाप्याम्. 7 b एंतु आगच्छन्.
 8 a तें तेन ज्योतिःप्रभेण. 10 b देवें प्रयुञ्जेन. 11 a ह्यं इत्यादि अश्वा गजाश्च हताः सन्तः नष्टाः.

घत्ता—पेच्छिवि दुव्वार कामएवसरणियरगइ ॥

णं कुमुणिकुबुद्धि भग्गउ समरि खगाहिवइ ॥ १७ ॥

18

पवणुद्धयविंधपसाहणेण
पायालवावि संपत्तु जाम
जोइणहेण सिलरोहणेण
जहिं जहिं अमहिं कवडें णिहित्तु
तहिं तहिं णीसरइ महानुभाउ
किं कहिं मि पुत्तु अहिलसइ माय
को अण्णु सुसच्चसउच्चवंतु
को जाणइ किं अंबाइ वुत्तु
महिलाउ होंति मायाविणीउ
किं ताय णियंविणिछंदु चरहि
पडिवण्णउं पालहि चवहि सामु
इय णिसुणिवि चारुपबोल्लियाइं
गउ तहिं जहिं थिउ सिरिरमणतणउ
णीसल्लु पघोसिउं णियइं दुक्कु
उच्चाइवि सिल केसवसुएण

णासेवि जणणु सहं साहणेण ।
बोल्लिउं लहुपं तणुरेण ताम ।
तुहुं मोहिउ दइवें मोहणेण ।
पप्फुल्लकमलदलविमलणेत्तु ।
देविहिं पुज्जिज्जइ दिव्वकाउ । 5
को पावइ कामहु तणिय छाय ।
गंभीरु वीरं गुणगणमहंतु ।
मारावहुं पारद्धउ सुपुत्तु ।
ण मुणहिं पुरिसंतरु दुव्विणीउ ।
लहुं गंभि कुमारहु विणउ करहि । 10
अणुणहि णियणंदणु देउ कामु ।
पहुणयणइं अंसुजलोल्लियाइं ।
बोल्लाविउ तें किउं तामु पणउ ।
आल्लिगिउं दोहिं मि एक्कमेक्कु ।
अण्णत्थ घित्त कक्कसभुएण । 15

घत्ता—कय वियलियपासं ते खेयरंरायंगरुह ॥

णिग्गय सल्लिलाउ दुज्जसमसिमलमलिणंमुह १८

19

मयणहु सुमणोरहसारएण
भो णिसुणि णिसुणि रिउदुव्विजेयं

तहिं अवसरि अक्खिउं णारएण ।
दारावइपुरवरि पवरतेय ।

18 १ ABPS तणएण. २ APS देवहि. ३ AP को महियलि अण्णु सुसच्चवंतु.
४ ABPS धीरु. ५ AP को (P किं) जाणइ किं मायए (P माएं) पवुत्तु (P पउत्तु)
६ ABPS सपत्तु. ७ APS कउ. ८ B णिद्धु दुक्कु. ९ B एक्कमेक्कु. १० P पासे. ११ A खेयरा
हिवअंगरुह; P खयराहिवअंगरुह. १२ APS मइलमुह.

19 १ A रहराएण. २ AP दुव्विजेउ. ३ B पुरि. ४ AP दिव्वतेउ; S पउरतेय.

18 8 a अंबाइ मात्रा. 10 a णियंविणिछंदु भार्याभिप्रायेण. 11 b अणुणहि संमानय.
16 वियलियपास नागपाशरहिताः.

19 1 a सारएण पूरकेण.

जरसिंधकंसकयप्रार्णहारि
तद्दु पणइणि रुपिणि तुज्जु माय
भो आउ जाहुं किं वयणपर्हि
पर्णमियसिरेण मउलियकरेण
तुहुं ताउ महारउ गयविलेव
पयलंतखीरधारापर्णाल
जं दुंभणिओ सि दुणियच्छिओ सि
ता तेण विसज्जिउ गुणविसालु
कलहयरें सहुं चल्लिउ तुरंतु

यत्ता—संगरकंखेण कामहु केरउ णउ रहिउ ॥

सिहिभूइपहूइ भवसंबंधु सव्बु कहिउ ॥ १९ ॥

तुह जणणु जणइणु चैक्कधारि ।
पत्तियहि महारी सच्च वाय ।
णियगोसु णियहि णियणयणपर्हि । 5
ता भणिउ कालसंभवुं सरेण ।
वहुंरिउ हेंउं पइं रक्खु जेव ।
वीसरमि ण जणणि वि कणयमाल ।
तं खमहि जामि आउच्छिओ सि ।
अणइहसंदाणि आरूदु बालु । 10
गयपुरु संपत्तउ संचरंतु ।

20

ता भणइ मयणु मइं माणियाइं
ता भासइ णारउ मयमहेण
ता विणिण वि जण उवसमपसण्णे
तहिं कुंदकुसुमसंमदंतियाउ
कंकेल्लिपत्तकोमलभुयाउ
वेहवियउ दमियउ तावियाउ
जणु सयलु वि विम्भमरंसविसट्टु
कारावियमणिमयमंडवेहिं
पारद्धी भाणुहि देहुं पुत्ति
तहिं धरिवि सरेण पुलिदवेसु

चिरंजम्मइं किह पइं जाणियाइं ।
अविखउं अरुहें विमलपपहेण ।
एवं चवंत गयउरु पवण्ण ।
जाणिवि भाणुहि दिज्जंतियाउ । 5
दुज्जोहणपहुज्जलणिहिसुयाउ ।
मायारूवेण हसावियाउ ।
गउ मयणु महुरमगें पयट्टु ।
महुराउरि पंचहिं पंडवेहिं ।
णं कामकइयवायारजुत्ति ।
अलिकज्जलसामलकविलकेसु । 10

५ BP जरसिंधु°; जरसंध°. ६ A °खयपाणहाणि; BP °कयपाणहाणि. ७ AP'S चक्कपाणि.
८ P पणविय°. ९ AP कालसंवर. १० B वहुंरिउ. ११ S पइं हउं. १२ AP °धाराथणाल.
१३ BK दुंभणिओसि दुणिण°.

20 १ A किर जम्मइं. २ P °पवण्ण. ३ A °पहुजाणिहि. ४ AP विंभयरस°; BS विग्गयरस°.

6 b सरेण स्मरेण कामेन. 9 a दुणियच्छिओ दुर्निरीक्षितः; b आउच्छिओ आपट्टः.
10 b अणइहसंदाणि वृषभस्यन्दननाम्नि रथे. 11 a कलहयरें नारदेन. 13 सिहिभूइपहूइ
अग्निभूतिजन्मादि.

20 1 a माणियाइं भुक्तानि. 4 a °दंतियाउ दुर्योधनपुत्र्यः. 5 b °जलणिहि° राक्षी-
नामेदम्. 6 a वेहवियउ वञ्चिताः. 7 b महुरमगें मथुरामार्गेण. 9 a देहुं दातुं प्रारब्धाः; b °कइ-
यवायारजुत्ति कैतवाचायुक्तिः काममूर्तित्वप्रवृत्तिः. 10 a सरेण कामेन.

णीसेसकलाधिष्णाणधुस्त
द्वारावइणयरे पराइएण

खेळिवि^१ खरियालिवि पंडुपुत्त ।
कुसुमसरं कंतिविराइएण ।

घत्ता — विज्जइ छाइवि पारउ गयणि ससंदणउ ॥
वाणरवेलेण आहिंडइ महुमहतणउ ॥ २० ॥

21

दक्खालियसुरकामिणिविलासु
दिसंविदिसाधित्तणाणाहलेण
सोसेवि वांवि झसमाणिएण
थिरथोरकंधघोलंतकेस
जणु पहसाविउ मणहरपणसि
पुरणारिहिं हियउ हरंतु रमइ
इउं छिण्णकणसंधाणु करमि
भाणुहि णिमित्तु उवाणियउ जाउ
पुणु भाणुमायदेवीणिकेउ
घरि वइसारिउ सहुं बंभणेहिं
भुंजइ भोयणु केमं वि ण धाइ
ता सच्चहामं पभणइ सुदुट्टु

सिरिसच्चहामकीलाणिवासु ।
उज्जाणु भग्गु माहयचलेण ।
सकमंडलु पूरिउ पाणिएण ।
रहवरि जोत्तिय गइह समेस ।
कामेण णर्येउरगोउरपवेसि ।
पुणु वेज्जवेसु घोसंतु भमइ ।
वांहियउ तिव्ववेपाउ हरमि ।
विहसाविउ नुंवकुवरीउ ताउ ।
गउ बंभणवेसें मयरकेउ ।
घियऊरिहिं लडुंयलावणेहिं । 10
आवग्गी जाम रसोइ खाइ ।
बंभणु होइवि^१ रक्खसु पइट्टु ।

घत्ता—ता भासइ भट्टु देणे ण सक्कइ भोयणहु ॥

किंइ दइवें जाय एह भज्ज णारायणहु ॥ २१

५ S खेलेवि. ६ A खलियालिवि. ७ A विच्छाइवि. ८ P णयर.

21. १ AP °सच्चभाम°. २ APS दिसिविदिसि°. ३ APS वाविउ. ४ B णयरे.
५ P पणसे. ६ AS वाहिउ; P वाहीउ. ७ ABP णिव°. ८ AP सच्चहाम°; S सच्चभाम°. ९ S
बग्गण°. १० APS घियऊरिहिं. ११ B लडुय°; P लडुअ°; S लडुव°. १२ A केण. १३ P सच्च-
भाम. १४ P ण होइ for होइवि. १५ AP दीण. १६ S किल.

11 b खरियालिवि कदर्थयित्वा खेदयित्वा वा. 13 छाइवि प्रच्छाद्य.

21. 1 b ° णिवासु उद्यानम्. 2 b माहयचलेण वायुवत्. 4 b समेस मेषसहिताः. 6 b
वेज्जवेसु दैद्यवेपः. 10 b घियऊरिहिं घृतपूरैः; लडुय° लडुकैः; °लावणेहिं लावण इति पृथक् पक्वानं
वर्तते पूर्वदेशे दहिवडीवत्. 11 b आवग्गी स्वांग एकलः (?). 13 देण दातुम्.

22

पुणु गयउ झसद्धउ बद्धणेहु
 हउं भुक्खिउ रुप्पिणि गुणमहंति
 ता सरसभक्खु उक्खित्तगासु
 जेमाविउ तो वि ण तित्ति जाइ
 कह कह व ताइ पीणिउ विहासि
 विणु कालें कोइलरांवमुहलु
 तक्खणि वसंतु अंकुरियकुरुहु
 णारउ पुच्छिउ पीणत्थणीइ
 महुं घरु को आयउ खयरुं देउ
 अवयरिउ माइ दे देहि खेउं
 दंसिउं सरुंउ गियमाउयाहि

खुल्लयवेसें गियजणाणिगेहु ।
 दे देहि भोखु सम्भत्तवंति ।
 णाणातिम्मणकयसुराहिवासु ।
 हियउल्लइ देविहि गुणु जि थाइ ।
 विरएवि पुरउ लडुयहं रासि ।
 अवयारिउ महुरसमत्तभसलु ।
 कयपणयकलहु जणजणियविरहु ।
 कोऊहलभरियइ रुप्पिणीइ ।
 ता तेण कहिउं सिसु मयरकेउ ।
 ता कामें णिसुणिवि वयणु एउं । 10
 पण्हयपयपयलियथणजुयाहि ।

घसा—जणणीथण्णेण सुउ मिलंतुं अहिसिसु किह ॥

.. गंगातोएण पुप्फयंतु पहु भरहु जिह ॥ २२ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे रुप्पिणिकामएवसंजोउ णाम
 एकणवदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९१ ॥

22. १ APS °रोल°; B °रव°. २ BP खयरदेउ. ३ S सरुवु. ४ A ता एत्तहिं for मिलंतु in second hand. ५ S पुप्फदंत°. ६ B रुप्पिण°. ७ AS एकणवदिमो; B एकणवदिमो; एकणउदिमो.

22 1 a झसद्धउ कामः; b खुल्लयवेसें ब्रह्मचारिवेषेण. 3 a उक्खित्तगासु उच्चलित-
 कवलः; b °तिम्मण° व्यञ्जनम्. 5 a विहासि शोभमानः; b लडुयहं मोदकानाम्. 6 b महुं
 मकरन्दः. 7 b °पणयकलहु मिथुनस्य स्नेहयुद्धम्. 10 a खेउं आलिङ्गनम्. 11 b पण्हयपय-
 प्रसृतं पयः. 13 भरहु जिह भरतचक्रीवत्.

पसरंतणेहरोमंचिपण देवें रहभत्तारें ॥

कमकमलहं जणणिहि णवियाहं सिरिपञ्चणकुमारें ॥ ध्रुवकं ॥

जहि अच्छिउ तं पुरु घर देसु वि
मुहकुहरुगयसुमहुरवायहि
पुत्तसणेहु जणिउ णिरु णिम्भरु
दुज्जेणु हरिसें कहिं मि ण माइउ
तेण समीहंतें दूसह कलि
भाणुकुमारहु ण्हाणणिमित्तें
पुच्छिय णियमायरि कंदप्यें
णील णिद्धं भंगुर सुहकारा
तं णिसुणिवि देवीइ पवुत्तउं
दिव्वपुरिसर्लक्खणसंपण्णउं
तइयहुं सच्चंभामणामंकर
बिहिं^१ मि सहीउ गयाउ उर्विदहु

पुणु वित्तंतु कहिउ णीसेसु वि ।
बालकील दक्खालिय मायहि ।
तहिं कालइ परियाणिवि अवसरु । 5
सुरैविहत्थु चंडिलउ पराइउ ।
मग्गिय मयणजणणिअलयावलि ।
तं णिसुणिवि णिरु विंभिर्यंचित्तें ।
किं पवुत्तुं एएण सदप्यें ।
किं मग्गिय धम्मिल्ल तुहारा । 10
पुव्वकम्मु परिणवइ णिरुत्तउं ।
जइयहुं तुहुं महुं सुउ उप्पण्णउ ।
भाणु जणिउ मुहजित्तससंकइ ।
पासि पाथेपाडियरिउचंदहु ।

घत्ता—ता तहिं हरिणा सुत्तुट्टिपण पियपायंति बइट्टी ॥

अम्हारी सिंभुंमिगल्लोयणिय सहयरि सहसा विट्टी ॥ १ ॥

देवदेव रुपिणिवि सुच्छायउ
ताइ पवुत्तु पुत्तु संजायउ
पढमपुत्तु तुहु चेय पघोसिउ
वहरिपण वड्ढियअवल्लेवें

लक्खणवज्जेणचच्चियकायउ ।
तं णिसुणिवि हरिसिउ महिरायउ ।
पाडिवक्खहु मुहभंगु पदेसिउ ।
णवर णिओ सि कहिं मि तुहुं देवें ।

1 १ AP °देहरोमंचिपण. २ दुज्जण. ३ S omits this foot. ४ S विग्घिय°. ५ B पवुत्तु पइं एण सदप्यें. ६ B णिद्ध. ७ APS सुहगारा. ८ A °पुरिसु. ९ A °संपण्णउ. १० A सच्चंभाम°. ११ B विहं. १२ S पायपडिय°. १३ S °मृग°.

2 १ A रुपिणिसुच्छायउ. २ P °विज्जण°. ३ A पदरसिउ.

1 1 रहभत्तारें कामेन. 6 a दुज्जणु सत्यभामाप्रमुखः; b चंडिलउ नापितः. 9 b एएण एतेन. 10 a भंगुर वक्राः. 14 a बिहिं द्वयोः संबन्धिन्यः. 15 °पायंति पादान्ते. 16 अम्हारी सखी.

2 3 b पडिवक्खहु सत्यभामाप्रमुखस्य. 4 a वहरिपण पूर्वजन्मरिपुणा; °अवल्लेवें गवेषण.

विमलसरलसयदलदलणेसद्दु
कलहंतिहिं वद्वियैपिसुणसणि
बिहिं मि पुत्तु जा पदमुं जणेसइ
मंगलधवलथोसद्वयसोत्तइ
हरिसैं अज्जु संवत्ति विसट्टइ
एहु ताहि आपसैं वग्गइ
तं णिसुणिवि विज्जासामत्थें
वम्महेण जणकौंतलहारिहि
एंत अणंत वि णं जमदुएं

घत्ता—पसरंतें गयणालगपण रूसिवि पंतु दुरंतउ ॥

अइदीहें पायं ताडियउ जरु णामेण महंतउ ॥ २ ॥

15

जेट्टुउ कमु जायउ सावत्तइ । 5
चिरु बोद्धिउं दोहिं मि तरुणसणि ।
सा अवरहि धम्मिल्लं लुणेसइ ।
पुत्तंविवाहकालि संपत्तइ ।
सुयकल्लाणण्हाणु धरि वट्टइ ।
णौविउ मज्झ सिरोरुह मग्गइ । 10
देवें उच्छुं सरासणहत्थें ।
अवरु सहाउ विहिउ डुरधारिहि ।
ताज्जिय भिच्च जणहणैरुएं ।

मेसैं होइवि हउ सपियामहु
रुण्णिणिरुंउ अणु किउ तक्कणि
दामोयरु ससेणु कुट्टि लग्गउ
जयसिरिलीलालोयपसण्हं
वर हसंतु सुरणरकलियारउ
कामएउ णरणयणपियारउ
जं कल्लोलैहु उत्तंगतणु
जं तणयहु पयाउ खलदूसणु
हरि हरिवंससरोरुहणेसरु

हलिहि भिच्चिउ होपप्पिणुं महुमहु ।
णिहिय विमौणि णीय गयणंगणि ।
णिवेजालेण सो वि णिहु भग्गउ ।
को पडिमल्लु एत्थु कयपुण्हं ।
तहिं अवसरि आहासइ णारउ । 5
एवं वियंभिउ पुत्तु तुहारउ ।
तं महुमह सायरहु पहुत्तणु ।
तं माहव कुलहरहु विह्वसणु ।
तं णिसुणिवि हरिसिउ परमेसरु ।

४ A जेट्टकमु पालिउ सावत्तहो; BSAIs. जेट्टकमु जाउ सावत्तहो; P जेट्टकमु पालिउ सावत्तहो; Als. suggests to read जेट्टकमु जायउ सावत्तहो. ५ S वद्विए. ६ S पदम. ७ B धम्मिल्लु; P धम्मेल्लु; S धम्मेल्ल. ८ BS °गित्त°. ९ AP णियतणुरुहविवाहे आदत्तए. १० B सवित्ति. ११ S ण्हाविउ. १२ P उच्छ°. १३ P °सुवें; S रुवें.

3 १ S होयवि. २ S होएवि तहिं. ३ B मुहुसुहु; P संमुहु. ४ AP विमाणमज्जे. ५ AP णिवालेण; S नृवजालेण. ६ APS रणि. ६ B एव; S एउं. ७ A कल्लोलु होउ तुंगत्तणु. BPS उत्तुंग°. ८ A हसिउ.

5 b सावत्तहु सपत्नीपुत्रस्य. 8 a °हयसोत्तइ हतकर्णे. 9 a विसट्टइ विकसति; b °कल्लाण° विवाहः. 10 a एहु नापितः. 12 a वम्महेण कामेन; b डुरधारिहि नापितस्य. 13 a एंत आगच्छन्तः; b जणहणरुएं विण्णुरूपेण. 15 जरु जरनाम्ना.

3 1 a मेसैं होइवि मेषरूपेण; सपियामहु वसुदेवः. 3 a कुट्टि पृष्ठे; b णिसु नुपः. 9 a °णेसरु सूर्यः.

सिसुबुब्बिलसियाहं कयरायहु
एत्थंतरि अणंगु पयडंगउ
पडिउ चरणजुयलह महुमहणहु
तेण वि सो भुयेंदंडहि मंडिउ

हरिसु जणंति अवंस गणितायहु । 10
होइवि गुहंयणि विणयवसं गउ ।
कंसकेसिपायवद्वदहणहु ।
आसीवाउ देवि अवहंडिउ ।

घत्ता—कंदप्पु कणयणिहु केसवहु अंगालीणउ मणहरु ॥

णं अंजणमहिहरमेहलहि दीसइ संज्ञाजलहरु ॥ ३ ॥ 15

4

हरिणा मयणु चडाविउ मयगलि
उवसमेण परमत्थविमाणह
बंदिविदेउग्घोसियभहें
किउ अहिसेउ सरहु सुरमहियहु
सो जि कुलक्कमि जेट्टु पयासिउ
लुय रुप्पिणीह गंपि णीलुज्जल
भवियव्वउं पच्छण्णु पंदरिसिउं
गोविंदहु करिकरदीहरकरु
तं आयणिवि भाणुहि मायरि
पत्थिउ पिययसु ताइ णवेपिणु
ताव जाव तणुहंहु उप्पज्जइ
तं णिसुणिवि रुप्पिणइ सणंदणु
पुत्त पुत्त पिसुणहि पाविट्टहि

णं दियहेण भाणु उययोचलि ।
णं अरहंतु देउ गुणठाणइ ।
पुँरि पइसारिउ जयजयसहें ।
भाणुवइट्टुकुमारिहिं सहियहु ।
पडिवक्खहु उव्वेउ पविलसिउ । 5
सच्चहामदेविहि सिरि कौंतल ।
अण्णहिं वासरि केण वि भासिउं ।
होही को वि पुत्तु कप्पामरु ।
गय तहिं जहिं अत्थाणइ थिउ हरि ।
अण्ण म सेवहि मइं मेहेपिणु । 10
तं मग्गिउ तहिं देइपं दिज्जइ ।
भणिउ सयणमणणयणाणंदणु ।
मज्झु सैवत्तिहि दुट्टहि धिट्टहि ।

घत्ता—खैयरिइ महुसैयणवल्लहइ जइ वि णाहु ओलग्गिउ ॥

तो वि तिह कैरि णै होइ सुउ एत्तिउं तुहुं मइं मग्गिउं ॥ ४ ॥ 15

१ P अवसु. १० P गुरुयण°. ११ S भुवदंडहिं.

4 १ B उवयाचलि. २ S अरहंतदेउ. ३ B °वंद°. ४ S omits this foot. ५ AB पयसारिउ. ६ S भाणु वि इट्ट°; P भाणुवइट्टु कुमारिहिं. ७ P कुलक्कम. ८ AP णीलुण्ल. ९ APS सच्चभाम°. १० BS वि दरिसिउं. ११ B तणरुहु. १२ P तहि दइवें; S तं दइपं. १३ BP सवित्तिहे. १४ BP खेरिए. १५ P महसूयण°. १६ S करे. १७ BPS णउ होइ.

10 a कयरायहु कृतरागस्य प्रीतेः; b अवस अवश्यम्. 11 a पयडंगउ प्रकटशरीरः. 13 a तेण हरिणा. 14 कणयणिहु सुवर्णसदृशवर्णः. 15 °मेहलहि मेखलायां तटे.

4 2 a परमत्थवि याणइ त्रयोदशे गुणस्थाने. 3 a °भहें मज्जलेन. 4 a सरहु स्मरस्य; b भाणुवइट्टु पूर्वे भानोर्याः कन्या उपदिष्टाः तामिः सहितस्य. 7 a भवियव्वउं केनचिन्नैमित्तिकेन भवितव्यं कथितं स्वर्गाद्देवश्च्युत्वा कृष्णपुत्रो भविष्यति. 9 a भाणुहि मायरि सत्यभामा. 11 b दिज्जइ दीयते, दत्तमित्यर्थः. 13 a पि सुणहि दुर्जनायाः सत्यभामायाः. 14 खयरिइ सत्यभामया.

5

ताहि म ह्योउ होउ वर पयहि
वच्छल पियसहि णंदउ रिज्जउ
तं णिसुणिवि विहंसिवि कंदप्पे
पइरइकामहि वड्ढियछायहि
जंबावइहि रूउ किउ केहउं
कामरूर्यमुहिय पँहिरेप्पिणु
रमिय गब्भु तक्खणि संजायउ
णवमासहिं लार्येणरवण्णउ
जंबौवइहि पउण्ण मणोरह
जणणिजणियापिसुणत्ते दारुणु
संभवेण अवमाणिवि धित्तउ
पुण्णविसेसु सुँणिंवि गरुयारउ
सच्चहामदेविइ गुणकित्तणु

जंबावइहि पुण्णससितेयहि ।
इयर विसमसंतावे डज्जउ ।
णियविज्जासामत्थवियप्पे ।
रयसल्लिदियाहि चउत्थइ ण्हायहि ।
सच्चहामदेविहि जं जेहउं । 5
गय हरिणा वि पवर मण्णेप्पिणु ।
कीडवसुरु सग्गग्गहु आयउ ।
संभेवु णाम पुत्तु उप्पण्णउ ।
सुय वड्ढति महंत महारह ।
अवरहिं दिवसि जाय कोवारुणु । 10
भाणु भणियसरजाइहि जित्तउ ।
मुक्कउ झ सि रोसपब्भारउ ।
पडिक्खण्णउं रुप्पिणिसयणत्तणु ।

घत्ता—इय णिसुणिवि मुणिगणहरकहिउं सीरपाणि पुणु भासइ
अज्जे वि कह वरिसइं महुमहणु देव रज्जु भुंजेसइ ॥ ५ ॥

15

6

दसदिसिबहपविदिण्णहुयासे
मज्जाणिमित्ते दारावइ पुरि
एउं भविस्सु देउ उग्घोसइ
पढमणरइ सिरिहरु णिवडेसइ
पच्छइ पुणु तित्थयरु हवेसइ

णासेसइ दीवायणरोसे ।
जरणामे वणि णिहणेवउ हरि ।
वारहमइ संवच्छरि होसइ ।
एक्कु समुहोवमु जीवेसइ ।
एत्थे खेत्ति कम्मइं डहेसइ । 5

5 १ P हसेवि. २ B °कामहो. ३ APS रयसल°. ४ S रु. ५ APS सच्चभाम°. ६ S °रुव°. ७ S परिहेप्पिणु. ८ B Als. वियवर (वि + अवर). ९ A मेहेप्पिणु. १० AP कीडयसुरु सो सग्गहो आइउ. ११ P लावण°. १२ B संभवणामु; P जंबावइहे पुत्तु उप्पण्णउ. १३ AP ते वेणि वि पउण्णमणोरह. १४ BK °जायहिं. १५ AP मुणेवि. १६ APS सच्चभाम°. १७ P अज्ज.

6 १ P णिहणेवउ. २ ABPS णिवसेसइ. ३ AP एत्थु छेत्ति.

5 4 a पइरइकामहि भर्तुरतिवाञ्छकायाः; b रयसल्लिदियाहि रजस्वलादिने. 6 b पवर मण्णेप्पिणु प्रवरां मत्वा. 7 b कीडवसुरु क्रीडवचरः 9 महारहरणेऽनिवर्तकाः. 1 a जणणिजणिय° मातृसंधुश्चितेन. 11 b भणियसरजाइहि भणितन्वाणजात्या.

6 2 b जरणामे सत्यभामामन्त्रिणा.

तुहुं छम्मास जाम सोभायँ
विमल्लिं देवि उम्मोहेवँउ
दइगंबरिय दिक्ख पालेप्पिणु
माहिंदइ अमरत्तु लहेसहि
होसहि सिरिअरहंतु भडारउ
इय णिसुणिवि दीधायणु मुणिवरु
महुमहमरणायणणसंकिउ
जरकुंमारु विलसियपंचाणणि
भूसिउ गुंजाहरणविसेसँ

घत्ता—मिच्छत्तँ मेलिणीहयपण दहणरयाउसु बद्धउं ॥

महुमहणँ पुणु संसारहरु जिणवरदंसणँ लद्धउं ॥ ६ ॥

हिंडेसहि सोयंतँउ भायरु ।
वणि सिद्धत्थँ संबोहेवउ ।
कुच्छिउ णरसरीरु मेल्लेप्पिणु ।
पुणरवि एउं खेतु आवेसहि ।
दुम्महवम्महवम्मवियारउ । 10
हुउ गउ अवरु पवरु देसंतरु ।
थिउ जाइवि णियदइवँ ढंकिउ ।
कोसंबीपुरिणियडइ काणणि ।
संठिउ सुंदरु णाहलवेसँ ।

15

पसरियसमयभत्तिगुणरुंदँ
सत्तुय काराविय णियपुरवरि
तिथयरत्तु णामु तेणज्जिउं
इय णिसुणिवि माहउ आउच्छिवि
पज्जुण्णाइ पुत्त वउ लेप्पिणु
रुप्पिणि आइ करिवि महपविउ
वम्महु संभेउ रिसि अणुरुद्धउ
तिण्णि वि उज्जयंतगिरिवरासिरि
केवलणाणु विमलु उप्पाइवि

घत्ता—गय मोक्खहु जेमि सुरिंदथुउ णिम्मलणाणविराइउ ॥

विहरेप्पिणु बहुदेसंतरइं पल्लवविसयहु आइउ ॥ ७ ॥

वेज्जावच्चु कयउं गोविंदँ ।
ओसहु तँ दिण्णँउं मुणिवरकरि ।
जं अमरिंदणरिंदहिं पुज्जिउं ।
णासणसीलु सव्वु जगु पेच्छिवि । 5
थिय णिगंथ कलुसु मेल्लेप्पिणु ।
अट्टु वि दिक्खियाउ सुयसेविउ ।
तवजलणँ दांडेविं मयरद्धउ ।
महुरमहुरणिगयमहुयरगिरि ।
किरियाछिण्णुं झ्णाणु णिज्झाइवि ।

10

४ AS सोयाउरु; P सोयायक. ५ B सोएंतउ ६ APS विमल्ले देवे. ७ A उम्मोएवउ; P उम्मोहे-
व्वउ. ८ P दीयायणु. ९ S जायवि. १० B °कुमार. ११ B मिलिणीहयपण. १२ B °दंसण.

7 १ B णियपुरि. २ S दिण्णा. ३ S माहवु. ४ AP सिय°. ५ AB संबूरिसि. ६ APS
अणिरुद्धउ. ७ ABPS डहेवि. ८ S ° छिण्ण.

6 b सोयंतउ शोचमानः. 7 a उम्मोहेवउ मोहरहितः करणीयः; b सिद्धत्थे सिद्धार्थनाम्ना देवेन.
9 b आवेसहि भरतक्षेत्रमागमिष्यति. 12 a °आयणणसंकिउ आकर्णनेन भीतः.

7 1 a °समय° जिनमतम्. 2 a सत्तुय सक्तवः. 4 a आउच्छिवि पृष्टुः; b णासणसीलु
अस्थिरम्. 6 b सुयसेविउ श्रीसेविताः. 7 a वम्महु प्रद्युम्नः; अणुरुद्धउ प्रद्युम्नपुत्रः. 8 b महुर-
महुर° मधुरादपि मधुराः; °महुरगिरि भ्रमरशब्दे.

8

बलपर्वे पुच्छिउ सुरसारउ
कंपिल्लिहि णयरिहि णरपुंगमु
वढरह घरिणि पुत्ति तहु दोवइ
सा दिज्जइ कहु मंतु पमंतिउ
देविल घरिणि पुत्तु जाणिज्जइ
अवरें भणिउं भीमु भडकेसैरि
दिज्जइ तासु धूय परमत्थें
तो पयहि त्थपट्टु णिबज्जइ
सुयहि सयंवरविहि मंडिज्जइ
जो रुच्चइ सो माणउ इच्छइ

घत्ता—तहि अवसरि खलहुँज्जोहणेण कवडें जूई जिणेप्पिणु ॥

णिद्धाडिय पंडव पुरवरहु सइ थियु पुहइ लपप्पिणु ॥ ८ ॥

पंडवकह वज्जरइ भडारउ ।
दुमउं णाम महिवइ सुहसंगमु ।
जा सोहग्गे कामु वि गोवइ ।
चंडु णाम पोयणपुरि खसिउ ।
इंदवम्मु तहु सुंदरि दिज्जइ । 5
जो आहवि घल्लइ णहयलि करि ।
अवरु भणइ जइ परिणिय पत्थें ।
अण्णु भणइ महुं हियवइ सुज्जइ ।
केत्तिउं हियउल्लउं खंडिज्जइ ।
दुज्जण किं करंति किर पच्छइ । 10

9

पुव्वपुण्णपम्भारपसंगें
गय तहिं जहिं आढत्तु सयंवरु
मिलिय अणेय राय मउडुज्जल्ल
पहपंसुल पंथिय लुहु आइय
दइवें लोयवाल्लं णं दोइय
सिद्धत्थाइ राय अवगण्णिवि
पत्थु सलोणु विसेसें जोइउ
घित्त सदिट्ठि माल तहु उरयलि
ता हरिसिय णीसेस णरेसर
जयजयसइं णयंरि पइट्ठहिं

जउहरि घल्लिय णट्टु सुंरंगें ।
विविहकुसुमरयैरंजियमहुयरु ।
चमरधारिवाल्लियचामरचल्लें ।
ते पंच वि कण्णाइ पलोइय ।
णं वम्महसरगुण संजोइय । 5
कामु व दिव्वधणुद्धरु मण्णिवि ।
तहि दइवें भत्तारु णिमोइउ ।
लच्छीकीलाप्रंगणि पधियउलि ।
पहिय पणाच्चिय उच्चिभिवि णियकर ।
जिणअहिसेयपणांमपहिट्ठहिं । 10

8 १ AP दुवउ णामु; S द्रुमउ. २ BS अवरिं. ३ AB भीमभडु. ४ AP तियपट्टु.
५ B खल्लु. ६ BP जूई.

9 १ A जऊहरे; BPS जउंहरे. २ P सुतुंगें. ३ BS 'कुसुमरसरंजिय'. ४ BP 'जल्लु.
५ B 'चल्लु. ६ P लोइयवाल्ल. ७ P दिब्बु. ८ P 'पंगणि; S 'प्रंगण'. ९ A 'पणामअहिट्ठहिं.

8 2 b दुमउ द्रुपदः. 3 a दोवइ द्रौपदी; b गोवइ कोपयति क्रोधं कारयति. 6 b करि
गजान्. 7 b पत्थें अर्जुनेन.

9 1 a जउहरि लाक्षामण्डपे आवासे धृताः, तस्मात् शृङ्गविवरेण नष्टाः. 3 b चमरधारि
चमरधारिणीभिः. 4 a पहपंसुल मार्गधूलिग्राहिणः 6 b दिव्वधणुद्धरु अर्जुनः. 7 a पत्थु अर्जुनः;
सलोणु लावण्ययुक्तः.

कालु जंतु बहुरायविणोयहिं णेउ जाणइ भुंजेवि य भोयहिं
घत्ता—काले जंते थिरेंथोरकरु रणि पल्हत्थियगयघडु ॥
पत्थेण सुहइहि संजणिउ सिंसु अहिअण्णे महाभडु ॥ ९ ॥

10

अवेरु वि मुहमरुथियमत्तालिहि	सुय पंचाले जाय पंचालिहि ।
पुणु वि भुयंगसेणपुरि पविसणु	कियेउं तेहिं कीअयणिण्णासणु ।
मायावियरूयाइं धरेप्पिणु	पुणुं विराडमंदिरि णिवसेप्पिणु ।
अरिणरवइ जिणिवि सर घत्तिवि	कुडि लग्गिवि गोउलइं णियत्तिवि ।
पुणु कुरुखेत्ति पवड्डियगोरेव	पंडसुपहिं परज्जिय कोरेव ।
अखलियपरिपालियहरियाणउ	जाउ जुहिट्टिलु देसहु राणउ ।
थिउ रायाणुवट्टि गुणवंतउ	भायरेहिं सुंहुं सिरि भुंजंतउ ।
बारहवरिसइं णवर पउण्णइं	गलियइं पंकयणाहडु पुण्णइं ।
वणधेँल्लियमइराइ पमैत्तहिं	मयपरवसहिं पघुम्मिरणेत्तहिं ।
सिंसुकीलारपहिं संताविउ	रायकुमारहिं रिसि रोसाविउ । 10
सो दीवायणु छुडु छुडु आयउ	मुउ भावेणसुरु तक्खणि जायेउ ।

घत्ता—आरूसिवि पिसुणे मुक्क सिहि पावेप्पिणु सुरदुग्गइ ॥
धवलहरधवलधर्यमणहरिय खणि देँही दारावइ ॥ १० ॥

१० BAlS. णउ जाणिजइ भुंजियभोयहिं. ११ A थिरघोरकरु. १२ APS अहिवणु.

10 १ S अवर. २ BS पंचालु. ३ B भुयंगसेल°; S भुयंगसल°. ४ P पइसणु. ५ S कयउं. ६ P °रूवाइं. ७ S omits this foot. ८ BAlS. °गारव; PS °गउरव. ९ PS कउरव. १० AP णायाणुवट्टि; B रायाणुवट्टि. ११ P सउं. १२ ABPS वणे. १३ B पत्तहिं. १४ B भावणि; S भावणु. १५ P संजायउ. १६ P °अइमणोहरिय. १७ B दिट्ठी.

13 सुहइहि प्रथमराइयां सुभद्रायाम् ; अ हि अ ण्णु अभिमन्नुः.

10 1 a मुहमरु° मुखवाते; b पंचाल द्रौपदीपुत्राः पञ्च; पंचालिहि द्रौपद्याः. 2 a भुयंगसेण° नगरस्य नामेदम्; b कीअय° कीचकस्य. 3 a मायावियरूयाइं युधिष्ठिरेण राजरूपम्, श्रीमेन रसवतीपाकरूपम्. अर्जुनेन बृहदलरूपम्, नकुलसहदेवाभ्यां विप्ररूपम्. 4 a सर घत्तिवि बाणान् मुक्त्वा; b णियत्तिवि पश्चान्निवर्त्य गृहीत्वा. 8 b पंकयणाहडु पद्मनाभस्य. 10, b रिसि द्वीपायनः.

11

सयणमरणरुहसोएं भरियउ
होउ होउ दिव्वाउहसिक्खइ
णे धय ण छत्त ण रह णउ गयवर
देहमेत्तं सावयभीसावणु
चक्कि विडवितलि सुत्तु तिसायउ
तहि अवसरि हयइइवे रुद्धउ
जइ वि जीउं दुग्गइं आसंघइ
मुउ गउ पढमणेरयविवरंतरु
जलु लपवि तक्खणि पडियीं

सहुं बलपवें लहुं णीसरियउ ।
पोरिसु काइं करइ भग्गक्खइ ।
णउ किंकर च्चलंति णउ चामर ।
वेणिं वि भार्य पइइ महावणुं ।
सीरिं सलिलु पविलोयहुं धाइउ । 5
जरकुमारभिल्लें हरि विद्धउ ।
तो वि ण णियइ को वि जमि लंघइ ।
सोक्खु ण कासु वि भुंयणि णिरंतरु ।
पसरियमोहतिमिरसंघायं ।

यत्ता—खयकालफणिंदें कवलियउ महि णिवडिउ णिञ्चेयणु ॥ 10

बोलाविउ भायरु हलहरिण माहउ मउलियलोयणु ॥ ११ ॥

12

उट्ठि उट्ठि अप्पाणु णिहालहि
दामोयर धूलीइ विलित्तउ
उट्ठि उट्ठि केसव मइं आणिउं
उट्ठि उट्ठि सिरिहर साहारहि
उट्ठि उट्ठि हरि मइं बोलावहि
पूयणमंथेण सयडविमइण
इंदु वि बुइइ तुह आसिवरजलि
डज्जउ पुरि विहडउ तं परियणु
भाइ धरत्तिदित्तिउप्पायर्ण

लइ जलु महुमह मुहुं पक्खालहि ।
उट्ठि उट्ठि किं भूमिहि सुत्तउ ।
णिरु तिसिभो सि पियहि तुहुं पाणिउं ।
मइं णिज्जाणि वाणि किं अवहेरहि ।
चिंताऊरिउ केत्तिउं सोवहि । 5
विमणु म थक्कहि देव जणइण ।
अज्जे वि तुहुं जि राउ धरणीयलि ।
अंतेउरु णासउ वियलउ धणु ।
छुइ तुहुं पक्कु होहि णारायणं ।

11 १ AP °मरणभयसोएं. २ P धण यण छत्त ण रह णउ गयवर; S ण धय ण छत्त णउ गयवर. ३ B किंकिर. ४ AP च्चलंति चामरधर. ५ B °मित्तु; S °मेत्तु. ६ B भाइ. ७ B वणे. ८ APS तिसाइउ. ९ P सीरि वि सलिलु पलोयहुं धाइओ. १० B हउ. ११ AP °भिल्लें. १२ S जीवु. १३ P °णरए. १४ P भुवणे. १५ APS पडिआएं. १६ S माहउ.

12 १ S मुह. २ P °मथण°. ३ Als. अजेवि; BS अजि वि. ४ APS °धरित्ति°; ५ A °धित्ति° P °धित्ति°. ६ P °उप्पायणु. ७ P णारायणु.

11 1 a °रुह° उत्पन्नेन. 2 b भग्गक्खइ भाग्यं पुण्यं तस्य क्षये. 5 a विड वित लि वृक्षतले; b पविलोयहुं अवलोकयितुम्. 7 a दुग्गइं विषमस्थानानि; b णियइ भवितव्यम्. 9 a पडि याएं प्रत्यागतेन. 11 मउ लिय लो यणु सुकुलितनेत्रः.

12 5 b चिंता ऊरिउ नगरदाहत्वात्. 6 b विमणु विमनाः. 8 b वि य लउ विगलनु नश्यत्.

जहिं तुहुं तहिं सिरि अवसें णिवसइ जहिं सासि तहिं किं जोण्ह ण विलसइ ।
 उट्टि उट्टि भदिय जाइजइ किं किर गिरिकंदरि णिवसिजइ ।
 किं ण मज्झु करयलि करु ढोयहि किं रुट्ठो सि बप्प णउ जोर्वहि ।

घत्ता—उट्टाविवि सुइरु सबंधवेण हरिहि अंगु परिमट्टुं ॥
 वणविवरहु होंतउ रुहिरजलु ताम गलंतउं दिट्टुं ॥ १२ ॥

13

तं अबलोइवि सीरिहि कण्णउं
 गरुंडणाहु किं [डसियउं सप्पे
 मं लुहु जरकुमारु एत्थाइउ
 घाइउ ण मरइ कण्हु भडारउ
 पैउं भणंतुं पेउ सो ण्हाणइ
 देवंगइं वत्थइं परिहावइ
 मुयउ तो वि जीवंतु व मण्णइ
 कुंकुमचंदणपकें मंडइ
 देवे सिद्धत्थे संबोहिउ
 छम्मासहिं महियलि ओयारिउ
 सुहिविओयिणिवेपं लइयउ
 अरुळरकरचालियचलचामरु

घत्ता—आयणिणवि महूसूयणमरणु जसधवलियजयमंडव ॥
 गय पंच वि सिरिणेमीसरहु सरणु पइट्टां पंडव ॥ १३ ॥

तुज्झु वि तणु किं सत्थे भिण्णउं ।
 अहवा किं किर एण वियप्पे ।
 तेण महारउ बंधंघु घाइउ ।
 दुइमदाणविंदसंधारउ ।
 सोयाउरु णउ काइं मि जाणइ । 5
 भूसणेहिं भूसइ भुंजावइ ।
 जणभासिउं ण किं पि आयण्णइ ।
 खंधि चडाविाविं महि आहिंडइ ।
 थिउ बलपउ समाहिपसाहिउ ।
 विट्टु सइट्टु तेण सकारिउ । 10
 णेमिणाहु पणविावि पावइयउ ।
 सो संजायउ माहिंदामरु ।

14

दिट्टुउ जिणु णीसल्लु णिरंतंरु
 अक्खइ णेमिणाहु इह भारहि

पणवेप्पिणु पुच्छिउ सभवंतरु ।
 चंपाणयरिहि महियंलि सारहि ।

८ APS जोयहि.

13 १ AS सीरि; P सीरि. २ B गुरुड°. ३ B डंसिउ. ४ APS बंधु वि घाइउ.
 ५ APS घायउ. ६ P एम. ७ A भणंतु कण्हु सो. ८ B महूसयण°; S महूसूयण°. ९ P पयट्टा.

14 १ B णिरंवरु. २ APS महियल°.

11 a भदिय हे नारायण. 13 उट्टा वि वि उच्चात्य. 14 वण° वणः.

13 1 b सत्थे श्लेषण. 5 a पेउ मृतकं स्नापयति. 9 b °पसाहिउ शृङ्गारितः.

10 a ओ यारिउ भूमौ स्कन्धादवतारितः; b सकारिउ दग्धः. 13 °जय° जगत्.

मेहवाहु कुरुवंसपहाणउ
सोमदेउ बंभणु सोमाणु
सोमयत्तु सोमिल्लउ भाणुउ
ताहं अणयधण्णधेणरिद्धिउ
अग्गिलगम्भवांससंभूयउ
धणसिरि मित्तसिरी वि मणोहर
दिण्णउ ताहं ताउ धवलच्छिउ
जिणपयपंकयाइं पणवेप्पिणु
अण्णहिं दिणि धम्मरुइ भडारउ
णवकंदोद्वदलुज्जलणेत्तं
परमइ अणुकंपाइ णियच्छिउ
धणसिरि भणिय तेण वय्यगेहउ

वत्ता—ता रुसिवि ताइ अलक्खणइ साहुहि विसु करि दिण्णउं ॥ 15
तं भक्खिवि तेण समंजसेण संणासणु पडिवण्णउं ॥ १४ ॥

15

देउ भडारउ हुयउ अणुत्तरि
तं तेहउं दुक्किउं अवलोइवि
वरुणायरियहु पासि अमाया
गुणवइखंतिहि पयइं णवेप्पिणु
तरुणिहिं संजमगुणैवित्थिण्णउं
सल्लेहणविहिलिदिइयइं गत्तइं
पंच वि ताइं पहाइ महंतइं
ताम जाम वाचीससमुइइं
रिसि मारिवि दुक्कियसंछण्णी
पुणु वि संयंपहदीवि दुदरिसणु

दुक्खविवज्जिइ सोक्खणिरंतरि ।
मइ अरहंतधम्मि संजोइवि ।
तिण्णि वि भायर मुणिवर जाया ।
कामु कोहु मोहु वि मेल्लेप्पिणु ।
मित्तणायसिरिहिं मि वेउं चिण्णउं । 5
अञ्जुयकप्पि सुरत्तणु पत्तइं ।
थियइं दिव्वसोक्खइं भुंजंतइं ।
धम्मं कासु ण जायइं भइइं ।
पंचमियहि पुहइहि उप्पण्णी ।
फणि इइं दिट्ठीविसु भीसणु । 10

३ A मेहवाउ. ४ APS °धणरिद्धउ. ५ Als. °वासे; B °वासि. ६ P °पयोहर. ७ A ताउ ताहं.
८ P सोमभूइ°. ९ A धणिसिरि; P फणिसिरि. १० S त्रयगेहहो. ११ S दिण्णु.

15 AS तं तेहउ; BP ते तेहउ. २ PS वरुणाइरियहो. ३ P °गुणु. ४ P °णायधण-
सिरिहिं. ५ ABP वउ. ६ A सोक्ख दिव्वइं. ७ S omits this foot.. ८ APS पुदविहे.
९ PS संयंपहे दीवे.

14 4 a बंभणु पुरोधाः. 6 a ताहं तेषां त्रयाणां मानुलः. 7 b तासु अग्निभूतेः पुत्र्यः.
9 b कुलभवणारविदं कुलग्रहमेव कमलम्. 12 a °कंदोद्व° कमलम्.

15 6 a °लिहि यइं कृशीकृतानि, कृपितानि.

पुणु वि णंरइ तसथावरजोणिहि
पुणु मायंगि जाय चंपापु रि
साहु समाहिगुत्तु मंणोपिणु

हिंडिवि दुक्खसमुम्भवस्त्रीणिहि ।
गोउरतोरणमालाबंधुरि
धम्मु जिणिंदसिद्धु जाणेपिणु

घत्ता—तेत्थु जि पुरि पुणरवि सा मरिवि दुग्गंधेण विरुई ॥

मायंगि सुंयंधहु वणिवरहु सुय धणंपविहि इई ॥ १५ ॥

15

16

तेत्थु जि धणदेवहु वाणिउत्तहु
सुउ जिणदेउ अवरु जिणयत्तउ
पूइगंध किर दिज्जइ इट्टे
बालहि कुणिमसरीरु दुग्गुंछिवि
तउ लेपिणुं थिउ सो परमंइहु
उवरोहे कुमारि परिणाविउ
ण हसइ ण रमइ णउ बोलावइ
णिंदंती णियकुणिमकलेवरु
सुव्वयेखंतिय झ त्ति णियंत्तिइ
बिणिं वि देविउ गुणगणरइयउ
भणइ भडारी वरमुहयंदहु
बेणिण वि जिणपुज्जारयमइयउ
तहिं संविग्गमणे संजापं
जइ माणुसंभउ पुणु पावेसहुं
इय णिबंधुं बद्धउ विहसंतिहिं
उज्झहि सिरिसेणहु णरणाहहु

घरिणि जंसोयदत्त धणवंतहु ।
जिणवरपयपंकयजुयंभत्तउ ।
एउं वयणु आयणिणवि जेट्टे ।
सुव्वयमुणि गुरु हियइ समिच्छिवि ।
पायहिं णिवडिं परु पाणिद्धु । 5
दुग्गंधेण सुद्धु संताविउ ।
दुहवत्तणु किं कासु वि भावइ ।
णिंदइ णियसुद्धु धणुं परियणु घरु ।
पुच्छिय चरणकमलु पणवंतिइ ।
एयउ किं कारणु पावइयउ । 10
वल्लहाउ चिरंसोहम्मिदहु ।
णंदीसरदीवंतरु गइयउ ।
अवरोप्परु बोळ्ळिउं अणुरायं ।
तो बेणिण वि तवचरणु चरेसहुं ।
देहिं मि करु करपंकइ विंतिहिं । 15
सिरिकंतहि जयलाच्छिसणाहहु ।

१० S णरय. ११ P °खोणिहे. १२ AP माणेपिणु. १३ ABAls. सुबंधुहे. १४ A धणदेविहे.

16 १ AP असोयदत्त; BS यसोयदत्त. २ S धणवत्तहो. ३ AP °पंकयकयभत्तउ. ४ B दुग्गुंछिवि. ५ APS लएवि. ६ Als. परमेद्धहो against Mss. ७ AP णिवडिउ बंधु कणिद्धहो; Als. णिवडिउ परु. ८ A परियणु धणु. ९ PAls. °खंतिय. १० AP णियंतिइ. ११ B पुच्छिय दुग्गंधा पणवंतिइ in second hand. १२ B बिणिण वि खुल्लियाउ गुणगणरइयउ. १३ APS चिरु. १४ S ° भहु. १५ A णिबहु. १६ P ओज्झहे.

15 सुयंधहु सुगन्धस्य.

16 3 a पूइगंध दुर्गन्धा. 4 a कुणिम° दुर्गन्धं कुथितम्. 5 a परमद्धहु परमाथेन. 8 b णियसुद्धुं आत्मनः शुभं पुण्यम्. 9 a णियत्तिइ निवृत्तया स्वगृहाजिर्गतया तथा सा आर्या पृष्ठा. 11 b चिरसोहम्मिदहु पूर्वजन्मनि सौधर्मस्य. 15 b करपंकइ हस्तेन वाचा च.

जायउ पुत्तिउं कुवलयणर्यणउ

मुहसेसंककरधवलियगयणैउ ।

घत्ता—हरिसेण णाम तहिं पढम सुय हरिसपसाहियवेही ॥

सिरिसेण अवर वम्महसिरि व रुवें सुरवहु जेही ॥ १६ ॥

17

वरणरणारीविरइयतंडवि
बद्धसंथ जाणिवि ससितेयउ
खंतिवयणु आयणिवि तुट्टी
पैक्कु दिवसु झायंतिउ जिणु मणि
शे त्ति वसंतसेणणामालइ
चिंतिउं जिह एयहं सिवगामिउ
जिह एयहुं णिव्वूढपरीसहु
एव सलाहणिज्जु सलहंतिइ

सरिवि संजम्मु सयंवरमंडवि ।
हलि बिण्णि वि पावइयउ एयउ ।
सुकुमारि वि तवयम्मि णिविट्टी ।
जोइयाउ सव्वउ णंदणवणि ।
वेसइ कुसुमसरावलिमालइ । 5
तिह मज्जु वि होज्जउ जिणसामिउ ।
तिह मज्जु वि होज्जउ तसु दूसहु ।
गणियइ पावें सहुं कलहंतिइ ।

१७ S पुत्ति कुव°. १८ AP °णयणिउ. १९ ABPS मुहससहरकर°. २० A गयणिउ; P गयणओ.

17 १ AS omit स in सजम्मु; B सुजम्मु. २ P सुकुमारे. ३ From this line to

18. 2, P has the following version:—

एक्कु दिवसु झायंतिउ जिणु मणे
तेत्थु वसंतसेणणामालिय
बहुविदेहि परिमंडी जंती
णियकरु करयलेसु लायंती
णियवि णियाणु कयउ सुकुमारिए
जिह एयहे एए सुकरायर
जिह एयहे सोहग्गमहाभरु
एम णियाणु करेवि अण्णाणिणि
कालें कहि मि मरेवि संणासें
अंतसग्गे जाइय सियसेविय

संठियाउ सव्वउ णंदणवणे ।
वेसय कुसुमसरावलिमालिय ।
लीए वयणहो वयणु भणंती ।
णयणसरावलीए पहणंती ।
बहुदोहग्गभारणिरुभारिए ।
तिह मज्जु वि जभंतेरे णरवर ।
तिह मज्जु वि होज्जउ सुणिरंतइ ।
हुय अण्णाणहो जि सा वहरिणि ।
दंसणणाणचरित्तपयासें ।
चिरभवसोमभूइ सुरदेविय ।

घत्ता—तहिं होंतउ कालें ओयरेवि हुउ सोमयत्तु जुहिट्टिलु ॥

सोमेळु भीसु भीमारिभडु भुयबलमलणु महाभडु ॥ १७ ॥

18

बारसविहतवझीणसररउ
सो किरीडि होएवि उप्पणउ

सोमभूइ सो आसि भडारउ ।
धणसिरि णउलु धम्मविस्थिणउ ।

४ A संठियाउ. ५ A तेत्थु for झत्ति. ६ A °सारए.

19 सुरवहु सुरवधुः अप्सराः.

17 1 a °तंडवि नर्तके; b सरिवि स्मृत्वा. 2 a °संथ नियमः; हलि हे पूतिगन्धे.
3 b सुकुमारि पूतिगन्धा; णि विट्टी प्रविष्टा. 5 b वेसइ वेदयया. 8 a सलाहणिज्जु श्लाघ्यं तपः.

पुण्णु णिबद्धं किं वणिणज्जइ जिणु सुमरंतहं दुक्किउ छिज्जइ ।
 मरिवि तेत्थु बिण्णिं वि संणासें दंसणणाणचरित्तपयासें । 10
 अंगसग्गि जायउ स्यसेविउ चिरभवसोमभूइ सुंउ सेविउ ।
 यत्ता—तहिं होंती काले ओयरिवि हुथे हरिसेण जुहिट्टिलु ॥
 सिरिसेणे भीमु भीमारिभइ भुयबलमलणु महाबलु ॥ १७ ॥

18

बालमराललीलगइगामिणि अवर वसंतसेण जा कामिणि ।
 सा किरीडि होइवि उप्पण्णी फणसिरि णउल्लु धम्मवेत्थिण्णी ।
 मित्तसिरि वि सहएउ ण चुक्कइ कम्म णिबद्धं अवसें दुक्कइ ।
 दुवयहु सुय पेम्मंभमहाणइ जा दुग्गंध कण्ण सा दोमइ ।
 भणइ जुहिट्टिलु इयवम्मीसर भणु भणु णियभवाइं जेमीसर । 5
 कइइ भडारउ भक्खियतरहल्लु होंतउ पढमजम्मि हउं णाहल्लु ।
 रिसि विद्धंतु सघरिणिइ वारिउ पाणि सबाणु धरिउं ओसारिउ ।
 णविय भडारा वियलियगावें महुमासहं णिविस्सि कय भावें ।
 फणि डंकिउं मुउ मिल्लु वरायउ इम्भकेउ वणिवरकुलि जायउ ।
 पुणु हउं काले जिणपणवियसिरु वयहलेण हूयउ कप्पामरु । 10
 पुणु सुरु धैरिवि देहभासुरु हुउ चिंतागइ खयरणेसरु ।
 पुणु तउं चरिवि समाहि लहेप्पिणु उप्पण्णउ माहिदि मरेप्पिणु ।
 पुणु अवराइउ णरवइ हूयउ मुणि होइवि अञ्जेइ संभूयउ ।
 पुणु संजायउ दव्वेणिहीसरु सुप्पैइहु णामे पुहईसरु ।
 यत्ता—हउं हूउ रिसि सोलहकारणइं णियहियउल्लइ भावियइं ॥ 15
 जिणजम्मकम्म मइं संचियउं बहुदुरियइं उट्ठावियइं ॥ १८ ॥

७ A सुअरंतहे; S सुयरंतहं. ८ A तिण्णि वि. ९ AS अंतसग्गि. १० A सियसेविय. ११ A सुरदे-
 विय; S सुरदेविउ. १२ A होंतउ. १३ A हुउ सोमयत्तु जुहिट्टिलु. १४ A सोमिल्लु भीमु. (It
 appears that P contains an altogether new version from बहुविदेहि down to
 वइरिणि, while A seems to agree with P in lines which are common to all
 versions.

18 १ A agrees with P in the text of the first two lines for which
 see under 17. २ S धम्म. ३ A दोवइ. ४ AP धरेवि. ५ APS डक्किउ. ६ S णिणमियं.
 ७ ABPK मरेवि. ८ A देहभालसुरु. ९ S तउ. १० B लएप्पिणु. ११ B अञ्जुउ. १२ A देउ
 णिहीसरु; BPS दिव्वणिहीसरु. १३ P सुपइहु. १४ BKS omit हुउ.

11 a अ ग्ग स ग्गि षोडशे स्वर्गे; स्यसेविउ श्रोसेविते सोमभूतिचरस्य देव्यौ संजाते द्वे अर्जिके.

18 2 a किरीडि अर्जुनः; b फणसिरि नामश्रीचरी. 4 b दोमइ द्रौपदी. 6 b णाहल्लु
 मिल्लः. 7 b सबाणु बाणसहितः. 8 a णविय भडारा नमितो भट्टारकः.

19

पुणरवि मुउ रयणावलियंतइ
तहिं होंतउ आयउ मलचत्तउ
ता पंचमगइसामि णवेप्पिणु
पंचिदियइं दिहीइं णियंत्तिवि
पंचमहव्वयपरियरु रइयउ
कौंति सुहइ दुवइं सुर्यसत्तउं
तिव्वतवेण पुण्णसंपुण्णउं
तिण्णि वि पुणु मणुयत्तु लहेप्पिणु

घत्ता—पंच वि तवतावसुतत्तणु चिरु जिणेण सहुं हिंडिवि ॥

गय ते सत्तुंजयगिरिवरहु पंडव जणवउ छंडिवि ॥ १९ ॥ 10

अहमिंदत्तणु पत्तु जयंतइ ।
अरहंतत्तणु इह संपत्तउ ।
पंचासवदौराई धेहेप्पिणु ।
पंच वि संणाणइं संचित्तिवि ।
पंचहिं पंडवेहिं तउं लइयउ । 5
रायमईहि पासि णिकंखंतउ ।
अच्चुयकप्पि ताउ उप्पण्णउ ।
सिज्झिहिति कम्माइं महेप्पिणु ।

20

सिद्धवरिद्धंसणिट्ठाणिट्ठिय
भार्यणेउ कुरुणाहइ केरउ
तेण दिद्ध ते तहिं अवमाणिय
कडयमउडकुंडलइं सुरत्तइं
तणुपलरसवसलोहियहरणइं
खमभावेण विवज्जियदुक्खइ
णियसरीरु जरतणु व गणेप्पिणु
णउल्लु महामुणि सहएउ वि मुउ

घत्ता—मिच्छत्तु जडत्तणु णिइलवि वेंतु बोहि दिहिगारा ॥

पंडवमुणि जणैमणतिमिरहर महुं पसियंतु भडारा ॥ २० ॥ 10

तहिं आयावणजोयपरिट्ठिय ।
पावयम्मू दुज्जणु विवरेरउ ।
चउदिसु साहणेण संदाणिय ।
कडिसुत्ताइं हुयासणतत्तइं । 5
रिसि परिहाविय लोहाहरणइं ।
तव सुय भीमज्जेण गय मोक्खइ ।
अरिविरइउ उवसग्गु सहेप्पिणु ।
पंचाणुत्तारि अहमीसरु इउ ।

19 १ P °वलित्तए. २ S °दारावइं. ३ AP पिहेप्पिणु; Als. वहेप्पिणु. ४ B दिहिप. ५ AP णियंत्तिवि. ६ A वउ. ७ PAls. दुवय°. ८ A सुह°; P सुव°. ९ APAls. संतउ. १० A णिकिखत्तउ; B णिकंखंतउ. ११ A पुव्वतवेण. १२ P °संपण्णउ. १३ BS सुतत्तणु.

20 १ PAls. °सुणिट्ठा°. २ A आवणजोएण; S आयावणजोए. ३ P भाइणेउ. ४ B सुतत्तइं. ५ B भीमज्ज. ६ S सहएउ. ७ S omits मण.

19 1 a रयणावलियंतइ हे रत्नमालाकाम्ते. 3 b वहेप्पिणु हस्वा. 4 a दिहीइ संतोपेण 5 a °परियरु परिकरः. 6 a सुयसत्तउ श्रुतासक्ताः. 7 a पुण्णसंपुण्णउ पुण्यसंपूर्णाः सत्यः.

20 1 a °सणिट्ठ° स्वनिष्ठया चारित्रेण; b आयावणजोयपरिट्ठिय आतापनयोने स्थिताः. 2 a कुरुणाहइ दुर्योधनस्य. 6 b तव सुय तव पुत्रा युधिष्ठिरादयः.

21

छहसयाइं णवणवइ य वरिसइं
महि विहरेप्पिणु मयणवियारउ
पंडियपंडियमरणपयासें
तवतावोहामियमयरद्धउ
आसाढहु मासहु सियपक्खइ
पुव्वरत्ति भत्तामरपुज्जिउ
पयहु धम्मतिथि पवहंतइ
बंभमहामहिणाहहु णंदणु
बंभयत्तु णामे चक्केसरु
वैण्णे तत्तकणयवणुज्जलु
सत्तसयाइं समाहं जिएप्पिणु
गउ मुउ कालहु को वि ण चुक्कइ
इय जाणिवि चारित्तपविसइ

णवमासाइं अवरु चउदिवसइं ।
गउ उज्जंतहु गेमि भडारउ ।
मासमेसु थिउ जोयग्भासें ।
पंचसपहिं रिसिहिं सहै सिद्धउ । 5
सत्तमिवासरि चित्तारिक्खइ ।
गेमि सुहाइं देउ मलवज्जिउ ।
णिसुणहिं सेणिय कालि गलंतइ ।
चूलादेविहिं णयणाणंदणु ।
संजायउ जगजलरुहणेसरु ।
सत्तचावपरिमाणुं महाबलु । 10
छक्खंड वि मेइणि भुंजेप्पिणु ।
सक्कु वि खयकालहु णउ सर्कइ ।
संतहु सत्तुमिंसंसमांचेत्तहु ।

घत्ता—सुविहिहिं अरुहहु तित्थंकरहु धम्मचक्कणेमिहिं वरइं ॥
संभरइं पुष्पयंतहु पयइं विविहजम्मंतमसमहरइं ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
महाभवभरहाणुमणिए महाकव्वे गेमिणाहणिव्वाणगमणं
णाम दुणउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९२ ॥

गेमिजिणं णवमबलएवबलहइ वासुएवकण्ह पडिवासुएवर्जरसंध
वारहमचक्कवट्टिबभइयत्त एतच्चरियं समत्तं ॥

21 १ AP °सयाइं वरिसइं णवणउयइं; S णवउयइं वरि°; Als. णवणउयइं वरिसइं.
२ APS उज्जंतहो. ३ P सहं. ४ S पुव्वरत्त. ५ A reads *b* as *a* and *a* as *b*. ७ AP
जीवेप्पिणु. ८ A चुक्कइ. ९ P सत्त°. १० BP °मित्तु. ११ P संभरहु. १२ A °जम्मभवसमहरइं;
BSAls. °जम्मभवसमहरइं; P °जम्मसमहरइं. १३ A adds: बंभदत्तचक्कवट्टिकइंतरं. १४ AS
दुणवदिमो. १५ A omits this पुष्पिका. १६ B जरासंधु; S जरसेंधु.

21 4 *a* °तावोहामियमयरद्धउ तायेन तिरस्कृतकामः. 6 *a* पुव्वरत्ति पूर्वरात्रे
11 *a* जि ए प्पिणु जीवित्वा. 14 सुविहिहिं सुण्डु चारित्रस्य यथाख्यातलक्षणस्य.

पणवेपिणु पासु णियसुकइत्तु पयासमि ॥
णासियपसुपासु तासु जि चरिउं समासमि ॥ ध्रुवकं ॥

मुक्का जेण खमावई	तवसासस्स खमावई ।	
रइया जो विमहावई	संजाओ पमहावई ।	
सुरहियदिच्चक्काणणं	जो संपत्तो काणणं ।	5
सोढुं खरकिरेणावयं	सैवउं पि हु किर णायवं ।	
मोत्तुं जो गिरिधीरओ	थिउं उवसमधीरओ ।	
जस्स रिऊ असुरो अही	उवयारी सुयणो अही ।	
जो दोणहं पि समंजसो	वुद्धो जेण समं जसो ।	
णाणं जस्सुप्पणयं	खुहियणरामरपणयं ।	10
जेणुवसग्गा विसहिया	णाइंदाणी विसहिया ।	
जस्स णया पोमावई	भुवणत्तयपोमावई ।	
एक्कवायचप्पियरसा	अमुणियपरमागमरसा ।	
सिर्वदिक्खाकंतावसा	जं वट्टुणं तावसा ।	
जस्स धम्ममगं गया	उज्झियमिच्छासंगया ।	15
भणिमो तस्स विचित्तयं	काउं सुद्धं चित्तयं ।	
दिव्वं दुक्कियरित्तयं	पासजिणस्स चरित्तयं ।	

घत्ता—ईह जंबूदीवि भरहि सुरम्मंउं सुहयरु ॥

जणवउ दाणालु करि व रायढोइयरु ॥ १ ॥

1 १ णियसुकयवु; P णिययकइत्तु. २ णासियवसु°. ३ APT किरणायवं. ४ A सवओ; P सुवउं. ५ AP थक्कउ. ६ A वूढो; P रूढो; T वूढो. ७ A एक्कपाय°. ८ A सिवकंतादिक्खावया. ९ A इय. १० A सुरम्मउ हयरु.

1 2 णा सि य प सु पा सु नाशितप्राणिकर्मबन्धः. 3 a ख मा व ई क्षितिपतयः सामन्ताः; b त व सा स स्स ख मा व ई तपोधान्यस्य क्षमावृत्तिर्येन रचिता. 4 a वि म हा व ई यो विगतमहापदः b प म हा व ई प्रकृष्टमहाव्रती. 5 a सुर हि ये त्या दि सुरमितदिक्कसमूहमुखं वनं प्राप्तः. 6 a ख र कि र णा व यं खरकिरणस्य आदित्यस्य आपद्; b स व उं पि निजवपुरपि; हु निश्चयेन; किर किल; णा य वं व्रतानुष्ठानादि न्यायपालकम्. 7 b उ व स म धी र ओ विशिष्टोपद्यमबुद्धिरतः. 8 a असुरो अ ही कमठः अबुद्धिः; b अ ही धरणेन्द्रः. 9 b जे ण स मं ज सो येन भगवता सह यशो पि वृद्धिं गतम्. 11 a वि स हि या विशेषेण सोढाः; b णा इं दा णी धरणेन्द्रभार्या; वि स हि या वृषे धर्मे हिता सती नतेत्युत्तरेणान्वयः. 12 b भु व ण त्त य पो मा-व ई भुवनत्रयस्य लक्ष्मीपतयश्च नताः. 13 a ए क्क वा य ° ए क्क पा दे न; ° र सा भूमिः. 14 a सि व दि क्खा-कं ता व सा रुद्रदीक्षा सैव स्त्री तत्र रताः; ऋषिपत्नीरता वा. 16 b चि त्त यं चित्तम्. 17 a दु क्किय-रि त्त यं दुःकृतरिकं पापरहितमित्यर्थः. 18 सु ह य रु शुभकरः. 19 ज ण व उ देशः; दा णा लु दानयुक्तः.

कणभरियकणिसकरिसण पगाम
 जहिं जणु अरोसुं संपणैकामु
 जहिं ढेकरंत पवहंत धवल
 जहिं गोउलाइं मणरंजणाइं
 जहिं दुद्धइं घणसाहालयाइं
 जहिं कणयकंजार्कैजक्करेणु
 जहिं गामासण्णाहिं संचरंति
 सलिलेण काइं पिज्जइ पवासु
 माहिसियवंसरवादिण्णकण्ण
 मिगइं वि भक्खंति ण कणैविसेसु

सुहभूयगाम जहिं विउलैराम ।
 सोहँगेँ रुवें जित्तकामु ।
 घरकामिणीहिं गिज्जंत धवल ।
 णवणीयभरियबहुँरंजणाइं ।
 णंदणवणइं वि साहालयाइं । 5
 णियसिरि धिवंति मत्ता करेणु ।
 कलविक कलमछेत्तहिं चरंति ।
 पंडुच्छहिं रसु पसमियपवासु ।
 जहिं भुंगइं ण वारइ हलियकण्ण ।
 जहिं सब्बु सुसुत्थिउ णिल्लैं सेसु । 10

घत्ता—तहिं पोयणणौसु णयरु अत्थि वित्थिण्णउं ॥

सुरलोपं णाइ धैरिणिहि पाहुहु दिण्णउं ॥ २ ॥

कारंडहंसकयणीसणाइं
 जहिं सरि सरि णिरु मिट्ठइं पयाइं
 जहिं सकुसुमदुमजणियाहिलास
 भक्खंतहं रससोक्खुज्जलाइं
 वेल्लीहराइं जहिं सुरहियाइं

जहिं सुरतरुछण्णइं उववणाइं ।
 णं कइकयाइं सरसइं पयाइं ।
 णं मयरद्धयपहरणणियास ।
 जहिं फलइं णाइं सुक्कियफलाइं ।
 कीलासयवहुवरसुरहियाइं । 5

2 १ A विउलगाम. २ AP अरोउ. ३ P संपुण्ण°. ४ A हो संगेँ रुवें जित्तकण्णु;
 P omits this foot. ५ AP ढेकरंति. ६ AP गिज्जंति. ७ A महुरंजणाइं. ८ A कलवछेत्तहिं.
 ९ A reads this line as: सलिलेण काइं गिज्जइ पवासु, पंडुच्छुहि रसु यप समियपवासु; P reads
 it as: पंडुच्छुहेर सुपसमियपवासु, सलिलेण काइं छिज्जइ पवासु. १० AP मिगइं. ११ A तिणविसेसु.
 १२ A जणवउ असेसु. १३ AP पोयणु णाम. १४ AP धरणिहे.

3 १ AP सुकुसुम°. २ A कीलासुरवरवहुवरहियाइं; P कीलासयवहुवर°.

2 1 a पगाम प्रकामम्; b सुहभूयगाम शुभप्राणिसमूहः; °राम आरामाः. 3 a धवल
 वृषभाः. 4 b °रंजणाइं जलभाजनानि अलंजलाः. 5 a घणसाहालयाइं बहुलतरिकयुक्तानि.
 6 a कणय° पीतवर्गः; b णियसिरि निजमस्तके. 7 b कलविक चटकाः. 8 a पवासु प्रपासु;
 b पंडुच्छहिं पुण्ड्रेक्षुणाम्; पसमियपवासु प्रशमितमार्गश्रमः 9 a माहिसियवंस° गोपानां वेणुः वंशः;
 b हलियकण्ण कर्षकभार्यो. 10 a कणविसेसु धान्यमपि न भक्षयन्ति गीतमोहात्; b णिल्लइ यहे.

3 1 a °णीसणाइं शब्दानि; b सुरतरु° कल्पवृक्षाः. 2 a सरि सरि सरसि सरसि; पयाइं
 जलानि; b पयाइं काव्यचरणाः. 5 b कीलासयेत्यादि क्रोडाशयानि बधूराणि सुब्बु प्रच्छादितानि यैः.

णिष्णं चिय लक्ष्मणमाणियाउ
विमलाउ सपोमउ सोहियाउ
परिहाउ तिण्णि पाणिउं वहंति
जहिं विविहरयणदितीविचित्तु

गहिराउ ससीयउ माणियाउ ।
णं रहुवइवित्तिउ दीहियाउ ।
जहिं णं णिवदासित्तणु कहंति ।
पायारु दुग्गु णं सइहि चित्तु ।

घत्ता—जहिं घरसिरविंधु सिहरकलसि परिघोलइ ॥

10

सिचहुं णियवंसु णावइ सलिलु णिहालइ ॥ ३ ॥

4

जहिं इंदणीलकंतीविहिण्णु
जहिं पोमरायमाणिक्कादित्ति
सम सोहइ महिय थणत्थलीहिं
जहिं णिवडियभूसणफुरियमग्गु
जहिं लोयग्गित्ततंबोलराउ
जहिं बहलधवलकप्पूरधूलि
सामंत मंति भड भुंत्तभोय
जहिं चंदकंतेणिज्झरजलाइं
सोहग्गरुवलायणवंत
जहिं खत्तिय थिये णं खत्तधम्म
जहिं वइस पवर वइसवणसरिस
सुइ वि विसुद्धमग्गाणुगामि

णउ णज्जइ कज्जलु णयाणि दिण्णु ।
उच्छलइ ण दीसइ घुसिणलित्ति ।
जहिं रंगावलि हारावलीहिं ।
हरिलालाकरिमयपंकदुग्गु ।
बुइइ कुंकुमचिक्खल्लि पाउ । 5
कुसुमावलिपरिमलविलुलियालि ।
जहिं पंति जंति णायरिय लोय ।
पवहंति सुसीयइं णिम्मलाइं ।
जहिं णर सयल वि णं रइहि कंत ।
जहिं बंभण विरइयबंभयम्म । 10
वण्णत्तयपेसणजणियहरिस ।
तहिं राउ वसइ चउवण्णसामि ।

घत्ता—अरिविंदकयंतु परवहुविंदहं दुल्लहु ॥

णामे अरिविंदु अरविंदालयवल्लहु ॥ ४ ॥

३ A रहुवइचितादीहियाउ; P रहुवइवित्तिउ. ४ A जहिं णं णिवदासित्तणु कहंति; P जहिं णिवदासित्तणु णं करंति. ५ A सइहि.

4 १ A बुइउ. २ A भुत्तिभोय. ३ A चंदकंति°. ४ A णं थिय. ५ A अरि°.

6 a लक्ष्मण° लक्ष्मणो रामभ्राता, पक्षे सारसः. 7 a विमलाउ निर्मलाः निर्मलापक्ष; b रहुवइ-
वित्तिउ रामस्य वृत्तयः इव; दीहियाउ दीर्घिकाः सरांसि. 9 b सइहि सत्याः.

4 1 a° विहिण्णु° विभिन्नम्; b णज्जइ शयते. 2 b° लित्ति विलेपनम्. 3 a सम सोहइ
रङ्गावली हारावलीभिः सह शोभते; महिय° पूज्यस्त्री. 4 b° करिमय° हस्तिमदः. 5 b° चिक्खल्लि
कर्दमे. 10 b° बंभयम्म यजनादिषट्कर्माणि. 11 a वइस वैश्याः. 13 अरिविंदकयंतु शत्रुसमूहस्य
यमः. 14 अरविंदालय° लक्ष्मीः.

दाणेण जासु णउ णीस संति
 भुंजंति फलई काणणि वसंति
 पुण्णेण जासु महि पिक्कसास
 भिच्चयणहं पूरिय जेण सास
 तमजालकाल पायालवास
 बज्झंति धरिवि परिचत्तमाण
 जयसिरि णिवसइ जसु दीहदोसु
 सिरिपरगमणोत्तिउ जेण कोसु
 मायंग जासु धरि बद्धरयण
 तहु मंति विष्पु माणियविहइ

रिउ जासु भएण जि णीससंति ।
 सिहिपिंछइं तरुपल्लव वसंति ।
 कुंसधाविर अविघल्लियकसास ।
 बीहंति जासु विसहर विसासं ।
 रणि संक वहंति सुहालवास । 5
 मंडलिय जासु मंडलसमाण ।
 दंडेण जेण उवसमिउ दोसु ।
 णायज्जियदब्बे भरिउ कोसु ।
 णाणारयणायरदिण्णरयण ।
 णामेण पसिद्धउ विस्सभूइ । 10

घत्ता—पिय बंभणि तासु गुणतरुधरणि अणुंधरि ॥
 पइवय पइभत्त पइरइरसिय जुयंधरि ॥ ५ ॥

6

तहि पढमपुत्तु णामेण केमदु
 वंकगइ कुमइ णं भीमु सप्पु
 बीयउ मरुभूइ महाणुभाउ
 अक्खरवंतउ णं परममोक्खु
 जेट्टहु घरुणारुणकमलपाणि

कयवेयघोसु णं विउल्लु केमदु ।
 छिइण्णेसिउ उव्वूढदप्पु ।
 णं सुरगुरु गुरुबुद्धीणिहाउ ।
 सुरघरकुंडु व चित्तेण चोक्खु ।
 अणुयहु वि वसुंधरि सोक्खखाणि । 5

5 १ A सिरिपिंछइं. २ A कुसवारि रयवि. ३ P ०कुसास.

6 १ A कमदु; P कमदु. २ P कमदु. ३ A सुरगुरु बुद्धीणि जसणिहाउ; P सुरवरगुरु बुद्धीणिहाउ. ४ A अक्खरमत्तउ. ५ A सुरघरकुंडुवि; P सुरघरकुंडु व.

5 1 a णीस दरिद्राः; b णीससंति दीर्घनिश्वासं मुञ्चन्ति. 2 b सि हि पिं छ इं मयूरपिच्छानि; वसंति आच्छादयन्ति. 3 a पिक्कसास पक्कधान्या; b कुस० वला कविका; अविघल्लियकसास न चर्मयष्टिहता अश्वा यस्य. 4 a सास स्ववाञ्छा; b विसास विषमुखाः. 5 a तमजालकाल तमःसमूहवत्कृष्णाः; b सुहालवास सुधालेशभोजना अमृतलवभक्षकाः. 6 b मंडल० श्वानः. 7 a दीहदोसु प्रलम्बहस्तयोः. 8 a सिरीत्यादि परगृहगमननिमित्तं दत्तं येन कोशपानं लक्ष्म्याः, परगृहं मा गच्छ इत्यर्थः. 9 a बद्धरयण बद्धरदना दन्ताः गजाः; b रयणायर० रत्नानां आकराः खनयः. 12 पइरइरसिय पतिरतौ रसिका; जुयंधरि धुरंधरा प्रधानेत्यर्थः.

6 1 b ०वेय० वेदो वेगो रयो वा; कमदु कस्य ब्राह्मणस्य मठ इव; कच्छपो वा कृतवेगेन शब्दः. 4 a अक्खरवंतउ विद्वान्, पक्षे अक्षराः सिद्धा; b ०कुडु मित्तिः. 5 a अरुणकमलपाणि कमलवत् कोमलहस्ता; b अणुयहु अनुजस्य.

जायउ दोहिं मि दो गोहिणीउ
कालें जंतें रहरत्तएण
मत्तेण व करिणा विंझकरिणि
कमठेण सठेण गणिवि सुहिणि

णं कामरसार्यणवाहिणीउ ।
दुस्सीलें पेम्मुंमत्तएण ।
अवलोइय लहुभायरहु धरिणि ।
बहुदुंक्खजोणि णं णरयकुहिणि ।

घत्ता—दोयवि तंबोलु णहमणिकिरणहिं फुंरियउ ॥
करपल्लवु ताहि तेण हसंतें धरियउ ॥ ६ ॥

10

7

आलगाउ खणि खणि णिरु पयंह
दरिसाविय कामें रायकेलि
तहु मणुं सिंदु व पैरिघुलिउ ताम
सो कीलइ रीणउ केंव जियइ
वीसमइ णियंबत्थलि णिसणु
कंठगहकेसगहणिरुद्ध
मरुभूपं वम्महभूयणडिउ
विण्णविउ णरिंदहु भायरेण
रापं पेसिय वहरावहारि
निग्गुणुं णिग्घिणु परिगलियमाणु

चलु कुसुमबाणचोवाणदंह ।
लंघिवि ऊरुजुयवाहियालि ।
उत्तुंगपीणर्येणलाणि जाम ।
णं विंबाहररसपाणु पियइ ।
दरमम्मणमणियहं देइ कणु ।
कहिं जियइ पाउ पावेण खड्डुं ।
सइ दिट्टउं सुरयगइंदि चडिउ ।
जिह लइयउं कलत्तु सहोयेण ।
किंकर करालकरवालधारि ।
सो परवंहुए सहं कीलमाणु ।

5

10

घत्ता—मंदिरु जापवि णिम्भररमणरसंतेंरियउ ॥
जमदूयसमेहिं पंक्कलपाइकहिं धंरियउ ॥ ७ ॥

६ A कामसरायणभोयणीउ. ७ A पेमुपमत्तएण. ८ P कमठेण सठेण. ९ A संठेण. १० P बहु-
दुक्खणिरंतर णरयकुहिणि. ११ AP विष्फुरियउ.

7 १ A कालें. २ AP मणसैंदुओ. ३ A धरिणुलिउ. ४ AP °थणिलाणि. ५ AP add
after this the following four lines: विरुअउ देक्खेवि आयरणु तामु, वरुणाइ कहिउ
णियदेवरासु । तउ भायरु तुह धरिणीइ रत्तु, पत्तिजइ महु फुद्ध वयणु वुत्तु । तं णिसुणेवि देवरु सच्चबंधु
(A सच्चबंधु), कि एहउ जं आयरइ (A एहउ कि आयरइ) बंधु । महिलाउ सुद्ध विरएति एउ,
बंधुहि मि परोप्परु करहि भेउ (A कहिउ भेउ). ६ A दिट्टउ देविहे देहचडिउ; P दिट्टउ सुरयगइं
चडिउ. ७ AP लइउं. ८ A कठोरकरवालधारि; P करवालकरालधारि. ९ P परवहुयए. १० AP
°रसंतरिउ. ११ A फलपाइकहिं; P पक्खलपायकहिं. १२ AP धरिउ.

6 b °रसायण° सुधा. 9 a सुहिणि सुद्धदा. 10 दोयवि दत्त्वा.

7 1 b कुसुमबाणचोवाणदंह कामबाणा एव चतुष्क्रीडादण्डः. 3 a सिंदुव कन्दुक इव;
b °लाणि मर्यादा. 4 a रीणउ भ्रान्तः. 7 a °भूय° पिशाचेन; b सुरयगइंदि सुरतगजेन्द्रे.
11 °रमण° क्रीडा. 12 पक्कल° प्रगल्भैः.

8

आणेपिपणुं दाविउ पत्थिवासु
 छुरयम्मं मुंडिउं सीसु तासु
 कउ विल्लिबंधु सिरि सहइ मुक्खु
 आरोहिउ गह्हि खुइभाउ
 को गायउ तहु किर ढक्कराउ
 पडहें वज्जंतं विगयधम्मु

तें णिदिउ खल तुहुं मंति कासु ।
 अहिमाणु व फेडिउ केसवासु ।
 णं वीसइ फलियउ पावरुक्खु ।
 पुरि भामिउ णं णारयहु राउ ।
 मत्थइ पडियउ जणेटक्कराउ ।
 णीसारिवि घल्लिउ पावयम्मु ।

घत्ता—णासइ कुलु सीलु परमधम्मु जसैंकित्तणु ॥
 उज्झउ परयारु दुग्गइगमणपवत्तणु ॥ ८ ॥

उव्वेइउ गउ काणणहु जारु
 गिरिकंदरि णिज्जरसलिलहारु
 तं दिट्ठु तेण सरकमलवयणु
 तं दिट्ठु तेण भुयवत्तचेलु
 तं दिट्ठु तेण महुघुसिणगिल्लु
 तं दिट्ठु तेण थियरसविसेसु
 तं दिट्ठु तेण महिघाउरत्तु
 तहिं तावसकुलु हरचरणभत्तु

तं दिट्ठु तेण साहारसारु ।
 तं दिट्ठु तेण णवतिलयचारु ।
 लीलालोइर मिगणयणणयणु ।
 धरणीहरकडयावलिकरालु ।
 करिकुंभत्थलथणमणहरिल्लु । 5
 सोहिल्लमोरपिंछोहकेसु ।
 तं दिट्ठु तेण णं परकलत्तु ।
 दिट्ठउ दूसहतवतावतत्तु ।

घत्ता—वज्जरियसडंगु चउविहवेयवियारणु ॥
 रुहंकुसविंधु वारियवम्मंहवारणु ॥ ९ ॥

10

8 १ A आणेविणु. २ A वेळुबंधु; P विल्लिबंधु. ३ AP णारयहं. ४ A टक्कराउ.
 ५ P °ढक्कराउ. ६ A पावकम्म. ७ A जगे कित्तणु.

9 १ AP °कंदर°. २ A °लोलिर°; P °लोइय. ३ A °धारउत्तु. ४ A वासवकुलहर°;
 P तावसकुल हर°. ५ A °धम्महं वारणु.

8 1 b तें तेन राशा. 2 a छुरयम्मं क्षुरकर्मणा नापितेन; b केसवासु केशपादाः.
 3 a विल्लबंधु सिरि मस्तके विल्वबन्धः; सहइ शोभते. 5 a ढक्कराउ ढक्का.

9 1 a उव्वेइउ उद्विमः; b तं वनं परकलत्रमिव दृष्टम्; साहारसारु उत्तमांनं, पक्षे
 लक्ष्मीभारः. 4 a भुयवत्तचेलु हस्तवक्त्रवक्त्रम्, पक्षे भूर्जपत्राप्येव चेलानि; b °कडयावलि°
 कङ्कणानां पंक्तिः, पक्षे गिरिनितम्बः. 5 a महु पुष्परसः. 6 a थियरस° पानीयं शृङ्गारादिभ्यः;
 b °पिंछोह° पक्षसमूहः. 7 a °धाउ° धातुः गेरुप्रमुखः. 8 a हर° रुद्रः. 10 °वारणु गजः.

10

अण्णत्थ अहोमुहपीयधूसु
 अण्णत्थ णिहियकुसपूलणीलु
 अण्णत्थ वलियमेहलगुणालु
 अण्णत्थ पभक्खियतोयवाउ
 अण्णत्थ परिट्टियपक्कपाउ
 अण्णत्थ पुसियपालियकुरंगु
 अण्णत्थ तवइ कयउद्धहत्थु
 अण्णत्थालाविणिसहमंजु
 अण्णत्थ पत्तसंचयसमेउ
 अण्णत्थ विचिंतियरुहजाउ
 अण्णत्थ धूलिउद्धलियण
 अण्णत्थ ण्हंतु वंदंतु संझ

अण्णत्थ होमधूमोहसामु ।
 अण्णत्थ सुपोसियबालपीलु ।
 अण्णत्थ गुत्थं वक्कलविसालु ।
 अण्णत्थ सहियपंचग्गिताउ ।
 अण्णत्थुववासहिं खीणकाउ । 5
 अण्णत्थ चिण्णचंदायणुग्गु ।
 अण्णत्थ संतिघोसणसमत्थु ।
 अण्णत्थ पउंजियछारपुंजु ।
 अण्णत्थ गीयगंधारगेउ ।
 गायंति जांव संणिहियभाउ ।
 कैरि मणिमयवलएं चालिएण ।
 सोहइ भरंतु मंत वि दुसज्झ ।

घत्ता—तहिं तावसणाहु दिट्टउ तेण दुरासैं ॥

पणामिउ सीसेण मुक्कदीहणीसासैं ॥ १०

11

सिवमंत्थु भणिवि सिवतावसेण
 दीसहि बहुपुण्णाहिउ महंतु
 भणु भणु किं दुक्खें दुत्थिओ सि
 दप्पिट्टु दुट्टु खलु पावरासि
 पोयणपुरवरि अरविंदु राउ
 खुहें दाइज्जे भायरेण

ता सो परिपुच्छिउ तावसेण ।
 भणु भणु किं आयउ णीससंतु ।
 तुह केण हओ सि गलत्थिओ सि ।
 तं णिसुणिवि भासइ अलियभासि ।
 हउं तासु मंति ववगयविसाउ ।
 मरुभूपं गुरुवइरायणेण ।

10 १ A होममुह^०. २ AP ^०चंदायणंगु. २ A वत्थवक्कल^०. ३ AP ^०घोसणपसत्थु.
 ४ AP ^०लावणि^०. ५ A करमणिवयवलसंचालिएण; P करमणिमयवलएं चालिएण.

11 १ AP सिवसत्थु.

10 1 a अ होमुह^० अधोमुखाः; b ^०सामु श्यामवर्णः. 2 a कुसपूल^० दर्भपुञ्जः.
 3 a व लिय^० वेष्टिता; ^०मेहल^० मेखला योगपट्टश्च; b गुत्थवक्कल^० गुम्फितं वक्कलम्. 5 b ^०उव-
 वासहि उपवासैः. 6 a पुसिय^० स्पृष्टः; b ^०चंदायणुग्गु उग्रं चान्द्रायणं तपः. 8 a ^०आलाविणि^०
 वीणा; b ^०छारपुंजु भस्मसमूहः. 9 a पत्तसंचय^० पत्राणां संचयः समूहः. 10 a ^०रुहजाउ रुद्रजपः
 (रुद्रयागः). 11 b मणि मयवलएं जपमालया. 12 b भरंतु स्मरन्; दुसज्झ कष्टसाध्याः.

11 1 b तावसेण कमठतापनाशकेन. 4 b अलियभासि असत्यभाषी. 5 b ववगय-
 विसाउ व्यपगतविषादः. 6 a दाइज्जे शत्रुणा; b ^०वइरायरेण वैरस्य आकरेण.

महुं सिरि णे सहंतें करिवि रोसु
णीसारहु मारहु एहुं वज्जु
रापण वि तेण वि पेरिपण
धम्मिल्लि धरिवि अच्छेडिओ मि
विम्भाडिउ धाडिउ पट्टणाउ
एवहिं लग्गउ परलोयसिक्ख

अलियउं जि देवि^३ परयारवोसु ।
रोसाविउ लाविउ राउं मज्जु ।
हउं किंकरलोपं वइरिपण ।
करमुट्टिहिं लट्टिहिं ताडिओ मि । 10
अमरु व वरभमरु व सुरर्वणाउ ।
दे देहि भडारा सइवदिक्ख ।

घत्ता—चप्पिवि जडभारु हरतवलच्छिइ मंडिउं ॥
सो गुरुणा सीसु भूर्इरयंभुरुकुंडिउ ॥ ११ ॥

12

जिह सिरि सजंडु
जिह सरइ हरु
जिह संभरइ
जिह गत्तरयं
णिच्चं धरइ
जिह कोवणिओ
कहुंइ छुरियं
धियमेहलओ
सो तावसओ
जा तहिं वसइ
पत्तं असइ

तिह हियइ जडु ।
तिह विरइहरु ।
तिह संभरइ ।
तिह चित्तरयं ।
पावंधरइ ।
तिह को वणिओ ।
जुइविच्छुरियं ।
सुसमेहलओ ।
दुक्कियवसओ ।
वक्कल वसइ ।
बुद्धी असइ ।

5

10

२ A णहसंणै; P असहंतें. ३ A देव. ४ A एउ वज्जु; P एहु विवक्खु. ५ A रायज्जु (?); P रायपक्खु. ६ A अत्थोडिओ सि. ७ A ताडिओ सि. ८ AB सुवरणाउ. ९ A सेवदिक्ख. १० AP मंडियउ. ११ AP भूर्इरयसुरु कुंडियउ.

12 १ A सजडु. २ A संचरइ. ३ A पावे धरइ. ४ A वडुइ. ५ P पहविच्छुरियं. ६ A वक्कं.

7 a सिरि लक्ष्मीम्; b दे वि दत्त्वा. 8 b ला विउ प्रेरितः. 11 b अमरु व देववत्. 12 b सइ व-
दिक्ख शैवदीक्षाम्. 13 जडभारु जटाभारः. 14 °भुरुकुं डिउ उद्वलितः चंचितः.

12 1 a सजडु सह जटया वर्तते. 2 a सरइ हरु हरं स्मरति; b तिह विरइहरु तथा
विशिष्टरतिग्रहं च स्मरति. 3 a संभरइ ईश्वरे (साम्बे) रतिः; b संभरइ स्वात्मानं पोषयति.
4 a गत्तरयं शरीरे धूलिः; b चित्तरयं मनः पापं धरति. 5 b पावंधरइ पापान्धेषु रतिर्यस्य.
6 a को वणिओ कौपीनयुक्ताः; b को वणिओ क्रोधी. 7 b जुइ° द्युतिः. 8 a धियमेहलओ
धृतयोगपट्टः; b सुसमेहलओ शोभना समेहा ईहा तस्या लयो विनाशो यस्य. 10 b वक्कल वसइ
वक्कलं परिदधाति. 11 a असइ अश्नाति; b असइ अशोभना.

बुद्धिं विगया
वसुमाणमया
काणणवसही
करुणा परमा
लब्भइ जइणा
भासंति वहं

बहुभावगया ।
किं हा समया ।
जइ णत्थि सही ।
ता किं परमा ।
एवं जइणा ।
जगंसतिवहं ।

15

धत्ता—तावेत्तहि तेण कंचणाणिम्मियगोउरि ॥
मरुभूयं राउ परिपुच्छिउ पोयणपुरि ॥ १२ ॥

13

सो पभणइ णिसुणाहि देवदेव
खलमहिलहि कारणि णिग्घणेण
भायरु गरुयारउ पिउसमाणु
तं गंपि खमावमि करमि खंति
ता चवइ णाहु भो सच्छंभाव
किं पिसुणयणेण खमाविपण
इय वारिजंतु वि अणैकहंतु
ससहोयरु दिट्टउ तव करंतु
तुहुं खमहि खमहि बंधव भणंतु
हुउ मत्थइ विउलसिलायलेण
पांविज्जइ लच्छि अलच्छि जेण

रायाहिराय कयमणुयसेव ।
मइं णेहविहीणें^१ दुज्जणेण ।
णीसारिउ गउ वणु भग्गमाणु ।
खंतिइ चंडाल वि देव ह्वंति ।
किं भणिउं वण्ण पइं गलियगाव । 5
किं किर विसेण गुडभाविपण ।
गउ सो^२ तं काणणु गुणगणमहंतु ।
पंचग्गिताव दूसह सहंतु ।
पांवे पायहं उप्पारि पडंतु ।
गउ जीउ ण को मारिउ खलेणें । 10
दइवे णिज्जइ णिरु तेत्थु तेण ।

७ A को ण वणमही. ८ A omits जगंसतिवहं.

13 १ A ता. २ AP^० विहूणें. ३ A विग्गमाणु. ४ A चत्तभाव. ५ AP किं तें पिसुणेण खमाविपण. ६ AP गुल^०. ७ P अणुकहंतु. ८ A तं सो काणणु गुणमहंतु; P सो तं काणणु गुणमहंतु. ९ A खमहि मज्झु बंधव भणंतु. १० A भावे. ११ AP add after this the following three lines: लोलइ महियलि रुहिरावलित्तु, पुणु पुणु पहणइ सो कुद्वचित्तु । दय णत्थि अजइणहं तावसाहं, सकसायहं जडकंतावसाहं । बंधु वि वंति पावंधवुद्धि, कह होइ ताहं परलोयसुद्धि. १२ P reads *a* as *b* and *b* as *a*. १३ A णरु णिज्जइ; P णिरु णिज्जइ.

12 *a* वियया विशेषेण गता; *b* बहुभावगया अनेकचित्तपरिणामस्थिता. 13 *a* वसुमाणमया द्रव्यदर्पमयी; *b* हा कष्टम्; समया मृगसहिता. 14 *b*-17 *a* जइं त्यादि यद्युत्कृष्टा करुणा सखी नास्ति तदा किं परमा प्रकृष्टा लक्ष्मीः यतिना लभ्यते, एवं जैना भाषन्ते. 17 *a*^० वहं मार्गम्; *b* जगसंतिवहं जगतां सुखमार्गम्.

13 3 *b* भग्गमाणु मानभङ्गं प्रातः. 6 *b* गुडभाविपण गुडवासितेन, गुडमिश्रेण. 7 *a* अणुकहंतु अवदन्. 11 *a* जेण कर्मणा भवितव्येन; *b* णिज्जइ नीयते.

घत्ता—उचयहरि मुपधि भापम्भारविणासहु ॥

जाणंतु वि जाइ रवि अत्यर्षेणपपसहु ॥ १३ ॥

14

अल्लपहुल्लियवेल्लिजालि
महिरुहल्लाइयदिच्चकवाल्लि
गिरिसिहरकुहरककरकरालि
पविउलखुज्जयमलयंतरालि
मरुभूह मरिवि कयज्ञाणदोसु
जा वरुणा णामे कमेढघरिणि
करु करहु देइ सरु सरहु धिवेइ
संघट्टइ अंगे अंगु तेव

तणजाललग्गदावग्गिजालि ।
सूररहयवणयरचकवाल्लि ।
पविमेलमाणिकसिलाकरालि ।
सल्लइवाणि तुंगतमालतालि ।
हुउ कुंजरु णामे वज्जघोसु ।
सा इई तहिं तहु इट्टकरिणि ।
हत्येण कुक्खिक्कखंतु छिवइ ।
मयगलहु पवइइ पेम्मु जेव ।

5

घत्ता—घट्टियणेहाइं मयणणिमीलियणेत्तइं ॥

बिण्णि वि कीलंति मेहुणकील करंतइं ॥ १४ ॥

10

15

घणगज्जियसइहु णहु णियंतु
पवलबल चवल पडिगय खलंतु
घलंतु देहि देवपंकपंसु
उल्लूरिवि किसलयकवल्लु लेंतु
अणवरयगलियकरडयलदाणु
हिमसीयरकरसीयर मुयंतु
दढदंतमुसलखयखोणिभाउ

गिरिवरभिच्छिउ दंतहिं हणंतु ।
सरवरि तरंतु कमलइं दलंतु ।
उड्ढावियतीरिणितीरहंसु ।
पियगणियारिहिं भिंसु करिहिं देंतु ।
काणणि णाणादुम भंजमाणु ।
णं अहिणवधाराहरु सरंतु ।
कंपवियविवरु रूसवियणाउ ।

5

१४ P अत्यहरिपपसहो.

14 १ A अणण्ण°. २ AP पविउल°. ३ AP कमठ°. ४ A देइ. ५ A कुक्खिक्ककरु.
६ P पवट्टइ. ७ AP मेहुणकीलइ रत्तइं.

15 १ AP दहपंकु. २ A सुरकरिहे देंतु. ३ A रूसविउ णाउ; P तूसवियणाउ.

12 उचयहरि उदयगिरिम्. 13 अत्यवणपपसहु अस्तमनप्रदेशस्य.

14 1 a अल्लल्ल° आद्रार्द्राः. 2 b सूररहयवण इत्यादि शूकरा हता येस्ते च ते वनचराश्च तेषां
चक्रं संघातस्तस्य पालके. 3 a °करालि भयानके; b °करालि किरणयुक्ते. 4 a °खुज्जय° निम्नोन्नत-
प्रदेशः. 5 a कयज्ञाणदोसु आर्तभ्यानयुक्तः. 8 a सरु जलं शब्दश्च.

15 1 a णहु णियंतु आकाशं पश्यन्. 2 a पडिगय प्रतिगजान्. 3 a दव° जलम्.
4 b भिंसु पद्मिनीकन्दः. 6 b °धाराहरु मेघः चन्द्रशाला वा. 7 b °विवरु पक्षिवरान्; °णाउ
गजः सर्पो वा.

गुसुगुसुगुमंतभमियालिर्विदु

णं जंगमु अंजणमद्विहरिदु ।

घत्ता—रणभरदु समत्यु दसणदिसिघवलासउ ॥

सो विंझगइंदु पुप्फयंतसंक्रासउ ॥ १५ ॥

10

इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिय
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मरुभूइकरिंदजम्मावयारो
णाम तिणवदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९३ ॥

४ AP तिणउदिमो.

9 आ स उ दिदाः. 10 पुप्फयंत° वायुकोणदिग्गजः.

मयमत्तउ मारणसीलु चलु मारइ जं जं पेच्छइ ॥
सहुं वरुणाकरिणिपरत्तमणु सो करिंदु तहिं अच्छइ ॥ ध्रुवकं ॥

1

जा तावेत्तहि पोयणपुरवरि अच्छतेण दिहु सियजलहरु एणायारें णयणाणंदिरु एव भणेप्पिणु कागणि लेप्पिणु ता तहिं तं सरुउ खणि णट्टुं अद्धुवु ध्रुवु ण किं पि संसारइ एव विचित्तिवि तणु वं वियप्पिवि णरवइ विरइयदुक्खियसंवरु	तेणरविंदणरिंदें णियघरि । तुंगासिहरु सोहरु णं जिणहरु । किजइ जयंवरुपडिमहं मंदिरु । 5 जा किर लिहइ राउ विहसेप्पिणु । अण्णु जि काइं वि पहुणा दिट्टुं । किं कीरइ किर मह रामारइ । माहिमंडलु णियसुयहु समप्पिवि । जायउ तक्खाणि देउ दियंबरु । 10
--	---

घत्ता—संमेयहु जंतु सो संपत्तउ भीसणु ॥
अणेक्कु समैत्थु सत्थवाहु सल्लइवणु ॥ १ ॥

2

लुड लुड उब्भियाइं वाणि दूसइं लुड लुड दीहरुपथें भग्गा लुड करहावलि चरहुं विमुक्खिय लुड जणवउ सधूसु वाणि उट्टिउं ता करडयलगलियबहुमयजलु तेण गइंदें मारणसीलें	हरियइं पीयइं चिंधविहुसइं । हय गय वसह चरेव्वइ लग्गा । लुड खयचुल्लिहिं सिहि संघुक्खिय । लुड जोइसरु जोइ परिट्टिउ । मयजललुलियचलियमहुयरउलु । 5 कलिकयंतकालौणलणीलें ।
---	---

1 १ A °करिणियरत्त°. २ AP ता एत्तहे. ३ A जिणवरु. ४ AP जइवइ°. ५ AP तहो°
६ A पवियप्पिवि. ७ P सुमत्थु. ८ A सत्थवाहि.

2 १ A जाणवमधूसु; P जणरओ सधूसु. २ A उट्टिय. ३ A कालाणलकीलें.

1 2 °परत्तमणु प्रक्तचित्तः. 4 a सियजलहरु श्वेतः शरत्कालमेघः. ५ b जयवइ
जगत्सतिर्जिनः. 8 रइ रतिः; रा मारइ स्त्रीरते. 10 a °दुक्खियसंवरु पापसंवरणम्.

2 2 b चरेव्वइ भक्षणे. 3 a करहावलि उष्ट्रसमूहः; b खयचुल्लिहिं खनितचुल्लीषु; सि हि
अग्निः. 4 a जणवउ सधूसु धूमयुक्तो लोकः; b जोइ योगे ध्याने.

हरि वंकमुहु विसाबलि विण्णउ
करहु उद्धमुहु फाडिवि छडिउं
णासमाण बहुमाणव मारिवि
विट्टुं विरइयधम्मणिओएं
धायउ जूरियकूरकयंतहिं

खर खरबुक्किर दंतहिं भिण्णउ ।
मुक्कु बलहु झ त्ति पविहांडिउ ।
एव सत्थु सयलु वि संघारिवि ।
रिसि संठिउ आयावणजोएं । 10
जा वच्छत्थलु पेल्लइ दंतिहिं ।

घत्ता—ता दिट्टउ तेण तहु उरयलि सिरिलंछणु ॥

सुयगिवि चिरजम्मु पंथहिं पडिउ उवसममणु ॥ २ ॥

3

मुणिणा धम्मबुद्धि पभणंतें
पंइ पावहु वि पावु णउं संकिउ
हिंसइ बप्प दुक्खु पाविज्जइ
हिंसइ होइ कुरूउ दुगंधउ
हिंसइ होइ जीउ दुहंसणु
भो भो गयवर हिंस पमेल्लहि
लइ सावयवयाइं परमत्थें
बंधणु होंतउ जायउ कुंजरु
जम्मतरि तुहुं मंति महारउ
हउं अरविदु किं ण परियाणहि

संभासिउ गउ महुरु चवंतें ।
भो मरुभूइ काइं किउ दुक्किउ ।
चिरु संसारसमुहि भमिज्जइ ।
कुंहुं मंडु पंगुलु बहिरंधउ ।
परहरवासिउ परपिंडासणु । 5
अप्पुणुं अप्पउ णरइ म घल्लहि ।
पेक्खु पेक्खु दुक्कियसामत्थें ।
एत्थर्च्छहि गिरिगेरुयपिंजरु ।
एवहिं जायउ करि विवरेरउ ।
करि जिणधम्मु म दुक्खइं माणहि । 10

घत्ता—तं णिसुणोवि गइंदु दुच्चरियाइं दुगुंछिवि ॥

थियु गुरुपय पणवेवि सावयवयाइं पडिच्छिवि ॥ ३ ॥

4

गउ मुणिवरु जगपंकयणेसरु
अप्पउ खमदमभावें रंजइ

रण्णि चरइ वउं रण्णगएसरु ।
अवरुल्लरिउं पल्लवु भुंजइ ।

४ AP खरभुक्किर. ५ AP छडिउ. ६ A चिट्टउ. ७ AP वम्मविओएं. ८ A चूरिय.
९ AP सिरिमंडणु. १० A पाएहिं.

3 १ A पइवाहहो. २ AP ण विसंकिउ. ३ A हिंसइ जुअउ दुहु दुगंधउ; P हिंसइ होइ
कूरु वि दुगंधउ. ४ P कुंहु मंडु. ५ A अप्पउ. ६ A ओ अच्छहि; P तुहुं अच्छहि. ७ P तं सुणोवि.

4 १ AP वयवंतु गएसरु. २ AP उल्लूरिय पल्लउ.

7 a हरि वंकमुहु अश्वो वक्रमुखः; b खरु गर्दभः; खरबुक्किरु निष्ठुरभषकः. 8 b पविहं डिउ
विलखितः.

3 2 a पावहु वि पावु पापिनः पापम्. 4 b मंडु निरुद्यमः.

4 1 a जगपंकयणेसरु जगत्कमलसूर्यः; b रण्णगएसरु अरण्यगजेश्वरः.

पियइ सलिलु परकरिसंखोहिउं
किमिपिपीलं लहुजीव गियच्छइ
कर्मुम्भइ सयियारु ण जोयइ
अंगं अंगुं समाणु ण पेहइ
अट्टरउद्दंणाणु विणिवायइ
रत्तिदियहु उम्भुम्भउ अच्छइ
पोसहविहिसंखीणसरीरउ
दूसहतण्हातावे लइयउ
वेयवइ सि जाम सरि पत्तउ

घत्ता—मइं धिवहि सरीरि हउं तुह णेहणिबज्जउ ॥

इय चिंतिवि णाइ मयगलु पकें रुद्धउ ॥ ४ ॥

ण हणइ हरिणुं वि जंतउ रोहिउ ।
परपयमालिपं मैगं गच्छइ ।
गणियारिहिं करु कहिं मि ण ढोयइ । 5
पाणिउं पंकु सरीरि ण घल्लइ ।
जिणचरणावरिंदु णिज्जायइ ।
दंसणणाणचरित्तइं इच्छइ ।
संहइ परीसह सुरगिरिधीरउ ।
पक्कदिवसुं सो गउ अणुवइयउ । 10
ता तहिं दुइमि कइमि खुत्तउ ।

5

सो खलु तावसु मरिवि वरायउ
जहिं गयवरगइ तहिं जि पराइउ
दिट्टउ तेण हत्थि सो केहउ
पुव्ववइरसंबंधवियारहिं
तेण विहउं करि वियलिउं सोणिउं
मुउ सुहंणाणं सुरधरसारइ
अमरकोडिसेविउं पवरामरु
सोलहजलहिपमाणचिराउसु
जंबूदीवि पवियलियतममलि
लोउत्तमु पुरु किं वणिणज्जइ

घत्ता—तहिं खयरणरिंदु इंदसमाणउ विज्जुगइ ॥

गेहिणी तडिमाल णाइ अणंगहु मिलिय रइ ॥ ५ ॥

तेत्थु जि फणिकुक्कुडु संजायउ ।
कालं कालवासु'णं ढोइउ ।
वयभरधरणु महामुणि जेहउ ।
तिक्खणकखखरचंचुपहारहिं ।
णं गेरुयगिरिवैरणइवाणिउं । 5
उप्पणणउ सुकप्पि सहसारइ ।
पविमलकडयमउडकुंडलधरु ।
माणिवि दिव्वणारिकीलारसु ।
पुव्वविदेहि विउलि खयरायलि ।
सुरपुरेण जहिं हासउ दिज्जइ । 10

३ AP हरिणु ण जंतु वि रोहिउ. ४ AP °पिप्पीलि. ५ P पंथे. ६ A पेसु मेदु. ७ A अंगुलसमयणु, P अंगु समयणु. ८ A जिणवरचरणा°. ९ AP सहियपरीसहु. १० A °दिवसे सो गय पावइयउ; P °दिवसे गयवर पावइयउ.

5 १ AP णिहउ. २ A °गिरिणिज्जरपाणिउ; P °गिरिणिज्जरवाणिउं. ३ A हुयउ देउ तहिं पुणु सहसारए. ४ A °विंभियपवरामरु. ५ A °दीवए वियलियतमायले.

3 b रो हि उ रोहितः. 4 b ° म लि एं मर्दितेन. 5 a क म्मुम्भइ कर्म उद्भटं न करोति. 6 a समाणु साहंकारः. 7 a वि णि वा य इ निपातयति. 10 b अणु व इ य उ अनुव्रतिकः. 11 a वे य व इ वेत्रवती नाम; सरि नदीम्.

5 1 a वरायउ वराकः. 2 b कालवासु कालपाशः. 4 a °वि यार हिं विकारैः. 5 b °वा णि उं पानीयं जलम्. 9 a प वि य लि य ° प्रविगलितम्. 10 a लो उ त्त मु त्रिलोकोत्तमं नाम.

6

एयहं बिहिं मि जणहं कीलंतहं
 चुउ सहसारेदेउ सुउ जायउ
 सिरि अणुहुंजिवि कालें जंतें
 सूरि समाहिगुसु आसंधिउ
 व्रंउ लइयउं णिवसिरि परिसेसिवि
 कीहु कालु मयमोहु हरेप्पिणुं
 जोउ लपप्पिणु सुयवणयरसरि
 कुक्कुडाहि धूमप्पाहि णारउ
 अजयरु तेण गिलिउँ सो जइवरु
 अश्रुयकप्पि गुणोहरवण्णउ

लीलइ सुरयसोक्खु भुंजंतहं ।
 रस्सिवेउ णामें विक्खायउ ।
 अप्पउ परु जाणंतें संतें ।
 अइदुत्तरु भवसायरु लंधिउं ।
 थिउ अप्पउं सीलेण विहूसिवि । 5
 घोरंवीरतवचरणु चरेप्पिणु ।
 थिरु थिउ हिमगिरिवरकुहरंतरि ।
 पुंणु पुणु हुउ बहूंदुक्खहं भारउ ।
 मुउ परमेसरु संजमभरधरु ।
 जायउ देउ णिच्चु तारुण्णउ । 10

घत्ता—तहिं तेण सुरेण दिव्वभोयसंजुत्तउं ॥

बावीससमुहसमु परमाउसु भुत्तउं ॥ ६ ॥

7

गयणविलंबियमणहरमेहइ
 पउमदेसि आसंउरि सुहंकरि
 वज्जवीरु णामें तहिं राणउ
 विजयापैवि तासु सीमंतिणि
 णियसुहकम्मवसें सुच्छायउ
 लक्खणवंजणचच्चियकायउ
 असियरधारइ सयल वि जिच्ची
 खेमंकरु जिणणाहु णवेप्पिणु
 चक्कवट्टि संसारहु संकिउ
 जावच्छइ वणि रवियरतत्तउ

पुणु इह दीवइ अवरविदेहइ ।
 दुग्गवंति रिउणर्थरखयंकरि ।
 आहंडलससिसूरसमाणउ ।
 हावभावविभमजलवाहिणि ।
 तहि अश्रुयसुरु तणुरुहु जायउ । 5
 णामें वज्जणाहु महिरायउ ।
 लक्खंड वि तें मेइणि भुत्ती ।
 धम्म अहिंसापरमु सुणेप्पिणु ।
 सहं णरणाहहिं रिसिदिक्खंकिउ ।
 लंबियकरु उज्झियणियगत्तउ । 10

6 १ A लिधिउ. २ AP वउ. ३ A हणेप्पिणु. ४ AP घोरु वीरु तव°. ५ A मुउ पुणु हुउ; P मुउ पुणु हुउ. ६ A पुणु दुक्खहं. ७ A गि लिउ सो जयवरु; P गिलिउ जोईसरु.

7 १ A आउसरे. २ P रिउणियर°. ३ AP विजयादेवि. ४ AP वज्जणाहि.

6 2 b रस्सिवेउ रस्सिवेगाः; अग्निवेगापरनामा. 3 a अणुहुंजिवि भुक्त्वा. 5 a परिसेसिवि त्यक्त्वा. 7 a सुयवणयरसरि श्रुताः वनचराणां सिंहादीनां मिच्छानां वा शब्दा यत्र. 10 a गुणोहरवण्णउ गुणसमूहेन रम्यः.

7 2 a आसउरि अश्रुपुरी; b रिउणयर° रिपुनगराणाम्. 10 b उज्झियणियगत्तउ कायोत्सर्गयुक्तः.

अजयरु तमपहंबिलि उप्पज्जिवि
सबरिहि सबरें वणि जणियउ सुउ
आयउ तहिं जहिं मुणिवंदियंजणि
सुयारिवि वइरु दंतदंठोहें
धम्मगुणुज्झिणण पवियारउ
संभूयउ मज्झिमगेवज्जहि
सत्तावीससमुद्दं जीवित

तहिं बावीसजलहि दुहुं भुंजिवि ।
सो कुरंगु णामें वणयरु हुउ ।
सत्तुमित्तसमच्चित्तु महामुणि ।
विद्धउ सार्हुं तेण पाविहें ।
अप्पसंमाणें बाणें मारिउ । 15
तहिं मज्झिमविमाणि णिरवज्जहि ।
कासु ण कासु देउ मणि भाविउ ।

घत्ता—इह जंबूदीवि लवणजलहिजलणिवसाणि ॥

पुणु कोसलदेसि उज्झांउरि णवपल्लववणि ॥ ७ ॥

8

कासवगोत्तु राउ जियमहियलु
दुक्खलक्खदोहग्गखयंकरि
चूउ अहमिंदु तांहि सो हूयउ
मंडलेसु कयमंडलसूरउ
पइहियमंतें विणिग्गयजडिमउ
सिंचियाउ धियेदहिपं खीरें
अंचियाउ चंपर्यमंदारहिं
तहिं णरणाहु पलोयहुं आयउ
विपुलमंइ ति णाम तहिं अच्छिउ
किं णिञ्चेयणेण पाहाणें

वज्जवाहु पहु वज्जि व बहुबलु ।
देवेंहु दुल्लह देवि पहंकरि ।
सिसु आणंदु णाम वररूयउ ।
सूरहु उग्गउ णं पडिसूरउ ।
णंदीसरिं णाणाजिणपडिमउ । 5
चंदणघुसिणकरंबियणीरें ।
अलिउलरुणुरंटियसिंदूरहिं ।
तहु हियउल्लइ ससंउ जायउ ।
गणहरु तें पणवेप्पिणु पुच्छिउ ।
पुज्जिण किं पयहु णहाणें । 10

घत्ता—अक्खइ मुणिणाहु जिणु भावें भाविज्जइ ॥

तहु बिंबहु तेण जलकुसुमंजलि दिज्जइ ॥ ८ ॥

५ A तमहबिलइ. ६ A गुणवंदियगुणि; P गुणवंदियमुणि. ७ A ददुदंतोहें. ८ P तेण साहु. ९ AP सप्पसमाणें. १० A उज्झाणयरे उववणे; P उज्झाउरे ण उववणे.

8 १ A °बाहु बाहुबलि व; P °बाहु पहु बलि व. २ AP देवहं. ३ A ताहं संभूयउ; P ताहि सुउ हूयउ. ४ AP विणिहय°. ५ AP घय°. ६ A चंपयमाल्लरहिं. ७ AP विमलमइ.

12 b वणयरु भिल्लः. 15 a पवियारउ विदारितः; b अप्पसमाणें स्वयमपि धर्मोज्झितः सः. 17 b कासु इत्यादि कस्य कस्य चित्ते न रोचितः.

8 1 a वज्जि व इन्द्रवत्. 4 a मंडलेसु देशस्वामी; कयमंडलसूरउ कृतमण्डलानां शत्रुपाणां शूरः; b पडिसूरउ उत्पातरविरिव. 5 a पइहियमंतें स्वामिहितमन्त्रिणा. 6 b °करंबिय° मिञ्चितेन. 8 a पलोयहुं विलोकितुम्.

9

णउ तेरुवरि ण पंकि ण सिलायलि
देवैद्धानं पुण्णपवित्तं
ताहं बुद्धिसंवेहविरामं
मिच्छत्तासंजमपरिचापं
णिहयावरणु छिण्णसंसारउ
कम्मकलंकपडलु ओसारइ
सो अवसें जिणवरु जयकारइ
भावसुद्धिं फेडइ मणसल्लं
जिणपडिंबिबुं ण्हाणइ पुज्जइ
वित्तविसुद्धिहि अणुदिणु सुज्जइ

वसइ देउ हियउल्लइ णिम्मलि ।
सुद्धं दंसणणाणचरित्तं ।
जाणियभुवणत्तयपरिणामं ।
ताहं बुद्धिं कय णवर विरापं ।
विगयराउ अरहंतु भडारउ । 5
जो णिययाइं ताइं वित्थारइ ।
भावसुद्धिं छंडइ महिमारइ ।
भावसुद्धिं णरु आणइ फुल्लं ।
अप्पाणहु सुविसोहि समज्जइ ।
सच्चाइं सत्त वि तच्चाइं बुज्जइ । 10

घत्ता—जिणु जिणपडिंबिबु णउ तूसइ णउ कुप्पइ ॥
इहं एण मिसेण जीवें सुद्धिं विटप्पइ ॥ ९ ॥

10

जइ वि बप्प जिणपडिम अचेयण
तो वि अंतरंगहु सुहकम्महु
मुइय विलासिणि कालें छित्ती
सुणहु भरइं मइं केव ण खड्डी
झायइ मुणि अवियाणियणयैइ
जइ वि अजीर्यउ कामिणिकायउ
गउ दुग्गइ बहुकामगहिल्लउ
रिसि संसारु घोरु णिज्जाइवि

जाणइ पुज्ज ण खंडण वेयण ।
होइ हेउ परमागमधम्महु ।
विडु चित्तइ मइं केव ण भुत्ती ।
जालावलिजलणेणाउद्धी ।
किह तवचरणु ण चिण्णउं पयइ । 5
तो वि भाउ अण्णणु जि जायउ ।
जीहिंदियवसु मुउ सुणहुल्लउ ।
गउ सग्गहु दुक्किय विणिवाइवि ।

9 १ A तरुवले. २ AP देवहो ठाणहं. ३ AP भावसुद्ध. ४ A छुद्ध. ५ A उह एणा णियमणसुद्धि विटप्पइ.

10 १ A भणइ. २ AP जालाचवले जलणे रुद्धी. ३ A वेयइ. ४ A अजीविउ. ५ AP विडु कामं.

9 2 a देवद्धानं इ रत्नत्रयं देवस्थानं ज्ञेयम्. 3 a ताहं तेषां देवानां दर्शनज्ञानचारित्राणां वा. 4 b विरापं वैराग्येन. 6 b णिययाइं निजकानि स्वकानि. 7 b छंडइ त्याजयति; महिमारइ पृथिव्या लक्ष्म्याश्च रतिः. 9 b समज्जइ समर्जयति. 12 विटप्पइ उपार्जयति.

10 1 वेयण वेदना. 3 a छित्ती स्पृष्टा. 4 a सुणहु शुनकः; भरइ स्मरति. 5 a अवियाणियणयैइ अज्ञातपदार्थया एतया. 6 a अजीयउ अचेतनः. 7 b जीहिंदियवसु जिह्वेन्द्रियवशः मांसलम्पटः. 8 b विणिवाइवि विनिपात्य.

अण्णत्ते बहिरंगे चिप्पइ भाउ दुभेएं कम्मं छिप्पइ ।
 एहउ जाणिवि भाउ विसिद्धहिं परिपालियजिणवरवैयणिद्धहिं । 10
 तेहिं तेहिं वत्थुहिं भाविज्जइ जेहिं जेहिं सुहमइ उप्पज्जइ ।
 चित्ताचेर्यइ ताइं अणेयइं जिणपडिबिंबमहारिसिभेयइं ।

यत्ता—सुहं कम्मरयाहं पावविहवित्थारणु ॥
 असुहम्मिहिं होउ दव्वु गियंबिणिकारणु ॥ १० ॥

11

कारणाहुं जगु भरियउ अच्छइ पाणवंतु पाणेण गियच्छइ ।
 ससरुवहं सालूरसरुवहं उंदेरुवहं अत्थि बहूयहं ।
 जिह विविहहं पाहाणहं छित्तंइ तिह अरइयजिणबिंबइं चित्तंइ ।
 रुंदपंचमंदरहं गियंबइं सासिरविबिंबइं करणउरुंबइं ।
 भावणभवणइं कप्पविमाणइं अकयजिणाहिवपडिमाठाणइं 5
 जो वंदइ तडु पाउ पणासइ एव भडारउ गणहरु भासइ ।
 ता रापं गियहिर्यवइ भाविउं भाणुबिंबु पुरवरि काँराविउं ।
 पाणाविहमाणिक्कहिं जडियउं णं गयणाउ तं जि सइं पडियउं ।
 छत्तत्तयसुरविडविपलंबहिं सहियउं मणिमयजिणपडिबिंबहिं ।
 जोएप्पिणु गयणयलि दिणेसरु अग्घुच्चायइ ताहं णरेसरु । 10
 एहउ जि मग्गु जगि जायउ रूढउ पत्थिवचरियाणुउ जणु मूढउ ।

यत्ता—संसारु असारु काले जंते भाविउ ॥
 रिसि सायरदत्तु गुरु परमेट्टि णिसेविउं ॥ ११ ॥

६ AP अण्णणों. ७ A °पय°. ८ A चित्तियवेयइं; P चित्तियचेयइं. ९ A सुहकम्मरयाहं. १० A एवं बहुवित्थारणु; P एमं विविहवित्थारणु. ११ AP असुहाहं मि होइ दव्वु.

11 १ A कारणाहं. २ AP उंदुर°. ३ AP पभूयहं. ४ A छेत्तहं. ५ A धुत्तहं. ६ A गियहियएं. ७ A कराविउ. ८ AP जाउ जगे रूढउ. ९ AB सायरगुत्तु. १० A पसेविउ.

9 a अण्णत्ते अन्यत्वेन नानात्वेन; बहिरंगे बाह्यवस्तुना; b दुभेएं द्विभेदेन शुभाशुभलक्षणेन.
 11 b सुहमइ शुभमतिः. 12 a चित्ताचेयइं चेतनानि निश्चेतनानि च. 14 दव्वु वेद्यादारीरम्.

11 1 a कारणाहुं कारणानाम्. 2 a ससरुवहं इत्यादि मत्स्यादीनां रूपाणामाकाराः स्वयमेव पर्वतादौ पाषाणादौ च क्वचिद्यथा वर्तन्ते तथा अकृत्रिमप्रासादाः प्रतिमाश्च ज्ञातव्याः; सालूरसरुवहं सन्ति प्रचुराणां श्लादिरूपाणां पाषाणानां कारणभूतानि क्षेत्राणि यथा तथा अरचितानां अकृत्रिमाणां जिनप्रतिबिम्बानां मेरुनितम्बादीनि. 2 b बहूयइं बहुनाम्. 3 b चित्तंइ विचित्राणि. 9 a सुरविडवि° कल्पवृक्षः. 11 b पत्थिवचरियाणुउ यथा राजा तथा प्रजा.

12

चिंतामणि व विविहफलदाहणि
 तवियहं तिब्वतवेण णियंगहं
 सोलह कारणाहं भावेप्पिणु
 पंचेदियकसायबलु पेह्लिवि
 मुउ पाओवगमणमरणे मुणि
 पवरच्छरकरचालियचामरु
 जा पंचममहि तावहि घल्लह
 वरिसहं वीससहासहिं भुंजह
 रयणिउ तिणिण सरीरे तुंगउ
 पुणु कालावसाणि संपत्तह
 कासीदेसि णयरि वाणारसि

मुणिवरु जायउ छंडिवि मेहणि ।
 अब्भसियहं पयारह अंगहं ।
 तिणिण वि सल्लहं उम्मूलेप्पिणु ।
 खीरेवणंतरालि तणु घल्लिवि ।
 पाणयकप्पि हूउ मणहरमुणि । 5
 वीससमुहमियाउ महामरु ।
 णीसासु वि दसेमासहिं मेह्लह ।
 णियैतेपं अच्छरमणु रंजहं ।
 जासु ण रुवसमाणु अणंगउ ।
 पत्थु दीवि इह भारहखेत्तहं । 10
 जाहिं धवलहरहिं पह मेह्लह ससि ।

घत्ता—तहिं अत्थि णरिंदु विस्ससेणु गुणमंडिउ ॥
 बंभादेवीए भुयलयाहिं अवहंडिउ ॥ १२ ॥

13

ता वेणियं तेण
 पुण्णंवेवाहेण
 सग्गाउ पेहिति
 रूवेण रंभाह
 भो पोमपत्तक्ख
 लद्धावलोयस्स
 एवं अवेरस्स
 चित्तमि मंतूण
 मंदाणिलालाहं

सम्मं णियंतेण ।
 सोहम्मणाहेण ।
 गब्भमि थारहिति ।
 देवीह बंभाह ।
 तेवीसमो जक्ख ।
 सामी तिलोयस्स ।
 सिट्ठं कुबेरस्स ।
 ता तेण गंतूण ।
 उज्जाणलीलाहं ।

12 १ A खीण खणतरालि. २ AP दह°. ३ AP सुण्णचउकदुअहहिं जुंजह. ४ AP read after this: पडिचारु वि मणेण स्याणंगउ. ५ AP omit this line. ६ AP add after this: दरिसियणाणामणे पवहंतए, अमरमहासरे णीरे वहंतए.

13 १ AP जाणियं. २ A पुण्णं विवाहेण. ३ AP पेहिति. ४ P omits this foot.

12 2 a त वि यहं तापितानि. 5 a मुउ मृत: सिंहधृतगलः. 7 a ताव हि ता + अवहि, अवधिज्ञानम्. 11 b ज हिं इ त्या दि यत्र सुधाधवलैः प्रासादैः हृतप्रभावो भवति चन्द्रः.

13 4 a रं भा ह रग्भासदृशायाम्. 5 b ते वी स मो जिनः. 6 a लद्धावलोयस्स लब्धाऽव-
 लोकस्य (?).

सग्गलीलाइं	सालाविसालाइं ।	10
रयणंसुजालाइं	हिंदियमरालाइं ।	
तोरणदलालाइं	महुयररवालाइं ।	
पिहुंपंगणालाइं	सगवक्खजालाइं ।	
मणिमयकवाडाइं	णहलग्गकूडाइं ।	
पायडियकम्माइं	रम्माइं ईम्माइं ।	15
णयरम्मि काऊण	पुण्णाइं णाऊण ।	
वुट्टो सुवण्णेहिं	कणियारिवण्णेहिं ।	
जक्खाहिवो ताम	छम्मास गय जाम ।	

घत्ता—णिसि सुहुं सुत्ताइ परिवड्डियतणुञ्जायइ ॥
सिविणावलि दिव्वे दीसइ जिणवरमायइ ॥ १३ ॥

14

अणिंदो गइंदो	विसिंदो मइंदो ।	
महासोक्खस्त्राणी	सई माहवाणी ।	
भमंतालिसामं	णवं पुष्पदामं ।	
इयंधारपंको	पउण्णो ससंको ।	
तमंवित्तछेओ	रवी तिव्वतेओ ।	5
झसाणं सुरम्मं	घडाणं च जुम्मं ।	
कुसंतज्जणालं	सरं सारणालं ।	
जलुल्लोलवंतो	महंतो रसंतो ।	
महीअत्ततीरो	पैओही गहीरो ।	
पसत्थं परूढं	कुरंगारिवीढं ।	10
सुहाणं णिहाणं	सुराणं विमाणं ।	
घरं सारसाणं	सुकुंभीणसाणं ।	
गयासामऊहो	मणीणं समूहो ।	
वैणंतं डहंतो	किसाणू जलंतो ।	

५ A पहु°. ६ A रम्माइं. ७ P लाऊण. ८ P कणयार°. ९ AP सुत्ताइ. १० A दिव्वा.

14 १ A तमीरंतछेओ; P तमीवंतछेओ. २ A omits this foot; P समुहो गहीरो.
३ °पीढं. ४ A वणंतो.

14 b °कूडाइं शिखराणि. 15 a °कम्माइं वास्तुशास्त्राणि.

14 1 b विसिंदो वृषभप्रधानः. 2 b माहवाणी लक्ष्मीः. 5 a तमंवित्तछेओ तमः-
प्रवृत्तिच्छेदकः. 7 a कुसंतज्जणालं कुशान्ते जलमध्ये अब्जनालानि यत्र; b सारणालं सा + आरणालं,
सा लक्ष्मीः, आरणालं पद्मम्. 10 a परूढं उन्नतम्. 12 a सारसाणं लक्ष्मीरसयुक्तानाम्; b सुकुंभी-
णसाणं शोभननागानाम्. 13 a °मऊहो किरणाः. 14 b किसानू अग्निः.

घत्ता—पुणु पडिबुद्धाइ जाइवि वहरिकयंतहु ॥

इय सिंविणय ताइ पेक्खिअवि अक्खिय कंतहु ॥ १४

15

15

तओ तेण उच्चं सुवत्ते पविस्से
सुओ तुज्झ ह्योही णियंदो जिणंदो
मए भासियं लोयसारं विसुद्धे
तओ तम्मि वइसाहमासम्मि आए
विसाहकखरिक्खे तंमिल्लीविरामे
मउम्मत्तमायंगलीलागईए
अलं कंतिकिच्चीहिं संसोहियंगे
गइंदस्स रुवेण देवाहिदेवो
सुरिंदेहिं चंदेहिं संथुव्वमाणो
वहट्टेव पक्खा मही दिण्णविट्ठी
पुणो कालपक्खे पडंतम्मि सीए
थिए दिम्मुहे णीरए णिव्वियारे

हले वच्छले बालसारंगणेत्ते ।
खगाहिंदभूमिददेविद्वंदो ।
इमं दंसणाणं फलं जाण मुद्धे ।
दुइज्जे दिणे कण्हपक्खस्स जाए ।
पियालावलीलारसुप्पणकामे ।
सिरीए हिरीपे दिहीए मईए ।
थिओ गब्भवासे महापुणसंगे ।
अतावो असावो अगाओ अलेवो ।
तिलोयं तिणाणेहिं संजौणमाणो ।
कया जक्खराएण माणिक्कविट्ठी । 10
हुओ पूसमासम्मि एयारसीए ।
वरे वाउजोए जणाणंदसारे ।

घत्ता—उप्पणइ णाहि कंपिय सुरवरपायव ॥

णाणाकप्पेसु संजाथां घंटारव ॥ १५ ॥

16

आसणं कंपियं
देवदेवो हुओ
चारुसंचियसमो
इय चवंतेण से

सग्गिणा जंपियं ।
बंभदेवीसुओ ।
अज्जु तेवीसमो ।
झांइयं माणसे ।

15 १ K तिमिल्लीविरामे but gloss रात्रिः. २ A हिरीए मईबुद्धिईए; P हिरीए विहीए मईए. ३ A संजायमाणो. ४ P दिण्णतुट्ठी. ५ P उड्डी. ६ P णिव्वियारे. ७ AP जणाणंदयारे. ८ P सहं जाया.

16 १ P सक्रिणा. २ AP झाइओ.

15 1 b °सारंग° मृगः. 2 a णियंदो नृचन्द्रः. 3 b दंसणाणं स्वप्नानाम्. 4 a आए आगते. 5 a तमिल्लीविरामे रात्रिविरामे प्रभाते; b पियालाव° प्रियः आलापः. 7 a संसोहियंगे. संशोधितशरीरे. 8 b अलेवो निर्मलः. 11 a कालपक्खे कृष्णपक्षे. 12 a णीरए नीरजसि निर्मले; b वाउजोए विशाखानक्षत्रे.

16 3 a °समो उपशमः. 4 a से स्वे, निजे.

अमरवरधारणो	झ त्ति अइरावणो ।	5
पत्तओ पोढओ	तम्मि आरुढओ ।	
बहुमुहो सयमहो	सुरबुहो बहुमुहो ।	
अवि य देवी मई	वारुणामी सई ।	
हंसिणी सारसी	उव्वसी माणसी ।	
गोमिणी पोमिणी	रामिणी सामिणी ।	10
भामिणी कामिणी	धारिणी हारिणी ।	
वम्महायारिणी	रोहिणी खोहणी ।	
माणणी मोहणी ।		
पेसला पल्लवी	चंदिणी ^१ माहवी ।	
णंदिणी णाइणी	मेत्ति ^३ इंदाइणी ।	15
उज्जला पत्तला	कोमला सामला ।	
विञ्जुला वच्छला	मंगला पिंगला ।	
सतिलया सविलयीं	सपुलया सकिलयीं ।	
सरलिया तरलिया	सुललिया लवालिया ।	
कंति ^४ कित्ती रसा	लच्छिणी रंजसा ।	20

घत्ता—इय बहुणामाहिं सुरवरणारिहिं सेविउ ॥

संचल्लिउ इंदु भणु किर केण ण भाविउ ॥ १६ ॥

17

पवणुदुयाणेयविहंषणचिंधेहिं	मंहिघित्तकुसुमंजलीसुरहिगंधेहिं ।
उद्धरियउल्लोवसेयायवत्तेहिं	अच्छरकरुक्खित्तकल्लाणवत्तेहिं ।
गंधव्वगिज्जंतमंगलणिणाएहिं	दिसिविदिसिदीसंतचउसुरणिकाएहिं ।
कारंडभेरंडंमणहरमऊरेहिं	णाणाविमाणेहिं विरसंततूरेहिं ।
संचलियचलधवलचामरविलासेहिं	वंदारयाणंदकयंमंदघोसेहिं ।

5

३ A महमहो सयमहो. ४ AP सुविबुहो बहुमुहो. ५ AP सई. ६ AP वारुणी मीणई. ७ K हिसिणी. ८ AP भाविणी. ९ AP खोहिणी. १० A माणिणी. ११ A पोसला. १२ A चंदणी. १३ A मित्ति मंदाइणी; P मत्ति मंदाइणी; १४ P सवलया. १५ AP किसलया. १६ A कित्ति संती रसा; P कित्ति संती रिसा.

17 १ AP °णेयबहुवण°. २ A महुघित्त°. ३ AP कल्लाणवत्तेहिं. ४ AP °भेरंड°. ५ A °कयवंद°.

7 b बहुमहो महान् महः पूजा सन्मानं यस्य. 8 b सई शची. 12 a वम्महायारिणी मन्मथाकारिणी कामरूपिणी. 14 a पेसला मनोहरा. 18 a सतिलया तिलकसहिता. 20 b णी रंजसा नीलंजसा.

17 2 a °उल्लोव° चन्द्रोपकम्; b °कल्लाण° मञ्जलद्रव्यम्. 4 a कारंड° चक्रवाकः.

गंतूर्ण वाणारसि ते पुरं तेण
मायाइ मायैसिसुं झ सि दाऊण
चंदक्कधामाहिं उअं चरंतेण
सक्केण अहिसेयजोगम्मि दिव्वम्मि
सियसलिलधाराहि गुरुमंतगुरुपेण
पत्ताइं भरिऊंण भैणियं चँउहिसह
हे इंद सिहि काल हे णेरिदीराय
हे हे कुबेरं क ईसाण धरणिद

गयवाह जय णाह जय जिण भणंतेण ।
देवो जिणिंदो णियं कर्मि काऊण ।
सिग्घं णिओ मंदरं पुण्णवंतेण ।
णिहिओ सिलावीढसीहासणग्गम्मि ।
गंधेण पुप्फेण दिव्वेण चरुएण । 10
जिणण्हवणकौलम्मि एत्थेत्थ उवविसह
हे वरुण हँयमरण चँलगवण हे वाय ।
रहरुंद हे चंद हे सूर साणंद ।

घत्ता—अहर्वा सयल थुणंत पणवह पय जिणरायंहुं ॥

णिण्हह जण्णविहाउ पुण्णकलस उच्चार्यंहु ॥ १७ ॥

15

18

सव्वदोसवज्जिओ
सव्ववाइदूसणो
सव्वकम्मणासणो
भँव्वपोमणेसरो
तावभावहारिणा
कुंकुमेण पिंजरं
वितरोहिं सेवियं
जोइसेहिं णदियं
खेयरोहिं इच्छियं
चारणेहिं मणियं
पक्खिणीहिं माणियं
देवदारुवासियं
मंदरस्स कंदरे

सव्वदेवपुज्जिओ ।
सव्वलोयभूसणो ।
सव्वदिट्टिसासणो ।
ण्हँणिओ जिणेसरो ।
सीयखीरवारिणा ।
सित्तसाणुकुंजरं ।
भावणेहिं भावियं ।
कप्पवासिवंदियं ।
सीसए पडिच्छियं ।
जक्खिणीहिं वणियं ।
जावँ ण्हाणवाणियं ।
चंदयंतभासियं ।
दुअरम्मि कक्करे ।

5

10

६ A गंतूर्ण तं वाणारसि पुरं तेण; P गंतूर्ण तं वाणारसि ते पुरिं तेण. ७ AP मायासिसु. ८ A णियं कम्म काऊण. ९ A चंदक्कधमेहिं. १० AP जोगम्मि लगम्मि. ११ AP गरुएण. १२ P भणिऊण १३ A भमियं. १४ AP च दिहि दिसह. १५ AP ण्हवणयालम्मि. १६ P हयमरण. १७ AP चल्लामण. १८ AP आवह. १९ AP रायहो. २० AP उच्चार्यहो.

18 १ A सव्वपोम°. २ AP ण्हाइओ. ३ AP जाह.

6 a ते देवाः; तेण इन्द्रेण सह; b गयवाह हे गतबाध जिन. 7 b णियं कम्म निजोत्सङ्गे कृत्वा. 8 a धामाहिं धामभ्यः स्थानेभ्यः. 12 a णेरिदीराय नैर्ऋतीदिराज; b चलगवण चलगमन. 15 जण्ण विहाउ यज्ञविभागम्.

18 2 a वाह° मिथ्यावादिनः. 3 b सव्वदिट्टिसासणो सकलसम्यग्दर्शनप्रतिपादकः. 6 b सित्तसाणुकुंजरं सिक्ताः तटस्थकुञ्जरा येन. 12 b चंदयंतभासियं चन्द्रकान्तकान्त्या शुक्रम्.

किंणरीण संतियं धोर्यवत्तपत्तियं ।
 घत्ता—सिंखिवि अंचिवि थुइवयणहिं संभासिउ ॥ 15
 पडु पासविणासु पासुं भणेवि पयासिउ ॥ १८ ॥

19

घरचूडामणिविलिहियगयणं
 विहलियणरदुहहरघणपयरं
 बंभादेविइ दिण्णो ईसो
 अहिणवणवरसभावविसदं
 संतं दंतं भुवणमहंतं
 सधओ ससुरो सुयंसियमगं
 सुण्णैपंचभयगुत्तिसवसूणं
 पत्ताणं परमं णिव्वाणं
 तक्कालासियवरिससयाऊ
 वण्णेषुज्जलमरगयसामो
 देहेणुणयणधकरमाणो
 सपंसमपसरणुपसमियमारो
 पायपोमपाडियसुरराओ
 तियसवरेहिं सैमउं कीलंतो

माणिणिघणथणविलसियमयणं
 अइऊणं हरिणा तं णयरं ।
 देवो पासो सो णिहोसो ।
 सुरवरणाहो काउं णदं ।
 पुणु णमिऊणं दुरियकयंतं ।
 सगओ विगओ सक्को सगं ।
 वासाणं माणेण गुरूणं ।
 वोलीणाणं णेमिजिणाणं ।
 रूवरिद्धिणिज्जियसकेऊ ।
 वियलियराओ उज्जियवामो । 10
 वहरिणि मित्ते णिच्चसमाणो ।
 पुट्ठिं पत्तो पासकुमारो ।
 सोलहवारिसिओ संजाओ ।
 एक्कसिंस दिवसे विहरंतो ।

घत्ता—पुव्विल्लउ वहरि पुणरवि विहिसंजोइउ ॥
 णियजणणीताउ तावसु तेण पलोइउ ॥ १९ ॥

15

20

महिपालपुरणाहु
 महिपालु णामेण

महिपालु थिरबाहु ।
 परिचत्तकामेण ।

४ A केयपत्तयंचियं; P धोयपत्तपंतियं. ५ AP पासु जि भणेवि.

19 १ AP °जणदुह°. २ AP सुमरियमगं. ३ AP सुण्णु. ४ AP उज्जियकामो.

५ A उवसमपसरण. ६ AP पुट्ठि. ७ AP सपं. ८ AP वहरि इह पुणरवि संजोइउ.

14 a सं तियं संबन्धि; b धो य व त्त प त्तियं धौता: वक्त्रपत्रावलय: येन.

19 1 a °विलिहियगयणं स्पृष्टगगनं पुरम्. 2 a विहलियणर° निर्धना नराः;
 b अइऊणं आगत्य; हरिणा इन्द्रेण. 4 a °विसदं समूहम्. 6 a सुयसियमगं श्रुताश्रितमार्गम्.
 7 a सुण्णपंचभयगुत्तिसवसूणं ८३७५०; b वासाणं वर्षाणाम्. 12 a सपसमेत्यादि निजप्रशम-
 प्रसरेणोपशमितकामः.

20 1 b महिपालु राजा; थिरबाहु स्थिरभुजः.

उप्पणसोएण	किं ताविओ एण ।	
विब्बं तवं चरइ	गोरीपियं भरइ ।	
पंचाणलं सहइं	वरंगारवं वहइ ।	5
णोओ कुमारेण	तेल्लोक्कारेण ।	
कयचारुकम्भेण	गयजम्मजम्भेण ।	
सैत्थेण दारियउ	हउं एण मारियउ ।	
इय सरिवि मज्झत्थु	थिउ मुणिवि परमत्थु ।	
परमेट्टि समचित्तु	जिह सत्तु तिह मित्तु ।	10
सिंसु णियइ तणु वित्तु	पालंतु संवसित्तु ।	
ता तवसि तहु कुट्टु	णं वि णवइ मह मुट्टु ।	
कुल्लुट्टु भयवंतु	दोहिति ^१ मयवंतु ।	

यत्ता—इंधणहु णिमित्तु तरु फोडंतु कुट्टारे ॥

हियमियवयणेण तावसु भणित्तु कुमारे ॥ २० ॥ 15

21

भो भो तावस तरु म हणु म हणु	एत्थच्छइ कोडरि णायमिहुणु ।	
ता भणइ तवसि किं तुज्झ णाणु	किं तुहुं हरि हरु चउवयणु भाणु ।	
इय भणिवि तेण तहिं दिण्णु घाउ	संछिण्णउ सहं णाणिणइ णाउ ।	
जिणवयणं विहिं मि समाहि जाय	को पावइ धम्महु तणिय छाय ।	
जायाइं वे वि भवणंतवासि	माणिक्ककिरणकब्बुरदिसासि ।	5
धरणिदु देउ पोमावइ त्ति	देवय णामं पच्चक्खकिसि ।	
जाणियबहुसमयवियारसारु	पभणइ सुभउमु णामं कुमारु ।	
भो पासणाह सुरविहियसेव	अण्णाणिय तावस होंति देव ।	
तुह पडिकूलहं णिप्फल्लु किलेसु	तं णिसुणिवि गउ णरवरणिवासु ।	
अण्णाणभाउ गाढयरु धरिवि	कुच्छियमुणि तेत्थु ससल्लु मरिवि ।	10

20 १ AP कंताविओएण. २ AP तिब्बं. ३ A बहुगारवं; P वयगारवं; ४ A णावो; P णाउ. ५ AP °कम्भेसु. ६ AP °जम्भेसु. ७ AP सत्थं. ८ AP सत्तु. ९ A समचित्तु. १० A तउ तवइ तउ सुट्टु; P णउ णवइ महमुट्टु. ११ A कुल्लुट्टु. १२ AP दोहिति. १३ P इंधणहो सित्तु. १४ AP फाडंतु.

21 १ A °कब्बुरदसासे. २ AP णावइ. ३ AP सुभउ.

3 b किं ता वि ओ एण अनेन किं तत्तम्. 4 b गोरी पियं रुद्रम्; भरइ स्मरति. 11 a सिसु णिय इ तणु वित्तु शरीरं धनं च पश्यति कुमारो गर्वी; b पालंतु सवसित्तु स्ववशित्वं रक्षति; स्वयं यतिर्जातः अहंकारयुक्तत्वात्. 13 b दो हिति खेदं नयति.

21 4 b छा य शोभाम्. 6 b दे व य देवता; णामं पञ्चावतीनाम्ना. 7 a °बहुसमय° षड् दर्शनानि.

जायउ जोइससुह संवरैकखु
कुंअरसैं जायैउ ह्यमयासु
उज्झाणाहैं भसिल्लएण

घत्ता—तहिं अवसरि तेत्थु सुरगुरुमंतिसरूवउ ॥

पाहुडइं ल्हिवि पेसिउ देवहु दूवैउ ॥ २१ ॥

कमलाणणु वरणवकमलचकखु ।
वरिसाइं तीस विगयाइं तासु ।
जयसेणें गुणगणणिल्लएण ।

15

22

दूएण भणिउं जय तित्थणाह
तुह पय पणवइ जयसेणराउ
चिरु एवहिं तुहुं जय उग्गवंस
ता पुज्जिवि मंतिवि मुळु तुरिउ
हउं आसि कालि गयवरु अणञ्जु
जिणतवसामत्थें दूसहेण
किज्जइं तउ सिज्जइ जेण मोकखु
इय चितवंतु कयभत्तिपहिं
पुणु ण्हौणिउ पुज्जिउ सयमहेण
विमलहि सिवियहि आरूहु देउ
सिर्यपक्खि पूसि प्यारसीहि
थाएप्पिणु णामें संमुहेण
आसत्थवणंतरि लइय दिक्ख

घत्ता—ओलंबियपाणि जोयायारें तिक्खहि ॥

पइसइ परमेहि गुम्मखेडु पुरु भिक्खहि ॥ २२ ॥

जय सामिसाल वयसलिलवाह ।
पइं जेहउ होंतउ भरहँताउ ।
धयवडभडवंदियरायहंस ।
देवें णियहियवइ चरिउं सरिउं ।
एवहिं जायउ पुज्जहं मि पुज्जु । 5
दुज्जयपंचिदियणिम्महेण ।
संसारि ण दीसइ किं पि सोक्खु ।
पडिसंबोहिउ लोयंतिपहिं ।
धरणें वरुणें ससिणा गहेण ।
आसंकिउ हियवइ मयरकेउ । 10
पुव्वण्हइ पवरुत्तरदिसीहि ।
छणयंदरुंदमंडलमुहेण ।
अट्टमउववासें परम सिक्ख ।

15

23

कयपंचचोज्जाइ सुद्धाइ चैज्जाइ
छम्मत्थकालेण चत्तारि मासाइं

तहिं बंभराएण दिण्णाइ भिक्खाइ ।
गलियाइं चित्तंतरुत्तिण्णदोसाइं ।

४ A संवरकखु. ५ AP जइयहुं. ६ AP लएवि. ७ AP दूयउ.

22 १ AP दयसलिल°. २ A भरहराउ. ३ P जय तुहुं. ४ A अपुज्जु. ५ A विज्जइ तउ सिज्जइ. ६ A कयसंतिपहिं. ७ P ण्हाइउ. ८ AP अंधारे पूसे. ९ A अवरुत्तर°. १० AP णाहें.

23 १ AP सत्थाए. २ AP घण्णराएण. ३ A °तरुग्गिण्णदोसाइं.

13 b गुण गण णि ल्ल एण गुणानुरागयुक्तेन; °णि ल्ल एण तन्मयेन. 15 ल हि वि दत्त्वा.

22 1 b °सलिलवाह मेघ. 3 a उ मावंस हे उग्रवंश; b धयवडभड° ध्वजपटोपलक्षित-
भटैः. 4 b सरिउं स्मृतम्. 5 a अणञ्जु रौद्रः. 10 a सि वि य हि शिविकायाम्. 11 a सि य पक्खि
कृष्णपक्षे (असितपक्षे). 12 a णामें नमस्कारणे नमनं नाम नमः सिद्धेभ्य इति; संमुहेण उत्तर-
दिवसंमुखेन. 13 a आ सत्थवणंतरि अश्वत्थवने पिप्लवने.

23 2 b चित्तंतरुत्तिण्णदोसाइं मनसि उत्तीर्णदोषाणि.

दिक्खावणे पार्वरासीधिणासेण
 दित्तंगसत्तम्मि सत्ताहमेरम्मि
 जोइसरो सुक्कझाणासिओ जन्थ
 ता तस्स मरुमग्गमग्गम्मि दुरियाल्लि
 ता तेण रूसेवि सहसा मयंघेण
 तडिवडणरवकुंडियमहिदसादिसासेहिं
 णीलेहिं हरगलतमालाहदेहेहिं
 गयणयल्लु धरणियल्लु जल्लु थल्लु वि जलभरिउं

जाइवि थिओ सामि अट्टोववासेण ।
 णवदेवदारुंयलि गुरुयैरवियारम्मि ।
 गयणंगणे संवरं जोइयं तत्थ । 5
 संचलइ ण विमाणु जिणणाहउवरिल्लि ।
 संभरिउ चिरजम्मु वहराणुंबंधेण ।
 आहंडल्लुहंडकोदंडभूसेहिं ।
 गजंतवरिसंतभीमेहिं मेहेहिं ।

पुणैरवि रिसी रुद्धु मुहधित्तजालेहिं
 पिंगुद्धकेसेहिं मुक्कट्टहासेहिं
 हण हणु भणतेहिं^{१६} वेयालसंघेहिं
 वावल्लभल्लेहिं झसभिडिमालेहिं
 हीणेण दीणेण विद्धत्थधम्मेण
 सढकंभददढकढिणभुयदंडतुल्लिएण
 थरहरिय महि सयल धरणिंदु णीसरिउ
 घत्ता—पोमावइयाइ देविइ मणिविप्पुरियउं ॥

विहडिउ ण पासस्स पिसुणेण थिरु चेंडिउं । 10

भंगुरियेभालेहिं दाढाकरालेहिं ।
 किलिकिलिकिलंतेहिं खयकालवेसेहिं ।
 रिंछेहिं सरहेहिं सीहेहिं वग्घेहिं ।
 कणएहिं कुंतेहिं करवालंभूलेहिं ।
 देवस्स किं कीरए पावयम्मेण । 15
 पुणरवि सिलालेण सेलेण बलिपंण ।
 फणिफणकडप्पेण परमेट्टि परिवरिउ ।

ससिबिबसमाणु कुलिसछत्तु तहु धरियउं ॥ २३ ॥

20

24

आऊरिउ देवे सुक्कझाणु
 संदरिसिउ रिउ सामत्थु भग्गु
 पढंमिल्लमासतमकसणपक्खि
 केवलि पुज्जिउ सुरपुंगमेहिं

उप्पाइउ केवल्लु दिव्वणाणु ।
 दुम्मोहें सहुं णिज्जिउ अणंगु ।
 पंडिवयदिणि पवरविसाहरिक्खि ।
 इच्छियमोक्खालयसंगमेहिं ।

४ A पायरासी°. ५ AP जोए थिओ. ६ A °देवदारुवणे. ७ AP गरुअयरविरम्मि. ८ AP संवरो जाइ जा तत्थ. ९ P वहराणुबंधेण. १० AP °फुरिय°. ११ A °तमालालिदेहेहिं. १२ AP चरिउ. १३ AP पुणरवि. १४ A भंगरिय°. १५ P पक्कट्टहासेहिं. १६ P adds णिभंसजंघेहिं after भणतेहिं. १७ AP add after this दिण सत्त उवसग्गु किउ कूरकम्मेण (A कूरकम्मोहिं) १८ P सठकमठ°. १९ AP चल्लिएण.

24 १ AP पढमिल्ले मासे. २ AP चउत्थए दिणे. ३ A °सोक्खालय°.

4 a दि त्तं ग स त्त म्मि दीसाङ्गाः सत्त्वा जीवा यस्मिन् वने; स त्ता ह मे र म्मि सत्त दिनानि यावत्; b ° वि या-
 र म्मि प्रवीचारे ध्याने. 6 a मरुमग्ग मग्ग म्मि मरुमार्ग आकाशं तस्य मार्गे. 10 b च डि उं चरित्तम्.
 15 b किं की र ए किं क्रियते. 16 a से ले ण ब लि ए ण गिरिणा बलिपेण. 19 कु लि स छ त्तु वज्रमयं छत्रम्.

24 2 b दु म्मो हें मोहकर्मणा. 3 a प,ढ मि ल्ल° चैत्रः.

सम्मत्तु लइउ खलसंवरेण उवसंतें ववगयमच्छरेण । 5
 तव्वणवासिहि संपत्त वत्त इसि जायइं तवसिहिं सयइं सत्त ।
 दइ गणहर सवणसयंभुआइ तिसयइं पण्णास जि पुव्वेवाइ ।
 सिक्खुयइं ससिक्खइं णवसयाइं सावहिहिं ताइं चउदइ गैयाइं ।
 घत्ता—केवलिहिं सहासु तेत्तिय विक्किरियायर ॥
 भयसय पण्णास मुणिवर मणपज्जवधर ॥ २४ ॥ 10

25

वसुंसयइं विविहवाइंसराहं छत्तीससहास अज्जियवराहं ।
 सावयइं एक्कु लक्खु जि भणंति सौवइयइं तिण्णि ति परिगणंति ।
 कयणिच्चमेवज्जिणरायसेव संखापरिवाज्जिय विविह देव ।
 संखेज्ज तिरिक्ख ण का वि भंति परमेट्ठिहि अणुदिणु पय णवंति ।
 वयमासविमुक्कइं भूयथत्ति विहरिवि सत्तरि वरिसइं धरित्ति । 5
 संमेयसिहरि पडिमाइ थक्कु णं उययइरिहि उग्गामिउ अक्कु ।
 पडु एक्कु मासु विण्णायणेउ छत्तीसहिं जोइसहिं समेउ ।
 सौवणसत्तमिदिणिकार्लवक्खि गउ मोक्खहु पासु विसाहरिक्खि ।
 अग्गिदहिं वंदिउ वंदणिज्जु देविंदहिं पुज्जिउ पुज्जणिज्जु । 10
 घत्ता—महुं देउ समाहि भरहलोयसंबोहणु ॥
 जोइससुरणाहपुष्पयंतवंदिउं जिणु ॥ २५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे पासणाहणिव्वाणगमणं णाम
 चउंणउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ २४ ॥

४ P पुव्ववेइ. ५ AP दससहसइं णवसयाइं. ६ A सयाइं.

25 १ P छइसयइं. २ AP सोलह सहास इय जयवराहं. ३ P add after this: छत्तीस
 सहासइं अज्जियाहं, वयसीलजुत्तजयपुज्जियाहं. ४ A सावियइं; P सावहिं. ५ AP वरिसइं. ६ AP एक्कु
 जि मासु वि णायणेउ. ७ AP सावणे सत्तमदिणे. ८ A सेयपक्खि. ९ P adds after this: दइउ
 मउडग्गाहि कायपुंजु, मुणिणाहइं सुमरिउ सुमरणिज्जु. १० AP °वंदिय°. ११ AP चउणवदिमो.

7 b पुव्व वा इ पूर्वज्ञानिनः पूर्वधराः.

25 5 a भूयथत्ति भूतानां प्राणिनां स्थितिर्यत्र. 6 b उययइरिहि उदयाचले.
 8 a अ का ल व क्खि श्लुपक्षे.

विद्धंसियरइवइ सुरवइणरवइफणिवइपर्येडियसासणु ॥
पणवेपिणु सम्मइ णिंदियेदुम्मइ णिम्मलमग्गपयासणु ॥ धुवकं ॥

1

विणासो भवाणं	मणे संभवाणं ।	
दिणेतो तमाणं	पहू उत्तमाणं ।	
खयग्गीणिहाणं	तवाणं णिहाणं ।	5
थिरो मुक्कमाणो	वसी जो समाणो ।	
अरीणं सुहीणं	सुरीणं सुहीणं ।	
समेणं वरायं	पमैत्तं सरायं ।	
चलं दुब्बिणीयं	जयं जेण णीयं ।	
णियं णाणमग्गं	कयं सासमग्गं ।	10
सया णिक्कसाओ	सया णिव्विसाओ ।	
सया णिर्पसाओ	सया चत्तमाओ ।	
सया संपसण्णो	सया जो विसण्णो ।	
पह्णोणो गणाणं	सुदिव्वंगणाणं ।	

All Mss. have, at the beginning of this Samdhi, the following stanza:-

त्यागो यस्य करोति याचकमनस्तृष्णाङ्कुरोच्छेदनं
कीर्तिर्यस्य मनीषिणां वितनुते रोमाञ्चचर्चै वपुः ।
सौजन्यं सुजनेषु यस्य कुरुते प्रेमोत्तरां निर्दृतिं
श्लाघ्योऽसौ भरतप्रभुर्बत भवेत्काभिर्गिरां सूक्तिभिः ॥

P reads मनसुष्टाकुरुच्छेदनं in the first line; A reads चर्चै for चर्चै in the second line; A reads प्रेम्णान्तरं in the third line; A reads काभिर्गिरां सूक्तिभिः, and P reads कासां गिरां सूक्तिभिः in the last line. K has a gloss on काभिः as अपि तु न काभिः श्लाघ्यः. For details see Introduction to Vol. I, pp. xvi-xxvii.

1 १ P पयडिसासणु. २ AP विणिहयदुम्मइ. ३ A समंतं. ४ A णिप्पमाओ. ५ A पह्णोणं.

1 1 १ रइवइ कामः; २ पयडियसासणु प्रकटादेशः. 3 a भवाणं उत्पत्तीनां जन्मनाम्; b संभवाणं उत्पत्तानाम्. 4 b पहू उत्तमाणं ऋषिदेवनरेन्द्राणां प्रभुः. 5 a खयग्गीणिहाणं कालाग्निमहत्तानां तपसां निधिः. 6 b समाणो समदृष्टिः. 7 b सुहीणं सुहृदाम्. 8 a समेण वरायं श्रेमेण अतिदीनम्. 9 b जयं जगत्. 10 a णियं णाणमग्गं स्वर्कायकेवलज्ञानपथम्; b सासमग्गं लक्ष्मीपरिपूर्णम्. 13 b विसण्णो चतुःसंज्ञारहितः. 14 a गणाणं गणधराणाम्; b सुदिव्वंगणाणं दिव्याङ्गनानां प्रेमणि न आसक्तः.

ण पेम्मे णिसण्णो	महावीरसण्णो ।	1f
तमीसं जईणं	जए संजईणं ।	
दमाणं जमाणं	खमासंजमाणं ।	
उहाणं रमाणं	पबुद्धत्थमाणं ।	
दयावङ्गमाणं	जिणं वङ्गमाणं ।	
सिरेणं णमामो	चरित्तं भणामो ।	2c
पुणो तस्स दिव्वं	णिसामेह कव्वं ।	
गणेसेहिं दिट्ठं	मए किं पि सिट्ठं ।	

यत्ता—पायडरविदीवइ जंबूदीवइ पुव्वविदेहइ मणहरि ॥

सायहि उत्तरयलि पविमलसरैजलि पुक्खलवइदेसंतरि ॥ १ ॥

2

वियसियसरसकुसुमरयधूसरि	पविमेलमुक्ककमलछाइयसरि ।	
णिज्झरजलवहूपुरियकंदरि	किणरकरवीणारवसुंदरि ।	
केसरिकररुहदारियमयगलि	गिरिगुंहाणिहिणिहित्तमुत्ताहलि ।	
हिंडिरकत्थूरियमयपरिमलि	कुरैरकीरकलयंठीकलयलि ।	
परिओसियविलसियवणयरगणि	महुयरपियमणहरि महुयरवणि ।	5
सवरु सुट्ठसिउ दुप्परिणामे	होंतउ आसि पूरैरउ णामे ।	
चंडकंडकावंडंपरिगहु	कालिसवरिआलिं गियविग्गहु ।	
अइपरिरिक्खियथावरजंगमु	सायरसेणु णामु जइपुंगमु ।	
विधहुं तेण तेत्थु आढत्तउ	जाव ण मग्गणु कहँ व ण धित्तउ ।	
ताम तमालणीलमाणिवण्णइ	सिस्सुकरिदंतखंडकयकण्णइ ।	10

यत्ता—तणविरइयकीलइ गयमंयणीलइ तरुपत्ताइं णियत्थइ ॥

वेल्लीकडिसुत्तइ पंकयणेत्तइ पल्लफलपिडरविहत्थइ ॥ २ ॥

६ P पुबुद्धं. ७ A वरजलि.

2 १ AP परिमुक्कमलकमल°. २ AP °गुहमुहणिहित्त°. ३ A कत्थूरीमय°. ४ A कीरकुरर°. ५ A पुत्त रउ णामे. ६ AP °कोदंड°. ७ AP कह व णिहित्तउ. ८ P सियकरि°. ९ AP विरइय-वलयए. १० AP गयमयतिलयए. ११ AP फलदलपिडर°.

16 b संजईणं सभ्यविविजयिनां प्रमुम्. 18 a उहाणं रमाणं अभ्युदयनिःश्रेयसलक्ष्मीणाम्; b पबुद्धत्थमाणं ज्ञातजीवादिपदार्थपरिमाणम्. 21 b णि सामेह शृणुत.

2 1 b °मुक्क° विकसितानि. 3 b °गुहणि हि णि हित्त° गुहा एव निधिः तत्र क्षितानि. 4 b °कलयंठी° कोकिला. 5 a परिओसिय° परितोषितः; b महुयरपिय° भ्रमरप्रिया भ्रमरी; महुयरवणि मधुकरनाम्नि वने. 7 a °कंड° बाणः; b कालि° कालीति नाम; विग्गहु शरीरम्. 11 गयमयणीलइ गजमदवत्कृष्णया; णियत्थइ निवसनया. 12 °पिडर° पिटकं भाजनम्.

3

भणिउ पुलिवियाइ मा घायहि
मिगु ण होइ बुहु देवु भडारउ
तं गिसुणिवि भुयदंडविहसणु
पणविउ मुणिवरिंदु सभ्भावें
भो भो धम्मबुद्धि तुह होज्जउ
जीव म हिंसहि अलिउं म बोल्लहि
पररमणिहि मुहकमलु म जोयहि
को वि म णिंदहि दूसिउ दोसैं
पंचुंवरमहुपाणणियायणु
वाह विवज्जहि मणि पडिवज्जहि
तं गिसुणेवि मणुयगुणणासहं

घत्ता—हुउ जीवदयावरु सवरु णिरक्खरु लग्गउ जिणवरधम्मइ ॥
मुउ कालें जंतें गिलिउ कयंतें उप्पणउ सोहम्मइ ॥ ३ ॥

हा हे मूढ णं किं पि विवेयहि ।
इहु पणविज्जइ लोयपियारउ ।
मुक्कु पुलिंदें माहिहि सरासणु ।
तेणाभासिउं णांसियपावें ।
बोहि समाहि सुद्धि संपज्जउ । 5
करयल्लु परहणि काहं मि म घल्लहि ।
थणमंडलि करपत्तु म ढोयहि ।
संगपमाणु करहि संतोसैं ।
रयणीभोयणु दुक्खहं भायणु ।
णिच्चमेव जिणु भत्तिइ पुज्जहि । 10
लइय णिवित्ति तेण महुमासहं ।

4

तेत्थु सु दिव्व भोय भुंजेप्पिणु
एत्थु विउलि भारहवरिसंतरि
णंदणवणवरहीरवरम्महि
कैणयविणिम्मियमणिमयहम्महि
सुरतरुपल्लवतोरणदारहि
धूवधूमकज्जलियगवक्खहि
उज्झाणयरिंहि पयणयसुरवइ
पविमलणाणधारि सुहसंकरु
आइबंभु महएवु महामहु
तहु पहिलारउ सुउ भरहेसरु
मागहु वरतणु जेण पहासु वि

एक्कु समुद्दोवमु जीवेप्पिणु ।
कोसलविसइ सुसासणिरंतरि ।
परिहासैलिलवलयअविगम्महि ।
णायरणरविरइयसुहकम्महि ।
वण्णविच्चित्तसत्तपायारहि । 5
भूमिभायरंजियसहसक्खहि ।
हाँतउ रिसहणाहु चिरु णरवइ ।
पढमणरिंदु पढमतित्थंकरु ।
भुवणत्तयगुरु पुण्णमणोरहु ।
जो छक्खंडधरणिपरमेसरु । 10
जित्तउ सुरुं वेयइणिवासु वि ।

3 AP किं पि ण. २ AP वणदेउ. ३ A णासिउ पावें. ४ AP °पाणपलासणु.

4 १ AP °वरिहीरव°. २ AP °वलयसलिल°. ३ AP °घणय°. ४ AP भोइभोयरंजिय°. ५ AP सुसुहंकरु. ६ A सुरवेयहु.

3 2 a बुहु बुधः. 6 b परहणि परयने. 8 b संगपमाणु परिग्रहपरिमाणम्. 9 a °पाण-
णि वा यणु मयत्यागम्. 10 a वाह हे व्याध. 11 a °णासहं नाशकानाम्.

4 2 b सुसास° सुधान्यम्. 3 a °वरही कोकिला. 8 a सुहसंकरु पुण्यसुखयोः कर्ता.

विजाहरवइ भयकंपाविय

णमि विणैमीस वि सेव कराविय ।

वत्ता—जो सिसुहरिणच्छिइ सेविउ लच्छिइ गंगइ सिंधुइ सिंचिउ ॥

णवकमलदलकखहि उववणजकखहि णाणाकुसुमहि अंचिउ ॥ ४ ॥

5

तां कंकेलीदलकोमलकर
तासु देवि उचुंगपयोहर
सो सुरसुंदरिचालियचामरु
सुउ णामे मरीइ विक्खायउ
देषदेउ अश्वंतविधेइउ
चरणकमलजुयणमियाहंडलु
हरिकुरुकुलकच्छाइणरिंदहि
झाणालीणु पियामहु जइयहुं
दुश्ररिसहमहातवलग्गउ
सरवरसलिलु पिपव्वइ लग्गउ
वक्कलु परिहइ तरुहल भक्खइ
अण्णाणिउ णउ काइं मि जाणइ
कव्वु संखसासणु ते दिट्ठेउं
परिवारियतावसहं पहिल्लउ

धीणाहंसवंसकोइलसर ।
णाम अणंतमइ ति मणोहर ।
ताहि गम्भि जायउ सबरामरु ।
बहुलक्खणसमलंकियकायउ ।
णीलंजसमरणे उव्वेइउ । 5
दिक्खाकिउ मेल्लिवि महिमंडलु ।
समउं णमंसिउ इदपडिदहि ।
णत्तिउ जइ पावइयउ तइयहुं ।
भग्ग णराहिव् पहु वि भग्गउ ।
भुक्खइ भज्जइ लज्जइ णग्गउ । 10
मिच्छाइट्टि असञ्चु णिरिक्खइ ।
पंचवीस तच्चइं वक्खाणइ ।
कविलाइहिं सीसैहं उवइट्ठेउं ।
मुउ तिदंडिं मिच्छामणसल्लउ ।

घत्ता—कयतियसवियप्पइ पंचमकप्पइ कुडिलधम्मु णं पाउसु ॥ 15

उप्पण्णउ बंभइ दुक्खणिसुंभइ दहंसमुहदीहाउसु ॥ ५ ॥

6

कविलहु विप्पहु कोसलपुरवरि
बंभामरु णरजम्महु आयउ
तिव्वे पुव्वभासें भाविउ

जण्णसेणबंभणियरंतरि ।
जडिलु णाम दियवरु संजायउ ।
कम्मं भयवदिक्ख पुणु पाविउ ।

७ AP विणमीस सेव काराविय.

5 १ AP वरकंकेली° २ AP णिव्वेइउ. ३ AP जहु. ४ Aउदरिसह° ५ AP सरवरे सल्लु. ६ AP सिद्धउ. ७ A सीसउ; P सीसहिं. ८ AP परिवाअयतवयहं. ९ P तिदंडि. १० A दह°.

6 १ तिस्थ वि पुव्वाभासें; तिव्वे पुव्वाभासें.

5 8 b णत्तिउ नत्ता मरीचिः; जइ यतिः. 15 कुडिलधम्मु वक्रधर्मः धनुश्रः; णं पाउसु वर्षाकालवत्.

6 1 b जण्णसेण° यज्ञसेनागर्भे. 3 b भयवदिक्ख भागवतदीक्षाम्.

धरइ तिदंड तिदंड ण पहरणइ
अंगहं धुयइ धुयइ णउ दुग्गइ
मिच्छारसंविक्खल्लं चिंहुइ
मुउ सोहम्मि देउ संभूयउं
सायरसरिसु एक्कु तर्हि अचिच्छउ
इह भारहवरिसंतरि णिद्धइ
भारहायदियाहियरत्तइ
पूसामित्तु णामे सुउ जणियउ
मिलियालीयभसणविस्थरियहु
अक्खसुत्तुणा णाणविहीणउ

घत्ता—जीवदयाहीणहं भक्खियमीणहं जइ सिहाइ सुज्झइ तणु ॥

तो^२ किं मंडियसर जुंइजियससहर बय पावंति ण कित्तणु ॥ ६ ॥ 15

परमागमविद्धि किं पि वि ण गणइ ।
सोत्तइं छिवइ छिवइ णउ सुहमइ । 5
हरि हरि^३ घोसइ जडु जलि बुडुइ ।
किं वण्णिज्जइ णिरुवमरुवउ ।
पुणरवि क्षयकालेण णियच्छिउ ।
थूणायारइ गामि पसिद्धइ ।
पुप्फदंतकंतइ पइभत्तइ । 10
बंभणु बंभसमाणउ भणियउ ।
लग्गउ पुणरवि चिरभंवचरियहु ।
गणउ ण होइ सुतच्चविही णउ ।

7

दब्भु देइ जइ गइ परमत्थे
कण्हाइणु हरिणेण वि धरियउं
तंबयभायणु अंबे सुज्झइ
डज्झउ जंणु विणडिउं अण्णाणे
पढमसग्गि सुरवरु होएप्पिणु
पुणु पसरियससिस्सरपहावहि
अग्गिभूइमहिदेवहुं रामहि

तो सिउ पावेवउ पसुसत्थे ।
तं तहु किं ण हरइ दुष्सरियउं ।
अंबु पवित्तु ण भणइ समुज्झइ ।
तउ चरंतु सो मुक्कउ पाणे ।
एक्कु पओहिमाणु णिवसेप्पिणु । 5
णयरिहि सेइयाहि इह भारहि ।
गोत्तमणामहि मज्झे खामहि ।

२ P omits धुयइ. ३ AP °चिक्खल्लं. ४ A बुडुइ. ५ A हर. ६ AP सो हूयउ. ७ A थूणायरइ. ८ A मिलियालियवसेण विस्थरियहो; P मिलियालियवासणविस्थरियहो. ९ AP चिर भव°. १० A अक्खसुत्तकर णाणविहीणउ; P अक्खसुत्तु णाणेण विहीणउ. ११ A सुतच्चपवीणउ; P सुतच्चपवाणउ. १२ P ता. १३ A जइ जिय°.

7 १ AP सुहुं. २ AP जडु. ३ A विणडइ. ४ A सेरियाहि. ५ A °महएवहे.

5 b सो च इं कर्णे, सु ह म इ शुभमतिम्. 6 a चि डु इ मलइ मडइ मूदः चडु आदेशः, अपभ्रंरो प्रायोऽचामचः, पडि, पिडि पुडिवत्, कर्दमेन विलेपनं करोतीत्यर्थः. 8 a सा यर सरिसु सागरोपमम्. 9 a णि द्दइ सरसे. 10 a °आ हि यरत्तइ आहितरागया; b पुप्फयंतकंतइ पुष्पदन्तया भार्यया. 12 a °अ ली य भ स ण °अलीकभाषणेः. 13 a अक्खसुत्तुणा अक्षसूत्रेण; णा ण वि ही ण उ ज्ञानहीनः; b °वि ही विधिः; णउ न्यायश्च न. 18 सि हा इ शिखया. 15 जु इ °द्युतिः कान्तिः; बय बकाः.

7 1 a दब्भु दर्भेद् गतिं ददाति, तर्हि पशुसमूहेन मोक्षः प्रापणीयः. 2 a कण्हाइणु कृष्णाजिनम्. 3 a तंबयभायणु इत्यादि अम्लेन काञ्जिकादिना किल ताम्रभाजनं शुध्यति, काञ्जिकं तु अपवित्रम्, तेन तत् समुज्झति त्यजति. 5 b पओहिमाणु सागरोपमः. 6 b सेइयाहि श्वेतिकायाम्. 7 a अग्गि देवमहि देवहु अग्निभूतिविप्रस्य; रामहि भार्यायाम्.

पुसु अग्निसद्दु देउं विडंबिवि

थिय परिवायविसि अवलंबिवि ।

घप्ता—हिमकंपियकायउ ण्हाउ वरायउ ण्हंतु वि सासयठाणहु ॥

हिंसाविहि मण्णइ जिणु अवगण्णइ जाई केव णिव्वाणहु ॥ ७ ॥ 10

8

मुउ भाभारजित्तससिमालइ
सत्तसंमुइइं तहिं णंदेप्पिणु
सुउ तेत्थाउ पुणु वि मंदरपुरि
गोत्तमभद्दु कोसिय गेहिणि
अग्गिमित्तु मित्तु व तेइल्लउ
कुमइ कुबुद्धिवंत उप्पायइ
अंबरु दइवणिओएं आइउ
जीवहु भावारूढहु दुक्कइ
झीणउ दूसहेण तवचरणे
सुरहरधरकीलियतियसिंदइ
पुणु वि पुब्बपुरवरि सुहंभायणु
मंदर घरिणि मंदगइगामिणि
ताहि तणउ हुउ भारहायउ
पुणु वि सग्गि पुणु णयरतिरिक्खहिं

हुयउ सणक्कुमारसग्गालइ ।
मिच्छाइट्टिउ हरि वंदेप्पिणु ।
गैयणंगणविलग्गपंडुरघरि ।
मंधरगइ णं सुरजलवाहिणि ।
तहि सुउ हुउ सो सोत्तिउ भल्लउ । 5
जल्लु थल्लु सव्वु णिच्चुं णिज्जायइ ।
किं कासायउ ह्णइ कसायउ ।
मणमल्लुं जल्लु किं धोयहुं सक्कइ ।
मुयउ बालु पुणु बालयमरणे ।
उप्पण्णउ जाइवे माँहिंदइ । 10
सुत्तकंतु सिरिसालंकायणु ।
रुवे णाइ पुरंदरकामिणि ।
णामे पुणु जायउ परिवायउ ।
हुउ चउरासीजोणीलक्खहिं ।

घप्ता—बहुदुरियमहल्ले मिच्छासल्ले विविहदेहसंधारइ ॥

15

भरहेसरणंदणु संसयहयमणु चिरु हिंडिवि संसारइ ॥ ८ ॥

9

मगहपसि रायालइ पुरवरि
पारासरहि पुसु हुउ थावरु

पुणु संडिल्ल णाम विप्पहु घरि ।
पारिसेसेप्पिणु णियसणु थावरु ।

६ AP अग्निसिद्दु, ७ A देहु, ८ A णवरु वि सासय°, ९ AP केम जाइ.

8 १ A हुयउ. २ AP °समुइसमइं णंदेप्पिणु. ३ AP °गणविलग्ग°, ४ AP विद्दु.
५ A मणमल्लु किं जहु. ६ A °वरकीलय°. ७ P महिंदइ. ८ P सहभायणु. ९ AP तहे तणुरुहु.

9 १ A श्रावरु.

8 a अग्नि सद्दु अग्निसहः. ! हिमकंपियकायउ माषस्नानादिना शिशिरे कम्पमानगात्रः.

8 4 a सुरजलवाहिणि गङ्गा. 5 a मित्तु व सूर्यवत्. 6 a कुबुद्धिवंत उप्पायइ
कुपण्डितान् उतादयति; b सव्वु णिच्चु योगमते सर्वे नित्यम्. 7 a अंबरु वक्खम्; दइवणिओएं
कर्मविशेषेण. 11 a पुब्बपुरवरि मन्दरपुरे; b सुत्तकंतु ब्राह्मणः. 13 b परिवायउ परिव्राजकः.

9 1 a रायालइ राजगृहे. 2 b णियसणु थावरु वक्खणइहादिकम्.

अमरणमंसियइंदपडिदइ
पुणु पुव्वुत्तदेसि तहिं पट्टणि
विस्सविसाहभूइ सुसहोयर
जइणीलक्खणाउ धरघरिणिउ
दोहिं मि जाया णवपंकयमुह
जो जेट्टु जायउ सो थावरु
ता सो विस्सभूइदिहि इच्छिवि
सिरिहरगुरुहि पासि गइ सिक्खिउ
यक्कु विसाहभूइ सुपहुत्तणि
एक्कहिं दिणि सो णियणंदणवाणि
जा कीलइ सरैमज्जि पइट्टउ

घत्ता—आवेप्पिणु मंदिरु णयणाणंदिरु अइभावे ओलगिउ ॥

अइकोइलकलयलु चलकोमलदलु ताउ तेण वणु मग्गिउ ॥ ९ ॥ 15

जाउ तिदंडि मरिवि माहिदइ ।
णाणाविहववहारपवट्टणि ।
बिण्णि वि णं हलहर वामोयर । 5
दोहं मि णाइ करिदहं करिणिउ ।
विस्सविसाहणंदि वरं तणुरुह ।
माहिदइ आयउ पवरामरु ।
सारयघणु णासंतउ पेच्छिवि ।
रायहं तिहिं सपहिं सहुं विक्खिउ ॥10
विस्सणंदि पुणु जुवरायत्तणि ।
उवरि देंतु करु सघरिणिघणथणि ।
तां विसाहणंदिं तहिं दिट्टउ ।

10

ताव ताय जुवरायहु केरउं
जइ ण देसि तो जामि विपसैहु
दाइउ वंचिवि कुडिले भावे
अवरहिं दिणि वट्ठियउच्छाहे
पच्चंतइं बलवंतइं जायइं
तुहुं णियरञ्जु पुत्त पालेज्जसु
जइ तुम्हहिं करवालु धरिज्जइ
एव भणोप्पिणु गउ रिउसेण्णइं
पित्तिपण उज्जाणु सजायहु
सिसुपहुणा आपणायणिणउं
उववणु ससुयहु दिण्णु पिउब्बे
गउ वणु रणंसपहिं णिव्वूढउ

महुं उज्जाणु देहि सुहगारउं ।
ता णिग्गय मुहि वाय णरेसहु ।
देमि^५ पुत्त किं सुण्णपलावे ।
भाइतणउ बोल्लिउ महिणाहे ।
जामि ताइं णिहणमि कयंघायइं । 5
ता पभणइ णंदणु पसरियजसु ।
तो मइं किंकरेण किं किज्जइ ।
तेण णिहित्तइं छिण्णइं भिण्णइं ।
दोइउ रइकीलाकयरायहु ।
पेसणु मेरउ किं पि ण मग्गिणउं । 10
को णउ खडु पडुत्तणगव्वे ।
दिट्टउ दुट्टु कविट्टारूढउ ।

२ AP वरघरिणिउ. ३ AP लयभवणि. ४ AP ताम. ५ AP अलिकोइल^०.

10 १ AP ताय. २ AP दिहिगारउ. ३ AP विदेशहो. ४ A देवि. ५ P कयकायइं.
६ P रणसहिं.

4 a पुव्वुत्त दे सि मगधदेशे; पट्टणि राजगृहे. 6 a जइणी विश्वभूतेजैनी. 9 b सारयघणु शरदभ्रम्.
10 a गइ आचरणम्. 12 a सो विश्वनन्दी.

10 1 a ताय हे पितः. 2 a विएसहु परदेशम्. 9 a सजायहु स्वपुत्रस्य. 11 a पिउब्बे पितृव्येण.

रिउणा सहुं धरणीरुहु पेळिउ
पुणु खुहेण माणवहु लंघिउ

तेण जाम उम्मूलिवि घळिउ ।
पत्थंरखंभु झ त्ति आसंघिउ ।

घत्ता—ता जइणीणंदणु रणजुज्झणमणु तहिं मि पवणचंलु पत्तउ ॥ 15
पहणेवि सदप्पइ पाणितलप्पइ खंभु वि फोडिवि घित्तउ ॥ १० ॥

11

पुणु णासंतु जंतु रिउ जोइवि
हा हा महुं भुयबलु किं किज्जइ
इज्जउ किं उववणु किं जोव्वणु
सहुं सयणाहिं णीसल्लु करेण्णिणु
विस्सणांदि दिक्खाइ अलंकिउ
भिक्खहिं मुणिवरु महुइर पइट्टउ
वेसापासायत्थं जाणिउ
तहिं अवसरि गाईइ णिसुंभिउ
दुक्करकायकिलेसं दुब्बलु
जेण कविट्ठरुक्खु संचूरिउ
सो एवहिं खलसमण विणट्टउ
इयं णिसुणिवि मुणिवि अयाणउ

तेण पउत्तउं अण्णउं सोयवि ।
जेण बंधुसंतावउ दिज्जइ ।
अथिरु सदेहु गेहु धणु परियणु ।
संभूयहु कमजुयलु णवेण्णिणु ।
गउ विसाहभूइ वि^१ भवसंकिउ । 5
रज्जपहट्ठं रिउणा दिट्टउ ।
आसि एण हउं वणि अवमाणिउ ।
णिवडिउ रिसि इइवें पारंभिउ ।
भणइ पिसुणु तं कहिं तुह भुयबलु ।
जेण बलेण खंभु मुसुमूरिउ 10
पडियउ दुंढुगिट्ठिपरिहट्टउ ।
रिउणां णियमणि बडु णियाणउं

घत्ता—जइ जिणवरतवहलु अत्थि सुणिम्मलु तो रणरंगि भिडेसमि ॥
इहु वइरि महारउ विण्णियगारउ हउं परभैवि मारेसमि ॥ ११ ॥

12

मुउ ससल्लु सो साहु गयासणु
तेत्थु जि सो वि साहु भूमीसरु

देउ महासुक्कम्मि सुभूसणु ।
जायउ सुरवरु णं रूवी सरु ।

७ AP वरसिलखंभु. ८ AP रणे जुज्झण°. ९ AP पबलबलु.

11 १ A वि ण वि संकिउ. २ AP रज्जपभट्ठं. ३ AP जेण सिलाखंभु वि मुसुमूरिउ.
४ A दुडुगिट्ठिपरिभट्टउ; P दुडुगिट्ठिए परिषट्टउ. ५ AP इय पिसुणउं णिसुणेवि अयाणउं.
६ AP रिउणा. ७ A परहवे.

12 १ P रूवें सरु.

14 a माण वहु मानमार्गः. 15 पवणचलु वायुवेगी.

11 6 a महुइर मथुरानगरीम्. 11 b ° गिट्ठि° सकृत्प्रसूता गौर्यष्टिः. 12 a अयाणउ अशानी.

12 1 a गयासणु गताशनः सन्. 2 a भूमीसरु विशाखभूतिः; b सरु स्मरः कामः.

सोलहसायरसमय सहच्छिय
पुणु तित्याउ गलियसुंहयम्मइ
पोयणपुरवरि राउ पयावइ
अवर मयच्छि पुरंधि मिगावइ
दोहि मि तो ते णंदण जाया
चिरपित्तु जौ सो हुउ हलहरु
तेण गहीरवीरहकारणि
गिरिवइ खगवइ भुत्तवसुंधरु
हरि तिखंडमंडिय महि भुंजिवि
डप्पणुणउ तमतमपहि भीसणि
पुणु इह भारहि गंगाणइतडि

घत्ता—ससहावें दारुणु हेरिरुहिरारुणु तिक्खणक्खभाभासुरु ॥

दाढाफुरियाणु हुउ पंचाणु कंधरघोलिरकेसर ॥ १२

मित्त सणेहवंत अदुगुंछिय ।
कालें पुणें देसि सुरम्मइ ।
रइ विव मयणेंहु देवि जयावइ । 5
जाहि रूउ पउलोमि ण पावइ ।
विजय तिविद्ध णाम विक्खाया ।
विस्सणंदि केसउ परबलहरु ।
जलणजडीतणयाकारणि रणि ।
सयडावत्ति णिहउ हयंकंधरु । 10
इंदिय रंजिवि दुक्किउ भुंजिवि ।
णाणादुक्खलक्खदुद्धरिसणि ।
सीहवणंतरि तरुवरसंकडि ।

15

13

वणयरवेदं णं
पक्कु समुहु तेत्थ जीवें
पुणु इह वरिसि जणिउ इहमायइ
फारतुसारहारपंडुरतणु
कुंजररुहिरसित्तकेसरसहु
कररुहरंधलग्गमुत्ताहलु
सिरवलइयलंगूलपईहरु
चारणमुणिजुयलें णहि जंतें
भणइ जेट्टु जमदमसंजमधरु
जिणसिट्टु अइदुट्टु अहे रउ

मुउ पढमावणिविलि संभूयउ ।
पंचपयारु दुक्खु विसहेप्पिणु ।
सिंधुकुडपुव्विल्लइ भायइ ।
जलणफुलिंगपिंगचल्लोयणु ।
तरुणमयंकवंकदादुग्गभइ ।
पल्लवलोललंबजीहादलु ।
वरकुंजरगणियाारिरईहरु ।
णियंमणम्मि जिणभाउ भरंतें ।
भो अमियमई साहु माहिमायरु ।
एहु सु अच्छइ सीहकिसोरउ । 10

२ AP सुयहम्मए. ३ P मयणहे. ४ A मृगावइ. ५ AP दो ते. ६ AP गिरिवरे. ७ AP हरिकंधरु. ८ AP पुंजिवि. ९ AP करि°.

13 १ A वणयरवंदहो; P वणयरवेदंहु. २ AP सिरवलइय°. ३ AP नियमणे जिणभासिउ सुमरंतें. ४ AP °धर.

3 a सहच्छिय सह स्थितौ. 4 a गलियसुहयम्मइ शुभकर्मणि गलिते सति. 10 a गिरिवइ विजयार्धपतिः; b सयडावत्ति शकटावर्तिवने; हयंकंधरु अश्वप्रीवः. 14 हरि° गजा मृगा वा.

13 1 b पढमावणिविलि प्रथमनरकभूमौ. 3 a इहमायइ इभहिसिकया सिंहा जनितः. 5 b तरुणमयंक° द्वितीयाचन्द्रवत्. 8 b भरंतें स्मरता. 9 a जेट्टु अजितंजयः. 10 a अहे रउ अघे पापे रतः.

इय जंपतें उवसमघामें

बोलाविउ अजियंजयणामें ।

घत्ता—भो भो कंठीरव कयदारुणरव महुवाणि तुहुं खंयकंदउ ॥

कालीसवरीवरु बाणासणधरु होंतउ आसि पुलिंदउ ॥ १३ ॥

14

तुहुं होंतउ मरीइ जिणणत्तिउ

तुहुं संभाविउ मिच्छावायउ

बहुभवाइं होंतउ कप्पामरु

बहुभवाइं होंतउ तसथावरु

तुहुं दुइतें दइवें दंडिउ

अणण्णाइं अंगाइं लप्पिणु

विस्सणंदि णामें जयरौणउ

व्हमइ सग्गि देउ णच्चियसुरि

विसहियघोरदुक्खपब्भारउ

तुहुं होंतउ खरणहरुक्केरउ

तुहुं होंतउ पढमावाणिदुक्खिउ

इह पुणरवि हूयउ पंचाणणु

भो भो मयवइ विद्धंसियमयगय

घत्ता—परिहंरि दुच्चरियइं दुण्णयभरियइं संबोहियभरहेसरु ॥

पणवहि परमेसरु जियवम्मीसरु पुंप्फदंतजोईसरु ॥ १४ ॥

भंरहेसरसुउ खत्तिउ सोत्तिउ ।

बहुभवाइं होंतउ परिवायउ ।

संसरंतु संसारि असूहरु ।

बहुभवाइं पत्तउ णरयंतरु ।

हूलिउ पउलिउ तिलु तिलु खंडिउ । 5

अणण्णाइं वण्णं मेल्लेप्पिणु ।

तुहुं होंतउं जइवरु सणियाणउ ।

तुहुं होंतउ तिविट्टु पोयणपुरि ।

तुहुं होंतउ तमतमपहि णारउ ।

सुरसरितीरि सिहरिसेहीरउ । 10

सिरिहरअरहंतें महुं अक्खिउं ।

पीळुपेयपलदूसियकाणणु ।

लोहियजलघाराधुयपय ।

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप

महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे वीरसामिबोहिलाभो णाम

पंचणंदिमो परिच्छेउ सम्मत्तो ॥ १५ ॥

५ °मइ साहु मह सहयर; P °गइ साहु महिसायरु. ६ A कयरंजणरव. ७ AP खदकंदउ.
८ AP बाणासणकरु.

14 १ AP भरहेसहो सुउ. २ AP बप्प. ३ AP जुवराणउ. ४ AP पीळुदेहपल°. ५ AP परिहरु. ६ AP पुष्पदंतरिसहेसरु. ७ AP पंचणउदिमो.

12 महुवणि मधुवने पूर्वे जातः; खयकंदउ खनितकन्दः.

14 5 b हूलिउ शूले प्रोतः. 7 a जयरणउ जगतो राजा. 12 b पीळुपेय° गज-
मृतकम्. 13 a °मयगय मत्तगजः.

गुरुवयणु सुणेवि बहुदुहसोक्खणिरंतरु ॥
उवसंतु मयारि सुमेरिवि चिरु जम्मंतरु ॥ ध्रुवकं ॥

दुवई—उट्टिउ णीससंतु भवसंभरणुगयदुक्खेहुयमणो ॥

णिवडिउ मुणिवरिंदर्ररणोवरि बाहभरंतलोयणो ॥ छ ॥

सो हरिवरु वंदइ रिसिपयाइं
परिघोलिरेण रत्ते णवेण
सिरकमले मणहरकेसरेण
णहरंधगलियमुत्ताहलेहिं
सामीउ जासु आवेति जोइ
कयसव्वजीवमारणणिवित्ति
आहिलसइ गसइ दुग्घोद्वैथट्टु
उवसामिउ सो वि महामुणीहिं
महियलणिहित्तणु जित्तजीहु
चित्तइ महुं बोहि समाहि होउ
मइं आसि कुसिद्धंतइं कयाइं
मइं जीहोवत्थविलुद्धएण
बहुवारउं भुत्ती एह भूमि
हउं मुउ उप्पणउ णरयविवरि
जलयरु थलयरु णहयरु चिलोउ

णीसेसजीवपयडियदयाइं । 5
णं पुज्जइ जीहापलुवेण ।
णं विज्जइ पुंछे चामरेण ।
णं अञ्चण करइ समुज्जलेहिं ।
सावयवइ सावउ किं ण होइ ।
ण खेणइ णेहेण वि सो धरिसि । 10
जो मासाहारें भरइ पेट्टु ।
हियामियसुमहुरमणहरञ्जुणीहिं ।
संणासि परिट्टिउ साहु सीहु ।
महुं मिच्छादुक्किउ खयहु जाउ ।
परिपालियाइं तावसवयाइं । 15
णिहणंवि णरिंद रणेकुद्धएण ।
भो पंसु तित्ति णउ तो वि जामि ।
बहुवारउ हुउ मिंमुं सेलकुहरे ।
हउं जायउ भवि भवि मंदभाउ ।

घत्ता—जिणधम्मु मुपवि सयलु वि मइं अणुहुत्तउं ॥

20

संसारिउ दुक्खु भणु किर कवणु ण पत्तउ ॥ १ ॥

1 १ AP बहुसुहदुक्खणिरंतरु. २ AP सुवरिउ. ३ AP °दुक्खहयमणो. ४ A °चलणोवरि.
५ P णक्खणइ. ६ AP णक्खेण. ७ A दुग्घोद्वैथट्टु. ८ A महुं. ९ A णिहणिय. १० AP रणि
कुद्धएण. ११ A बहुवार भुत्ती एह; P बहुवारउ भुत्तीए एह. १२ AP भोएसु तित्ति. १३ A मिउ
हुउ सेलसिहरे; P हुउ मिग सेलकुहरे. १४ A विलाउ; P चिराउ.

1 3 °हुय° भस्मीभूतम्. 4 वाह° बाष्पमश्रु. 8 a णहरंध° नखच्छिद्रात्. 9 a सामीउ
समीपम्; b सावयवइ श्वापदपतिः; सावउ श्वाकः. 10 b णहेण वि नखेनापि. 11 a दुग्घोद्वैथट्टु
बलवत्तरगजघटा. 17 b भो पसु हे पशो; तित्ति तृप्तिम्. 19 a चिलाउ मिलाः.

दुवई—इय उवसंतु संतु मुउ केसरि थिउ रिसिसमवियप्पए ॥

णामें सीहकेउ हुउ सुरवरु पढमसुरिंदकप्पए ॥ छ ॥

सो दोसमुहथिरपरिमियाउ

दीवंतरि जणसंपण्णकामि

पुव्वासामंदरपुंवंभाइ

मंगलवइदेसि सुमंगलालि

कणयप्पहपुरवरि विजयकंखु

गइलीलाणिजियहंसलील

सो सीहकेउ सुरु ताहि पुत्तु

कणउज्जलु णामें कणयवण्णु

णियघरिणिइ सहुं उग्गयणमेरु

तेणावहिलोयणु गुणविसिहु

बंदिउ वंदारयवंदवंदु

संजमघरु जायउ खयरु साहु

मुउ संणासें पुणु लंतवक्खि

अणुहुंजियपवरामरमाइं

दिव्वंबरभूसणु दिव्वकाउ ।

विकखायइ धादइसंडणामि ।

मणहरविदेहि वणदिण्णंछाइ ।

उत्तरसेढिहि वेयहुसेलि ।

विज्जाहरु णामें कणयपुंखु ।

तहु गेहिणि सूहव कणयमाल ।

संजायउ लक्खणलक्खजुत्तु ।

कंचणकुंडलचंचइयकण्णु ।

गउ वंदणहत्तिइ कहिं मि मेरु ।

पियमित्तु महामुणि तेत्थु दिट्ठु ।

णिसुणेवि धम्मु ह्यमोहतंदु ।

मयरइयचंचलहरिणवाहु ।

संभूयउ सुरवरु जणियसोक्खि ।

जीविउ तेरह सायरसमाइं ।

घत्ता—पुणु कोसलदेसि पुरि साकेइ रवण्णइ ॥

दियेणिववणिसुहचाउवण्णसंकिण्णइ ॥ २ ॥

दुवई—णामें वज्जसेणु णरपुंगमु सीलवइ त्ति गेहिणी ॥

बालकुरंगणयंण पीणत्थणि सीलगुणंभवाहिणी ॥ छ ॥

सो सत्तमसग्गामरु मरेवि

दालिइदमणु जणकामधेणु

एयहि गग्भासइ अवयरेवि ।

हरिसेणु णामु उप्पण्णंसेणु ।

2 १ AP °मंदरे. २ A वणदित्तछाए. ३ A °विंदविदु; P °विंदवंदु. ४ A दियवणिणिवसुइ°.

3 १ P omits णामें. २ A °णयणि. ३ AP दालिइदलणु. ४ AP उप्पण्णु सणु.

2 1 रिसिसमवियप्पए मुनिसदृशपरिणामे स्थितम्. 6 a मंगलालि मङ्गलसंघाते. 10 a कणउज्जलु कनकोज्जलः; b °चंचइयकण्णु देदीप्यमानकर्णः. 11 a °णमेरु कल्पवृक्षः. 13 a °वंद° वृन्दः; b °मोहतंदु मोह एव निद्रा. 14 b °वाहु व्याघ्रो भिल्लो वा. 15 a लंतवक्खि लान्तवनाग्नि. 16 a °रमा° लक्ष्मीः. 18 दिय° विप्राः.

3 2 °गुणंभवाहिणी गुणजलनदी. 3 b गग्भासइ गर्भाश्रये स्थाने. 4 b °सेणु सेना सैन्यम्.

महि भुंजिवि गिरु णिव्वेइएण	सम्मसरयणसुविराइएण ।	5
सुयसायरसूरिहि पासि दिक्ख	अवलंबिय लहुं परलोयसिक्ख ।	
मुउ सुरु संजाउ महंतसुक्कि	बहुदुक्खवग्गदोहग्गमुक्कि ।	
तणुतेयविहिण्णदिवायराइं	तैहि जीविवि सोलह सायराइं ।	
पुणु धादइसंडइ भमियमेहि	पुव्विल्लइ सुरैगिरिवरविदेहि ।	
पुक्खलवइविसइ मणोहिरामि	पिच्चंतछेत्तउहामगामि ।	10
णंदंतणुउणणायर महत्थ	पुरि अत्थि पुंडरिंणिणि पसत्थ ।	
तहि णरवइ अरिवरतिमिरमित्तु	णामे सुमित्तु सुंविस्सिट्ठमित्तु ।	
तडु दूरुज्झियदुहुंतगाव	सुव्वय महएवि महाणुभाव ।	
भव्वीमरु विहवो इव रमाइ	सो ताहि गग्भि थिय जणिय ताइ ।	

घत्ता—णामे पियमित्तु चक्खवट्ठि होएप्पिणु ॥ 15

णव णिहि रयणाइं महि असेस भुंजेप्पिणु ॥ ३ ॥

दुवई—णिसुणिवि परमधम्मु खेमंकरजिणवरणाहभासिओ ॥

णंदणु सच्चमित्तु अहिसिंचिवि अप्पणु तउ समासिओ ॥ छ ॥

राएं दूसहरिसिणिट्ठ सहिवि	दप्पिट्ठ दुट्ठे खल तिट्ठ महिवि ।	
किउ संणासणु हुउ सग्गलोइ	सहसारणामि संपण्णभोइ ।	
आउसु अट्टारहजलहिमाणु	माणेप्पिणु पुणुं चुउ भव्वभाणु ।	5
घरसिहरारूढणडंतख्यरु	इह भारेहि छत्तायारण्यरु ।	
सुपसिद्धु णंदिवद्धणु णरिंदु	वीरवइ देवि तहि पुत्तु णडु ।	
हुउ पत्तवंतु पत्ताहिसेउ	महि भुंजिवि णिंदिवि मथरकेउ ।	
पोट्टिल्लहु पासि पावइउ केव	रिसहहु णवंतु वाहुबलि जेव ।	

घत्ता—हुउ रिसि समचित्तु अप्पउं खंतिइ भूसइ ॥ 10

थुउ हरिसु ण लेइ णिंदिय णंउ सो रूसइ ॥ ४ ॥

५ AP णिवसेविणु. ६ AP सुरवरगिरिविदेहे. ७ AP छेत्ते. ८ AP पुरे. ९ A पुंडरिक्किणि.
१० AP सुविसुद्धचित्तु. ११ AP सुक्कामरु.

4 १ A सव्वमित्तु. २ AP चिट्ठ. ३ A पुणु चउभव्वभाणु. ४ AP खयरे. ५ A भारह-
छेत्तायरण°. ६ AP णयरे. ७ AP पुण्णवंतु पुण्णा°. ८ A पोदिल्लहो. ९ AP सो णउ.

6 a सुय सा यर° श्रुतसागरनामा. 8 a वि हि ण्ण दि वा य रा इं तिरस्कृतसूर्याणि. 10 b पि चं त छे त्त°
पक्षेत्रैः. 11 a महत्थ महाधनाः. 12 a °मित्तु सूर्यैः. 14 a र मा इ लक्ष्म्या.

4 2 स च मि तु सत्यमित्रः. 3 b ति ट्ठ तृष्णा. 8 a प त्त वं तु वाहनयुक्तः. 9 b रि स ह हु
वृषभस्य.

5

दुवई—इयं णीसंगु सल्लपरिवज्जिउ दूरविमुक्कण्हाणओ ॥
लाहालाहहणणवहबंधणसुहदुक्खे समाणओ ॥ छ ॥

तैवि तेत्थु ताव तें मुणिवरेण	जमसंजमभारधुरंधरेण ।
अट्ट वि अंगइं अवहेरियाइं	एयारह अंगइं धारियाइं ।
जिह भित्तसुद्धि तिह पिंडसुद्धि	तहु पवियंभइ थिर धम्मबुद्धि ।
णउ सोवइ जग्गइ दियहु रत्ति	सो करइ सर्व्वभूपसु मेत्ति ।
णिज्जणि वणि गिरिवरकुहारि वसइ	विकहाउ ण जंपइ णेय हसइ ।
उर्वसग्ग परीसह सयल सहइ	परमत्थसत्थवयणाइं कहइ ।
णिच्चं पि पउंजइ णाणजोउ	सहंसणु पोसइ सैहइ सोउ ।
रिसिसंघहु वेज्जावच्चु करइ	मिच्छामूढहं मिच्छत्तु हरइ ।
जे मग्गभट्ट ते मग्गि ठवइ	विणपण पंचपरमेत्ति णवइ ।
आहारु देहु मेल्लिवि मुण्णिदु	मुउ अंतरालि सुमरिवि जिण्णिदु ।
णियकायकंतिणिज्जियच्छणिदु	अच्चुइ संजायउ सुरवरिंदु ।
बावीससमुद्दोवमचिराउ	पंडुरु रयणित्तयंतुंगकाउ ।

घत्ता—अइसुहुमु मणेणं बोलीणहिं वावीसहिं ॥ 15
भुंजइ आहारु सुरहिउ वरिससहासहिं ॥ ५ ॥

दुवई—धुवणीसासु मुयइ सो तेत्तियपक्खहिं दुहविहंजणो ॥
जाणइ ताम जाम छट्ठावणि वह्णियओहिदंसणो ॥ छ ॥

परमागमसाहियदिव्वमाणि	णिवसंतहु पुष्फुत्तरविमाणि ।
जइयहुं वट्टईं छम्मासु तासु	परमाउमाउ परमेसरासु ।
तइयहुं सोहम्मसुराहिवेण	पभाणिउ कुबेरु इच्छियसिवेण ।

5 १ AP अइणीसंगु. 2 AP °विमुक्कमाणओ. ३ A ततु तिब्बु तवतें; P ततु तिब्बु ताव तें. ४ A सयं भूपसु. ५ A विकहा णउ जंपइ. ६ A reads *a* as *b* and *b* as *a*. ७ AP समइ. ८ AP अंतयालि. ९ A रयणित्तिय°; K रयणित्तिय°. १० AP खणेण.

6 १ AP धुउ. २ A °विहंसणो; P °विहंसणे. ३ P °दंसणे. ४ P वट्टइ. ५ AP °माणु.

5 4 *a* अवहेरियाइं निराटतानि. 5 *b* पवियंभइ प्रविजृम्भते. 9 *a* णाण जोउ ध्यानम्. 12 *b* अंतरालि हृदयमध्ये. 14 *b* रयणित्तिय° हस्तत्रयम्.

6 1 दुहविहंजणो दुःखविभञ्जनः. 4 *b* परमाउमाउ परमायुर्मात्रम्.

इह जंबुदीवि भरहंतरालि
कुंडउरि राउ सिद्धत्यु सहिउ
अकवालचोळ्ळुं जो देउ रुहु
ण गिलिउ गहेण जो समरसूरु
जो णरु अविहंदलि दलियमल्लु
अणिवेसियणियमंडलकुरंगु
जो कामधेणु पसुभावचुक्कु
अणवरयचाइ चाएण धण्णुं
दोबाहु वि जो रणि सहसबाहु
दालिहहारि रायाहिराउ

रथणीयविसइ सोहाविसालि ।
जो सिरिहरु मग्गणवेसरहिउ ।
अमहिउ सुरेहिं जो गुणसमुहु ।
जो धम्माणंदु ण सघरदूरु ।
जो परणरणाहहु जणइ सल्लु । 10
जो भुवणंदु अविहंडियंगु ।
जो चिंतामणि चिंताविमुक्कु ।
असहोयररिउ सयमेव कण्णु ।
सुहिदिण्णेजिउ जीमूयवाहु ।
जो कप्परुक्खु णउं कट्टभाउ । 15

घत्ता—पियकारिणि देवि तुंगकुंभिकुंभत्थणि ॥
तहु रायहु इट्ट णारीयणचूडामणि ॥ ६ ॥

दुवई—एयहं बिहिं मि जक्ख कमलक्ख सलक्खणु रक्खियासवो ॥

चउवीसमु जिणिंदु सुउ होही पयजुयणवियवासवो ॥ छ ॥

पयहं दोहिं मि सुरसिरिविलासु
ता कयउ कुंडपुरु तेण चारु
सव्वत्थ रइयणाणादुवारु

करि धणय कणयभासुरु णिवासु ।
सव्वत्थ रयणपायारंभारु ।
सव्वत्थ परिहपरिरुद्धचारु । 5

६ A रमणीय°. ७ A कुंडलउरि. ८ A महिउ. ९ AP अकवालभोजु. १० AP रिउ भीसु वि ण पर महाणसिल्लु. ११ AP सुणिवेसिय; K records a p: सुणिवेसियेति वा पाठः । सुनिवेशितो निजमण्डले कुरंगु पृथ्वीरमणीयता येन. १२ AP भुवणयंदु. १३ A धण्णु. १४ AP दिण्णु जीउ. १५ A हयकट्टभाउ.

7 १ AP सुरसरि°. २ A °पायारसारु.

6 b रयणीयविसइ रजोरहिताः सिद्धाः विदेहाः; तेन विदेहो लभ्यतेऽत्र. 7 a सहिउ स्वहितः; b सिरिहरु मग्गणवेसरहिउ वामनाकारः; हरिणा वामनरूपेण बलिश्चकितः. 8 a अकवालचोळु कपालरहितः, पक्षे, अकं दुखं पालयन्ति ये तेऽकपालाः दुःखिनः तत्राश्चर्ययुक्तः; रुहु प्रचण्डः शंभुश्च; b अमहिउ न मथितः. 9 a गहेण राहुणा दुराग्रहेण च; समरसूरु सुभटः; b धम्माणंदु धनुपानन्दकरः; धम्मो धनुर्युधिष्ठिरश्च; ण सघरदूरु परवासरहितः; स्वग्रहमात्मा च. 10 a णरु पार्थः; अविहंदलि स्त्रीविषघारी विहंदलिनामा नर्तको न भवति, पक्षे, अव्यघं निःपापं सैन्यं यस्य. 11 a अणिवेसियेत्यादि अनिवेशिता निजमण्डले कुरङ्गा येन, निरन्तरवसतिर्निजमण्डले कारिता इत्यर्थः; v भुवणइंदु चन्द्रः इन्द्रश्च. 14 b जीमूयवाहु जीनूतवाहनो नाम राजा. 15 b कट्टभाउ काष्ठरुः, पक्षे निन्द्यः.

7 1 कमलक्ख हे कमललोचन यक्ष; रक्खियासवो निपिद्धासवो. 3 a सुरसिरि° देवलक्ष्मीः. 4 b °पायारभारु प्राकारसमूहः सप्त प्राकाराः. 5 b °चारु शत्रुसंचरणम्.

सव्वत्थ फलियणंदणवणालु
 सव्वत्थ धवलपासायवंतु
 सव्वत्थ फलिहबद्धावणिलु
 सव्वत्थ णिहित्तविचित्तफुल्लु
 सव्वत्थ वि दिव्वपसंडिपिंगु
 सव्वत्थ वि वेरुलिणहिं फुरइ
 सव्वत्थ वि रविकंतेहिं जलइ
 सव्वत्थ पडहमइल्लरवालु
 सव्वत्थ णारिणेउरणिघोसु

सव्वत्थ तरुणिणञ्चणवमालु ।
 सव्वत्थ सिहरचुंबियणहंतु ।
 सव्वत्थ घुसिणरसच्छडयगिल्लु ।
 सव्वत्थ सुफुल्लंधयपियल्लु ।
 सव्वत्थ वि मोत्तियरइयंगु । 10
 सव्वत्थ वि ससिकंतेहिं झरइ ।
 सव्वत्थ चलियविंधेहिं चलइ ।
 सव्वत्थ णडियणडणट्टसालु ।
 सव्वत्थ सोभंमु परिगलियदोसु ।

घत्ता—पहुपंगणि तेत्थु वंदियचरमजिणिंदे ॥

छम्मास विरइय रयणविट्ठि जक्खिंदे ॥ ७ ॥

8

दुवई—ठियेसउहयलाणिहियसयणयलइ सयलदुहोहहारिणी ॥

णिसि णिहंगयाइ सिविणावलि दीसइ सोक्खकारिणी ॥ छ ॥

सुरिंदच्छराथोत्तसंमाणियाए
 सलीलं चरंतो चलो णं गिरिंदो
 विसेसो विलंबंतसण्हासमेओ
 वरं दामजुम्मं विहू वीअधंतो
 सरंतं सरंतं विसारीण दंदं
 पहुल्लंतराईवराईणिवासो
 पहाउज्जलं हेमसेहीरपीढं
 मरुद्धयविंधं सुभित्तीविचित्तं
 मणीणं समूहं पहाविप्फुरंतं
 जलंतो हुयासो धरायासधामे

सुसिद्धत्थसिद्धत्थरायाणियाए ।
 जिणंवाइ दिट्ठो पमत्तो करिंदो ।
 हरी भीसणो दिव्वपोमाहिसेओ । 5
 रवी रस्सिजालावलीविप्फुरंतो ।
 घडाणं जुयं लोयकल्लाणवंदं ।
 पवड्ढंतवेलाविसांसो सरीसो ।
 महांहिंदहम्मं विलासेहिं रूढं ।
 घरं चारु आहंडलीयं पवित्तं । 10
 परं सोहमाणं तमोहं हरंतं ।
 णिर्यच्छेवि दीहच्छि सामाविरामे ।

३ A सुफुल्लिधुयं. ४ AP °मंदलं. ५ P सोमु. ६ AP °चरिमं.

8 १ AP सियं. २ A दीयवंतो. ३ A तरंत. ४ A °विसालो. ५ A °सेहीरवीढं.

६ A महाइंदं. ७ AP कुंभीणसीयं. ८ AP read this line as: महग्घो अल्लो फुरंतो ससोहो (A ससोहो), महाकंतिजुत्तो मणीणं समूहो. ९ A णियच्छेइ.

6 a फलियं फलयुक्तम्. 8 b °गिल्लु आर्द्रम्. 9 b °फुल्लंधयं भ्रमराः. 10 a पसंडिं सुवर्णम्.

8 3 b सुसिद्धत्थं परिपूर्णार्थः. 5 a सण्हासमेओ सास्ना गलकम्बलः तेन युक्तः; b °पोमाहिसेओ लक्ष्याः अभिषेकः स्नानम्. 6 a वीअधंतो नष्टध्वान्तः. 7 a सरंतं गच्छत्; विसारीण मत्स्ययोः. 8 a पहुल्लंतराईवराई विकसत्कमलपंक्तिः; °णिवासो सरः; सरीसो सरित्पतिः समुद्रः. 9 b महाहिंदहम्मं नागभवनम्. 10 b आहंडलीयं इन्द्रस्य. 12 b सामाविरामे राज्यवसाने.

विउद्धा गया जत्थ रायाहिराओ
पियाप सुहं दंसणाणं वरिट्ठं
सुओ तुज्झ होही महादेवदेवो
महावीरवीरो महामोक्खगामी

धरिस्तीसचूडामणीघिट्ठपेओ ।
फलं पुच्छियं तेण सिट्ठं विसिट्ठं^{१०} ।
महावीरयाओ विमुक्खावलेवो । 15
तिलोयस्स^{११} वंदो तिलोयस्स सामी ।

घत्ता—घरंप्रंगणि तासु रायहु सुहपम्भारहिं ॥
बुट्ठउ घणणाहु अविहंडियघणधारहिं ॥ ८ ॥

9

दुवई—कयविम्भमविलास परमेसरि बालमरालचारिणी ॥
कंकणहारदोरफडिसुत्तयकुंडलमउडधारिणी ॥ छ ॥

चंदककंति	संपर्णकित्ति ।	
सिरि हिरि सलच्छि	दिहि पंकयच्छि ।	
सई कित्ति बुद्धि	कयगम्भसुद्धि ।	5
आसाढमासि	ससियरपयासि ।	
पक्खंतरालि	हयतिमिरजालि ।	
दिसिणिम्मलम्मि	छट्ठीदिणम्मि ।	
संसारसेउ	थिउ गम्भि देउ ।	
संपण्णहिट्ठि	कय कणयविट्ठि ।	10
जक्खेण ताम	णवमास जाम ।	
मासम्मि पत्ति	चित्ताणिउत्ति ।	
सियतेरसीइ	जणिओ सईइ ।	
जिणु भुवणणाहु	भम्माहदेहु ।	
मुणिभासियाइ	पण्णासियाइ ।	15
सह दोसयाइं	जइयहुं गयाइं ।	
णिब्बुइ जिणिदि	अहतिमिरयंदि ।	

१० A सचूलामणी. ११ AP °घट्ट°. १२ A वसिट्ठं. १३ P विंदो. १४ AP घरंपंगणि.

9 १ A °गामिणी. २ A °मउल°. ३ AP चंदककित्ति. ४ AP संपत्तकित्ति. ५ P सई कंति. ६ K omits this line. ७ A संपत्तहिट्ठि; P संपण्णहिट्ठि. ८ A भवण°. ९ P तिमिरइंदे.

13 b धरिस्तीस° सामन्तराजानः. 15 b °अवलेवो गर्वः मलो वा.

9 3 b संपण्णकित्ति संप्राप्तकृतिः. 6 b ससियरपयासि शुक्ले. 12 b चित्ताणिउत्ति चित्रानक्षत्रनियुक्ते उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रे. 14 b भम्माहदेहु सुवर्णप्रभः. 17 b अहतिमिरयंदि पापान्धकारस्य चन्द्रे.

सिरिपासणाहि लच्छीसणाहि ।
 तणुकंतिकंतु तइयहुं तियंतुं ।
 बद्धाउमाणु सिरिवह्णमाणु ।
 जइवहुं पट्टउ जयतिलयभूउ ।

20

घत्ता—पयणिह्णिखीरिहिं कलसहिं जियलणयंदहिं ॥
 अहिसिंतुं जिणिंदु मंदरसिहरि सुरिंदहिं ॥ ९ ॥

10

दुवई—पुज्जिउ पुज्जणिज्जु मणिदामहिं भूसिउ भुवणभूसणो ॥
 संथुउ चित्तवित्तवावारिहिं कुसमयरइयदूसणो ॥ छ ॥

आघोसिउ णामें वहुमाणु जगि भणमि भडारउ कहु समाणु ।
 जो^३ पेक्खिणवि णउ गंभीरु उंयहि जो पेक्खिणवि ण थिरु गिरिंदु समहि ।
 जो पेक्खिणवि चंदु ण कंतिकंतु जो पेक्खिणवि सूरु ण तेयवंतु । 5
 मज्झत्थभाउ सुहसुकुल्लेसु णं धम्मं परिट्टिउ पुरिसवेसु ।
 बुज्जियपरमक्खरकारणेहिं जो संजयविजयहिं चारणेहिं ।
 अवलोइउ सेसवि देवदेउ णट्टउ भीसणु संदेहहेउ ।
 सम्मइ कोक्किउ संजमधणेहिं विरइयगुरुविणयपैयाहिणेहिं ।
 अहिसेयसलिलधुयमंदरेण जो णिब्भउ भणिउ पुरंदरेण । 10
 तं णिसुणिवि देवें संगमेण होइवि भीमें उरजंगमेण ।
 गंदणवणि कीलातरु णिरुद्धु गय सहयर सिंसु थिउ तिजगबंधु ।
 तहु फणिमाणिकइं फंसमाणु अविउल्लु अचलुं वि सिरिवह्णमाणु ।

घत्ता—फेणमुहदाढाउ कर फुसंतु णउ संकिउ ॥

पुज्जिवि देवेण वीरणाहु तैहिं कोक्किउ ॥ १० ॥

15

१० A तवंतु; P तयंतु. ११ AP जइवइ. १२ A अहसिंतु.

10 १ AP °वित्तवरवाणिहिं. २ A बहु समाणु. ३ AP read *a* as *b* and *b* as *a*.
 ४ AP कंतिवंतु. ५ AP सुहसुकु^०. ६ A धम्मि. ७ A °पयासणेहिं. ८ P omits this foot.
 ९ AP अविचलु. १० AP फणिमुह^०. ११ A तहो.

19 *b* ति यंतु जन्मजरामरणत्रयान्तः. 21 *a* जइवहु यतिप्रभुः.

10 2 चित्तवित्तवावारिहिं चित्रा नानाप्रकाराः वृत्ताः संजाताः वृत्तरूपा वा व्यापाराः तैः;
 कुसमयरइयदूसणो मिथ्यामतस्य कृतदूषणः. 4 *a* उयहि समुद्रः. 8 *b* सेसवि शिशुस्त्वे.
 9 *b* विणयपयाहिणेहिं विनय एव प्रदक्षिणा. 11 *b* उरजंगमेण सर्पेण. 12 कीलातरु आमलकी-
 वृक्षः. 13 *b* अविउल्लु अक्षोभ्यः.

11

दुवई—जं सिंसुदंसणेण रिउणो वि हु होंति विमुक्कमच्छरा ॥
जस्सं कुमारकालपरिवट्टणववगय तीस वच्छरा ॥ छ ॥

जो सत्तहत्थसुपमाणियंगु	जें विद्धंसिउ दूसहु अणंगु ।	
णिव्वेइउ सो मउलिय करेहिं	संबोहिउ लोयतियसुरेहिं ।	
अहिंसिचिउ पुणुं सयलामरेहिं	विज्जिज्जंतउ चोमरवरेहिं ।	5
चंदप्पहसिवियहिं पहु चाडिणुं	तहिं णाहु संडवणि णवैर दिणु ।	
मग्गसिरकसणइसमीदिणंति	संजायइ तियसुच्छवि महंति ।	
वोलीणइ चरियावरणपंकि	हत्थुत्तरमज्झासिइ ससंकि ।	
छट्टोववासु किउ मलहरेण	तवचरणु लइउ परमेसरेण ।	
मणिमयपडलें लेप्पिणु ससेस	इंदें खीरणवि धित्त केस ।	10

घत्ता—परमेट्टि रिसिंदु थिउ पडिवज्जिवि संजमु ॥
थुउ भरहणरेहिं पुप्फयंतवंदियकमु ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे वीरणाहणिकखंघणवण्णो
णाम छण्णउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९६ ॥

11 १ A जस्स सुदंसणेण. २ P तस्स. ३ AP सो. ४ A चामरधरेहिं; P चलचामरेहिं.
५ P चडिळु. ६ AP णाह. ७ A णायसंडु. ८ A 'मज्झासिय'. ९ AP 'णिकखवणं.

11 6 b दिणु उत्तीर्णः. 8 b हत्थुत्तर° उत्तराफाल्गुनीमध्यमाश्रिते.

XCVII

मणपञ्जयसंजुत्तउ
तारहारपंडुरघरि

देवदेउ थिरचित्तउ ॥
कूलगामणामइ पुरि ॥ ध्रुवकं ॥

1

भिक्षसहि परमेसरु पइसरइ
मणपञ्जयणयणें परियरिउ
रायहु पियंगुवण्णुज्जलहु
थिउ भुयणणाहु दिण्णउ असणु
तं लेप्पिणु किर जा णीसरिउ
देवहिं जयतूरइं ताडियइं
भो चारु दाणु उग्घोसियउं
मंदाणिल्लु वूढउ सीयलउ
एत्तहि दुक्कम्मइं णिट्ठवइ
जिणु जिणकप्पेण जि चक्कमँइ
घत्ता—सुणहसीहसीयालहं
वणि अच्छइ उब्भुम्भउ

घरि घरि सुसमंजसु संबैरइ ।
कूलहु घरप्रंगणि अवयरिउ ।
णवतंहु मउलियकरयलहु । 5
णवकोडिसुद्ध मुणि दिव्वसणु ।
ता भूमिभाउ रयणहिं भरिउ ।
गयणयलहु फुल्लइं पाडियइं ।
अइसुरहिउं पाणिउं वरंसियउं । 10
णिउ णरवंदिउ बहुगुणाणिलउ ।
भीसाणि णिज्जाणि वणि दिणु गमइ ।
जो पाणहारि तासुं वि खमइ ।
ओरसियहं सइलहं ॥
रयणिहि णं थिहं खंभउ ॥ १ ॥

2

ण करइ सरीरसंठेप्पविहि
वहुंतकेसजडमालियउ
उज्जेणिहि पिउवणि भययरिहि
अण्णहिं दिणि सिद्धिपुरंधिपिउ
जोईसरु जणजणणत्तिहरु

सुपरीसह सहइ ण मुयइ दिहि ।
णं चंदणु फंणिलमालियउ ।
तमकसणाहि भीमविहावरिहि ।
पिउवणि पडिमाजोएण थिउ ।
अवलोइउ रुहें परमपरु । 5

1 १ AP णामे. २ AP संसरइ. ३ AP °पञ्जयणणें. ४ AP °पंगणि. ५ P दिव्वसणु.
६ AP वरिसियउं. ७ AP चिक्कमइ. ८ AP तासु जि. ९ A सुणय°; P omits सीह.
१० P थिरलंभउ.

2 १ AP °संकप्पविहि. २ AP फणिओमालियउ. ३ AP जिणु जणण°.

1 2 b कूलगामणामइ पुरि कूलग्रामनाम्नि पत्तने. 3 b सुसमंजसु न्यायवान्.
5 a पियंगुवण्णुज्जलहु प्रियङ्गुवत् श्यामवर्णस्य. 6 b दिव्वसणु दिग्बलः. 10 a वूढउ वहति स्म;
b णिउ नृपः. 13 b ओरसियइं गजितं कुर्वताम्. 14 b रयणि हि रात्रौ; खंभउ वर्षणार्थं स्तम्भ इव.

2 1 a °संठप्पविहि संस्कारविधिः. 2 b फणिलमालियउ सर्पकुलवेष्टितः. 3 b °विहा-
घरिहि विभावर्था रात्रौ. 5 a जणजणणत्तिहरु जनानां जन्मार्तिहरः.

मइं कयउवसग्गहु किं तसइ
 किं णउ णंदणु पियकारिणिहि
 इय चिंतिवि जेद्धातणुरुहिण
 बेयाल कालकंकालधर
 पिंगुद्धकेस दीहरणहर
 चोइय धाइय हरि दिण्णकम
 यत्ता—कयभुवणयलविमइं
 णियविज्जहिं दरिसाविउ

णियवरियगिरिंदहु किं ल्हसइ ।
 जोर्येउ जिणु सम्मइधारिणिहि ।
 पिंगच्छिभिउडिभीसणमुहिण ।
 करवालसूलझसपरसुकर ।
 किलिकिलिरवबहिरियभुवणहर । 10
 फुप्फुफुयंत विसि विसविसम ।
 पुणु वि हरेण रउइं ॥
 गुरु पाउसु वरिसाविउ ॥ २ ॥

3

पुणु वणयरगणु कयपडिखलणु
 देविंदचंदेदप्पहरणइं
 सव्वइं गैयाइं विहलाइं किह
 सच्चइतणएण पवुत्तु हलि
 धीरहु धीरत्तुं ण संवलइ
 इय भणिवि बे वि वंदिवि गयइं
 चेडयर्याहु लयललियभुय
 णंदणवणि कीलइ कमलमुहि
 यत्ता—तिह विलसियवम्मीसें
 पुणु णियघरिणिहि भीपं

पुंणु धगधगंतुं जालिउ जलणु ।
 पुणु मुक्कइं णाणापहरणइं ।
 किविणहु मंदिरि दीणाइं जिह ।
 गिरिवरसुइ वियसियमुहकमलि ।
 किं मेरुसिहरि कत्थइ ढलइ । 5
 वसहारूढइं रँइरसरयइं ।
 णियपुरवरि चंदण णाम सुय ।
 जिह जणणिजणणु ण वि मुणइ सुहि ।
 णिय केण वि खयरीसें ॥
 वणि घल्लिय सुंविणीपं ॥ ३ ॥ 10

4

णियबंधुविभोयविसण्णमइ
 धणयत्ते वसहयत्तवणिहि

तेहिं दिट्ठी वाहें हंसगइ ।
 ते दिण्णी वणिचूडामणिहि ।

४ AP जोयहुं. ५ AP सुम्मइ°. ६ AP फणि पुफुयंत बहु विसि विसम.

3 १ A वणयरगण; P वणयरगणु. २ A omits पुणु. ३ A °धगंत. ४ A °वद°. ५ AP विगयइं. ६ AP धीरत्तु. ७ AP रयरस°. ८ P चेडल°. ९ A दुविणीपं.

4 १ A तह.

8 a जे द्धातणुरु हि ण ज्येष्ठापुत्रेण ईश्वरेण. 10 b °भुवणहर °भुवनयहाः. 11 a हरि सिंहाः; b वि सि सर्पाः.

3 1 a वणयरगणु वनचरसमूहः प्रेषितः. ४ a सच्चइतणएण हरेण; b गिरिवरसुइ हे पार्वति. 7 a लयललिय° लतावत्कोमलौ.

4 1 b वाहें मिलेन. 2 a वसहयत्तवणिहि निजश्रेष्ठिनः वृषभदत्तस्य दत्ता.

वणिणा णियमंदिरि णिहिय सइ
 पंडिवक्खगुणेहिं विमहियइ
 पही कुमारी जइ रमइ वरु
 पर्यहिं केरउं सहुं जोव्वणेण
 इय भणिवि णियंविणि रोसवस
 कोहवकूरहु सराउ भरिउ
 सा णिच्च देह तहि णवणवउं
 गुरुपावभावभरववसियउं
 समसत्तुमिन्नुजीवियमरणु
 पिंडत्थियउ जाणियजीवगइ

घत्ता—णियलणिरुद्धपयाइं
 आविचि संसुहियाइ

रूवेण णाईं पञ्चक्ख रइ ।
 चित्तिउ तहु पियइ सुहहियइ ।
 तो पुणु महुं दुक्करु होइ घरु । 5
 णासमि वररूउ कुभोयणेण ।
 घल्लंति भीमदुव्वयणकस ।
 सहुं कंजिपण रसपरिहरिउ ।
 एत्तहि परमेट्ठि सुभइरवउं ।
 विसहेपिणु हरदुच्चिलसियउं । 10
 अण्णहिं दिणि भव्वसमुद्धरणु ।
 कोसंबीपुरवरि पइसरइ ।

चेडैयणिवैदुहियाइ ॥
 पणवेप्पिणु दुहियाइ ॥ ४ ॥

5

कोहवसित्थइं सरावि कयइं
 मुणिणाहहु करयलि होइयइं
 जायाइं भोज्जु रसदिण्णदिहि
 जिणदाणपहावैं दुइमइं
 सज्जणमणयणाणंदणहि
 अमरहिं महुयरमुहपेल्लियइं
 रयणाइं वण्णकच्चुरियाइं
 हर्यं दुंदुहि साहुकारु कउ
 कण्णहि गुणोहु विउसेहिं थुउ
 बारहसंवच्छरतवचरणु
 पोसंतु आहिस खंति ससैहि
 गउ जिभिह्यगामहु अइणियडि

सउवीरविमीसइं हयमयइं ।
 तेण वि णियदिट्ठिइ जोइयइं ।
 अट्टारहखंडपयारविहि ।
 आयसघडियइं रोहियकमइं ।
 परिगलियइं णियलइं चंदणहि । 5
 कुंदइं मंदारइं घल्लियइं ।
 पसरंतकिरणविप्फुरियाइं ।
 गुणिसंगे कासु ण जाउ जउ ।
 सहुं बंधवेहिं संजोउ हुउ ।
 किउ सम्मइणा दुक्कियहरणु । 10
 भयवंतु संतु विहरंतु महि ।
 सुविउलि रिजुकूलाणइहि ताडि ।

२ P एयहो. ३ AP दिट्ठउ. ४ A °वृव°.

5 १ P पसरंति किरण°. २ AP हउ. ३ AP सुसहि. ४ AP जिंमिय°.

4 a प डि व क्ल ° चन्दना. 7 b °कस तर्जनकः. 9 b सु भ इ र व उं अतिभयानकं उपसर्गम्. 10 b हर ° रुद्रः. 13 a णि य ल ° शृंखला. 14 b दु हि या इ दुःखितया.

5 1 b सउवीर° काञ्जिकम्. 3 b अट्टारहखंडपयारवि हि अष्टादशविधं भक्ष्यभोजनम्. 4 b आ य स घ डि य इं लोहघटितानि; रो हि य क म इं निरुद्धपादानि. 5 b णि य ल इं शृंखलाः. 8 b जउ जयः. 11 a सस हि भगिन्याः. 12 a अ इ णि य डि अतिसमीपे; b °ण इ हि नचाः.

घत्ता—मोरकीरसारससरि
सालमूलि रिसिराणउ

उज्जाणम्मि मणोहंरि ॥
रयणसिलहि आसीणउ ॥ ५ ॥

6

छट्टेणुववासैं ह्यदुरिणं
वइसाहमासि सियदसमिदिणि
हत्थुत्तरमज्झंसमासियइ
घणघणइं घाइकम्मइं ह्यइं
घंटारव हरिरव पडहरव
वंदियउ तेहिं वीराहिवइ
किउ समवसरणु गैयसरसरणु
आहंडलेण पप्फुल्लमुहु
महुं संसपण संभिणण मइ
णाहें महुं संसउ णासियउ
मइं समउं संमणभावहु गयैइं
घत्ता—पत्ते मौंसे सावणि
उप्पणउ चउबुद्धिउ

परिपालियतेरहविहचरिणं ।
अवरणइ जायइ हिमकिरणि ।
पहु पडिवणणउ केवलसियइ ।
खुहियाइं झ त्ति तिण्णि वि जयइं ।
आया असंख सुर संखरव । 5
सुत्तामउ चरणजुयलु णवइ ।
उवइट्टउ तिहुवणजणसरणु ।
सेणिय हउं आणिउ दियपमुहु ।
जिणु पुच्छिउ जीवहु तणिय गइ ।
मइं अप्पउ दिक्खइ भूसियउ । 10
पावइयइं दियहं पंचसयइं ।
बहुंले पाडिवण दिणि ॥
महु सत्त वि रिसिरिद्धिउ ॥ ६ ॥

7

महंतो महाणाणवंतो सभूईं
सुधम्मो मुणिंदो कुलायासचंदो
इसी मोरि मुंडी सुओ चत्तगावो
सया सोहमाणो तवेणं खगामो
सयाकंपणो णिच्चलंधो पहासो

गणी वाउभूईं पुणो अग्निभूईं ।
अणिंदो णिवंदो चरित्ते अमंदो ।
समुप्पणवीरंधिराईवभावो ।
पवित्तो सच्चित्तेण मित्तेयणामो ।
विमुक्कंगराओ रईणाहणासो । 5

6 १ P °मज्झासमा° . २ A गय सुर सरणु . ३ P गयाइं . ४ P °सयाइं . ५ P मासे पुणु
सावणे . ६ AP बहुलपक्खे पडिवण दिणे . ७ P रिसिरिद्धउ .

7 १ A वृवंदो . २ A णिच्चलंको .

13 a °सरि शब्दे . 14 a सालमूलि देवदाकृक्षतले .

6 2 b-3 a हि मकिरणि हत्थुत्तर इत्यादि चन्द्रे उत्तराफाल्गुनीसहिते . 4 a घणघणइं
लोहघनवत् . 6 b सुत्तामउ इन्द्रः . 8 b हउं अहं गौतमः . 9 a संभिण्ण मइ जीवाद्यर्थे नानारूपतया
चलिता मतिः . 13 a चउबुद्धिउ कोष्ठवीजपदानुसारिसंभिन्नश्रोत्राः ; b सत्त वि रिसिरिद्धिउ बुद्धि तवो
वि य लद्धी विउवणलद्धी तहेव ओसहिया । रस बल अक्खीणा वि य लद्धीओ सत्त पण्णात्ता .

7 1 a स भूईं विभूतिसहितः गणी श्रीगौतमः अहम् . 3 a मोरि मुंडी मौर्यः मौण्ड्याख्यश्च ; सु ओ
पुत्रनामा ; b °वीरंधिराईव भावो° श्रीमहावीरचरणकमलभक्तः . 4 a खगामो खं शुक्लध्यानं तत्र गच्छति .

इमे एवमाई गणेसा मुणिल्ला
संपुव्वंगधारीण मुक्कावईण
दहेक्कणयाइं तहिं सिक्खुयाणं
घत्ता—मोहें लोहें चत्तउ
एक्कु सहसु संभूयउ

जिणिंदस्स जाया असल्ला महल्ला ।
पसिद्धाईं गुत्तीसयाइं जईणं ।
समुम्मिल्लसव्वावहीचक्खुयाणं ।
तिहिं सपहिं संजुत्तउ ।
खमदमभूसियरूवउ ॥ ७ ॥ 15

8

पंचेव चउत्थणाणधरहं
चत्तारि सयइं वाईवईहं
छत्तीस सहासइं संजईहिं
लक्खाइं तिण्णि जहिं सावईहिं
संखेज्जएहिं तिरिण्हिं सहं
णाणाविहोथरंजियसुरइं
सम्मत्तधोयमिच्छामलइं
विहरंतु वसुह विद्धत्थरइ
आवेप्पिणु दुहणिण्णासयरु
पुच्छियउ पुराणु महंतु पइं
घत्ता—णिसुणिवि गोत्तमभासियं
संबुद्धा विसहरणरा

सत्तेव सुकेवलजिह्वरहं ।
दियसुगयकविलहरणयहरहं ।
भणु एक्कु लक्खु मंदिरजईहिं ।
सुरदेविहिं मुक्कसंखगईहिं ।
परमेट्टि देउ सोक्खाइं महं । 5
विहरेप्पिणु देउं गामपुरइं ।
संबोहिवि भव्वजीवकुलइं ।
विउलहरि पराइउ भुवणवई ।
सेणिय पइं वंदिउ तित्थयरु ।
भासियउं असेसु वि तुज्जु मइं । 10
भरहाणंदविह्वीसियं ॥
पुष्पयंतजोईसरौ ॥ ८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे वट्टमाणसामिकेवलणाणुप्पत्ती
गाम सत्तणउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९७ ॥

३ A गुणिल्ला. ४ P सुपुव्वंग°.

8 १ AP add after this : वेउव्वणइद्दासंजुयहं, संतहं भयवंतहं णवसयहं. २ AP वाईसरइं.
३ AP देसगामपुरइं. ४ AP सवणवई. ५ AP °भासिउ. ६ AP °विह्वसिउ. ७ P जोइससुरा.
८ AP सत्ताणउदिमो.

6 a मुणि ल्ला शिष्यवन्तः, शिष्ययुक्ता गणधरा जाताः. 7 b गुत्ती स या इं त्रीणि शतानि. 8 a दहे-
क्कू ण या इं नवशतानि; b समुम्मिल्ल° प्रकटीभवत्.

8 3 b मंदिरजई हिं श्रावकाणाम्. 8 a विद्धत्थरइ विनष्टरागः वीतरागः.

पभणइ मगहणरिंदु भो भो तिहुवणसारा ॥

अक्खहि मज्झु भवाइं गोत्तमसामि भडारा ॥ ध्रुवकं

भासइ इंदंभूइ भूईसर
भो दसारकुलकाणणकेसरि
खयैरसारु णामें तैहिं वणयरु
साहु समाहिगुत्तु पइं दिट्ठउ
वंदिउ करयल मँउलिवि भावें
संजमभारु गरुइउ परियट्ठउ
भिल्लें भणितु धम्मु किं बुच्चइ
धम्मु बप्प जं जीउ ण हम्मइ
जं अदिण्णु परदविणु ण धिप्पइ
जं णउ रयणियालि भुंजिज्जइ
पंचुंबरपरिहारु रहज्जइ
सो जि धम्मु जं वयइं अहंगइं

भो भो णिसुणि भविस्सजिणेसर ।
अत्थि पत्थु वरविंशमहागिरि ।
तुहुं होंतउ बाणासणसरकरु । 5
णिट्ठाणिट्ठिउ सुट्ठुं विसिट्ठउ ।
उज्झियपावें वज्जियगावें ।
रिसिणा बोल्लिउ धम्मु पवट्ठउ ।
पुणरवि तासु भडारउ सुच्चइ ।
अलिउं ण भासिज्जइ णउ सुम्मइ । 10
जं मणु परघरिणिहि णउ रप्पइ ।
मासु मज्झु जं महु वैज्जिज्जइ ।
परपेसुण्णउं जं ण कहिज्जइ ।
अणु किं धम्महु मत्थइ सिंगइं ।

घत्ता—तं णिसुणिवि सवरेण उच्चाइउ वयभारु ॥

मुक्कउ जीविउ जाव वायसमासाहारु ॥ १ ॥

15

2

आयट्ठियबहुघडियामालें
तहु सरीरु रोपं आसोसिउं
कायमासु भक्खिउं ण खिलापं
आह्वयउ तहु केरउ सालउ

परिवट्ठें दीहें कालें ।
भेसहु भिसयवरेहिं समासिउं ।
ता घरिणिइ सज्जणसंघापं ।
सारसपुरवराउ वेयालउ ।

1 १ AP इंदंभूमि भूमिसर. २ A खहरसार. ३ A तह. ४ A सुहु. ५ A मउलिय.
६ AP गरुय आयट्ठउ. ७ AP वंचिज्जइ.

2 १ AP दिग्घे. २ AP भक्खिऊण.

1 4 a दसारकुल^० हरिवंशः, दशार्हकुलम्. 5 a वणयरु भिल्लः; b बाणासणसर^०
धनुः बाणश्च. 8 a परियट्ठउ आकर्षतु भवान्. 12 a रयणियालि रजनीकाले रात्री. 14 a वयइं
व्रतानि. 16 वायस^० काकः.

2 1 a^० बहुघडियामालें अरघट्ठवत्. 2 a आसोसिउं शोपितम्. 4 b वेयालउ वेगवान्.

सूरवीरणामे आवंतें
 गिसुय तेण कामिणि रोवंती
 गउ पुच्छिय सा झ त्ति विलासिणि
 कहइ णियंबिणि इह इउं जक्खिणि
 जासु मुणिदहिं संबोहिय मइ
 रिद्धयैपलणिविंसिफलसारें
 पइं जाइवि वयभंगु करेव्वउ
 तं गिसुणिवि गउ तुरिउ वणेर्यरु
 पंथिय मेहुणेण गिरु णेहें
 केव वि गहियउं वउ ण वि भग्गउं
 घत्ता—ता तें जक्खिपवंचु तहु भासिउ णीसेसु ॥
 तं गिसुणिवि णियचित्ते आणंदिउ सवरेसु ॥ २ ॥

णिसि वणि वियडइं पयइं घिवंतें । 5
 हा हा णाह णाह पभणंती ।
 धरिणिरौहणगोहणिविसिणि ।
 लीलौलोयणधवलकडक्खिणि ।
 जो तुहुं जाणहि तुह बहिणीवइ ।
 तें होएव्वउ महु भत्तारें । 10
 सो महुं सामिउ हौतु धरेव्वउ ।
 खणि संपत्तउ ससहोयरिघरु ।
 इयरें वाहिवि लुंचियदेहें ।
 ता तं सुहियउल्लइ लग्गउं ।

3

सव्वमासपरिचाउ करेप्पिणु
 हुउ सोहम्मि देउ रंइणिम्मलु
 दुक्खिउ सूरवीरु संजायउ
 पुच्छिय जक्खि तेण सयणुल्लउ
 मुउ तुह पिउं किं हुयउ ण हुयउ
 अक्खइ जंक्खिणि किं अक्खिज्जइ
 बुक्कणपलपरिहरणु सुहावउ
 णवर मइं वि तुह मंतु पयासिउ
 सव्वजीवजंगलपरिचापं
 सो सोहम्मि वाहुं उप्पण्णउ
 घत्ता—ता समाहिगुत्तस्स पासि गंपि भिल्लेण ॥
 सयलं वि मासणिवित्ति गहिय सुणीसल्लेण ॥ ३ ॥

मुउ मुणिवयणु संइत्ति धरेप्पिणु ।
 किं वणिज्जइ जिणधम्महु फलु ।
 भीसणु तं काणणु पडिआयउ ।
 सो अम्महारउ वयविहि भल्लउ ।
 भणु परमेसरि गिरुवमरूयउ । 5
 मज्झु कलेवरु विरहें झिज्जइं ।
 किर होसइ महुं पीणियभावउ ।
 अप्पणु अप्पउं झ त्ति विणासिउ ।
 समलंकिउ गुरुपुण्णणिहापं ।
 अणिमाइहिं गुणेहिं संपण्णउ । 10

३ P सूरवीरु णामें. ४ AP आवेंतें. ५ AP लीलालोइणि. ६ A मुणिदें. ७ AP रिद्धियपल°. ८ A वणायरु; P वणयरु. ९ A पच्छिउ; P पुच्छिउ.

३ १ AP सुइत्ति. २ AP गिरु णिम्मलु. ३ A प्रिउ. ४ AP जक्खि काइं अक्खिज्जइ. ५ AP खिज्जइ. ६ P वाउ. ७ A सयलमासणिवित्ति.

5 b वियडइं पयइं विकटानि पदानि. 7 b धरिणि रोह° भूरुहो वृक्षः. 10 a रिद्धय° काकः; °सारें सामर्थेन. 12 b °सहो यरिघरु भगिनीग्रहम्. 16 णियचित्ते स्वमनसि.

3 1 b सइत्ति स्वचित्ते. 4 a सयणुल्लउ स्वजनः. 7 a बुक्कणपल° काकमांसम्; b °भावउ परिणामः. 9 a °जंगल° मांसम्. 10 a वाहु भिल्लः.

4

सूरवीरु सावउ संजायउ
 दोसायरइं भुत्तसुहसायउ
 एर्व बप्प सो पुण्णु चिरायउ
 पुरि रायहं हरि लच्छिसहायहु
 उप्पण्णउ सुउं सेणिय णामें
 तापं कुलसिरिजोग्गउ जाणिउ
 जिह पायडंणरु तिह अवगण्णिउ
 विप्पें सहं गओ सि देसंतरु
 णिसुंणमाणु मिच्छत्तमलीमसु
 बंभणेण तुह बहुसुहभायैण
 ताहि पुत्तु पइं जायउ केहउ
 पुणु णरणाहें णेहु वहंतें

यत्ता—पुरु सीहासणु छत्तु दिण्णंइं अइअणुरापं ॥

जयजयसहें तुज्जु पट्टु णिबद्धउ तापं ॥ ४ ॥

जाणवि अरुहधम्मु णिम्मार्थेउ ।
 खयरंसारु सौ सग्गहु आयउं ।
 इहं पुणु मगह्वेसि संजायउ ।
 सिरिमइदेविहि कूणियरायहु ।
 रूवें तुहुं जि कामु किं कामे । 5
 मायाकलहें णिलयहु णीणिउ ।
 णंदिगामलोपं णउ मण्णिउ ।
 जाइदेवपासंडंकेहंतरु ।
 तुहुं जाओ सि सकम्मपरव्वसु ।
 णियसुय दिण्णी सिस्सुंमिगल्लोयण ॥10
 बुद्धिइ सुंदरु सुरगुरु जेहउ ।
 कोक्किउ तुहुं णियरच्चु मुयंतें ।

5

करभरसंदोहउ मिसु मंडिउ
 तुह मुहदंसणसिरि मग्गंतें
 जणु कंदंतु कणंतु णिरिक्खिउ
 पुणु सुएण सहं एत्थु पराइउ
 गरुयारंभपरिग्गहजुत्तें
 पइं णरयाउसु बप्प णिउत्तउं
 ता उप्पण्णइ गुणिकहवुद्धिइ
 खाइउं सेणिएण उप्पाइउं

रोसें णंदिगाउं पइं दंडिउ ।
 जणणिइ सहं आधंतें संतें ।
 तुह पुत्तें सो अभपं रक्खिउ ।
 कहसंबंधु असेसु णिविइउ । 5
 तिक्कसापं घणमिच्छत्तें ।
 एवहिं तं कहि जाइ अभुत्तउं ।
 संजायइ णिरुवममणसुद्धिइ ।
 दंसणु णिस्संदेहविराइउं ।

4 १ AP जाणेवि. २ P adds after this: एत्तहिं मुरु पुण्णावसु जायउ. ३ P खर-
 सारु. ४ AP सोहम्महो. ५ AP आइउ. ६ AP omits this foot. ७ A omits this foot.
 ८ AP रायहरे. ९ A मुरु. १० A पाइयणरु. ११ P पासंडिकहंतरु. १२ AP णिसुणि माणु.
 १३ AP भायणि. १४ AP सिस्सुमिगल्लोयणि. १५ AP दिण्णउं.

5 १ AP गुरुआरंभ°.

4 २ a °सुहसायउ °सुखस्वादः. 4 a रायहं हरि राज्ञां यहे, राजयहे इत्यर्थः. 6 b णिलयहु
 गृहात्; णीणिउ निःकाशितः.

5 1 a °संदोहउ मि सु समूह एव मियम्. २ a °दंसणसिरि दर्शनशोभा. 3 b सो ग्रामः;
 अभपं अभयकुमारेण.

पुणु वि भडारउ पुच्छिउ भावें
भणु आगामि जमि किं होसमि
तं आयणिवि जइवइ घोसइ
णरयावणिहि दुक्कम्मविरम्महि
पंचविहाइं विहत्तसरीरइं
होसहि भरहि पढमतिथंकरु
तं णिसुणेप्पिणु कुंचियकापं
पत्थु णयरि णरयहु जाएसइ
चिरु णरु होंतउ पुणु णरु जायउ

घत्ता—सो सुंमारिवि चिरजम्मु उज्झियणाणपईवहं ॥

चिंतामणि पाविट्टु पुणु पाउ कहिं जीवहं ॥ ५ ॥

हउं पाविट्टु अलंकिउ पावें ।
असुहसुहाइं केत्थु भुंजेसमि । 10
णिसुणाहि मागहेस जं होसइ ।
तुहुं होसहि णिव णारउ घम्महि ।
अणुहुंजिवि तहु दुक्कइं घोरइं ।
सम्मइ जिह तिह परंमसुहंकरु ।
पणविवि बोह्लिउ सेणियरापं । 15
अवरु को वि किं णउ जइ भासइ ।
पावें अवरहि जोणिहि णायउ ।

6

सालि ण होइ कंगु महिववियउ
गहहु गहहु माणुसु माणुसु
एव जाइवापं सो णडियउ
सत्तमयहु दूरीकयविरयहु
रायरोसदोसोहैपवत्तणु
पियइ मज्जु परजीविउ हिंसइ
सेणियणिवैइकुलालकारें
हउं किं होंतउ चिरजम्मतंरि
होंतउ आसि विणु तुहुं सुंदरु
सो सावउ बिण्णि वि ते सहयर
दूसहदीहपवासै मंथिय
वीसमंत काणणि सईलदलि

घत्ता—ता पइं पत्थरपुंजु विट्टउ चारु समुण्णउ ।

अणु वि पक्खिवमालु भूरुक्खु वि वित्थिण्णउ ॥ ६ ॥

किं जिणेण जण्वउ संतवियउ ।
होइ ण अवरु को वि दुक्कियवसु ।
अइदुहंतें कम्मं घडियउ ।
जाएसइ तमतमपहणरयहु ।
असुहावत्तु पत्तु महिलत्तणु । 5
छट्टी महि णिग्घिणु पइसेसइ ।
रिसि परिपुंछिउ अभयकुमारें ।
भणइ भडारउ इह वरिसंतरि ।
अवरु वि लंघियगिरिदरिकंदरु ।
जरकंथाकरंकरुद्वियकर । 10
जंपमाण ससणेहा पंथिय ।
जा हिंडहिं बेणि वि धरणीयलि ।

२ AP दुक्कम्म°. ३ AP तुहुं होएसहि णारउ घम्महि. ४ AP परहं सुहंकरु. ५ AP सुअरेवि.
६ AP चिंतामणे पाविट्टउ पुणु पाउ कइ जीवहं.

6 १ AP किं पि. २ P जायुवाएं. ३ P °दोसाह°. ४ A °नृवइ°. ५ A परिउच्छिउ.
६ AP वि जण सहयर. ७ P सदल°. ८ A °वमारु.

12 a °विरम्महि विगतरमणीयतायाम्. 13 a विहत्त° विभक्तं खण्डितम्; b तहु नरकस्य.
19 चिंतामणि चिन्तामणिः द्वितीयं नाम.

6 3 a जाइवाएं विप्रजातिवातेन. 4 a दूरीकयविरयहु अपापस्य पुण्यरहितस्येत्यर्थः. 5 a °दोसोह° दोषसमूहः. 10 a सो सावउ अर्हद्वासनामा. 11 °वमालु कलकलयुक्तः; वित्थिण्णउ विस्तीर्णः.

सो पइ वंदिउ देवि पयाहिण
 अम्हारइ पुणु पिप्पलफालें
 तं णिसुणिवि तें तरुवरपत्तइं
 भासिउ तरु ण देउ परमत्थें
 पुरउं चरंतु जइणु सइं मित्तें
 सा तेणुप्पाडिवि मयवतें
 घट्टइं अट्ट वि अंगोवंगइं
 दिट्टइं रुहिरगंठिचकलियइं
 दुक्कियाइं तुह अज्जु जि रुट्टउ
 जोयहि सुरसाणिद्धु विसिद्धुउ
 पुणु सच्चउं सच्चिल्लउ सुच्चइ
 देउ ण हुयवहु ण जलु ण वणेंसइ
 मुइ मुइ मित्तदेव मूढत्तणु
 पुणु गय विण्णिण वि भमियविहंगहि
 पैंउं पवित्तु पउं मलणिण्णासणु
 तों जिणभत्तपण तहिं लद्धउं
 उच्छिद्धउं करेवि तहु ढोइउं
 गंगाजलु दोसेण ण छिप्पइ
 पुणु तावसु पंचग्गि पैंजोइउ
 परर्जइणा सो बोल्लिवि छिद्धिउ
 भक्खइ मासु पियइ महु गुलियउ

घत्ता—बंभणु वण्णहं सारु देउ भणंतु सणाणें ॥

सावपण सो वुत्तु हो किं कुलअहिमाणें ॥ ७ ॥

पभेणइ तुम्हारइ संथुय जिण ।
 मुच्चइ माणुसु गुरुदुरियसैं ।
 पाय पुसेप्पिणु वसैंदिसि घिसइं ।
 तुहुं वेयारिउ सौत्तियसत्थें ।
 कइकच्छुहि पणमिउ धुत्तसैं । 5
 बंभणेण उववासु करंतें ।
 कइणीरोमैं भग्गइं तुंगइं ।
 अरुहवासु पभणइ लइ फलियइं ।
 देउ महारउ किं पइं घट्टउ ।
 पइं अप्पणु णयणेहिं जि दिट्टउं । 10
 पिंपलुं देउ ण अंगिउ वुच्चइ ।
 चच्चरि चच्चरि केसवुं णिवसइ ।
 वंदहि जिणवरु तित्थपवत्तणु ।
 पाणिउं वंदिउं विप्पें गंगहि ।
 पैंइं धरियउं ण वि दियवरसासणु ॥ 15
 पवरोयणु गंगाजलसिद्धउं ।
 लइ लइ लैंइ पवित्तु पोमाइउं ।
 भो भो भरहि गासु दिय जडमइ ।
 दियपहिपं मणु संसइ ढोइउं ।
 कउलसुत्तु दरिसंतें महिउ । 20
 तावसु भइरवणाहहु मिलियउ ।

7 १ AP पभणिउ. २ A पिंपलफालें; P पिप्पलफालें. ३ AP दइदिसि. ४ P सो तियसत्थें.
 ५ AP पुणु वि चरंतु. ६ AP सा पुणु उप्पाडेवि मयमत्तें. ७ AP 'रोमहिं भिण्णइं तुंगइं.
 ८ AP सुरसामत्थु. ९ AP पिप्पल. १० P अग्गि सु वुच्चइ. ११ A वणासइ; P पणासइ.
 १२ AP किसिउ. १३ AP एउं. १४ AP एउं धरियउं दियवरसासणु. १५ P omits ता.
 १६ AP पइं. १७ AP पलोइउ. १८ A परजइणा.

7 1 a देवि पयाहिण प्रदक्षिणां दत्त्वा. 4 b वेयारिउ वञ्चितः. 6 a मयवतें मदवता.
 7 b कइणीरोमइं कपिकच्छुः. 1 a सुरसाणिद्धु देवसांनिध्यम्. 12 b चच्चरि चच्चरि चच्चरे चच्चरे
 रामः पर्वते पर्वते शिवः । वटे वटे वसेद्भस्मा सर्वत्र मधुसूदनः. 15 a पउं पयः. 20 a परजइणा
 उत्कृष्टजैनेन; b कउलसुत्तु चार्वाकशास्त्रम्. 21 b भइरवणाहहु कौलिकस्य.

8

तं कुलु जहिं कम्मकखउ किज्जइ
 तं कुलु जहिं कुसीलु वज्जिज्जइ
 बंभु मोक्खु तहुं लोयपसिद्धउ
 बंभे बंभु ण बुद्धइ सुत्ते
 बंभे बंभचेरु विद्धंसिउ
 मच्छंधिणिहि व्रासुं उप्पण्णउ
 मूलु असुद्धु बप्प किं साहहि
 कुलु उत्तमुं पत्थिवकुलु भण्णइ
 ता कुलगव्वु तेण परिहरियउ
 काणणि जंत जंत दुहंसणि
 पंथु अपेच्छमाण मय बेणि वि
 संणासें गय ते सोहम्महु
 जो बंभणु सो तुहुं संजायउ
 अभयकुमारु णामु हयदुक्खहु

घत्ता—पभणइ महियलंणाहु गर्यमिच्छत्तमंधहि ॥

भणु चंदणहि भवाइं सुरहियचंदणगंधहि ॥ ८ ॥

तं कुलु जहिं जिणधम्मु मुणिज्जइ ।
 तं कुलु जहिं सुणाणु अज्जिज्जइ ।
 बंभसहु मुणिवरपडिबद्धउ ।
 आसि तिलोत्तमैरमणासत्ते ।
 णहु भट्टु कुलु काइं पसंसिउ । 5
 तुहुं पुणु कुलवापं अहण्णंउ ।
 मारिज्जइ पसु बंभणवाहहि ।
 जहिं तिथ्यर जंति परमुण्णइ ।
 णिच्छपण जिणधम्मु जि धरियउ ।
 वग्घसीहगयगंडयभीसणि । 10
 आयद्धिवि मणसल्लुं तिण्णि वि ।
 सग्गहु सुरवररमणीरम्महु ।
 सेणियरायपुत्तु. विक्खायउ ।
 चरमदेहु जाएसहि मोक्खहु ।

15

9

तं गिसुणेविणुं भासइ मुणिवरु
 सिंधुविसइ वरसालीपुरवरि
 चेडउ णाम णरेसरु णिवसइ
 धणयत्तउ धणंभहु उविंदउ
 कंभोर्यउ कंपणउ पर्यंगउं
 धीयउ सत्त रूवविण्णासउ ।

सुणि सेणिय अक्खेमि तुह वइयरु ।
 घरसिरिओहामियसुरवरघरि ।
 देवि अखुइ सुहइ महासइ ।
 सुहयत्तउ हरियत्तु णियंगंउ ।
 अवरु पहंजणु पुत्तु पहासउ । 5

8 १ AP तइलोयपसिद्धउ. २ AP तिलोत्तिम°. ३ AP वासु. ४ A आदण्णउ. ५ AP उत्तिमु. ६ P महियलु णाहु. ७ AP राय मिच्छत्त°.

9 १ AP गिसुणेविणु. २ A मुणि. ३ AP तुह अक्खमि. ४ A य खुइ; P य सुद्ध. ५ P धणहु. ६ AP णियंदउ. ७ AP कुंभयत्तु. ७ AP add after this: जायउ तहे कम्मेण (P कमेण) ललियंगउ.

8 3 a बंभु ब्रह्मचर्यम्. 4 a बंभे ब्रह्मचर्येण. 5 b णहु हे नष्ट. 6 b अहण्णउ भमः. 7 a सा ह हि शाख्या; b ° वा ह हि व्याघ्रैः व्याघैर्वा.

9 4 b णियंगउ नृणामङ्गजः कामः. 5 a कंभोर्यउ कंभोजः. 6 a ° विण्णासउ रचना.

सेयंसिणि सूहव पियकारिणि
सुप्पह देवि पहावइ चेलिणि
जेट्टं विसिट्ट भडारी चंदण
पियकारिणि वरणोहंकुलेसहु
दिण्ण सयाणीयस्स मिमावइ
सूरवंसजायहु ससियरणोह
उदायणहु पहावइ राणी
महिउरि कामवाणपरिहट्टउ
जेट्टहि कारणि सच्चइ णामें
णट्टउ आहवि चेडयरायहु
अइदूसहणिव्वेपं लइयउ
अण्णहिं दिणि चित्तयरें लिहियइं
कामधिलासविसेसुप्पत्तिहि
पडिउ त्रिंदु चेलिणिऊरूयलि
तापं तौहु कयउं विवरेउं
पपं विणु पडिबिंदु ण सोहइ
ता दिट्टउ ताहि लंछणु पयइ

अवर मिर्गावइ जणमणहारिणि ।
बालमराललीलगइगामिणि ।
रुवरिद्धिरंजियसंकंदण ।
सिद्धत्थहु कुंडउरणरेसहु । 10
सोम्मवंसरायहु मंथरगइ ।
दसरहरायहु दिण्णी सुप्पह ।
दिण्णी उव्वंसैरंभसमाणी ।
अलहमाणु अवरु वि आरुट्टउ ।
आयउ जुज्झहु दुप्परिणामें । 15
को सक्कइ करवालणिहायहु ।
दमयरेंमुणिहि पासि पंभवइयउ ।
रुवइं बहुंपट्टंतरणिहियइं ।
जोइयाइं रापं गियपुत्तिहि ।
दिट्टउ कयलीकंदलकामलि । 20
चित्तयरें बोल्लिउ सुइसारउ ।
घाइ जाम ऊरुत्थलु चाहइ ।
अक्खिउ रायहु जायविषेयइ ।

घत्ता—ता संरुंहुं णरिंदु गउ रायहरहु लीलइ ॥

जिणपडिबिंबहं पासि पहु संपिहिउ वंणालइ ॥ ९ ॥

25

10

दिट्टउ पंहु पइं पुच्छिय किंकर
पयइं लिहियइं विणयविणीयइं
चउहुं विवाहु हुयउ विहरंतउ
अज्ज वि णिव दिज्जंति ण कासु वि

तेहिं पवुत्तउं वइरिभयंकर ।
बिंबइं चेडयमहिवइधीयहं ।
तीहिं मज्झि दो जोव्वंणवंतउ ।
एक्क कण्ण लहुईं खलतमरवि ।

८ A मृगावइ. ९ P जिद्ध. १० AP सकंदण. १० AP वरणायकुलेसहो. ११ A मृगावइ.
१२ A ससहरमुह; P ससहरणह. १३ AP उव्वसि°. १४ AP दमवर°. १५ AP पावइयउ.
१६ AP वरपट्टंतरे. १७ A संतुहु. १८ P उवणालए.

10 १ AP पइं पहु. २ जोवण°.

7 a सेयंसिणि पुण्यवती श्रेयस्वती. 9 b °संकंदण इन्द्रः. 12 a ससियरणह चन्द्रकिरणोज्ज्वलनखा.
16 b °णिहायहु निघातस्य. 22 b घाइ धात्री. 23 a एयइ धान्या. 24 गउ रायहरहु चित्रकरो
भयेन राजग्रहाद्गतः. 25 वणालइ वनप्रासादे.

10 1 b वइरिभयंकर हे वैरिभयंकर. 2 b बिंबइं रूपाणि. 3 a विहरंतउ दुःखनाशकः.
4 b खलतमरवि हे राजन्.

तैं वयणेण मयणसरवणियउ
 हा हा हे कुमार तुह तायहु
 चेडयधीयहि अइआसत्तउ
 ससुरु ण देइ जुणवयवंतहु
 ता कुमार तुह रूवें किउ पहु
 पंडिउ वोह्वणियकयवेसउ
 पुच्छिउ तौहिं लिहिउं तैं भणिउ
 ता दोह्वं मि कण्णहं मयमत्तइं
 कुडिलइ चेलिणीइ सररुद्धइ
 भणिय जाहि आहरण लपपिणु
 लग्गहुं गलकंदलि मगहेसहु

तुहुं तुह मंतिहिं तुह सुउ भणियउ । 5
 वहुइ कामावत्थ सरायहु ।
 सुरु व दिट्ठिगम्मु अइरत्तउ ।
 वहुइ अवसरु महविहिवंतहु ।
 तं णिवासु लेविणु गउ भहु पहु ।
 आयउ कण्णउ णववयवेसउ । 10
 किं ण मुंणह मगहाहिउ सेणिउ ।
 पेम्मकुसुंभइ रत्तइं णेत्तइं ।
 कवउं इट्ट जेट्ट रंइरुद्धइ ।
 आवहि लहुं वच्चहुं लिहकेपिणु ।
 अलिउलणीलणिद्धमंउकेसहु । 15

घत्ता—आहरणाइं लपवि जा पडिआवर बाली ॥

ता तहिं तापण दिट्ट चेलिणि^३ मय्येणमयाली ॥ १० ॥

11

बेहिणिविभोयसोयसंतत्ती
 पायमूलि तवचरणु लपपिणु
 चेलिणिं पुणु तुह पुत्तं दोइय
 परिणिय सुंदरि जयजयसहें
 तहिं महएवीपट्टु णिबद्धउ
 ताहि सुखंतिहि पांसि णिहालिउ
 सहुं सम्मत्तं चारु गुणहुइ
 सोवण्णाहइ पुरि मणवेयउ
 आयउ उववाणे णिच्चवसंतइ
 णिययघरिणि णिर्यवेह थवेपिणु

खंतिहि जसंसईहि उवसंती ।
 थक्क जेट्ट इंदियइं जिणेपिणु ।
 पइं ससणेहें णिरु अवलोइय ।
 घरु आपणिय दइवेणं सुहहें ।
 सा रइ तुहुं णावइ मयरद्धउ । 5
 चंदणाइ सावयवउ पालिउं ।
 दाहिणसेढिहि गिरिवेयहुइ ।
 विहरमाणु णहि घरिणिसमेयउ ।
 दिट्ठी चंदण चंदणवंतइ ।
 पडिआवेपिणु कण्ण लपपिणु । 10

३ P रूवकिउ. ४ A वोट्टवणिय^०; P वोट्टवणिय^०. ५ A तेहिं. ६ P भणिउ. ७ AP मुणहि.
 ८ AP दोहिं. ९ A कण्णउ मयमत्तउ. १० AP चेत्तइं पेम्मकुसुंभइ रत्तइं (A रत्तउ). ११ AP
 रइरुद्धइ. १२ AP ^०मियकेसहो. १३ AP चेलिणि. १४ AP मयमयाली.

11 १ A विहिणि^०. २ AP जसमइहे. ३ A चेलिणि. ४ AP पासु. ५ A सोवण्णए
 पुरि सुरमणवेयउ. ६ A णियगेहि.

5 a ^०व णियउ व्रणितः. 6 b सरायहु सरागस्य. 7 b सुरुव प्रभाते सूर्यवत्. 10 a वो इ^०
 बलीवर्दः; ^०व णियकयवेसउ धृतवणिवेषः. 15 b ^०मउकेसहु मृदुकेशस्य.

11 4 b दइवेण पुण्येन; सुभहें सुणु भद्रेण. 9 b चंदणवंतइ वने. 10 a णियदेह
 विद्यामयं निजशरीरं च.

सो जा गच्छइ पुणुं नियमवणहु
अवयरंति आहासइ वइयरु
तुज्जु विज्ज कयरोसणिहापं
एवहिं किं कुमारि पइं चालिय
णिच्चमेव हियवइ संकंतहि

आलोयणिय दिट्ठ ता गयणहु ।
देविइ तुहुं जाणित मायायरु ।
ताडिय देवर्य वामे पापं ।
अच्छइ कोवजलणपज्जांलिय ।
तं णिसुणिवि सो भीयउं कंतहि । 15

घत्ता—भूयरमणवणमज्झि पवरइरावइतीरइ ॥

साहिय तेण खगेण विज्ज फणीसरकेरइ ॥ ११ ॥

12

पत्तलहुय णामेण णिहित्ती
पंचकखरइं चित्ति णिज्झायइ
वियलिय णिसि उग्गमित्ठ पर्यंगउ
णामे कालु तासु जिणवयणइं
अणुं वि तहु दिण्णइं आहरणइं
ते तुट्ठे णिय सुंदरि तेत्तहिं
भिल्लु भयंकरिपल्लिहि राणउ
तासु बाल कालेण समप्पिय
काओसग्गे थिय परमेसरि
ता सो रुक्खु जेव उम्मूलिउ
रे चिलाय करु सुयहि म ढोयहि
ता सो तसिउ थक्कु तुण्हिक्कउ
कंदमूलफलदावियसायइ
थिय कइवय दिणाइं तहिं जइयहुं
वसहसेणु वणिवइ धणइत्तउ
मित्तु सो जिं सीहहु वणणाहहु

ताइ पुत्ति संपत्त धरित्ती ।
धम्मझाणु णिम्मलु उप्पायइ ।
वणयरु एक्कु पत्तु सामंगउ ।
साहियाइं मुद्धइ जगसयणइं ।
पहवंतइं णं दिणयरकिरणइं ।
भीमसिहरगिरिणियडइ जेत्तिहिं ।
णामे सीहु सीहुरंसजाणउ ।
तेण वि कामालेण विलुंणिय ।
जा लग्गइ वणयरु वणकेसरि ।
सासणदेवयाहिं पडिक्कलिउ । 10
अप्पउं कालवयणि म णिवायहि ।
पयजुयवडिउ वियारविमुक्कउ ।
पोसिय देवि णिसांयहु मायइ ।
वच्छदेसि कोसंबिहि तइयहुं ।
मित्तवीरु तहु किंकरु भत्तउ ।
घरु आयउ सुक्कियजलवाहहु ।

७ AP किर. ८ P देविण. ९ P °पज्जलिय. १० AP भीयउ सो.

12 १ AP पणलहुय; K पत्तलहुय and gloss साहिय विज्ज णणल्लुनामेति पूर्वोण संबन्धः.
२ AP अवर. ३ A सीहरसजाणउ; P सीहरसु जाणउ. ४ AP °जुयपडिउ. ५ AP चिलायहो.

11 b आ लो य णि य आ लो कि नी वि द्या. 12 a अ व य रं ति ग ग ना द व त र न्ती. 13 a तु ज्जु वि ज्ज त व
रूपधारिणी विद्या. 16 ° इ रा व इ ती र इ न दी त टे. 17 फ णी स र के र इ ध र णा ञ्ज या.

12 3 a पयंगउ सूर्यः. 7 b सीहुरसजाणउ मद्यास्वादनस्य ज्ञाता. 8 a कालेण
कालनाम्ना मिल्लेन; b विलुंणिय उपद्रुता. 10 a पडिक्कलिउ कर्दार्यतः. 12 a तासिउ त्रस्तो भीतः;
तुण्हिक्कउ मौनस्थः. 13 a °सायइ °स्वादे रसविशेषे वा; b णिसायहु मायइ मिल्लस्य मात्रा;
निषादशब्देनात्र मिल्लो शेषः. 16 a सो मित्रवीरः; b सुक्कियजलवाहहु मिल्लस्य.

अण्णिय तार्सुं तेण पत्थिवसुय
ढोइय वणि कुलगयणससंकहु

बालमुणालवल्लयकोमलभुय
भिच्चं वसहसेणणामंकहु ।

घत्ता—एकहि वासरि जांव जोइवि सेट्टि तिसाइउ ॥

बंधिवि कौतल ताइ जलभिंगारुच्चाइउ ॥ १२ ॥

20

13

धिट्टुदुट्टुकट्टाइ रउइइ
मुंडिउ सिरु पावइइ पमेल्लहि
कोइवकुरु सकंजिउ दिज्जइ
ता परमेट्टि छिण्णसंसारउ
पडिल्लाहिवि विहीइ किउ भोयणु
पत्तदाणतरु तक्खणि फलियउ
गज्जिय दुंदुहि बहुमाणिक्कइं
रयणविचित्तदिण्णविहिंंगय
तियसघोसकोलाहलसइं
णमिय मिगौवइए लहुयारी
वणिसुयाइ पाविट्टइ जं किउ
सेट्टिणि सेट्टि बे वि कमणमियइं
परमेसरि तुह सरणु पइइइं
तां चंदणए भणिउ को दुज्जणु
धम्मं सब्बु होइ भल्लारउं
दसादिसु पत्त वत्त जयसिरिधव
वंदिउ वीरसामि परमण्णउ

ता दिट्ठी सेट्टिणिइ सुहइइ ।
आयसणियल्लु घित्तु णीसल्लहि ।
णिच्चमेव जा एव दमिज्जइ ।
आयउ भिक्खहि वीरु भडारउ ।
दिण्णउं तं तहु सउवीरोयणु । 5
गयणहु कुसुमणियरु परिघुलियउ ।
पडियइं भाभारं पइरिक्कइं ।
देवेहिं मि देविहि बंदिय पय ।
जयजयजयसंजायणिणइं ।
बंधिणि सपुत्तइ गुणगरुयारी । 10
तो वि ण साहइ विलासिउं विप्पिउ ।
अम्हइं पावइं पावें खवियइं ।
एवहिं परितायहि पाविट्टइं ।
को संसारि एत्थु किर सज्जणु ।
पावें पुणु जणविप्पियगारउं । 15
आइय परमाणंदें बंधव ।
एयाणोयावियणसमण्णउ ।

घत्ता—जिणपयपंकयमूलि बारहविहु विन्थिण्णउं ॥

चंद्रणाइ तउ घोरु तहिं तक्खणि पडिवण्णउं ॥ १३

६ AP तेण तासु.

13 १ A पावइए समिल्लए; P पावइ पम्मिल्लहे. २ AP पडिगाहेवि. ३ A मृगावइ.
४ A विहिणि. ५ A सपुण्णएण गरुयारी; P सपुत्तएण गरुयारी. ६ AP तो.

13 1 a ° कट्टाइ इ निन्धया. 2 a पावइइ पापवत्या; पमेल्लहि प्रमाणभूतायाः; b आयस-
णियल्लु लोहशृंखला. 7 b पइरिक्कइं प्रचुराणि. 10 b सपुत्तइ पुत्रयुक्तया. 16 a वत्त वार्ता.
17 b ° समण्णउं समर्पकः कथकः.

14

पुणु पुच्छिउ रापं परमेसरु
 चंदणगंथभवाइं ह्यदुरियइं
 मगहदेसि णयरिहि पिहुणामहि
 राउ पर्यारपुवु तहि सेणिउ
 तासु इट्ट वणिवरसुय बंभणि
 ताहि पुत्तु सिवभूइ मणोहर
 सिवभूइहि पिय सोमिल हूई
 सोमसम्मतणयहु सा सुंदरि
 दिण्णी देवसम्मणामंकहु
 मयइ णाहि सैयदलदलणेत्ती
 पइमरणेण समउं सा डिंभहिं
 सोमिल्लइ पेसुण्णउ वोळ्ळिउं
 चित्तसेण भापं सहुं अच्छइ
 पइ खुइ रोसेण महेसमि
 पयहि पिसुणहि पसरियमायहि
 एव णियाणु णिवद्धउ सेणइ

घत्ता विप्पामंतणि जाण मुणिवरु भावें भाविउ ॥

सोमिल्लोइ सिवगुत्तु पढममेव भुंजाविउ ॥ १४ ॥

कहइ भडारउ णवजलहरसरु ।
 जिणवरधम्ममग्गसंचरियइं ।
 जणसंकिण्णहि णीलारामहि ।
 अग्गिभूइ बंभणु परियाणिउ ।
 थणजुपण पियदेहणिसुंभणि ।
 चित्तसेण सुय तुंगपयोहर ।
 णं रइए संपेसिय दूई ।
 णं मयरद्धयवरमहिहरदरि ।
 दियवरकुलगयणयलससंकहु ।
 चित्तसेण विहवत्तणु पत्ती । 10
 पोसिय भापं थणयणिसुंभहिं ।
 हियवउं पइससाहि संसल्लिउं ।
 रत्त रमणि किं काइं मि पेच्छइ ।
 आगामिणि भवि दंडु करेसमि ।
 वयणविणिग्गयसुयलियवायहि । 11
 अण्णहिं दिणि गुरुविणयपवीणइ

15

कुद्धउ पइ दइयइ संवोहिउ
 मुउ सिवभूइ वंगदेसंतरि

रिसिगुणगणसंकहणुम्मोहिउ ।
 कंतणामि रमणीयइ पुरवरि ।

14 १ AI' चंदणभवगयाइं. २ AI' पयावपुत्तु. ३ AI' णवसयदलणेत्ती. ४ AI' सुल-
 लिय°. ५ AI' सोमिल्लए.

14 1 a परमेसरु गौतमस्वामी. 3 a पिहुणामहि पृथुवर्त्मा नगरा. 4 a पयारपुवु तहि
 सेणिउ प्रकारश्रेणिको नाम राजा; b परियाणिउ प्रसिद्धः. 5 a वणिवरं नामेदम्. 6 a ताहि पुत्तु
 ब्राह्मण्यां पुत्रः शिवभूतिर्जातः; b सुय पुत्री. 8 a सा चित्रसेना. 10 a मयइ णाहि नाथं देवशर्मणि
 मृते सति. 11 a डिंभहिं भगिनीपुत्रैः सह; b थणयणिसुंभहिं सोमिलायाः पुत्राणां कुट्टकैः.
 12 b पइससाहि पतिभगिन्या. 13 a भापं सहुं अच्छइ भ्रात्रा सह भोगान् भुंक्ते. 15 a पिसुणहि
 पिशुनायाः; पसरियमायहि कृतकपटायाः; b सुयलियवायहि श्रुतालीकवाचः. 16 a सेणइ
 चित्रसेनया. 18 पढममेव विप्रेभ्यः पूर्वम्.

15 1 a दइयइ भार्यया; b उंम्मोहिउ संज्ञानीकृतः. 2 b कंतणामि कान्तपुरे.

तहिं सुवण्णवम्महु तडिलेहहि
 अंगदेसि चंपापुरवासिहि
 धणसिरि मेहिणि तहि सोमिल्लय सुय
 कणयलया णामं सुहदाणि
 कंतउराउ सणेहपगामं
 दोहि मि सहुं कीलइ गय वासर
 पयहु पइ कण्ण दिजेसइ
 बेणि वि णवजोव्वणसंपुण्णइं
 जाम विवाहु होइ णिक्खुत्तउ
 असंहियविरहहुयासझलकइं
 असहंतेण दुक्खु कयसोए
 गउ णियकुलहइ सवहु मयालउ
 पइं सावज्जकञ्जु किं रइयउं
 णायरणपरिहासाणासइ
 सहुं कंताइ तेत्थु णिवसंतं
 मुण्णिपुंगमहु सुभोज्जु पयच्छिउं
 महुसमयागमि सुट्टु सदप्यं
 कंताइ पइंवउ पडिउं पलोइउं
 उयरु वियारिवि मुय पियपेम्मं
 पवरंमंतिविसइ उज्जेणिहि
 वणि धणपउ कंतु धणमित्तहि
 णायदत्तु णामं सुउ जायड
 कणयलया पोमलया णिवंधरि

घत्ता—वणिवइणा वणिकण्ण परिणिवि अवर पयासहु ॥

सहुं पुत्तं धणमित्त संपेसिय परदेसहु ॥ १५ ॥

तणउ महाबलु हुउ वरदेहहि ।
 सिरिसेणहु पत्थिवगुणरासिहि
 उप्पणी मालाभुयलय ।
 सच्छसहाव णां मंदाणि ।
 भाइणेज्जु आवाहिउं मामं ।
 ता जंपंति भवणि णिवणरवर ।
 तावण्णहिं विणि ससुरउ भासइ ।
 संजायाइं पउरलायण्णइं । 10
 ता पयहुं सहवासु ण जुत्तउ ।
 बेणि वि विहडियाइं णं चकइं ।
 कहिय मामपुत्ति कयरापं ।
 मायापियरहिं गरहिउं बालउ ।
 कण्णारयणु अदिण्णु जि लइयउं । 15
 ता सो थिउ पञ्चतणिवासइ ।
 अज्जवसीलं अइउवसंतं ।
 धरिणिइ हियउलइ सुसमिच्छिउं ।
 खड्डउ सो कुमारु वणसप्यं ।
 असिधेणुयहि पाणि परिदोइउ । 20
 सयलु वि जीउ णडिज्जइ कम्मं ।
 णयारहिं सोक्खणिवासणिसेणिहि ।
 मरिवि महाबलु कुवलयणेत्तहि ।
 सुकइत्तेण सुट्टुं विक्खायउ ।
 इइं अवरं कहिं मि दीवंतोरि । 25

15 १ A सुवण्णवम्महो. २ AP चंपयपुरवासिहि. ३ AP सोमिल्ल सुय. ४ AP उप्पणी मालाभुय; K मालाभुयलय and gloss मालतीमालावत् भुजलता यस्याः. ५ A अप्पाहिउ. ६ AP संपण्णइं. ७ AP विसहियविरहहुयासझलकइं. ८ AP असहंतेण तेण जामाए. ९ P परिहासोणासए. १० AP पइ मुओ. ११ AP अवरवंति. १२ A सुट्टु; P सुट्टु. १३ A न्वधरि. १४ AP कहिं मि अवर. १५ A दीवधरंतरि.

5 b माला भुयलय मालतीमालावत् भुजलते यस्याः. 7 a कंतउराउ कान्तपुरात्; °पगामं प्रकामेन प्रकषेण; b आवाहिउ आहूतः. 11 a णिक्खुत्तउ निश्चितः. 12 a °शलकइं ज्वालाः; b णं चकइं चक्रवाकौ इव. 14 a सवहु वधूसहितः; मयालउ मदयुक्तः. 16 a °परिहासाणासइ हास्यरहिता-श्रये स्थाने. 19 a महुसमयागमि वसन्तोरि. 20 a पइवउ पतिवपुः. 22 a °अमंति° अवन्ती; b °णिसेणिहि निःश्रेण्याम्. 26 a वणिवइणा धनदेवेन. 27 पुत्तं नागदत्तेन.

16

सीलदत्तरिसि बुद्धिर् मंडिउ
 अवरु मित्तु संजायउ तलवरु
 अणुवय गुणवय चउसिक्खावय
 माउलाणितणयहु धणधणियहु
 दिण्णी सल्लस सुट्टु साणंवे
 उवसिलोउ कउ कइरसजुत्तउ
 पडिआयउ कुंइंतुजेणिहि
 णउल्ले संहएवे णोलगिउ
 जणणे बोद्धिउं सोक्खजणेउं
 सहुं णवल्ले संहएवे गच्छहि

घत्ता—ते तिणिण वि दार्यज्ज उल्लंघेप्पिणु सायरु
 गय बोद्धित्थि चडेवि अवलोइउ तं पुरवरु

तणुरुहु तहि संजायउ पंडिउ ।
 थिउ पुरि सत्थदाणतोसियपरु ।
 परिपालिय णिम्मल गलियावय ।
 णंदिगामवासहु कुलवणियहु ।
 तेण गहिय णं रोहिणि चंवे । 5
 दिट्टउ रौउ रिद्धिसंपत्तउ ।
 रयणसिलायलविरइयछोणिहि ।
 दिट्टुं पिउ धणभाउ पमग्गिउ ।
 णिहिउं पलासणयारि वसु मेरउं ।
 घणु लइ तुहुं पयहं मि पयच्छहि । 10

17

बोद्धित्थु वि ण वहरु थोवंतरि
 विट्ठी एक्क कण्ण गुणवंते
 किं पुरु का तुहुं सुहं जणेरी
 कहइ किसोयारि रोमंचिज्जइ
 णयरु पलासु महाबलु राणउ
 हउं सुय तासु पोमलय बुच्चमि
 केण वि खयरं मणुयपसंसिउ
 अम्हारइ संताणइ जायं

रज्जु विलंबमाणु पहासिवि पुरि ।
 वणिवइर्तणयमहंते ।
 दीसहि भल्लि व कामहु केरी ।
 दीवु पलासु एउ जाणिज्जइ ।
 कचणलयवइ इंदसमाणउ ।
 कं दिवसु वि विहवेण ण मुच्चमि ।
 रक्खसविज्जइ पुरु विद्धंसिउ ।
 असिंतेण पसाहिउ रायं ।

16 १ A सीलदत्तरिसिबुद्धिए. २ A सस सा सुहु. ३ AP वसिकउ लोउ कइरस°. ४ A राणठ सिरिसंपत्तउ. ५ A सकुहुंजुजेणिहे. ६ AP सहेवे°. ७ P omits दिट्टउ. ८ AP णउल्ले. ९ AP दाएज्ज.

17 १ A तेण य महंते. २ P पहासु.

16 1 b तणुरुहु नागदत्तः; b पंडिउ तार्किकः. 3 b गलियावय गलितापदः. 5 a ससस स्वभगिनी. 6 a उवसिलोउ कउ उपश्लोकितः, श्लोकैः कृत्वा स्तुतः. 7 b °छोणिहि भूम्याम्. 8 b धणभाउ धनभागः. 12 बोहिथिय नौकायाम्.

17 1 b रज्जु दोरः. 2 b वणिवइर्तणयमहंते नागदत्तेन. 5 b °वइ पतिः. 6 b कं दिवसु एकमपि दिनम्.

तहिं सुवण्णवम्महु तडिलेहहि
 अंगदेसि चंपापुरवासिहि
 धणसिरि गेहिणि तहि सोमिल्लय सुय
 कणयलया णामं सुहदाणि
 कंतउराउ सणेहपगामं
 दोहिं मि सहुं कीलइ गय वासर
 पयहु एह कण्ण दिज्जेसइ
 बेणिण वि णवज्जोव्वणसंपुण्णइं
 जाम विवाहु होइ णिक्खुत्तउ
 असहिियविरहहुयासल्लकइं
 असहंतेण दुक्खु कयसोपं
 गउ णियकुलहरु सवहु मयालउ
 पइं सावज्जकज्जु किं रइयउं
 णायरणरपरिहासाणासइ
 सहुं कंताइ तेत्थु णिवसंतं
 मुण्णिपुंगमहु सुभोज्जु पयच्छिउं
 महुसमयागमि सुट्टु सदप्पे
 कंतइ पइंवउ पडिउं पलोइउं
 उयरु वियारिवि मुय पियपेम्मं
 पवरंमंतिविसइ उज्जेणिहि
 वणि धणपउ कंतु धणमित्तहि
 णायदत्तु णामं सुउ जायउ
 कणयलया पोमलया णिवंधरि

घत्ता—वाणवइणा वाणकण्ण पारोणोवे अवर पयासहु ॥

सहुं पुत्ते धणमित्त संपेसिय परदेसहु ॥ १५ ॥

तणउ महाबल्लु इउ वरदेहहि ।
 सिरिसेणहु पत्थिवगुणरासिहि
 उप्पणी मालाभुयलय ।
 सच्छसहाव णां मंदाइणि ।
 भाइणेज्जु आवाहिउ मामं ।
 ता जंपंति भवणि णिवणरवर ।
 तावण्णहिं दिणि ससुरउ भासइ ।
 संजायाइं पउरलायण्णइं । 10
 ता पयहुं सहवासु ण जुत्तउ ।
 बेणिण वि विहाडियाइं णं चकइं ।
 कड्ढिय मामपुत्ति कयरापं ।
 मायापियरहिं गरहिउ बालउ ।
 कण्णारयणु अदिण्णु जि लइयउं । 15
 ता सो थिउ पच्चंताणिवासइ ।
 अज्जवसीलं अइउवसंतं ।
 धरिणिइ हियउल्लइ सुसमिच्छिउं ।
 खद्धउ सो कुमारु वणसप्पे ।
 असिधेणुयहि पाणि परिहोइउ । 20
 सयल्लु वि जीउ णडिज्जइ कम्मं ।
 णयांरहिं सोक्खणिवासणिसेणिहि ।
 मरिवि महाबल्लु कुवलयणेत्तहि ।
 सुकइत्तेण सुट्टुं विक्कयायउ ।
 इइं अवरं कहिं मि दीवतोरि । 25

15 १ A सुवण्णधम्महो. २ AP चंपयपुरवासिहि. ३ AP सोमिल सुय. ४ AP उप्पणी मालाभुयलया; K मालाभुयलय and gloss मालतीमालावत् भुजलता यस्याः. ५ A अप्पाहिउ. ६ AP °संपण्णइं. ७ AP विसहिियविरहहुयासल्लकइं. ८ AP असहंतेण तेण जामाए. ९ P °परिहासोणासइ. १० AP पइ मुओ. ११ AP अवरवति°. १२ A सुट्टु; P सुट्ट. १३ A न्वधरि. १४ AP कहिं मि अवर. १५ A दीवधरंतरि.

5 b माला भुयलय मालतीमालावत् भुजलते यस्याः. 7 a कंतउराउ कान्तपुरात्; °पगामं प्रकामेन प्रकर्षेण; b आवाहिउ आहूतः. 11 a णिक्खुत्तउ निश्चितः. 12 a °शल्लकइं ज्वालाः; b णं चकइं चक्रवाकौ इव. 14 a सवहु वधूसहितः; मयालउ मदयुक्तः. 16 a °परिहासाणासइ हास्यरहिता-श्रये स्थाने. 19 a महुसमयागमि वसन्तर्तो. 20 a पइवउ पतिवपुः. 22 a °अमंति° अवन्ती; b °णिसेणिहि निःश्रेण्याम्. 26 a वणि वइणा धनदेवेन. 27 पुत्ते नागदत्तेन.

16

सीलदत्तरिसि बुद्धिः मंडिउ
 अवरु मित्तु संजायउ तलवरु
 अणुवय गुणवय चउसिक्खावय
 माउलाणितणयहु धणधणियहु
 दिण्णी सल्लेस सुट्टु साणवें
 उवसिलोउ कउ कइरसजुत्तउ
 पडिआयउ कुंद्धंतुज्जेणिहि
 णउल्लें सहएवें णोलग्गिउ
 जणणें बोद्धिउं सोक्खजणेरउं
 सहुं णवल्लें सहएवें गच्छहि

घत्ता—ते तिण्णि वि दार्यज्ज उल्लंघेण्णिणु सायरु ॥
 गय बोद्धित्थि चडेवि अवलोइउ तं पुरवरु ।

तणुरुहु तहि संजायउ पंडिउ ।
 थिउ पुरि सत्थवाणतोसियपरु ।
 परिपालिय णिम्मल गलियावय ।
 णंदिगामवासहु कुलवणियहु ।
 तेण गहिय णं रोहिणि चंवे । 5
 दिट्ठउ रौउ रिद्धिसंपत्तउ ।
 रयणसिलायलविरइयछोणिहि ।
 दिट्ठुं पिउ धणभाउ पमग्गिउ ।
 णिहिउं पलासणयरि वसु मेरउं ।
 घणु लइ तुहुं पयहं मि पयंच्छहि । 10

17

बोद्धित्थु वि ण वइइ थोवंतरि
 विट्ठी एक्क कण्ण गुणवंतें
 किं पुरु का तुहुं सुहइं जणेरी
 कहइ किसोयरि रोमंविज्जइ
 णयरु पलासु महाबलु राणउ
 हउं सुय तासु पोमलय बुच्चमि
 केण वि खयरें मणुयपसंसिउ
 अम्हारइ संताणइ जायं

रज्जु विलंबमाणु पइसिवि पुरि ।
 पुच्छिय वणिवइतंणयमहंतें ।
 दीसहि भल्लि व कामहु केरी ।
 दीवु पलासु एउ जाणिज्जइ ।
 कंचणलयवइ इंदसमाणउ ।
 कं दिवसु वि विहवेण ण मुच्चमि ।
 रक्खसविज्जइ पुरु विट्ठंसिउ ।
 असिमंतेण पसाहिउ रायं ।

16 १ A सीलदत्तरसबुद्धिए. २ A सस सा सुहु. ३ AP वसिकउ लोउ कइरस°. ४ A राणठ सिरिसंपत्तउ. ५ A सकुहुंज्जेणिहे. ६ AP सहदेवे°. ७ P omits दिट्ठउ. ८ AP णउल्लें. ९ AP दाएज्ज.

17 १ A तेण य महंतें. २ P पहासु.

16 1 b तणुरुहु नागदत्तः; b पंडिउ तार्किकः. 3 b गलियावय गलितापदः. 5 a ससस स्वभगिनी. 6 a उवसिलोउ कउ उपश्लोकितः, श्लोकैः कृत्वा स्तुतः. 7 b °छोणिहि भूम्याम्. 8 b धणभाउ धनभागः. 12 बोहि रिय नौकायाम्.

17 1 b रज्जु दोरः. 2 b वणिवइतंणयमहंतें नागदत्तेन. 5 b °वइ पतिः. 6 b कंदि वसु एकमपि दिनम्.

चिरु केण वि तहु णिसियरविज्जउ
 तं खंडउं अरिवरसिरंखंडउ
 मारिउ रक्खसविज्जइ खयरं
 सुण्णउं पट्टणु हँउं थिय सुण्णी
 ता तं खग्गु लेवि फणियत्तं
 सो वणियंगु तासु वसु जायउ
 धम्मं पवण्णउ भूसिउ खंतिइ
 कड्डियकेयइ णयरि पइट्टा
 कण्ण लपपिणु अवरु वि पिउधणु
 उज्जेणिहि आउच्छिउं राएं
 णायदसु तुम्हाहिं सहुं णायउ
 तेहि उचु ता तहिं धणमित्तइ

घत्ता—रिसिणा वुचु पिण्ण तुज्जु तणउ आवेसइ ॥

रोमंचियसव्वंगु पयपणिवाउ करेसइ ॥ १७ ॥

णिण्णट्टाउ खगेसरपुज्जउ ।
 ण धरिउ जणणं विरहंतरेडउ । 10
 णावइ मच्छउ गिलियउ मयरं ।
 अच्छमि तायसोयदुहभिण्णी ।
 हउ रयणीयरु झाइयमंतं ।
 पयलियरोसु सुट्टु सुच्छायउ । . .
 वइरु मुपपिणु मुंउ उवसंतिइ । 15
 दविणु ण देंत भाय ते णट्टा ।
 कासु होइ किर दाइउ सज्जणु ।
 अण्णु वि आपं सुहिसंघाएं ।
 अम्हहुं सो" णउ मिलइ वरायउ ।
 सीलदत्तु पुच्छिउ सुंहवत्तइ ।

18

इयरु वि तहिं जिणभवणि पइट्टउ
 ता विज्जाहरु एक्कु पराइउ
 पियहियमउवयणं संभासिउ
 किउं धम्मं वच्छल्लु वणीसहु
 णियडगामि णियभवणणिवासिणि
 पभणइ बंधव तुह दायज्जहु
 णउलहु कण्ण का वि जयसुंदरि
 तापं महु हक्कारउं पेसिउ
 ता तं विण्णु ताहि चामीयरु

वंदिवि जिणवरु थिउ परिउट्टउ ।
 तेण कुमारु सेणेहें जोइउ ।
 उववाणि लयभवणंति णिवेसिउ ।
 जिणपयपंकयपणमियसीसहु ।
 ता तहु बहिणि आय पियभासिणि 15
 दविणसमज्जणणिम्मलविज्जहु ।
 दिज्जइ लग्गी खल्लमृगकेसरि ।
 महुं मि देहु दालिहें सोसिउ ।
 छिंदिविं घल्लिउ दालिहंकरु ।

३ P °सिरिखंडउ. ४ AP विहुरतरंडउ. ५ AP थिय हउं. ६ A तं. ७ AP संजायउ. ८ AP धम्म.
 ९ AP थिउ. १० AP आउच्छिय. ११ णउ सो. १२ AP सुहवंतइ.

18 १ AP सिणेहें. २ P किवधम्मं. ३ AP °मिग°. ४ AP छिण्णिवि.

10 a खंडउं खड्गः; b विरहतरंडउ वियोगतरणे नौः. 16 a °केयइ रज्जवा. 18 a राएं
 प्रजापतिना; b आएं आगतेन. 21 पिण्ण प्रियवचनेन.

18 1 a इयरु नागदत्तः; b परिउट्टउ परितुष्टः. 3 b लयभवणंति पलाशद्वीपादानीय
 नन्दिग्रामसमीपे उपवनलताग्रहमध्ये नागदत्तो धृतः. 6 b दविणे त्यादि द्रव्योपार्जनविशानिनः.
 7 b खल्लमृगकेसरि राक्षसविद्याधरवधकः.

मुहँ सससहि हत्थे पट्टाविय
अप्पणु पुणु गउ तं पुरु सुहयरु
सहुं जणणिइ णरवरसुहखाणिहि

घत्ता—दिट्टउ तेण णरिंदु भासिउ देव पयावइ

महुं पिउदविणु ण देइ अवरुँ कण्ण पाडलगइ ॥ १८ ॥

दिण्णी करि कुमरिइ मणि भाविय । 10
जहिं गुरु जहिं सो तलवरसहयरु ।
आया ई ति बे वि उज्जेणिहि ।

19

मइ अहिलसिय कण्ण हयमग्गउ
ता आरुहु राउ कोक्किउ वणि
णिम्मुंकी नृवकुंमरि वणिंदे
जणणहु केरउं तहु सेट्टित्तणु
रायरोसु पेच्छवि दुविणीपं
तासु विरुज्जमाणु सुहियत्ते
सिरिअरहंतहु कलिलमलहारी
सुइरु कालु सो तहिं णिवसेप्पिणुं
मुउ सोहम्मसग्गि संभूयउ
जंबूदीवि भरहि विजयायलि
पवणवेयखयरहु हुउ णंदणु
चंदण तेण हंरिय णियणेहें

घत्ता—गय सग्गहु धम्मेण वर्यंहलेण ससितेया ॥

णागदत्तसस जा सि सा हूई मणवेया ॥ १९ ॥

ससुयहु करयलि लावइ लग्गउ ।
देवाविउ धणु त्थं चूडामणि ।
कउ विवाहु रिद्धीइ णरिंदे ।
दिण्णउं पायडंपवरपहुत्तणु ।
तापं तणउ खमाविउ भीपं । 5
महिबइ तोसिउ विसहरदत्ते ।
विरइय पुज्ज मणोरहंगारी ।
अंतयालि संणासु करेप्पिणु ।
पुणु तेत्थाउ पड्डिउ पयणूयउ ।
णयरि सिवंकरि उववणचंचलि । 10
सइहि सुंवेयहि णयणाणंदणु ।
सो सिज्जेसइ एण जि देहें ।

20

जो तेण जि मारिउं खयरसरु
जायउ चेडयणरवइ जाणहि

सो सुरसुहुं भुंजिवि पुहईसरु ।
फणिदत्तहु जणणि वि अहिणाणहि ।

५ AP मुहँ ससाहि हत्थे पट्टाविय. ६ A वे वि शक्ति. ७ AP अवरु वि कलत्तु.

19 १ AP तिय°. २ P णिमुक. ३ AP णिव°. ४ AP पायहु पउर°. ५ AP विसहर-
यत्ते. ६ AP मणोरहरगारी. ७ AP णंदेप्पिणु. ८ AP मणवेयहि. ९ AP हरिवि. १० AP वयहलेण.

10 a मुहेत्यादि मुद्रिका निजभगिन्या हस्तेन संप्रेषिता. 11 b गुरु पिता. 13 देव पयावइ हे
राजन् प्रजापते.

19 3 a वणिंदे धनदेवेन. 6 a विरुज्जमाणु रुथ्यन्; b विसहरदत्ते नागदत्तेन.
9 b पयणूयउ प्रजाभिः स्तुतः. 11 a णंदणु पुत्रः मनोवेगनामा; b सुवेयहि सुवंगायाम्. 12 a तेण
मनोवेगेन. 13 ससितेया चन्द्रसदृशकान्तिः मनोवेगा. 14 णागदत्तसस नागदत्तभगिनी या पूर्व
नन्दिग्रामे परिणीता; मणवेया मनोवेगस्य भार्या.

जाय सुहृद् विमाण्डु चुकी
 वणि धणदेउ ह्ववि गय सग्गहु
 वणिसुय वसहसेणु पुणु ह्वई
 सा णिग्गहिय तेण सणियाणें
 भवि भवि संसरंतु भवुं आयउ
 इय संसारियाई संसारइ

चित्तसेण णरजम्मु पढुकी ।
 धणमित्तावरु भुंजियभोग्गहु ।
 सररुहलय चंदण संभूर्इ ।
 को णउ दुहुं पाविउ अण्णाणें ।
 णउल्लु सीहु सवरुल्लुउ जायउ ।
 परिभमंति चुयगहियसरीरइ ।

5

घत्ता—इय आयण्णिवि धम्मु भव्वलोउ आणंदिउ ॥

भरहतेउ भयवंतु पुष्पवंतु जिणवंदिउ ॥ २० ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे चंदणभवावष्णणं णाम
 अट्टणउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९८ ॥

20 १ AP संचरंतु. २ AP भउ. ३ AP जिणु वंदिउ.

20 5 a सररुहलय सोमिलाचरी पद्मलता. 6 a तेण चित्रसेनाभवनिदानेन. 10 भरहतेउ
 नक्षत्रप्रच्छादकतेजाः.

उववणि कयरायहिं सहं ससहायहिं लीलाइ जि पउ ढोयइ ॥
अण्णहिं दिणि सेणिउ णरसंमाणिउ समवसरणि जइ जोयइ ॥ ध्रुवकं

1

पिंडीतरुवरतलि देहक्षीणु	जीवंधरु णामे झाणलीणु ।
अवलोयवि पुच्छिउ तें सुधम्मु	को एहु भडारा खवइ कम्मु ।
पभणइ मुणिवरु इह जंबुदीवि	सुणि सेणिय चंदाइच्चदीवि ।
हेमंगइ विसइ मणोहिरामि	तहिं रायणयरि संपत्तकामि ।
सच्चंधरु णरवइ विजय घरिणि	लीलागइ णं वरविंशकरिणि ।
कट्टंगारउ णामेण मंति	मंतेहिं विहियउवसग्गसंति ।
सुपुरोहिउ सुविमलु रुहयत्तु	तं णारिरंयणु सुहुं सयणि सुत्तु ।
पेच्छइ मणिमउहु परिप्फुरंतु	वसुसंमचलघंटारणसणंतु ।
आसियअसोयतरु छिज्जमाणु	अण्णेक्कु णवल्लु वि णिग्गमाणु ।
विजयाइ णिहालिउ सिविणु एव	सुविहाणइ पुच्छिउ दइउ देव ।

घत्ता—सयणयलि पसुत्तइ मउलियणेत्तइ सिविणइ तेयविराइउ ॥
मइं दिहुउ घंटउ रावविसट्टउ अवरु मउहु अवलोइउ ॥ १ ॥

2

दिट्ठे' एणं सिविणयफलेण	किं होदी भणु महुं णिम्मलेण ।
पइं भणइ णिसुणि हलि कमलणयाणि	महुं मरणु तुज्झु सुउ चंदवयणि ।
पुह्वईसरु पाविवि अट्टलंभु	भुंजेसइ महि परबलणिसुंभु ।
तं णिसुणिवि देवि वि भायरेण	काइय दूरहि ण विसायएण ।
अण्णहिं दिणि मणहरवणि वसंतु	रिसि सीलगुत्तु वरणाणवंतु ।

1 १ P णारिरयासु. २ A °समदलघंटा; P °समवलघंटा.

2 १ AP have before this line: गरुयउ असोउ छिजंतु दिहु, अण्णेक्कु लहुउ वहुंतु इहु. २ AP पिउ. ३ AP पाविय अट्टलंभु. ४ AP तं सुणेवि देवि भावायएण. ५ AP' छाइय हरिसेण विसायएण.

1 1 उववणि समवसरणस्योपवनमध्ये. 3 a पिंडीतरु° अशोकवृक्षः. 6 a हेमंगइ विसइ हेमाङ्गददेशे. 11 a आसिय° आश्रितो विद्यमानः पूर्वम्; छिजमाणु छेद्यमानः; b णवल्लु नवीनः उत्पन्नः. 12 b दइउ दयितो भर्ता. 14 रावविसट्टउ शब्दसमूहाः.

2 4 a भायरेण तेजसा; b काइय दूरहि ण दीना अतिशयेन न; विसायएण विषादेन.

पणवेप्पिणु कुलसिरिलंपडेण
 महं तणुरुह होंति मरंति सब्ब
 किं णउ भणु भणइ मुणिंदु तासु
 ससियरसियकित्ति धरित्तिसामि
 अहिणाणु गिसुणि मयतणयचाइ
 तुहुं पुत्तु लहेसहि बलपयंडु
 तं वयणु सुणेप्पिणु जक्खिणीइ
 भवियध्वरायरक्खणामित्तु
 सुपसाहिउ सोहिउ ताइ केम
 अण्णहिं दिणि पच्चूसागएण
 णिरलंकारी कयसुहविरोह
 णावइ विहवत्तणु पत्त देवि
 कहिं पुहइणाहु सहस त्ति वुत्तु

पुच्छिउ वणिणा गंधुकुडेण ।
 दीहाउ पुत्तु होही विगव्व ।
 तुह होही सुउ तिहुयणपयासु ।
 दहं चरमदेहु थिरं मोक्खगामि ।
 पिउवणि णच्चियडाइणिणिहाइ । 10
 दीहाउसु पडिभडसमरसोंडु ।
 सिसुससहरधवलकडक्खिणीइ ।
 रायालउं जाइवि गरुडजंतु ।
 गयणयल्लु चंदरेहाइ जेम ।
 विप्पेण रुहदत्तेण तेण । 15
 महएवि णिरिक्खिवि विगयसोह ।
 जाणियउ दइउ णाणेण भावि ।
 देवीइ पबोच्छिउं राउ सुत्तु ।

घत्ता—अइपसरियगत्तउ मउलियणेत्तउ हियवइ असुह वियक्किउं ॥

महुं पाणहं वल्लहु परवहुदुल्लहु पहु जोयहुं जि ण सक्किउ ॥ २ ॥ 20

3

तं जाणिवि दुट्ठु अरिडु विप्पु
 अक्खिउ मंतिहि लइं तुहुं जि रज्जु
 पहुंदोहउ जाणिवि दीहदोसि
 इय भासिवि गउ णरयहु दुचित्तु
 मंतिं मेलाविवि भडणिहाउ
 संणिहियगरुडजंतंतरंगि
 तं वइणतेर्यरूवंकु ठाणु

गउ मंतिणिहेलणु दुव्वियप्पु ।
 पहु होसइ कालकयंतभोज्जु ।
 तहु पुत्तं तुहुं मारेव्वथो सि ।
 तिज्जइ वासरि मुउ रुहदत्तु ।
 उप्परि जोइवि राणि व्रंहिउ राउ । 5
 जक्खिइ रक्खिय तहिं विहुरसंगि ।
 गरुहार देवि पुणु णिय मसाणु ।

६ AP दिढ°. ७ A थिरमोक्ख°. ८ AP असुहुं.

3 १ AP तुहुं लइ जे रज्जु. २ AP पहुंदोहउ. ३ AP रुहयत्तु. ४ A जाएप्पिणु वहिउ.
 ५ AP वहिउ. ६ A तेयरूवें कुठाणु.

9 a स सि य र सि य कि त्ति चन्द्रकिरणवदुज्ज्वलकीर्तिः. 10 a मयतणयचाइ मृतपुत्रत्यागे सति; b ° णि हा इ समूहे. 12 b सि सु स स हर ° बालचन्द्रः. 14 a सुपसा हिउ शृङ्गारितः. 15 a पच्चूसा ग ए ण प्रभाते आगतेन. 17 b द इ उ भवितव्यम्. 18 b सु तु सुत्तः.

3 1 a अरि डु कालज्ञानं ज्ञात्वा. 5 a मं तिं मन्त्रिणा; b व्र हि उ हतः वधितः. 6 a सं णि हि य राज्ञी स्थापिता; b वि हुर सं गि दुःखसंगमे. 7 a व इ ण ते य ° गरुडः; ° रू वं कु ठा णु रूपनाम्नोः स्थानम्; b गरु हार गर्भिणी.

तर्हि पुत्तु पसई सुद्धसील
पियँसोएँ णियजीविउ मुयंति
तर्हि आणिउ दइवें पायडेण
देविइ बोळ्ळिउं लइ एहु बालु
ता गहिउ तेण णियपियहि दिण्णु
गारुडजंतें सहुं धीमहंत

घत्ता—सञ्चंधरदेवैहु रहरयभाँवहु महुरु णाम सुउ जायउ

अइकोमलवायहि मयणपडायहि अवरु वउलु विक्खायउ ॥ ३ ॥ 15

उरयलु इणांति परिमुक्कलील ।
आसासिय सइ जक्खिइ रुयंति ।
मुउ पुत्तु धित्तु गंधुक्कडेण । 10
होसइ परमेसर पुहइपालु ।
वणिणाहें कर्हि मि ण मंतु मिण्णु ।
दंड्यवणि णिहिय णरिंदकंत ।

4

णामेण विजउ सेणाहिणाहु
धणपालु सेट्ठि मइसायरक्खु
पढमहु तणुरुहु हुउ देवसेणु
तइयहु वरयत्तुं महुमुहक्खु
सहुं रायसुएण मणोहरेण
जीवंधरु कोक्किउ रायउत्तु
वणि दिट्ठउ मायातावसेण
आणिउं तावसु भवणहु समीवि
पुणु घोसइ सो सिववेसधारि
बहुबुद्धिवंतु महुं होउ चट्टु
ता चवइ सेट्ठि तुहुं कुमइवंतु
णंदणु ण समप्पमि तुज्झु तेण
सीहउरि राउ हउं अज्जवम्मु
णिसुणिवि जायउ मुण्डूसहाहं
सम्माइट्ठिउ मिच्छत्तहारि
ता ताएँ अण्णिउ तासु बालु

सायर वि पुरोहिउ दीहबाहु ।
णिविमंति मंतविण्णाणचक्खु ।
बीयहु संजायउ बुद्धिसेणु ।
उप्पण्णु चउत्थहु कमलचक्खु ।
एएँ परिपालिय वणिवरेण ।
गंभीरघोसु गंभीरसुत्तु ।
भोयणु मग्गिउ भुक्खावसेण ।
भुंजाविउ घरि कयरयँणदीवि ।
हे वणिवइ तुह सुउ चित्तहारि ।
पावेसइ एहु णरिंदपट्टु । 10
ण उ होसि वप्प षण्णिवायहंतु ।
तं आयण्णिवि पाडिलविउं तेण ।
सिरिवीरणंदिपयमूलि धम्मु ।
णउ सक्किउ घोरपरीसहाहं ।
ओहच्छमि तावसवेसधारि । 15
सिक्खिउ सत्थत्थइ गुणगणालु ।

७ A पिउसोएँ. ८ P ता दंड्यवणि. ९ A °देविहे. १० A रहरसभाविहे; P रहरसभावहो.

4 १ AP परोहिउ. २ A नृव. ३ AP बुद्धिसेणु. ४ AP वरइत्तउ. ५ AP गंभीरसत्तु.
६ A आणिउ भवणहु तायहु समीवे. ७ P कयरमण°. ८ P परमारहंतु.

10 a पाय डेण मूर्तिमता पुण्येन. 14 रहरय भावहु रतिरतपरिणामस्य; महुरु रतिनाम्यां मधुरः, मदनपताकायां बकुलः.

4 3 a देवसेणु सेनापतिपुत्रः; b बुद्धिसेणु पुरोहितपुत्रः. 4 a वरयत्तु श्रेष्ठिपुत्रः; b महुमुहक्खु मधुमुखो मन्त्रिपुत्रः; c चउत्थहु मन्त्रिणः. 5 a रायसुएण जीवंधरेण. 10 a चट्टु छात्रः. 11 b पणिवायहंतु प्रणिपातयोग्यः; °हंतु अर्हः योग्यः.

उज्जापं किउ तत्थेय कालु सुहजोपं छिविवि मोहजालु ।
 घत्ता—आरूढउ जोव्वणि पप्फुल्लियवणि सहइ वसंतु व सुंदरु ॥
 ता णयरम्भंतरि अक्खइ घरि घरि पडहु महुंरमंधरसरु ॥ ४

5

णं पावहु केरउ परमकूहु सवराहिउ णामं कालकूहु ।
 तं गोउलु लइयउं वैकरंतु जो आणइ भडथडमहिमहंतु ।
 तहु ढोइज्जइ गोविंदधीय सुललियतणु रूवें बीय सीय ।
 तं तेव कयउं जीवंधरेण संगरि ह्य भिल्ल धणुद्धरेण ।
 आणिउ गोउलु जयंकारपण लहुं ढोइय कट्टंगारपण । 5
 गोवालपुत्ति बालें वियहु परिणाविउ वणिसुउ णंदियहु ।
 इह भरहस्सेत्ति खयरयालिदि णहवल्लहपुरि फुल्लारविदि ।
 णयरहिउ णामं गरुडवेउ सो दाईजेहिं णिरत्थतेउ ।
 थिउ रयणदीवि रमणीयणयरु अप्पैउ करेवि संपण्णखयरु । 10
 पिर्यं धारिणि तहु संपुण्णगत्त सुय णवजोव्वण गंधव्वदत्त ।
 एकहिं दिणि पोसहखीणदेह पडिवयदियहे णं चंदरेह ।
 दिट्ठी तापं जिणसेस देति थणभारं णं भज्जिवि णवंति ।
 भासइ पिउ सुंदरि देमि कासु ता भणइ मंति लद्धावयासु ।
 मइ मंदरि दिट्ठउ अरुहगेहि चारणमुणि णिण्णेहउ सदेहि । 15
 सो पुच्छिउ पुत्तिहि वरुं वि कवणु जइ भासइ जो मायंगगमणु ।
 जीवंधरु सच्चंधरु सुणु रायउरणाहु बुद्धिइ अणुणु ।
 सो होसइ वरु धारिणिसुयाहि वेल्लहलवेल्लिसुललियभुयाहि ।
 ता पुच्छइ पहु संजोउ केव वज्जरइ मंति भो णिसुणि देव ।
 रायउरइ वणिवइ वसहदत्तु पोमावइ णामं तहु कलत्तु । 20
 णंदणु जिणदत्तु महाणुभाउ सो कज्जु करेसइ तुह सराउ ।

घत्ता—उज्जाणसमिद्धइ महिरुहरिद्धइ णियतणपण विराइउ ॥

उप्पाइयणाणहु सायरसेणहु वंदणहत्तिइ आईउ ॥ ५ ॥

९ AP महरु मंथर°.

5 १ AP आणइ भहु भडथडमहंतु. २ AP जयगारपण. ३ AP गरुडवेउ. ४ AP दाय-
 जेहिं. ५ AP अप्पणु. ६ A पृथ. ७ AP कमणु रमणु. ८ AP उज्जाणि. ९ AP आयउ.

17 a तत्थेय तत्पुरसमीपस्थाने दीक्षां गृहीत्वा. 19 पडहु पटहः गोकुलानयनार्थम्.

5 1 a °कूहु राशिः. 3 a गो विं दधीय दत्ता गोपालपुत्री; b बीय सीय द्वितीया सीता इव.
 6 a गोवालपुत्ति गोदावरी; बालें जीवंधरेण; b णंदियहु नन्दाढ्यः भ्राता अयम्. 13 a पिउ पिता
 17 b वेल्लहल° कोमला. 20 b सराउ सल्लेहः.

6

पइं दिट्टुड सेट्टि सैकंतु संतु
जिणदिक्ख लइय वणिणा सधामि
आगमणु पद्दोसइ तासु पत्थु
णउ लज्जइ सो तुह पेसणेण
तावायउ वणिसुउ तहिं तुरंतु
पत्थिउ णरणाहें सो सराहु
महुं तणयहि मित्त सयंवरेण
गउ णियपैरु णंदणवणि विचित्तु
उच्छलिय वत्त मयणग्गिजलिय
आइउ खगवइ लेविणुं कुमारी
वीणावज्जे लायणपुण्ण
परिणिय जयजयदुंदुहिरवेण

पडिवण्णु णेहु गुणगणमहंतु ।
णंदणु णिहियउ संपण्णकामि ।
तुहुं किं पि विसुरहि मा णिरत्थु ।
णियगोत्तसणेहविहूसणेण ।
अब्भागयविहि किउ पाहुणत्तु । 5
तुम्हारइ पुरि कीरंतु विवाहु ।
ता तं पडिवण्णउं वणिवरेण ।
विरइउ मंडउ माणिककित्तु ।
णाणाविह तहिं मंडलिय मिलिय ।
बहुमणुयजुवाणहुं णां मारि । 10
जीवंधरेण णिज्जिणिवि कण्ण ।
सज्जणविरइयपउरुच्छवेण ।

घत्ता—ता रहरसलुद्धें सुट्टु विरुद्धें कट्टंगारयपुत्तें ॥

माथंगतुरंगहिं रहहिं रहंगहिं आढत्तउं रणु धुत्तें ॥ ६

7

णरवइहिं णारिरयणाइं होंति
उवसामिउ सो विज्जाहरेण
अण्णहिं दिणि पउरें सहुं अण्णिदु
वइसवणदत्तु तहिं वणि सुकंत
सुरमंजरि णामें कायजाय
चंदोयउ णामें चुण्णवासु
हिंडेप्पिणु मंदिरु चोडियाइ
अण्णेक्कु वि वणिउ कुमारदत्तु
गुणमालइ बालइ रइउ चुण्णु
विज्जुलियइ वणिणउं लंजियाइं
जायउ विवाउ दोहिं मि जणीहिं

किं कैहिं मि किराडहं भवणि जंति ।
विज्जासामत्थें सुंदरेण ।
थिउ उववणि वणकीलइ णरिंदु ।
साहारमंजरी णाम कंत ।
को पावइ किर तहि तणिय छाय । 5
सामलियइ तहिं किउ जणपयासु ।
अहिमाणभमेण भमाडियाइ ।
विमला णामें तहु धरि कैलत्तु ।
सुरोयउ णाम मयौलिच्छण्णु ।
धरि धरि सुयंधेगुणरंजियाइ । 10
वणिधीयहं घणपीणत्थणीहिं ।

6 १ AP सुकम्भ. २ A कीरइ. ३ AP णियपुरे. ४ AP लेप्पिणु.

7 १ A कहमि. २ A धरकलत्तु. ३ A मयालच्छण्णु. ४ AP सुगंघं.

6 1 a से ट्टि वृषभदत्तः. 5 a त हिं रत्नद्वीपे. 6 a सराहु सशोभः.

7 1 b किरा डहं भवणि वणिग्गहे. 3 b ण रिंदु काष्ठाङ्गारः. 4 a सुकंत अतिमनोहरा. 5 a कायजाय पुत्री. 6 a चंदोयउ चन्द्रोदयं नाम चूर्णम्; b सामलियइ इत्यादि श्यामलानाम चेटिक्या लोकाग्रे दौकितम्.

दिष्णी परिक्रम जीवंधरेण
चंदोयउ भल्लउ दिव्ववासु
जायउ तरुणित्ठ णिममच्छराउ
गउ णंदणवणु तहिं एक्कु कविल्लु
गंभीरुं धीरु सरिदहिं णिमण्णु
दिष्णाइं पंचवरगुरुपयाइं
मुउ चंदोअयगिरिवरणिंयंवि

परियाणियाणिच्चलमहुयरेण ।
पायडिउं तेण तक्खाणि जणासु ।
अण्णहिं वासरि वैणिवरु णवाउ ।
ताडिउ डिंभहिं रहरमणचवल्लु । 15
कट्ठाविउ कुमरें भयैविसण्णु ।
प्राणाइं दह वि भल्लुइंहु गयाइं ।
जायउ जक्खामरु धाउतंवि ।

घत्ता—णियभसु अहिणाणिवि मणि परियाणिवि कालिमलदोसविवज्जिउ ॥
आवेप्पिणु जक्खे कमलदलक्खे जीवंधरु गुरु पुज्जिउ ॥ ७ ॥ 20

8

अविसहियभीमदिणयरगंभत्थि
णररोल्ले णयणाणंदणासु
विजयासुएण अलिकालकंति
सा दिष्णी तद्दु अवियारएण
णरवइकीलइ कील्लेइ किराहु
इय भणिवि चंडु पुरदंडवासि
सच्चंधरतणयहु सो पणहु
उप्पण्णगरुयकरुणारसेण
पहएण भिच्चणियरें णिराउ
इय भणिवि तेण संभरिउ जक्खु
तें पेसिउ कट्टंगारयासु
उवसामिउ देवे रिउ ण भंति

अण्णहिं वासरि णिवगंधहत्थि ।
धाइउ सुरमंजरिसंदणासु ।
रक्खिय सुंदरि पडिखलिउ दंति ।
भाविउ मच्छरु अंगारएण ।
लइ एयहु किज्जइ दप्पसाहु । 5
तें तद्दु पेसिउ करयलकयासि ।
राणे णं तवचरणहु कुमुणि भट्टु ।
मणि चित्तिउं किं किरै परवसेण ।
खुदहु किज्जइ उवसमउवाउ ।
सो आयउ परबलदुण्णिारिक्खु । 10
णवमेहु व फुरियंगारयासु ।
पियवर्यणे के के णउ समंति ।

घत्ता—रणविजयमहाकरि चडियउ णरहरि पुरवरणारिहिं दिट्टउ ॥
जयमंगलसहें तूरणिणहें जणणणिवासि पइट्टउ ॥ ८ ॥

५ A वणि तरुणराउ; P वरतरु णवाउ. ६ A गंभीरधीरु सरिदरिणिसण्णु. ७ P भयणिसण्णु. ८ AP पाणाइं. ९ P कविल्लो.

8 १ A °गहत्थि. २ AP कीडइ. ३ AP किकरपरवसेण. ४ AP तं पेसिउ. ५ A °वयणे के णउ उवसमंति. ६ AP रणे विजय°.

9 a सूरुो यउ सूरुोदयं नाम चूर्णम्. 14 b ण वाउ नवीनः. 15 a क विल्लु श्वा. 17 b भल्लुइंहु शुनः.

8 1 a °दिणयरगंभत्थि सूरुकिरणाः. 2 a °रोल्ले कोलाहलेन. 5 a किराहु वणिक्. 6 a पुरदंडवासि कोट्टपालः; b करयलकयासि करतलकृतखज्जः. 9 णिराउ निर्दोषः. 14 जणण° भ्रेष्ठी.

9

वसु जायउ सयलु वि मणुयसत्थु
 णिउ जक्खे णिययमहीहरासु
 तहिं अच्छिउ सो कइवयदिणाइं
 पुणु आयउ पहु चंदाहणयरु
 तहु अत्थि तिलोत्तिम तिलणिबद्ध
 तारावाल्लिणिहकरकमणहाहि
 सा द्ढी दुट्ठे विसहरेण
 जीवावइ जो णरणाहपुत्ति
 सो पडहु धरिउ जीवंधरेण
 धणवइणा दिण्णउं अद्धरञ्जु
 वहुभायर वर अच्चंतसमुंह
 गउ रयणिहि पट्टणु खेमदेसि
 दिट्टु जिणभवणु मणोहिरामु
 सुंदरपवेसि बहुमहमहंतु
 विहडियइं कवाडइं दढइं केम
 खरकिरणकलावुग्घाडियाइं
 पुज्जिउ परमप्पउ णिव्वियारु
 णियणाहहु परिमउलियकरेहिं
 आपसपुरिसु जाणिवि पयासु
 णामेण खेमसुंदरि ससोह
 दिण्णउ विणपं अहिणववरासु

सो णत्थि जो ण तहु तसिउ तेत्थु ।
 बहुरुविणि अंगुत्थलिय तासु ।
 माणंतु चारु सुरतरुवणाइं ।
 तहिं धणवइ णामे राउ पवरु ।
 महपवि रुवंसोहग्गणिद्ध । 5
 पोमावइ णामे धीय ताहि ।
 डिंदिमु देवाविउ णिववरेण ।
 तहु दिज्जइ सा अण्णु वि धरत्ति ।
 जीवाविय सा मंतक्खरेण ।
 अण्णु वि तं कण्णारयणु पुज्जु । 10
 जाया किंकर धणवालपमुह ।
 खेमउरु णाम बाहिरपवेसि ।
 जिणु वंदिउ तेण विमुक्ककामु ।
 फुल्लिउ चंपउ अलिगुमुगुमंतु ।
 अइधम्मिट्टहु पावाइं जेम । 15
 सरवरेणवणालिणइं तोडियाइं ।
 दूरुज्झियरइंसिगारभारु ।
 वियसिउ चंपउ अक्खिउ णरेहिं ।
 वणिवइणा दिण्णी कण्ण तासु ।
 धणुमग्गणअरिणरणियररोह । 20
 चिरु होंतउ तं विणयंधरासु ।

घत्ता—णाहहु सुअरेप्पिणु तणु विहुणेप्पिणु णियभिच्चयणविराइय
 णियविज्जाप्राणे रयणविमाणे खेयरधीय पराइय ॥ ९ ॥

9 १ AP ण तहु जो. २ AP रुवंसोहग्ग°. ३ A दिंदिमु; P दंडिमु. ४ AP धरत्ति.
 ५ AP °सुमुह. ६ A महमहमहंतु; P महमहमहंतु. ७ AP सरवरे णव°. ८ AP °पाणे.

9 1 b तसिउ त्रस्तः. 2 a णिययमहीहरासु निजकगिरेः; b तासु दत्तेति शेषः.
 5 a तिलणिबद्ध खेहयुक्ता. 6 a °करकमणहाहि °हस्तपादनखायाः. 8 b धरत्ति अर्धराज्यम्.
 11 a बहुभायर वधुभ्रातरः लोकपालधनपालादिद्वात्रिंशत्कन्याभ्रातरः वराश्च. 12 a रयणिहि रात्रौ.
 14 a बहु° अतिशयेन. 16 a कलावुग्घाडियाइं °समूहेन विकाशितानि. 20 b °मग्गण° बाणाः.
 21 b चिरु इत्यादि पूर्वे विनयंधरस्य ते धनुर्बाणाश्च जाताः; ते इदानीं जीवंधरस्य दत्ताः. 23° विजा प्राणे
 विद्यासामर्थ्येन; पराइय प्राप्ता.

10

पियंदंसणवियसियकमलणेत्त
 गैय रायउरहु पुणु चावधारि
 पुणु विजयविसइ भुयबलविसट्टु
 विकस्साउ राउ दढमित्तु णाम
 हेमाह पुत्ति जणदिण्णमयणु
 मुक्कउ धाणुक्के चवलु बाणु
 ता पावइ गंपिणु जो तुरंतु
 ता तेत्थु मिलिय णर णरहं सामि
 गउ जीवंधरु जा सरु ण जाइ
 पडियागउ णं णरवेसपवणु
 दढमित्तं तहु दिण्णी कुमारि
 णंदहे पुच्छिय भाउजाय
 ता विहसिवि अक्खइ चारुगत्त
 हउं जामि बप्प तुह भायपासु
 मइं णेहि माइ जहिं वसइ बंधु
 तं णिसुणिवि परणरदुल्लहाइ
 पुज्जाविहि गुरुभत्तिइ करेवि
 आरुहहि तरंगिणि णाम सेज्ज
 तं तेंव करिवि गउ सो वि तेत्थु

यत्ता—ता दोहिं मि भायहिं कयप्रियवायहिं मुहुं महुं मुहुं जि पलोइउं ॥ 20
 अवऊडु परोप्परु णेहें णिम्भरु रोमंचुयेंपविराइउं ॥ २० ॥

सहुं मिलिय पियहिं^२ गंधव्वदत्त ।
 एक्खु जि णिग्गउ बलणिज्जियारि ।
 हेमाहउ पट्टणु बद्धपट्टु ।
 णलिणा महएवि विइण्णकाम ।
 इय बोळ्ळिउं जोइसिपेहिं वयणु । 5
 जा पावइ झ त्ति ण लक्खठाणु ।
 सो पयहि कुमरिहि होई कंतु ।
 बाणासणविज्जापारगामि ।
 ता लक्खु छिवेपिणु चलु विहाइ ।
 भूवइ भाणु व भाभारभवणु । 10
 चउभायरकिंकरचित्तहारि ।
 कहिं जासि णिच्चु तुहुं लद्धछाय ।
 णियदेवरासुं गंधव्वदत्त ।
 ता सो पभणइ पप्फुल्लियासु ।
 पेच्छमि परमेसरु सच्चसंधु । 15
 बोळ्ळिउं जीवंधरवल्लहाइ ।
 णियभायरु णियहियवइ धरेवि ।
 जामिणिसमयागमि जणमणोज्ज ।
 साहसरयणायरु वसइ जेत्थु ।

11

पुणु सोहापुरि णवकमलवत्तु
 तहु घरिणि वसुंधरि चंदमुहिय

दढमित्तभाइ णामें सुमित्तु ।
 कलहंसगमणि सिरिचंद दुहिय ।

10 १ AP पियंदंसणे. २ AP पियहो. ३ AP गउ. ४ AP जोइसिपण. ५ A होउ.
 ६ AP णरवेसु पवणु. ७ P णियदेवराउ. ८ A adds after this line: छणल्लुद्धीरमंडल सुवत्त,
 सा अणुदिणु सेवइ विसय सुत्त. ९ P वेळ्ळिउ. १० A मुहु मुहु मुहुं जि पलोइयउ; P मुहुं मुहुं जि.
 ११ AP परोप्पर°. १२ AP रोमंचिय°.

11 १ AP °कमलणेत्तु.

10 2 a चावधारि जीवंधरः. 3 b हेमाहउ हेमामं नगरम्. 8 a णरहं सामि राजानश्च.
 10 b भूवइ जीवंधरः. 11 b °चित्तहारि मनोहारिणी. 20 मुहुं मुखम्; मुहुं जि पुनः पुनरेव.

11 1 a सोहापुरि शोभापुरे क्षेमदेशे.

पारावयजुषलु पलोयमाण
सिंचिय सीयलचंदणजलेण
आयालयसुंदरि कामकुह्णिणि
सा पुच्छिय दोहिं मि भणु णयंगि
तं वयणु सुणिवि कुंअरीउ ताइ
आयण्णिवि तं दोणि वि गयाउ
हेमंगइ पुरि वणि रयणतेउ
अणुवम सुय अणुवम कइ कहंति
वणि कणयतेउ पिय चंदमाल
सुउ जायउ ताहं सुवण्णतेउ
पुवुत्त तासु अणुवम सुहीहिं
गुणमिच्छु ढोइय हरिणणयण
जलंजत्तहि जाइवि जलहितीरि
वहुयइ तहिं गंपि विमुक्कु जीउ
रायउरि दो वि जायइ सणेहि

घत्ता—तहिं बिहिं मि णिवसंतहिं समउ रंमंतहिं सिसुसंसगं गुणियइं ॥
अक्खराइं मत्तालइं मलपक्खालइं मुणिवरवयणइं सुणियइं ॥ ११ ॥

प्रंगैणि मुच्छिय णं मुक्कप्राण ।
आसासिय चलचमराणिलेण ।
तहि तिलयचंदियां णाम बहिणि । 5
किं णिवडिय णं सरहय कुरंगि ।
संबोहियाउ भवसंकहाइ ।
पियरहं कहंति पणमियसिराउ ।
पिय रयणमाल तहु सोक्खहेउ ।
तत्थेव णयरि अवरं वि वसंति । 10
अहिणवसुयंघ णं कुसुममाल ।
दुस्सीलु दुहु कुलधूमकेउ ।
दिण्णी ण मुणियवरंपुब्बिणीहिं ।
गय वासर सोक्खं तुंढमयण ।
सरिमुहि मुउ वरु गंभीरणीरि । 15
पारावयजुषलुल्लउं विणीउं ।
गंधुक्कडवणियहु तणइ गेहि ।

12

घरु पधेणवेउ णामेण पंक्खि
बेणि वि पालियसावयवथाइं
पाविहु मरिवि कुच्छियविवेउ
तं पक्खिणि कणभोयणविलुद्ध
पक्खि मुहघल्लिय घणघणाइ
अण्णाहिं दिणि पुरवरणियडसेलि

रइवेय णाम पक्खिणि चलक्खि ।
उज्झियरयाइं पालियदयाइं ।
पुरुदंसउ हुयउ सुवण्णतेउ ।
खरकरचवेडदंतेहिं रुद्ध ।
मेल्लाविय पक्खिण्डप्पणाइ ।
कीलंतैइं णवतरुवेल्लिजालि ।

२ P पारावइजुषलु. ३ AP पंगणि. ४ AP मुक्कपाण. ५ A °चंदिमा. ६ A लयंगि. ७ AP कुअरीए.
७ A अवरइ. ८ A मुहीहि. ९ AP वरदुब्बिहीहिं. १० AP तुहु सयण. ११ AP जलजंतहे.
१२ A रवंतहिं.

12 १ A पवणवेगु. २ A पंखि. ३ P कीडंतइ.

5 a आ या आगता अलकसुन्दरी; °कु हि णि मार्गः. 6 a णयंगि हे नताङ्गि. 7 a कुं अरी उ द्वे
कुमार्यो. 9 b पिय प्रिया भार्यो. 10 a अणुवम अनुपमा नाम; सुय पुत्री; अणुवम उपमारहिताम्.
13 a पुवुत्त पूर्वोक्ता अनुपमा; सुही हिं सुहृद्भिः; b मुणियवरपुब्बिणी हिं विज्ञातभवित्तभ्यैः.
16 a बहुयइ अनुपमया वध्वा. 18 सिसुसंसगं डिम्भसंगत्या.

12 3 a पुरुदंसउ मार्जारः. 5 a पक्खि पारापतेन. 6 a °से लि गिरौ.

पाविट्टहिं पासइ धँल्लियगि
आवेप्पिणु मंदिरु अक्खरेहिं
अक्खिउ पक्खि रइवेय मुइय
सिरिचंद णाम सुयँ सुंदरीहिं
पारावयमिहुणालोयेण

मैय पक्खिणि दर्इयहु विविहभंगि ।
चंचूलिहिपहिं मणोहरेहिं ।
सा पइ ताय तुह दुहिय इइय ।
भासिउ पियरहं बिंवाहरीहिं । 10
मुच्छिय णियजम्मणजाणणेण ।

घत्ता—तं णिसुणिवि वइयरु पक्खिभवंतरु लिहियउ तेहिं पंडंतरिं ॥
अप्पिउं ससुहेल्लिहि वम्महवेल्लिहि रंगतेयणडणंडिकरि ॥ १२ ॥

13

पइ उववाणि णिहियउ रसविसट्टु
जणणु वि गउ तेत्थु जि णिहियच्चित्तु
वंदेप्पिणु पुच्छिउ सुयहि कंतु
मुणि पभणइ वरु हेमाहणयरि
पइ पसरिउ णंदहेण दिट्टु
उम्मच्छिउ साहइ णिययजम्म
जा संजायउ रोमंचु उंचु
गयणंगणलगतमालतालि
दिसिगिरि पुरि हरिविक्कमु चिलाउ
तहि संभूयउ वणराउ पुत्तु
अवरु वि तहु सहयरु लोहजंघु
ता दिट्ट कण्ण तँ उववणांति
अवरु वि तुरंगु णइ गच्छमाणु
हित्तउ चोरेहिं पुलिंदपहिं

दोहिं मि णडेहिं पारइ णट्टु ।
रिसि दिट्टउ तेण समाहिगुत्तु ।
को होसइ जइवर गुणमहंतु ।
ता जायवि तापं सोक्खसयरि ।
भयुं सुमरिवि सो मुच्छइ णिविट्टु । 5
किर तहु पारइ विवाहकम्मु ।
ता अण्णु जि संपण्णउ पवंचु ।
सुवरिट्टकविट्टवणंतरालि ।
वणगिरि सुंदरि सवरीसहाउ ।
सहयरकिंकरभडबलणित्तु । 10
सिरिसेणहु पुरि हिंडइ दुलंघु ।
सिरिचंद मंदमायंदवंति ।
किंकरणरेहिं रक्खिज्जमाणु ।
भडलोहजंघपमुहोहिं तेहिं ।

घत्ता—सु तुरंगु मणोहरु कलहिलिहिलिसरु आणिवि दिण्णु णिरिक्खिउ
वणलच्छिसहायहु तहु वणरायहु कण्णारयणु वि अक्खिउं ॥१३॥ 15

४ AP घल्लियंगि. ५ AP मय. ६ P दइवहो. ७ AP इय. ८ AP तहि. ९ A पंडंतरु.
१० A णडणडियकरे. P णडणारिकरे.

13 १ A तेत्थु वि. २ A हेमाहे णयरि. ३ AP भउ. ४ AP रोमंचुअंचु. ५ AP सवरिट्ट.
६ A सुंदर सवरी°.

7 a पाविट्टहिं पापडिभिः; b दइयहु विविहभंगि दैववैचित्र्येण. 9 a पक्खि पवनवेगेन; b ताय
हे सुमित्र. 13 रंगतेयणडणडिकरि रङ्गतेजाः नटः, मदनलता नटी, तयोः दानसंमानपूर्वकं पटो दत्तः.

13 4 b °सयरि °शतदे. 11 b सिरिसेणहु पुरि सुमित्रस्य आशाभापुरे. 12 b अमंद-
मायंदवंति प्रचुराम्रवति वने. 13 a णइ नदीम्. 16 वणलच्छिसहायहु अरण्यलक्ष्मीयुतस्य.

14

ता तेण तेत्थु णिरु बद्धगाहु
कुंयरीमंदिरि पांडिउ सुरंगु
णीसारिय सुय तहिं धित्तु पत्तु
जिह णिय गम्भेसरि वणयरेहिं
ढोइय हरिविक्रमणंदणासु
उत्तरु दिण्णउं कण्णाइ तासु
तुहुं महुं सिरिसेणसमाणु बप्पु
तं आयण्णिवि हरिविक्रमेण
णिब्भच्छिवि तणुरुहु सामवण्ण
वणरापं दिण्णउ दूइयाउ
केव वि णउ इच्छइ सा रुयंति
ता तेत्थु चिलाय विइण्णघाय
संपेसिय सयल सबंधुं पक्खु
णिज्जिणिविं भीमवेसेण सधर
पुणु भीसणभिल्लुविहंसणेण
अप्पिउ देवें जीवंधरासु
तें सो कारागारइ णिहित्तु

पेसिय किंकर थिरथोरबाहु ।
चउहत्थरुंदं चउहत्थतुंगुं ।
आलिहियउं विविहक्खरविचित्तु
कोवंडकंडमंडियकरेहिं ।
करकमलंगुलिलालियथणासु । 5
किं दावाहिं दुज्जण थोरु मासु ।
मा वहहिं बप्प सोहग्गदप्पु ।
आगयसमेण पालियकमेण ।
णियपुत्तिहिं सहुं सांणिहिय कण्ण ।
बोल्लंति विलासविहइयाउ । 10
अच्छइ पारावयप्रिउं सरंति ।
दढमित्ताइय संपत्त राय ।
जीवंधरेण संभरिउ जक्खु ।
तें हित्त कण्ण सहस सि अवरं ।
धरियउ वणराउ सुदंसणेण । 15
विण्णोणणायपालियधरासु ।
दप्पंधु णिवंधणु इ ति पत्तु ।

घत्ता—अण्णहिं दिणि सरवरि रंजियमहुयरि पंकयाइ जिणिं ढोयइ
कंपवियवसुंधरु मत्तउ सिंधुरु जीवंधरु अवलोयइ ॥ १४

15

सरतीरु धरिवि णिव्वूढगव्वु
तहिं णिवसंतें णरपुंगमेण
दिण्णउं भोयणु परमेसरासु
अच्छेएरयाइं जायाइं पंच
तं चोच्चु णिपवि पलंबबाहु

आवासिउ खंधावारु सव्वु ।
परियाणियमुंणिपरमागमेण ।
रिसिणाहहु विद्धंसियसरासु ।
को पावइ पुण्णपवंचसंच ।
वणवइणा पुच्छिउ दिव्वु साहु ।

14 १ AP कुमरी°, २ P पाडिय सुरंग. ३ A °हत्थतुंगु. ४ A °हत्थरुंदु. ५ AP कोयंड°. ६ AP सहुं सुहुं णिहिय कण्ण. ७ AP °पिउ. ८ A सुबंधु. ९ AP णवर. १० AP विण्णाय°. ११ AP रंजिय°. १२ A जिणढोयइ.

15 १ A परियाणिउ. २ AP °मुणिचरियागमेण. ३ A धणवइणा.

14 7 a बप्पु पिता. 8 b आ ग य स मे ण संजातोपशमेन. 15 a °विहंसणेण विध्वंसकेन; b सुदंसणेण यक्षेण. 18 सरवरि तढागमध्ये.

15 3 b °सरासु °स्मरस्य. 4 b °संच शोभा.

जोईसरदाणें अत्थि भोउ
किह दइवें जुंजिउ मेच्छकम्मि
जइ भासइ तुहुं बालकतेउ
मुउ तहिं पुणुं हुउ मंजार्क घोरे
एह वि नृर्वसुय होंती कवोइ
पइं लुक्की पविरेइयावएण
पुणरवि तुहुं जायउ विंशराउ
णेवाविये' णेहे णउ मएण

घत्ता—एत्तहिं संपरक्कमु पिउ हरिविक्कमु वणैथरु दरिसियघायउ ॥

णियसज्जणणिग्गहि सुयबंदिग्गहि आहवि जुज्झुहुं आयउ ॥१५॥ 15

सुकियफलु भुंजइ सब्बु लोउ ।
हैंउं किर को होंतउ आसि जम्मि ।
वणिसुउ होंतउ सिसुवण्णतेउ ।
सहेण पणासियकीरमोरु ।
संसारसरणु जाणंति जोइ । 10
रक्खिय णाहें पारावएण ।
एयहि उप्परि अइबद्धराउ ।
भणु को णउ जूरिउ भैवकएण ।

16

जक्खेण सो वि भडमइणासु
ढोइउ बहुदुग्गइकारणाइं
उवसंतसव्वणीसल्लु कयउं
गुंजाहंलभूसियकसणकाय
सोहाउरि बहुलायण्णपुण्ण
दिण्णउं पयाणु पुणु हिमसमीरि
परिवारु सब्बु चउंदिंसिहिं रुद्धु
झाइउ वणसुरवरु सुंदरेण
कय रणविहि पडु परिरक्खणेण
आणिउ पुच्छिउ रापं खर्गिंदु
भिगारयघडवावडकराहं
किं दंसमसय रइयप्पमेय
रायउरि सुहासियघरपविसि

रणि बंधिवि णंदाणंदणासु ।
णिसुणिवि चिरजम्मवियारणाइं ।
भवसंचिउं दूरहु वइरु गयउं ।
णिम्मुकु बे वि रापं चिलाय ।
णंदहु सा सिरिचंद दिण्ण । 5
थिउ सेण्णु अवरसरवरु तीरि ।
तहिं तिव्वगंधमक्खियहिं खडु ।
सो आयउ तें पसरियकरेण ।
विज्जाहरु धरियउ तक्खणेण ।
किं पइं सरु रक्खिउ सारविंदु । 10
किं जलु ण देसि महु किंकराहं ।
ता भणइ खयरु सुणि सुहाविवेय ।
विक्खयायइ मालायारगोत्ति ।

४ AP हउं किं कहिं होंतउ. ५ AP हुउ पुणु. ६ AP मज्जरु. ७ P omits घोरे. ८ AP णिवसुय.
९ A पविरुइ°. १० AP णेवाविय पइं णेहे मएण. ११ AP भवकमेण. १२ A सपरिक्कमु. १३ A
वणियरु.

16 १ A गुंजाहलभूसणकसणकाय; P गुंजाहलभूसणकाय. २ AP चउदिसि णिरुद्ध.
३ A रय अप्पमेय; P रइयप्पमेव.

7 a मेच्छ° भिल्लः. 10 a एह श्रीचन्द्रा. 11 a पविरइय° प्रविरचिता. 12 b एयहि
श्रीचन्द्रायाः. 13 b भवकएण पूर्वकर्मणा. 14 सपरक्कमु सबलः.

16 1 b णंदाणंदणासु जीवंधरस्य. 4 b बे वि पितृपुत्रौ. 7 a परि वारु परिजनः सेन्यम्;
b मक्खियहिं भ्रमरीभिः. 8 a वणसुरवरु व्यन्तरदेवः. 10 a रापं जीवंधरेण; b सारविंदु
लक्ष्मीपदसहितम्. 12 b सुहाविवेय पुण्यविवेकिन्. 13 a सुहासिय° सुधया धवलानि.

जाईभडकुसुमसिरीहिं पुत्तु
तेत्थु जि पुरि गुणसंजणियराउ
चंदाहु णाम हंउं मज्झु मिच्चु
दोहं मि अम्हहं दोहिं मि जणेहिं

घत्ता—सो चंदाहु मरेप्पिणु सग्गि वसेप्पिणु मुणिवरेहिं विण्णायउ ॥

पत्थु विदेहधरायलि वरक्षयरायलि विज्जाहरु हउं जायउ ॥ १६ ॥

तुहुं होंतउ णामे पुप्फवंतु ।

धणयत्तणंदिणीदेहजाउ ।

15

अवरेह्णु कहिउ ते धम्मच्चिचु ।

गहियइं वयाइं णिच्चलमणेहिं ।

17

सुरगिरिसुरदिसिवहिं णिसुणि भाय
ता दिट्ठउ मइं मुणि दिव्वणाणि
तें कहिउ सव्वुं महुं भवविहारु
सो पुप्फवंतु मुउ जतिं कालि
घरपंडुपुंडरिंकिणिपुरंति
विजयावइदेविहिं दिहिअणूणु
अण्णहिं दिणि वणकीलइ गओ सि
तहिं बालहंसु दिट्ठउ चरंतु
पियराइं तासु णहयलि भमंति
दीहरसंसारभमाडपण
विंघिविं मारिउ सो हंसताउ
सा भणइ पुत्त हम्मइ ण जीउ
तं जणणिवयणु णिसुणेवि तेण
सोलहमइ दिणि मुक्कउ मरालु
चिरु णिवसिरि भुंजिवि जयरहेण
मुउ संभूयउ सहसारसग्गि
तेत्थाउ पत्थ जाओ सि णवर
जो मारिउ तुह भिच्चेण हंसु
संजायउ कट्टुगारमंति
पाडलपिल्लयहु महंतसोउ

जावच्छमि सुहुं भुंजंतु राय ।

सो पुच्छिउ इच्छियसोक्खल्लाणि ।

तेरउ णिसुणहिं अच्चंतसार ।

हुउ पुक्खलवइदेसंतरालि ।

विजयंधरु पहु जयलच्छिवंति ।

5

जयरहु णामे तुहुं पदमसूणु ।

सकमलसरवरतडि संठिओ सि ।

आणाविउ भयरसथरहरंतु ।

णियभासइ हा हा सुय भणंति ।

तावेक्के रूसिवि चेडपण ।

10

तुह जणणिहिं हुउ कारुण्णभाउ ।

दुग्गइ पइसइ जणु दुब्बिणीउ ।

पडिवण्णउ धम्मु महायरेण ।

जाइवि णियमायहिं मिलिउ बालु ।

तवचरणु लइउं दिणयरमहेण ।

15

अट्टारहसायरभुत्तभोग्गि ।

सिरिविजयादेविहिं पुरिसपवर ।

संसारि भमिवि सो विमलवंसु ।

तुह जणणु णिहउ ते चंदकंति ।

जं सोलहवासरकयविओउ ।

20

४ A जोइउ भड कुसुम^०. ५ A हुउ. ६ AP धम्मविचु. ७ P ता तहिं अम्हहं. ८ AP खयरधरायलि.

17 १ A सच्चु. २ AP जंत कालि. ३ AP सुय लवंति. ४ A बंधेवि माराविउ हंसताउ; P बंधेवि मारिउ सो हंसताउ.

14 a जाईभडकुसुमसिरीहिं जातीभटकुसुमभियोः. 15 a तेत्थु जि पुरि राजपुरे. 16 b धम्मच्चिचु धर्मा विचित्रः. 17 a दोहं मि तव मम च; दोहिं वि पुष्पदन्तचन्द्राभाश्याम्.

17 1 a सुरगिरिसुरदिसिवहिं पूर्वविदेहे. 6 a दिहिं^० धृतिः. 15 b दिणयरमहेण भास्करप्रतापेन. 20 a पाडलपिल्लयहु हंसबालस्य.

सोलह बरिसाहं ण जोइओ सि
ता रापं विजाहुरु पवुत्तु
इय भासिवि जियरविमंडलेहिं
कडिसुत्तमउडहाराइएहिं
पट्टुविउ गयणगइ पत्थिवेण
कउ वासु जाम परियलइ कालु

तं तुहुं बंधुहुं विच्छोइओ सि ।
तुहुं मज्जु बप्प कल्लामित्तु ।
पुज्जिउ मणिकंचणकुंडलेहिं ।
माणिकमऊहविराइएहिं ।
हेमाहणयरि भुंजियसिवेण । 25
ताँ अण्णु जि होइ कहंतरालु ।

घत्ता—पुच्छिय महुराइहिं सयलहिं भाइहिं कहिं सो केसरिकंधरु ॥
णंदहु णिसुंदर सुहलक्खणधरु कहिं कुमार जीवंधरु ॥ १७ ॥

18

भणु भणु सामिणि गंधव्वदत्ति
सा भासइ सुयण मणोज्जदेसि
णिवसंति संतं दोण्णि वि कुमार
तं णिसुणिवि गय भायर तुरंत
तहिं दिट्ठ देवि तावसणिवासि
आलाव जाय जाणिय समाय
बोल्लिउ देविइ भो करइ तेम
सइ वंदिवि गय ते णं गइंद
ते जित्त जंति जा पुरसमीउ
अब्भिट्ठउ तहिं संपाइएण
रक्खिय ओलक्खिय गलियगव्व
गय हेमाहइ थिय को वि कालु
रायउरइ चल्लिउ सो तुरंत

णवकयलीकंदलसरिसगत्ति ।
हेमाहणयरि मणहरपवेसि ।
कामावयार संसारसार ।
दंडयवणु तुंगतमालु पत्त ।
जीवंधरजणणि महापयासि ।
को पावइ जणणिहिं तणिय छाय ।
सुउ जीवंधरु महुं मिलइ जेम ।
आलग्गा ताहं महापुलिंद ।
पुणु सव्वरणिवहु हरिहैरिणजीउ ।
जीवंधरेण अवराइएण । 10
सज्जणवच्छल महुराइ सव्व ।
पुणु तेहिं पबोल्लिउ सामिसालु ।
दंडयवणु पत्तं गुणमहंतु ।

घत्ता—तहिं जोइवि मायरि विजयासुंदरि बंधुवग्गु रोमंचिउ ॥
घणपणयपवण्णं चुयथणथण्णं णंदणु मायइ सिंचिउ ॥ १८ ॥

५ AP तें तुहुं मि बप्प विच्छो^०. ६ AP वत्थहिं सुहगंधविराइएहिं. ७ A तावण्णु वि; P ता अण्णु वि.

18 १ AP संति. २ AP सवरविदु. ३ A हयहरिण^०. ४ A अइराइएण. ५ A पत्तउ सो महंतु.

21 b बंधुहुं मातृप्रमुखानाम्. 25 a गयणगइ विद्याधरः. 27 महुराइहिं सत्यंधरस्य रतिनाभ्यां मधुरः, मदनपताकायां बकुलः. 28 णिसुंदर नृणां मध्ये सुन्दरः.

18 2 a सुयण सुजन इति संबोधनम्. 3 a दोण्णि वि कुमार हेमाभया सह जीवंधरः श्रीचन्द्रया सह नन्दाढ्यस्तिष्ठति. 8 a सइ सतीम्; b ताहं बकुलमधुरादीनाम्. 10 b अवराइएण न केनापि जितेन. 15^० पवण्णं प्राप्तेन.

19

जीवंधरेण जीवंति दिद्
 पभणइ दीहाउसु होहि पुत्त
 दुविणीपं दुज्जसगारएण
 मंते होइवि सइं गहिउं रञ्जु
 तं णिसुणिवि रोसहुयासु जल्लिउ
 पच्छइ णहयलपरिघुलियकेउ
 णियवइरिभवणि दियवेसधारि
 भोयणु भुंजिवि अग्गासणत्थु
 गुणमालहि बौलहि गेहु दुक्ख
 जाणिउ जीवंधरु दिण्ण तासु
 वणिवेसें रइरसरमणधुत्ति
 तं कण्णानुवल्लु करेण धरिवि
 पइसइ पडु'गंधुक्कडणिवसि
 जणवइ विदेहि पुरवरि विदेहि
 पुहईसुंदरि पिय बीय सीय
 सा चंदयवेहि सयंधरेण
 आढत्ती हरहुं णरेसरेहिं
 भड मिडिय दिण्णदढपहरविहुंरु

पणमिय परमेसरि सुट्टु इड्ड ।
 आयण्णहि संगरभारजुत्त ।
 तुह पिउ हउ कट्टंगारएण ।
 तुहुं सउंलपराहवु हरहि अञ्जु ।
 परिवाययवेसें कुंयरे चलिउ । 5
 णंदहु णिहिउ साहणसमेउ ।
 अवयरिवि पयंपइ चिसहारि ।
 पुणु वक्खाणिउं वसियरणसत्थु ।
 हियउल्लउं तहि वसि करिवि मुक्खु ।
 गुणमालिणि णं रइ वम्महासु । 10
 पुणु परिणिय सायरदत्तपुत्ति ।
 विजयइरि करिंदारुहणु करिवि ।
 कुद्धउ णरवइ पडिवक्खतोसि ।
 गोविंदु राउ पडिवण्णदेहि ।
 तहि रयणवइ ति सुरूव धीय । 15
 परिणिय णियपुरि जीवंधरेण ।
 खलकट्टंगारयकिंकरेहिं ।
 जायउ रणु भीसणु गलियरुहिरु ।

घत्ता—तहिं तेण कुमारें विक्रमसारें करिवरु पीपं पेल्लिउ ॥

सो कट्टंगारउ भड भल्लारउ चकें छिंदिवि घल्लिउ ॥ १९ ॥ 20

20

अप्पेणु पुणु जणणासणि णिविट्ठु
 णं पोयणैपट्टणि चिरु तिविट्ठु

दारावइपुरवरि णाइ विट्ठु ।
 थिउ सिरि रमंतु णं सइं दुविट्ठु ।

19 १ A सयल्ल परामउ; P सउल्ल पराहउ. २ AP कुमरु. ३ A वालहे समुहु. ४ P पुण मालिणि. ५ AP रमणपुत्ति. ६ AP पडिवक्खु तासि. ७ AP पडिवण्णणेहि. ८ A सुरुव सीय. ९ P चिहुरु. १० AP पायहिं.

20 १ AP अप्पणु. २ A पोयणे पुरवरे.

19 4 b सउल्लपराहवु स्वकुलमानभङ्गः. 9 a गुणमालहि कुमारदत्ताविमलयोः सुता गुणमाला, तस्याः. 13 b पडिवक्ख तो सि शत्रुहर्षे सति क्रुद्धः. 14 b पडिवण्ण दे हि अङ्गीकृतनरे, नरसमुद्रे इत्यर्थः.

अट्टहिं महपविहिं सहुं जणिट्टु	णं संकरिसणु परिउट्टसिट्टु ।	
पुणु कालें जंतें कोवणिट्टु	वणि कंइजुवलउं जुज्जंतु विट्टु ।	
संसारु घोरु बुज्जिवि अणिट्टु	वंदेवि वंकेचारणु मुणिट्टु ।	5
दोपवि वसुह् हरिकंधरासु	णियतणयहु झ त्ति वसुंधरासु ।	
पावइउ णमंसिवि वहुमाणु	जीवंधरमुणि भवतरुहिसाणु ।	
विजयार्पविइ सुललियभुयाइ	चंदणहि पासि सुरवरथुयाइ ।	
अट्ट वि तहु घरिणिउ दिक्खियाउ	सत्थंगोवंगइं सिक्खियाउ ।	
सच्चंधरसुउ सुयकेवलित्तु	पत्तउ पुणु राय तिदेहचत्तु ।	10
जाही णिव्वाणहु मागहेस	पइं पुच्छिय मइं अक्खिय असेस ।	
कंइ जासु परमजोईसरासु	सो कुणउ मज्झु मिच्छत्तणासु ।	
जीवंधरु देउ समाहि बोहि	विद्धंसउ पणइणिपेम्मवाहि ।	
घत्ता—जिह भरहु अणिदहु रिसहजिणिदहु पणविउ भट्टपंचाणणु ॥		
तिह अइगंभीरहु सेणिउ वीरहु पुष्पदंतधवलणणु ॥ २० ॥		15

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणप
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे जीवंधरभवावण्णं
णाम णवणउदिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ९९ ॥

३ A परितुड्° . ४ A कविजुयलउं; P कयजुयलउं. ५ P कंक°. ६ A विजयादेविहे. ७ P कहु जासु.
८ A भववण्णं.

20 3 a जणिट्टु जनानामिष्टः. 4 a को व णि ट्टु कोपसहितम्; b क इ जु व ल उं वानरयुगलम्.
12 a क इ कथा. 13 a देउ ददातु. 14 भरउ प्रथमचक्री. 15 वीरहु महावीरस्य.

आहिंडिवि मंडिवि सयल महि धम्मं रिसि परमेसरु ॥
संसिरिहि विउंलहरिहि आइयउ कालें वीराजिणेसरु ॥ धुवकं

1

सेणिउ गउं पुणु बंदणहत्तिइ
सुरतरुतलि सिलवीढि णिविट्ठउ
झाणारूढउ भिउडियल्लोयणु
पुच्छिउ गोत्तमु सिव्वरामाणणु
भणइ गणेसरु अंगइ मंडलि
होंतउ एहु साहु धर्णरिद्धउ
वीरहु पासि धम्मु आयण्णिवि
णियतणयहु कुलगयणसंसंकहु
अणुणु तवु लइयउं परमत्थें
दहविहधम्मरुईइ पर्यंसिउ
तुम्हारइ पुरवरि णिरवज्जे
तहिं तिहिं पुरसहिं सो अवलोइउ
एपं सामुहें पुहईसरु
अवरेक्के बोळिउ भो जेहउं
डिंभुं एण परभवि अवयारिउ
पावयम्मु इहु भिक्खु ण बुच्चइ

समवसरणु संजोयंतें^१ भत्तिइ ।
धम्मरुइ त्ति णाम रिसि विट्ठउ ।
रापं तेण सैं णाणविल्लोयणु ।
किं दीसइ भो^२ मुणि भीमाणणु ।
चंपापुरवरि ण वि आहंडलि ।
राउ सेयवाहणु सुपसिद्धउ ।
तणंसमाणु मेइणियल्लु मण्णिवि ।
दिण्णउ विमलवाहणामंकहु । 10
वहुमाणपयमउलियहत्थें ।
धम्मरुइ त्ति मुणिहिं उम्भासिउ ।
अल्लु पइट्ठउ भोयणकज्जे ।
लक्खणधरु भणेवि पोमाइउ ।
किं णउ जायउ एहु जईसरु ।
पइं बुत्तउ बहुंमहिवइ तेहउं ।
मंतिहिं हिंत्तुं रल्लु तं मौरिउ ।
एयहु केरी तत्ति विमुच्चइ ।

घत्ता—आयण्णिवि तं मण्णिवि अवि भुंजंतु णियत्तउ ॥

परमेट्ठिहि सुहदिट्ठिहि समवसरणु संपत्तउ ॥ १ ॥

20

1 १ A सिहरिहि. २ P वि विउलएरिहे. ३ AP पुणु गउ. ४ AP जोयंतें. ५ AP सुणाण°. ६ AP सिवसिरिमाणणु. ७ AP सो. ८ A धरिणिद्धउ. ९ AP तिण°. १० A पसंसिउ. ११ A पोमावइउ. १२ AP एहु महिवइ. १३ A डिंभएण धरभरि अवयारिवि. १४ A हियउ. १५ A मारिवि.

1 1 घ भें चारित्रेण. 2 स सिरि हि श्रीसहिते गिरौ. 6 a सिवरामाणणु मोक्षवधूप्रापकः. 7 a अंगइ अङ्गदेशे न त्वङ्गदे. 16 b बहुमहिवइ प्रचुरभूपतिः. 17 a परभवि मानभङ्गे मरणे वा. 19 णियत्तउ निवृत्तः.

2

सेणिय अहरोसें पज्जालिउ
 पसरमाणु दुक्कम्मु णिरोह्हि
 तं णिसुणिवि जाइवि अणुरापं
 तेण वि तं णियचित्ति णिहित्तउं
 उप्पाइउं केवलु सयलामलु
 तं अवलोइवि धम्मच्छाहे
 पुणु मगहाहिउ भावे घोसइ
 भारहवरिसि गणेसरु भासइ
 भूसिउ अच्छराहिं गुणवंतहिं
 पिक्कउं सालिछेत्तु जेलिओ सिहि
 देवदिण्णजंबूहलदायइ
 अरुहयासवणियहु घणथणियहि
 सत्तमदिवसि गम्भि थापसइ
 जंबूसामि णाम इहु होसइ
 वर्द्धमाणु पावापुरसरवणि
 तइयहुं जापसइ णिव्वाणहु
 घत्ता—हउं केवलु अइणिम्मलु पाविवि समउं सुहम्मं ॥

पउं जि पुरु तोसियसुरु आवेसमि हयकम्मं ॥ २ ॥

पइं रउहझाणत्थु णिहालिउ ।
 रिसि जाइवि तुहुं लहुं संबोह्हि ।
 धम्मवयणु तहुं भासिउं रापं ।
 अट्टरउहझाणु परिचत्तउं ।
 इसिं इसिणाहु पह्ययउ णिम्मलु । 5
 सेणिउ सइं पुज्जिउ सुरणाहे ।
 देव चरमकेवलि को होसइ ।
 एहुं सुं विज्जुमालि सुरु दीसइ ।
 विज्जुवेयविज्जुलियाकंतहिं ।
 मयमत्तउ करिंदु बहुमयणिहि । 10
 इय सिविणयदंसणि संजायइ ।
 सुरवरु जिणदासिहि सेट्ठिणियहि ।
 जंबूसुरहु पुज्ज पाविसइ ।
 तक्कालइ णिव्वुइ जापसइ ।
 णिद्धणीलणं वचउरंगुलतणि । 15
 अचलहु केवलणाणपहाणहु ।

सुणि सेणिय कूणिउ तुह णंदणु
 जंबूसामि वि तहिं आवेसइ
 सयणहिं सो णिज्जेसइ महुंइ
 तहु विवाहु तहिं पारंभेव्वउ
 सायरदत्ततणय पोमावइ
 पोमसिरि त्ति कणयसिरि सुंदरि

संबोहेसमि सुयणाणंदणु ।
 अरुहदिकख भत्तिइ मग्गेसइ ।
 णियपुरि सत्तभूमिथियमंडइ ।
 तेण वि णियमणि अवहेरिव्वउ ।
 अवर सुल्लेक्खण सुरगयवरगइ । 5
 विणयसिरि त्ति अवर वरं धणसिरि ।

३. ३ A इसि इहि णाणु. ४ AP जि. ५ AP जलियउ.

५ AF अरुहदाउ. ७ A एहु. ८ A एहुमाणु. ९ P omits णव°.

3 १ A णियणंदणु. २ A संबोहेसइ. ३ AP मंडइ. ४ AP सलक्खण. ५ A तह धण°.

2 9 b विज्जुवेय इत्यादि प्रियदर्शना सुदर्शना विद्युत्प्रभा विद्युद्देगा. 11 b सि वि ण य दंस णि मातुः स्वप्नदर्शने जाते सति. 14 b तक्कालइ जन्मदिने. 17 समउं सुहम्मं अहं सुधर्माचार्येण सह एतन्नगरमागमिष्यामि.

3 3 b ° मंडइ ° मण्डपे.

भवणमज्झि माणिक्रपर्हवइ
पर्यहिं सहुं तहिं अच्छइ मणहरु
वरु वहुयहुं करयलु करि होयइ
तहिं अवसरि सुरम्मदेसंतरि
विज्जुप्पहु णामे सुहडग्गिणि
केण वि कारणेण णं दिग्गउ
अइंसणु कवाडउग्घाडणु
विज्जुचोरु णियणीं कहेप्पिणु

घत्ता—बलवंतहिं मंतहिं तं तैहिं गोविउ दुक्कउ तकरु ॥

अंधारइ घोरइ पसरियइ रयणिहि कूसियभक्खरु ॥ ३ ॥

रयणच्चुण्णरंगावलिभावइ ।
उण्णाविय इय णवककणकरु ।
जणणि तासु पच्छणु पलोयइ ।
विज्जुरायसुउ पोयणपुरवरि । 10
कुद्धउ सो अरिगिरिसोवामणि ।
णियपुरु मेल्लिवि सहसा णिग्गउ ।
सिक्खिवि लोयबुद्धिणिद्धाडणु ।
पंचसयाइं सहायहं लेप्पिणु ।

15

4

माणवेण णउ केण वि दिट्टउ
दिट्ठी तेणं तेत्थु पसरियजस
पुच्छिय कुसुमाले किं चेर्यसि
ताइ पबोल्लिउं महुं सुय सुहमणु
पुत्तविओयदुक्खु तणु तावइ
बुद्धिमंतु तुहुं बुहविण्णायहिं
परं हउं बंधवु परमु वियप्पमि
तं णिसुणिवि णिरुक्कु गउ तेत्तहि
जंपइ भो कुमार णउ जुज्जइ
णियहु ण माणइ दूरु जि पेच्छइ
णिवडिउ ककरि सैलिं सिलायलि
तवि किं लग्गहि माणहि कण्णउ
जीवहु तित्ति भोए णउ विज्जइ

घत्ता—ता घोरें चोरें बोल्लियउं सवरें विद्धउ कुंजरु ॥

सो भिल्लु ससल्लु दुमासिएण फणिणा वट्टउ दुद्धरु ॥ ४ ॥

15

६ AP सहुं अच्छेसइ मणहरु. ७ AP उण्णाविर इय. ८ A वरवहुयहं. ९ AP करयलि कर.
१० AP णियणामु. ११ AP तहिं मि. १२ A गोविउ.

4 १ P तेत्थु तेण. २ A वेयहि. ३ AP मायरि. ४ A सोवहि. ५ A ण आवइ. ६ AP
णिरिक्खु. ७ A एलउ तरु मुएवि; P एलउ तणु मुएवि. ८ A संलसिलायले. ९ AP वरइत्तु जि सुण्णउ.
15 गा वि उ गर्वितः. 16 ° भक्खरु भास्करप्रतापः.

4 1 b ° वणि भवणि वणिग्गहे. 2 b जिणवरदासि अर्हदासी श्रेष्ठिनी. 3 a कुसुमाले
चोरेण. 4 a सुय हे सुत; b परइ परेतुः. 6 b सुहडोवायहिं हे सुभट, उपायैः. 8 a णिरुक्कु चोरः.
10 b पल्लउ इत्यादि पल्लवतृणानि मुक्त्वा करभः यथा मधु वाञ्छति. 15 दुमासिएण वृक्षाश्रितेन.

5

तेण वि सो तं' मारिउ विसहरु
 तेत्थु संमीहिवि मासाहारउ
 लुद्धउ गियंतणु लोहें रंजइ
 तुट्टणिवंधणि मुहरुह मोडिइ
 मुउ जंबुउ अइतिट्टइ भग्गउ
 म मरु म मरु रइसुहुं अणुहुंजहि
 सुलहरं पेच्छिवि विविहरं रयणइं
 जिणवरवयणु जीउ णउ भावइ
 कोहें लोहें मोहें मुज्झइ
 कहइ थेणु पक्केण सियालें
 तणु घल्लिय उप्परि परिहच्छहु
 आमिसु गँहियउं पक्खिणिणाहें
 मुउ गोमाउ मर्च्छु जलि अच्छिउ
 वणिवरु पंथि को वि सुहुं सुत्तउ
 वणि तुम्हारिसेहि अण्णाणहि

घत्ता—दुप्पेक्खें दुक्खें पीडियउ वणिवइ आवइ पत्तउ ॥

जिणवयणें रयणें वज्जियउ जीउ वि णरइ णिहित्तउ ॥ ५ ॥

मुउ करि मुउ सवरुहु धणुद्धरु ।
 तहिं अवसरि आयउ कोट्टारउ ।
 चावसिंथणाऊ किर भुंजइ ।
 तालु सरासणकोडिइं ।
 जिह तिहें सो परलोयहु भग्गउ ।
 भणइ तरुणु तक्कर पडिवज्जहि ।
 गउ पंथिउ ढंकिवि गियणयणइं ।
 संसरंतु विविहावइ पावइ ।
 अट्टपयारें कम्मं बज्झइ ।
 मासखंडु छंडिवि तिट्टालें । 10
 तीरिणिससिलुच्छलियहु मच्छहु ।
 सो कहिवि णिउ सलिलपवाहें ।
 तां लंपेक्खु वरें णिभच्छिउ ।
 रंयणकरंडउ तँहु तहिं हित्तउ ।
 सो कुसीलुं कउ हिंसियपाणहिं । 15

गउ पाविट्टु देट्टु उम्मगं
 तं आयणिवि परधणहारें
 सासुय कुद्ध सुण्ह गहणालइ

विसयकसायचोरसंसंगं ।
 उत्तरु दिण्णु बुद्धिवित्तारें ।
 मरणकाम दिट्ठी तरुमूलइ ।

5 १ AP तहिं. २ AP समीहिय^c. ३ A लद्धउ गियमणि लोहें; P गियमणु लोहें. ४ A चावसिंथणाओ; P चावसिंथ ता किर जा भुंजइ. ५ AP सो तिह. ६ AP छट्टिवि. ७ AP गहिउं. ८ A मच्छि. ९ A तक्कालें खयरें णिभच्छिउ. १० AP तहिं तहो. ११ A कुसील कउ.

6 १ AP धिद्ध.

5 1 a तेण मिल्लेण. 2 b को ट्टारउ क्रोष्टा श्रृगालः. 3 a लोहें लोमेन; b चा व सिं थ णा ऊ °प्रत्यञ्जास्त्रसाः (णा ऊ स्त्रायूनि) 4 a मुहरुह दन्ताः. 7 a सुलहरं इत्यादि मार्गै पतितानि रत्नानि दृष्ट्वा पश्चाद् ग्रहीष्यामीति नेत्रे संपित्वा पथिकः अग्रे गतः; पुनरागतं तानि पुनर्न लब्धानि. 10 a थेणु चौरः. 11 a परिहच्छहु वेगवतः. 12 a पक्खिणिणाहें एधेण; b सो श्रृगालः. 13 b लंपेक्खु चौरः. 14 a सुत्तउ निद्रां प्राप्तः; b त हिं तत्र

6 3 a गहणालइ वनप्रदेशे.

णिस्तुणि सुवण्णदार पाडहिपं
मरणोवाउ सिद्धु धवलच्छिहि
महलि पाय विण्णु गलि पासउ
सो मुउ जोइवि णीसासुण्हइ
जिह सो मुउ घणकंकणैमोहें
भणइ कुमारु वुत्तुं ललियंगउ
तं जोयंति का वि मणिमेहल
आणिउ धाइइ पच्छिमदारें
रापं जाणिउ सो विहिकाविउ
किमिखजंतु दुक्खु पावेप्पिणु
जिह सो तिह जणु भोयासत्तउ

घत्ता—णियइच्छइ पच्छइ भीरुयहु जीवहु वेर्यंसमग्गउ ॥

णासंतहु जंतहु भवगहणि मञ्जुणाम करि लग्गउ ॥ ६ ॥

आहरणहु लोहें मइरहिपं ।
गैयमयणहि घरपंकयलच्छिहि । 5
तण्णिवाइ मुउ दुद्धु वुरासउ ।
गेहगमणु पडिवण्णउं सुण्हइ ।
तिह तुहुं म मरु मोक्खसुहलोहें ।
एक्कहिं णयरि अत्थि रइरंगउ ।
कैय मयणें महएवि विसंडुल । 10
देविइ रमिउ मुणिउं परिवारें ।
असुइपवण्णि विवरि घल्लाविउ ।
गउं सो णरयहु प्राणं मुएप्पिणु ।
मरइ बप्प णारियणहु रसउ ।

15

णिवडिउ जम्मकूइ विहिविहियइ
लंबमाणु परमाउसुवेह्निहि
कालें कसणसिपहिं विहिण्णी
णिवडिउ णरयभीमविसहरमुहि
इय आयण्णिवि तहु आहासिउं
जणणिइ तैक्करेण वरकण्णहिं
ता अंबरि उग्गमिउ दिवायरु
कूणिपण रापं गयगामिहि
सिबियहि रयणकिरणविप्पुरियहि
णाणासुरतरुकुसुमपसत्थइ
बंभणवणियहिं पत्थिवपुत्तहिं

कुलतरुमूलजालसंपिहियइ ।
पंथिवियमहुबिंदुसुहेह्निहि ।
सा दियहुंदुरेहिं विच्छिण्णी ।
पंचपयारघोरदावियदुहि ।
सव्वहिं धम्मि सहियउं णिवेसिउं । 5
मरगयमणहरकंचणवण्णहिं ।
जंबूदेउ पराइउ सायरु ।
णिकखवणाहिसेउ किउ सामिहि ।
आरूढउ वरैमंगलभरियहि ।
विउलि विउलधरणीहरमत्थइ । 10
पुत्तकलत्तमोहपरिचत्तहिं ।

२ AP गयगमणहि. ३ AP कंकणलोहें. ४ AP धुत्तु. ५ A रइरंगउ. ६ A तें. ७ P omits this line: ८ P मउ. ९ AP पाण. १० A तेय°.

7 १ A पंचेंद्रिय°. २ AP दियहुदुरेहिं. ३ AP तक्करेहिं. ४ AP तावंतरि. ५ AP बहुमंगल°.

4 a सुवण्णदारु सुवण्णदारको नाम; पाडहिपं मार्दङ्गिकेन. 5 b गय मयण हि विरक्तायाः. 7 a णी सा सुण्हइ निःश्वासोष्ण्या. 10 a मणि मेहल रत्नमेखलायुक्ता राज्ञी. 16 मञ्जुणाम मृत्योर्नाम.

7 3 a विहिण्णी विदारिता; b दियहुंदुरेहिं दिवसमूपकैः. 5 b सहियउं स्वहृदयम्. 7 b सायरु सादरः. 8 b सामिहि जम्बूस्वामिनः.

विज्जचोरें समउ सुतेयउ
णिञ्चाराहियवीरजिणिंदहु

घोरहं पंचसपहिं समेयउ ।
पासि सुधम्महु धम्माणंदहु ।

घत्ता— तउ लेसइ होसइ परंजइ होपप्पिणु सुयकेवलि ॥

हयकम्मि सुधम्मि सुणिव्वुयइ जिणपयविरहयपंजलि ॥ ७ ॥ 15

8

पत्तइ बारहमइ संवच्छरि
पंचमु णाणु एहु पावेसइ
तेण समउं महियंलि विहरेसइ
वरिसइं धम्मु सर्व्वंभव्वोहहं
अंतिमकेवलि उप्पज्जेसइ
इय मणि मणिणवि णच्चिउ सुरवरु
पुच्छइ सेणिउ सुरु किं णच्चइ
आसि कालि ससहरकरणम्मलि
धम्मइदु वणि गुणदेवीवइ
वसणवसंगउ दुक्खें खंडिउ
पिउसिक्खिअविउ ण किउ मइं मुक्खें
इय चिंतइ चित्तेण पसण्णें
तहिं सम्मत्तु एण पडिवण्णउं
णच्चिउ जिणवरधम्मुच्छाहें

चित्तपरिट्ठिइ वियलियमच्छरि ।
भवु णामेण महारिसि होसइ ।
दहगुणियइं चत्तारि कहेसइ ।
विद्धसियवहुमिच्छामोहहं ।
महु पहुवंसहु उण्णइ होसइ । 5
परमाणंदं दिसिपसरियकरु ।
बंधु केउं ता गणहरु सुच्चइ ।
जंबूसामिवंसि वणिवरकुलि ।
अरुहदासु तहु धुउ णिरु दुम्मइ ।
चिंतइ हउं णियदप्पें दंडिउ । 10
एवहिं काइं जियंतें दुक्खें ।
वितरसुरकुलि जायउ पुण्णें ।
कह णिसुणिवि हियउल्लउं भिण्णउं ।
ता पडिजंपिउं मागहणाहें ।

घत्ता— भो णित्तम गोत्तम कहहि महुं प्हपच्छइयसंसंके ॥

गयगारवि चिरभवि किं कयउं विज्जंमालिणार्मकं ॥ ८ ॥ 15

9

भणइ भडारउ पुव्वविदेहइ
पुक्खलवइदेसंतरि राणउ

वीयसोयपुरि इह सुहंगेहइ ।
पउमु णामु पउमाइ पहाणउ ।

६ A विज्जचोरें. ७ AP परमजइ.

८ १ AP महियलु. २ AP सबु. ३ AP केम. ४ AP °ससंकए. ५ P विज्जमालि°. ६ AP °णामंकए.

९ १ AP सियगेहए.

15 सुधम्मि सुधर्मगणधरे; सु णि व्वु यइ मोक्षं गते सति.

८ 2 b भवु जम्बूस्वामिनः शिष्यः. 5 b पहुवंसहु वर्धमानस्वामिशासनस्य, अथवा, यस्मिन्वंशे पूर्वमहं मनुष्यो जातस्तस्मिन्वंशेऽयं निर्वाणगामी भविष्यति. 7 b बंधु संबन्धः; केउ सुन्दरः, अथवा केव कथम्. 9 a धम्मइदु धर्मप्रियो नाम वणिक्. 15 णित्तम अज्ञानरहित; प्हपच्छइयसंसंके प्रभया प्रच्छादितचन्द्रेण.

तद्दु वणमाल देवि खलमद्दणु
सो एकहिं दिणि गउ णंदणवणु
णाणामंगलदव्वविहत्थउ
कहिं संचलिउ लोउ अइसायरु
रिसि परमेसरु इंदियबलबलि
कयमासोववासु खीणंगउ
पिंडणिमित्तं मणि संतुट्टउ
वणिणा दिण्णु दाणु संभत्तिइ
रयणंनुट्टि णिरु हूई तद्दु धरि

सिवकुमारु णामं पियणंदणु ।
आवतेण दिट्ठु णायरजणु ।
पुच्छिउ मंति तेण सुयसत्थउ । 5
ता सो तद्दु भासरु मइसायरु ।
सायरदत्तु णाम सुयकेवलि ।
दित्तितवेणं दित्तिभावं गउ ।
कामसमुद्दइ णयरि पइट्टउ ।
जायइ पंचच्छेरयवित्तिइ । 10
मुणिवरु उववणि थक्कु मणोहरि ।

घत्ता—इहुं गच्छइ पेच्छइ तासु पय फुल्लहत्थु णायरजणु ॥

तं णिसुणिवि पिसुणइ पुणु वि सिसु उवसमेण णिम्मलमणु ॥ ९ ॥

10

किह संजुत्तउ इच्छियसिद्धिहिं
तं आयणिवि घोसइ मइवरु
तेत्थु पुंडेरिणिणि णामं पुरि
देवि जसोहर गम्भभरालस
सीयाणइसायरवरसंगमि
सहुं सहीहिं पडिआगय गेहहु
चरमदेहु दइवें अवयारिउ
णवजोव्वणि णाडउं अवलोइउं
पेच्छु कुमार मेहु णं सुरगिरि
तं णिसुणिवि सो उग्गीवाणणु
ताम मेहु सहस त्ति पणट्टउ
जिह विहडिउ घणु तिह घरु परियणु
णिव्वेइउ संसारविरापं

सायरदत्तु भडारउ रिद्धिहिं ।
पुक्खलवइ णामं देसंतरु ।
वज्जदंतु चक्केसरु णरहरि ।
गय णियमणमग्गियकीलारस ।
कय जलकेलि ताइ दुहणिग्गमि । 5
णवमासहिं णीसरियउ देहहु ।
सायरदत्तु पुत्तु हक्कारिउ ।
तेण तासु भिच्चं मुहुं जोइउं ।
धवलत्तं णिज्जियससहरसिरि ।
जोयइ जाम पुरिसपंचाणणु । 10
भणइ तरुणु हउं मोहें मुट्टउ ।
जापसरु महु केरउं जोव्वणु ।
गउ णंदणवणु सहुं णियताएं ।

२ A सुपसत्थउ. ३ AP दित्तितवेण. ४ AP कामसमिद्धए. ५ AP सहुं भत्तिए. ६ AP रयणविट्ठि.
७ AP णिरु तद्दु. ८ A पद्दु.

10 १ AP पुंडेरिणिणि. २ AP °कीलावस.

9 5 b सुयसत्थउ आकर्णितशास्त्रः. 6 a अइसायरु अतीव आदरयुक्तः. 7 a °बलबलि
°बलभङ्गने बलिष्ठः. 9 b कामसमुद्दइ कामसमुद्रनाम्नि नगरे.

10 5 b दुहणिग्गमि दुःखनिर्गमे संगमे. 6 b देहहु गभीत्. 9 b °ससहरसिरि
चन्द्रशोभा. 10 a उग्गीवाणणु ऊर्ध्वग्रीवामुखः. 13 b णियताएं वज्रदन्तेन सह.

घसा—णिउ णिदिधि धंदिधि दुरियहरु तित्थुं अमियसायरजिणु ॥
णियविच्छिह् दिच्छिह् परियरिउ पुष्पदंतभारहतणु ॥ १० ॥

15

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप
महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे जंबूसामिदिक्खवण्णं
णाम पैरिच्छेयसयं समत्तं ॥ १०० ॥

३ A तेत्थु; P तत्थु. ४ A जंबूसामिदीक्षावर्णनं. ५ AP सयमो परिच्छेओ सम्मत्तो.

14 णि उ निजात्मानम्. 15 पुष्प दं त भा र ह त णु चन्द्रसूर्यदीसिप्रच्छादकशरीरः.

तद् गुणियड्ध धम्मु आयणिवि गुणवन्ते ॥
तउ लइयउ तेण संतिदयावहुकन्ते ॥ ध्रुवकं

1

जायउ मणपज्जयणाणवन्तु
पत्थायउ जइवरु जसविसाल
इय मन्तिवयणु णिसुणिवि कुमारु
वंदिवि आयणिवि परमधम्मु
तुह दंसणि जायउ मज्जु णेहु
किं कारणु पभणहि वीयराय
तं णिसुणिवि पभणइ रिसि पवित्तिं
सिरिबुहुगामि जयलच्छिटाणु
रेवइघरिणिहि भयदत्तु पुत्तु
तद् जेड्डे सुट्टियगुरुहि पासि
महि विहरिवि काले दिव्वधामु
गह्वेवइ दुम्भरिसणु गुणमहंत
णायसिरि धीय हेलियवरेण
भयदत्तु भडारउ बंधवेहिं
भवदेवेण वि भवणासणेण
तें भणिउ भाइ तवचरणु करहि

भासंतु धम्मु महियलि भमंतु ।
भो णियकुलकमलायरमराल ।
गउ मुणिहि पासि संसारसारु । 5
पुणु पुच्छिउ तेण विमुक्कछम्मु ।
पुलपण सव्वु कंटइउ देहु ।
सुरसिरमणिमउडणिहिद्वुपाय ।
इह जंबूदीवि इह भरहस्सेत्ति ।
णरवइ वि रट्टुकूडाहिहाणु । 10
भवदेउ अवरु तद् मुणिणित्तु ।
तउ लइयउ णिव धम्माहिलासि ।
आयउ पुणु सो णियजम्मगामु ।
तद् णामं पसिद्ध सुमित्त कंत ।
दिण्णी भवदेवद्दु आयरेण । 15
वंदिउ मुह्णिगयजरवेहिं ।
ओहुल्लियमणु तद् सासणेण ।
मा धणधणियासागुत्तु मरहि ।

घत्ता—तें भंणिउ मुणिंद आगच्छमि घरु गच्छिवि ॥

ध्रंउ लेवि णिरुत्तु णियगेहिणि आउच्छिवि ॥ १ ॥

20

1 १ AP पासु. २ A पिसुणइ. ३ AP जंबूदीवए भरह°. ४ AP णरधम्मु रट्ट°. ५ AP लइउ जणियधम्मा°. ६ AP तिब्ब°. ७ P गिहवइ. ८ A णाउं पसिद्धउं मेतकंत; P णाम पसिद्धु मित्तकंत. ९ AP हालिणिवरेण. १० A णिगयजरवेहिं. ११ A सोउल्लियमणु. १२ AP बुत्तु. १३ AP वउ लेमि.

1 1 तद् गुणियडि अमृतसागरस्य समीपे. 5 a कुमार वीतशोकेशपद्मवनमालासुतः शिवकुमारः. 8 b °णि हि द्ढ° निवृष्टौ. 11 a भयदत्तु भगदत्तः; b मुणि णि उत्तु मुनिकथितः. 12 a जेड्डे भगदत्तेन; b णिव हे श्रेणिक; धम्मा हिलासि धर्माभिलाषे सति. 13 a दिव्वधामु दिव्यतेजाः; b णियजम्मगामु वृद्धग्रामे. 15 a हालियवरेण दुर्भण्णेन. 17 b ओहुल्लियमणु सार्द्रमनाः. 18 b °धणिया° स्त्री. 20 णियगेहिणि दुर्मर्षणसुमित्रासुतां नागश्रियं मोकलयित्वा.

2

मुणि भणइ सभज्जापासलग्गु
 ता णियभायरउवरोहएण
 तेणेव होउ होउ सि भणिउं
 णियगुरुसामीवइ दिण्ण दिक्ख
 बारह संवच्छर दिव्वभिक्षु
 अण्णहिं दिणि मेळ्ळिवि सगुरुधामु
 आउच्छिय तहिं सुववय सुखंति
 सा कहिं ता ताइ मुणिवि चित्तु
 जाणिवि तं तहु कंदप्पमूलु
 ठिदिकरणक्खाणउ ताइ सिट्ठु
 तहु दासीणंदणु दारुयंकु
 तहु मायइ दिण्णउं सरसु भँत्तु
 तं वंतउं तें जणणीइ गह्णु
 पुणु छुहियहु तं तहु दिण्णु ताइ
 किह भुज्जिज्जइ तं वंतगासु

जणु मरइ सब्बु कामेण भग्गु ।
 अविसेज्जियकामिणिमोहएण ।
 भयंदत्ते सो^१ सच्चउं जि गणिउं ।
 विणु मणसुद्धिइ कहिं धम्मसिक्ख ।
 हिंइइ घरिणि पभरंतु मुक्खु ।
 एक्कु जि तं आयउ बुद्धगामु ।
 णायसिरि का वि जियचंदकंति ।
 पुच्छिउ तेण वि संबंधु बुत्तु ।
 णिउ गुणवइखंतिहि पायमूलु ।
 वणि सब्बसमिद्धु महाविंसिट्ठु । 10
 अइसइं भुक्खिउ णिव्वूढसंकु ।
 उच्चिट्ठुं सेट्ठिणितणउं भुत्तु ।
 ढंकेवि कंसवत्तम्मि णिहिउ ।
 तणपण पवुत्तउं होउ माइ ।
 कंटइउ मज्झु देहावयासु 15

घत्ता—इय दीसइ लोए रिसि संसारहु बीहइ ॥

जे मुक्का भोय ते किं को वि समीहइ ॥ २ ॥

3

अवरु वि णिसुणहि णरपालु राउ
 णेधाविउ तेण अयाणएण
 तें कुक्कुरेण णियरसणइट्ठु
 ओयरियउ सिवियइ जंतु जंतु
 वंडगें ताडिउ पत्थिवेण

तें पोसिउ कोडुं सारमेउ ।
 मणिकंचणसिवियाजाणएण ।
 अण्णहिं दिणि डिंभामेज्झु दिट्ठु ।
 सो सुणहु असुइ जीहइ लिहंतु ।
 मुणि पुज्जणिज्जु सब्बे जणेण । 5

2 १ A आसासिय कामिणि^०. २ A भयवंते. ३ AP तं. ४ AP दव्वभिक्षु. ५ AP सो हिंइइ घरिणि भरंतु. ६ A महावसिट्ठु. ७ A भोजु. ८ P छुहियहो तहो दिण्णम्मि ताए. ९ AP भुज्जिज्जइ वंतणगासु.

2 2 a^० उवरोहएण हठात्. 3 a तेणेव तेन भवदत्तेन एव एवं भणितम्. 4 a णियगुरु^० सुस्थितः. 5 b पभरंतु प्रस्मरन्; मुक्खु मूर्खः. 8 a ताइ आर्यया. 11 a दारुयंकु दारुनामा; b उव्वूढसंकु धृतसू (शू) कः. 13 a वंतउं छर्दितम्; b कंसवत्तम्मि कांस्यपात्रे. 14 a छुहियहु बुभुक्षितस्य, 15 a वंतगासु छर्दितानम्.

3 2 a अयाणएण अज्ञानिना. 3 a^० रसणइट्ठु जिहेष्टम्.

जइ मुक्ककामरइ करइ बप्प
 आयण्णहि सुंदर काहिं मि कालि
 दलकुसुमफलावलिरससलग्धि
 सो घोरें वग्घें खज्जमाणु
 तहिं णयणच्चरणपसरेण मुक्कु
 णिग्गमैणोवायविवाज्जियंगु
 किउ तासु सरीरु समिद्धकरणु
 संठविउ सव्वरमणीयमग्गि
 तिह रिसि वि परमजिणमग्गभट्टु
 णायसिरि वण्णलायण्णरहिय
 तं पेच्छवि मुणि संजमु धरेवि
 उप्पण्णउ कयकंदप्पदप्पि
 अच्छिय सत्तोवहि जीवमाण
 हउं जायउ सायरदत्तु तेत्थु
 ता दिक्खंकिउ सुंउ वीरराउ
 पुरवरि पइट्टु गुणगणविसालु

तो णिवणिज्जु सो णिवियप्प ।
 सुहुं पंथिउ जंतु वणंतरालि ।
 णिवडिउ उम्मग्गि महादुलंघि ।
 जरकूवइ पडिउ पधावमाणु ।
 फणिविच्छियकीडयसयविलुक्कु । 10
 कहिउ वेज्जे भेसहपसंगु ।
 होंतउ विणिवारिउ झ सि मरणु ।
 जिह पुणु वि पडइ णरु कूवदुग्गि ।
 भणु तमतमपहिं कौ णउ पइट्टु ।
 दक्खालिय गुरुदालिहमहिय । 15
 भाएं सहुं सुहक्षणें मरेवि ।
 बलहइविमाणि चउत्थकप्पि ।
 तेत्थाउ मुएप्पिणु दह वि प्राण ।
 तुहुं रायकुमार कुमारु एत्थु ।
 वारिउ पियरेहिं महाणुभाउ । 20
 सावज्जु भोज्जु इच्छइ ण बालु ।

घत्ता—ता पडहु णिवेण देवाविउ धणु देसमि ॥
 भुंजावइ पुत्तुं जो तहु दुक्खु हरेसमि ॥ ३ ॥

4

परिचत्तकारियणुमोयणेण
 भुंजाविउ सुंदरु उवाणिएण
 सो वट्टइ णिवियडिल्लएण
 दुब्बलु ह्यउ तिव्वें तवेण
 संभूयउ सो बंभिंदसग्गि
 चत्तारि वि तहु पवरच्छराउ
 जायउ भज्जाउ मणोहराउ

दधधम्मं पासुयभोयणेण ।
 णिच्चं पि जीवजीवियहिएण ।
 वारहवरिसइं णिस्सल्लएण ।
 मुउ संणासें सोसियभवेण ।
 सुरु विज्जंमालि मणिदित्तमग्गि ।
 जंबूणामहु रइकोच्छराउ ।
 देविउ उत्तुंगपयोहराउ ।

3 १ AP मुक्ककामरइ. २ A णिग्गय मणि वाय. ३ AP णउ को. ४ A सउवीयराउ;
 P सुउ वीयराउ. ५ P जो पुत्तु.

4 १ AP णीसल्लएण. २ P विज्जुमालि.

10 b °वि च्छिय ° वृश्चिकः; ° वि लुक्कु विलुप्तः छिन्नः.

4 1 a ° कारियणुमोयणेण °कृतकारितानुमतेन. 2 a उवाणिएण उपजनितेन दौकितेन.
 3 a णिवियडिल्लएण विकृतिवर्जितेन. 5 b मणिदित्तमग्गि रत्नदीप्तमार्गे.

जापसइ सो संपण्णणाणु
जिह सो तिह भुंजिवि सग्गंसोक्खु
इय भासिउ सयल्लु वि गोत्तमेण
अण्णहिं दिणि सम्मइसमवसरणि
गुणपुंगम बहुकलिमलहरेण
जेणेहउं दीसइ चारु गत्तु

भेत्थेवि असंजमु चरेमठाणु ।
जापसइ सायरदत्तु मोक्खु ।
मगहेसइ संते सत्तमेण । 10
पमणइ सेणिउ तेलोक्कसरणि ।
किं कयउं आसि पीईकरेण ।
ता सच्चउ भासइ मारसत्तु ।

घत्ता—इह देसि पसणिण सेणिय राय तुहारइ ॥

मणितोरणैदारु सुप्पइई पुरु सारइ ॥ ४ ॥

15

5

तहिं णिवसइ सिरिजयसेणु राउ
सुउ ताहं पइयउ णायदत्तु
गहियइं सब्बहिं सावयवयाइं
इप्पेण पमापण वे पमत्तु
काले जंते सुराहियदियंति
मुणि सायरसेणु पराइएहिं
पुच्छिउ स धम्मु तेणुत्तु एव
तित्थंकर चारण चक्खवट्ठि
जिणधम्मं मोक्खहु जंति जीव
आयणिवि एहउं लइउ धम्मु

वणि सायरक्खु पइयरिसहाउ ।
अण्णेक्खु वि बाल्लु कुबेरदत्तु ।
णवियाइं पंचदेवहं पयाइं ।
पर धम्मु ण गिण्हइ णायदत्तु ।
सइलि धरणीभूसणवणंति । 5
जयकारिउ जयसेणाइएहिं ।
जिणधम्मं होंति महाहि देव ।
पडिवासुदेव खलमइयवट्ठि ।
मिच्छत्ते णरइ पडंति पाव ।
मणुएहिं चत्तु हिंसाइक्कम्मु । 10

घत्ता—मुणिवरु वंदेवि मिच्छामलपरिवत्ते ॥

णियआउपमाणु पुच्छिउ सायरदत्ते ॥ ५ ॥

6

तेणक्खिउं जीविउं मासमेत्तु
आयणिवि तं पइसरिवि णयरि

तुह दीसइ भो वणिवंइ णिरुत्तु ।
मैणु फेडिवि धयसंणिहियमयरि ।

३ A परमठाणु. ४ P सग्गु सोक्खु. ५ AP °दारे. ६ AP सुपइइपुरे.

5 १ AP वि. २ AP सुधम्म.

6 १ A वणिवर. २ P तहिं. ३ AP मछ. ४ P धयसंणिहियसिहरि.

8 b चरमठाणु मोक्षः.

5 1 b सायरक्खु सागरदत्तः; पइयरि ° प्रभाकरी भ्रेष्ठिनी. 7 a पुच्छिउ स धम्मु स मुनिः
धम्मं पृष्टः. 8 b खलमइयवट्ठि क्षेत्रमृत्तिकामर्दनकाष्ठसदृशः.

6 2 b धयसंणिहियमयरि कन्दर्पे.

अहिसिन्धुं कलिमलवज्जियाहं
 संताणि णिहिउ सुउ णायदत्तु
 सुउ वीसदिवससंणासणेण
 भायं पुच्छियउ कुबेरदत्तु
 संदरिसिउं णेहपरव्वसेण
 तुहुं पढमलोहभावेण गत्थुं
 धणु दाणे देहु वि णिरसणेण
 तहु तुहुं किं दूसणु करहि भाय
 अण्णहिं विणि सरस सुमिद्ध तिक्ख
 दढभत्तिह लहुपं भायरेण
 पुणु पुच्छिउ जइवइ मज्झु पुत्तु

जिण्णिबिबहं वणिणा पुज्जियाहं ।
 अप्पुणु आहार सरीर वत्तु ।
 हुउ सुरवर भूसिउ भूसणेण । 5
 भणु पिउणा किं तुह सारवित्तु ।
 ता तेण वुत्तु णित्तामसेण ।
 किं णिदहि जणणु जए कयत्थु ।
 णिट्ठविउ जेण जिणगयमणेण ।
 जसु वंदणिज्ज जगि जाय पाय । 10
 सायरसेणहु ते विण्ण भिक्ख ।
 धणमिच्छइ सहुं मउलिकरेण ।
 किं होइ ण होइ गुणोहजुत्तु ।

घत्ता—जइ डिंभु ण होइ तो सरीर तवतावें ॥

आसोसमि देव ता गुरु कहइ अगावें ॥ ६ ॥

7

लक्खणलक्खिउ जयलच्छिगेहु
 तं णिसुणिवि मायापियरयाहं
 ता बिहिं मि तेहिं बहुपुण्णवंतु
 किं वणिज्जइ पीइकंरक्खु
 संपुण्णहिं पंचहिं वच्छेरेहिं
 अण्णिउ पयपुज्जहु मुणिवरासु
 इहु होसइ सुंवर तुज्झु सीसु
 धण्णउरि परिट्ठिउ सयलु सत्थु
 आसण्णु भव्णु सो महइ दिक्ख
 गुरु भासइ वयहु ण पहु कालु

तवं होसइ तणुरुहु चरमवेहु ।
 संतुट्ठइं णियमंदिह गयाहं ।
 णवमासहिं सुउ संजणिउ कंतु ।
 विह्वेण इंदु रुवेण जक्खु ।
 जणणीजणणेहिं सुहिच्छिरेहिं । 5
 उवइट्टउ चिरु आपसु तासु ।
 कम्मक्खयगारउ जयविहीसु ।
 उवइट्टउ तहु मुणिणा महत्थु ।
 मेल्लिवि घर चरंमि मुणिद भिक्ख ।
 अज्ज वि तुहुं कोमलवेहु बालु । 10

घत्ता—तं वयणु सुणेवि गुरु वंदिवि गउ तेत्तहिं ॥

णियपियरहं वे वि णाणासयणहं जेत्तहिं ॥ ७ ॥

५ P णायं. ६ A वत्थु. ७ AP किं दूसणु तुहुं.

7 १ A तुह; P तउ. २ A पिईकरक्खु. ३ AP चरेमि. ४ A ०सिक्ख.

8 a पढम^० अनन्तानुबन्धी. 12 a लहुपं कुबेरदत्तेन; b धणमिच्छइ धनमित्रया भार्यया सह.

7 5 b सुहिच्छिरेहिं शुभवाञ्छकाम्याम्. 8 a धण्णउरि घन्यपुरे; सत्थु शाकम्.

10 a वयहु व्रतस्य. 12 वे वि कुबेरदत्तो धनमित्रा च द्वौ.

8

णिसुगंतहं लोयहं कहइ अत्थु
संमाणुउ रायं गुणणिहाणु
णउ परिणइ कण्णारयणु जाम
आउच्छिवि गउ बोहित्थएण ।
सहुं णायरेहिं रंजियजेपहिं
गुरुलिहियं पत्तु णियकणिण करिवि
भूतिलउ णामु बहुघरविसिद्धु
तूरहिं वज्जंतहिं पय णवंतु
आसंकिय वणिवर काइं पत्थु
पीडंकरु पभणइ हउं समत्थु
ता दिट्ठुं जिणहरु गिरि व तुंगु
तहिं णिगउ पेच्छइ जुञ्जरंगु
अवरेक्क कण्ण रोवंति जंति

घत्ता -भवणंगणु गंपि णवचामीयरवण्णइ ॥

आसणु कण्णाप दिण्णउं तासु पसण्णइ ॥ ८ ॥

सो चट्टेसधरु विसइ सत्थु ।
घणु अज्जवि सुंदरु मण्णमाणु ।
अण्णहिं वासरि सुहिपुरिस ताम ।

पहसंतहिं जलकीलारपहिं । 5
करिमयरउहु समुहु तरिवि ।
गिरिवरवेदिउं पट्टणु पइहु ।
जणु सउंहुं पराइउ जय भणंतु ।
उत्तरु दिज्जेसइ को महत्थु ।
मा कैरइ किं पि संदेहु पत्थु । 10
वंदिउ जिणु तवसिद्धिहुयणिरंगु ।
भडरंडखंडं चुररुहिररंगु ।
तहि पच्छइ गउ सो चंदकंति ।

15

9

तें पुच्छिय सुंदरि कहहि गुञ्जु
भणुं भणु मा भी भीवसंगि
कण्णाइ पबोछिउं सुणि कुमार
खगरायहु अलयार्सरासु
हरिबल्लु महसेणु वि मुक्कसंकु
तहु पणइणीहि आबद्धपणउ
तहु सिरिमइसइहि हिरण्णवम्मु

किं णट्टउ पुरवरु तेण तुञ्जु ।
णियणयणपरज्जियवणकुंरंगि ।
लीलावलोय पच्चक्खमार ।
णियतेयपरज्जियणेसरासु ।
भूतिलउ पुत्तु णियकुलससंकु ।
धारणियहि जायउ भीमु तणउ ।
सुउ संभूयउ सोहगरम्मु ।

8 १ AP add after this : उभिभयसीहजडपसत्थएण. २ AP रंजियपरेहिं. ३ P करहो.
४ A °खंडभुय°.

9 १ AP केण जुञ्जु. २ AP किं भणु भणु. ३ A मा भीही वरंगि; P मा बीहहि वरंगि.

8 1 b विसइ उपदेशं दत्ते. 2 a रायं जयसेनेन; b अज्जवि उपाजंयामि. 4 a बोहित्थएण
नावा. 5 a रंजिय जए हिं रज्जितजगद्धिः. 8 b सउंहुं संमुखम्. 11 b °हुयणिरंगु हुतकामः.

9 2 a भीवसंगि भीवशानि अज्जानि यस्याः. 6 a तहु हरिबल्लय.

दुत्थियसज्जणु कइकामघेणु
वरसेणु अवरु हउं सुय ण भंति
वितरदेवय णिज्जिणिवि पवरु
महु भायहु दिण्णी भीमकाय
अलयाउरिरापं हरिबलेण
विउलमइणामचारणहु पासि

घत्ता—भीमु वि रज्जु करंतु विज्जाकारणि कुद्धउ ॥

रणि हिरण्णवम्मस्स लग्गउ सिहि व समिद्धउ ॥ ९ ॥

15

10

णासिवि हिरण्णवम्मउ असंकु
णियणयरि परिट्टिउ भीमराउ
तं णिसुणिवि तांणिहणेक्कणिट्टु
महसेणहु पेसिउ तेण पत्तु
तं णिसुणिवि महुं ताएण समरि
सो भीमु धरिवि संखलहिं बद्धु
पुणु मित्तु करेवि हिरण्णवम्मु
णउ खमइ तो वि आबद्धरोसु
संसाहिय रक्खसविज्ज तेण
विद्धंसिउ पुरु महु जणणु बद्धु
तं णिसुणिवि सिरिपीईकरेण
तं जासु हत्थि सो जिणइ जुज्जु
थिउ गोउरि सुंदरु छण्णदेहु
णियविज्ज भीम आइद्ध तासु

घत्ता—विज्जाइ पवुत्तु चरमदेहु किह मारमि ॥

भणु भणु णरणाह अवरु को वि संघारमि ॥ १० ॥

15

४ K सहसेणहु. ५ AP एउं. ६ A महु तायहो; P लहुभायहो. ७ P विजाकरणे.

10 १ AP हिरण्णवम्मु वि असकु. २ AP हणणेक्कणिट्टु.

8 b सुंदरि महसेणहं महासेनसुन्दर्योः उपसेनवरसेनौ पुत्रौ अहं वसुंधरी पुत्री च. 10 b महु ताएं महाबलेन.

10 2 b वइरि हिरण्यवर्मा; स पि उव्वहु महासेनस्य. 3 a तं णि हणेक्कणिट्टु हिरण्यवर्माणं हन्तुमिच्छुर्भीमः. 10 b जो यहुं मइं मां विलोकितुम्. 11 b सयणत्थु शय्यास्थम्. 13 a छण्णदेहु प्रच्छन्नशरीरः.

11

ता मुक्क विज्ज गय कर्हि मि जाम
रे रे कुमार हणु हणु भणंतु
तं वंचिवि सुहदं दिण्णु घाउ
कण्णइ पोमाइउ गयविलेव
पई होंतें हउं हई सलग्घ
इय भणिवि ताइ भ्हासणत्थु
परिहाविउ दिव्वइ अंबराइं
पुच्छंतहु तरुणहु हारिणीहिं

घत्ता—सहुं रज्जेण कुमोरे पणयंगई गिरु पोसइ ॥

अम्हारी पहु धूय तुम्हदं पणइणि होसइ ॥ ११

अप्पणु दुक्कउ सो भीमु ताम
असि भामिउ भीसणु धगधगंतु ।
घाएण जि णिवाडिउ खयरराउ ।
तुहुं साहसरयणणिहाणु देव ।
णिण्णाह वि लइ वट्टमि महग्घ ।
अहिंसिचिउ सिरिकलसहिं पसत्थु
मणिक्कणयमउडकुंडलवैराइं ।
वरच्चामरघारिणीहिं ।

10

12

ता भणइ कुमोरे सुवण्णवण्ण
इयरह कह परिणिज्जइ अजुत्तु
ते सहसा णिग्गय पुरवराउ
अवियाणियदूसहपिसुणचारु
वीसरियउ कण्णाहरणु लेवि
गउ णायदत्तु धणुं वहु हरेवि
मोणुव्वउ लइयउ सुंदरीइ
किं जंपमि विणु पीईकरेण
सा मूई तें मण्णिय जडेण
संणिहियदव्वरक्खणणिओह
विम्भुल्लउ अम्हदं कमलचक्खु
एत्तहि पेच्छिवि सायरहु तीरु
जिणभवणु णिहालिउं थुउ जिणित्तु

ताएण दिण्ण जगि होइ कण्ण ।
ता संकमियउ तर्हि णायदत्तु ।
णं बंधुर सिंधुर सरवराउ ।
पुणु पुरपहि पल्लट्टउ कुमारु ।
जामावइ ता वंचणु करेवि ।
णउ जाणहुं होसइ किं मरेवि ।
इय चित्तिउं बहुगुणजलसरीइ ।
मणभवणणिवासें मणैहरेण ।
ओहारियपरकंचणघडेण ।
पत्तउ पुरु पुच्छिउ कहइ लोइ । 10
णवि जाणहुं कर्हि पीईकरक्खु ।
गउ पुणु भूतिलयहु मेरुधीरु ।
मज्झत्थु समुक्खयदुक्खकंदु ।

11 १ AP अप्पणु. २ A वंचिउ. ३ AP मणिकड्य°. ४ A कुंडलधराइं. ५ AP कुमार.

12 १ AP कुमार. २ P इयरह परिणिज्जइ गिरुत्तु. ३ AP सरवराउ. ४ A बहुघणु.
५ A मोणुव्वउ; P मोणुव्वउ. ६ A बहुगुणजलसरीए; P बहुगुणजलसरीए. ७ AP णववरेण.
८ AP परवंचणघडेण. ९ A किं पीईकरक्खु; P किं पीईकरक्खु.

11 4 a पो मा इउ प्रशंसितः; ग य वि ले व निःपापः. 9 प ण यं ग ई स्नेहाङ्गानि.

12 2 b णायदत्तु प्रोतिकरपितृव्यः. 3 b सिंधुर गजाः. 4 a °चारु अमिप्रायः. 6 a वहु
वधुम्. 9 a मूई मौनवती; b ओ हारि य° अपहृतः. 11 a विम्भुल्लउ भ्रान्तः.

पुण सुत्तउ सुंदर सालसंगु
सपत्तु जक्खजुवलउं सुवंतु
तं धाएवि सुंभरिवि पुव्वजम्मु

घत्ता—गुरुयणआएसु अम्हं करहुं गिरुत्तउ ॥

भो माणुसु एउं गरुयउं गुणसंजुत्तउं ॥ १२ ॥

आणंदु महाणंदु वि सुसंगु ।
तद्दु तेहिं" णिहालिउ कण्णवत्तु । 15
देवेहिं वियाणिउं सुकिउ कम्म ।

13

पाविज्जइ इच्छिउ णयरु तेंव
वाणारसिपुरवरि सच्चविट्ठि
अम्हं बेणिण वि जण पुत्त ताहं
परदव्वहरणरय पावबुद्धि
णिव्वेपं छड्ढिविं सव्वसंगु
सिद्धिगिरिवरि सीलपसत्थपण
आसण्णु वि सिग्गुं पराएएहिं
तें वयणें अम्हं जणिउ चोच्चु
जगपुज्जे भयवंतें अवच्चु
गउ गुरुं पुरु भिक्खहिं कहिं मि जाम
सुरजायारुवें जित्तमयणु
इय जाणिवि विरपप्पिणु विमाणु
वहुदव्वें सहुं कुलणहमयंकु
सुपइट्ठणयरिणियडइ सुठाणु
तहिं णिहिउ तेहिं जक्खामरेहिं
णरणाहें सयणहिं सायरेहिं
आणिउ पुरु परसारेउ णिवासि

घत्ता—दोएवि कुमारु सयणहुं सूरपयासें ॥

गय बेणिण वि जक्ख सहसा विमलायासें ॥ १३ ॥

अम्हं त्सइ परमेट्ठि जेंव ।
जिणयत्त घरिणि धणयत्तु सेट्ठि ।
संसिंक्खिय सत्थइं तेक्खराहं ।
णउ सक्किउ गुरु विरयहुं णिसिद्धि ।
अम्हारउ पिउ तवचरणि लग्गु । 5
सायरसेणहु सामत्थपण ।
जणु खज्जइ णउ वग्घाएएहिं ।
गय वंदिउ रिसि किउं धम्मकच्चु ।
छंडाविउ तें महु मासु मच्चु ।
सहूलें विणिहय बे वि ताम । 10
लइ एव्वहिं कीरइ ताहं वयणु ।
आरोहिउ सो तहिं सुहडभाणु ।
अकलंकु अवंकु विमुक्कसंकु ।
गिरि घरणीभूसणु विउलसाणु ।
अहिमुहुं जाइवि णायरणरेहिं । 15
ताडियतूरहिं मंगलसरेहिं ।
हिमकुंदचंदगोखीरभासि ।

१० AP सुवत्तु. ११ A तेण. १२ A कणे वत्तु; P कणपत्तु. १३ AP अम्हं.

13 १ P तक्कराहं. २ AP छंडेवि. ३ AP सुद्ध. ४ AP कय धम्म°. ५ A पुरवरु;
P पुरु गुरु. ६ AP णियकुलमयंकु.

14 आ णं दु महा णं दु आनन्दमहानन्दनामानौ.

13 4 b गुरु पिता; विरयहुं यतीनाम्; णि सि द्धि निषेधः. 10 a पुरु सुप्रतिष्ठपुरम्.

पीङ्करु जयमंगलरवेण
 पइसारिउ पुरवरु राणपण
 णवरण्णाहिं दियहि कुमारमाय
 णियसुण्हहि भूसणु देहुं चलिय
 णियभूसौसंदोहउ जणासु
 महुं भूसणाइं इय वज्जेरेवि
 विउसेहिं पल्लेक्खिय णउ पिसाइ
 सुहलक्खणलक्खियदिग्गवेह
 को लंगइ विहिबद्धउ सणेहु
 ताइ वि तहु पेसिउ गूढलेहु
 णिर्यं णरवइभवणहु सा कुमारि
 वइयरु आउच्छिउ धम्मजुत्तु
 तें णियपरियाणिउ सिद्धुं सव्वु
 पुच्छिज्जइ देवय किं परेण
 परियाणइ एह ण का वि भंति
 पुच्छिय जवणीइ तिरोहियंगि
 तहु णायदत्तदुब्बिलसियाइं
 कयदोसहु पाविट्टहु अणिट्टु
 किर हरइ दव्वु दंडइ अणेउ
 तं पेच्छिवि तहु सुयणत्तसारु

गंभीरभेरिसहुच्छलेण ।
 पुज्जिउ रयणहिं बहुजाणपण ।
 रहवरि आरूढी दिण्णछाय ।
 पियंमित्त पंथि मूईइ च्चलिय ।
 दावइ सण्णइ विंभियमणासु ।
 थिय सुंदरि पहि रहधुर धरेवि
 अंगुलियइं दावइ सेंच्चमूइ ।
 आहरणु महारउं भणइ एह ।
 अप्पाहिय कुमरें रायगेहु ।
 जं णायदत्तविलसिउ दुमेहु । 10
 कोक्किय सुवियक्खण णायकारि ।
 महिणाहें सो धणमित्तपुत्तु ।
 पुणु भणिउ वयणु परिगंलियगव्वु ।
 वंदिवि पुज्जिवि भत्तीभरेण ।
 ता रापं पुज्जिवि सा सुयंति । 15
 को पावइ देविहि तणिय भंगि ।
 कहियाइं महायणणिरसियाइं ।
 तं णिसुणिवि णरवइ तासु रुट्टु ।
 ता वारिउ कुंअरें तरणितेउ ।
 महिवइणा जाणिवि णिव्वियारु । 20

घत्ता—तहु णियसुय दिण्ण पिहिवीसुंदरि णामें ॥

परिणिय पसयच्छि णं मिलंति रइ कामें ॥ १४ ॥

- 14 १ P पीयंकरु. २ AP धणमित्त. ३ A °भूसण°. ४ A उवलक्खिय; P लक्खिय.
 ५ AP सव्वु मूइ. ६ AP गय. ७ AP णायधारि. ८ A सिद्धु; P सुहु. ९ AP परिगलिउ गव्वु.
 १० AP जवणीयणिरोहियंगि.

14 4 a देहुं दातुम्; b मूईइ भौनयुक्ता कन्यया. 5 b सण्णइ संज्ञया. 10 a ता इ तथा
 कन्यया; तहु प्रीतिकरस्य; b दुमेहु दुष्टमतिः. 11 a णिय नीता. 12 b धणमित्तपुत्तु धनमित्रापुत्रः
 प्रीतिकरः. 15 b सुयंति सुकान्तिः. 16 a जवणीइ काण्डपटेन. 16 b भंगि तुल्यता. 17 b महा-
 यणणिरसियाइं साधुदूषितानि. 19 a अणेउ अन्यायम्. 22 पसयच्छि प्रसूताक्षी, विशालाक्षी.

15

बहुरइसुहसासवसुंधराइ
 अण्णु वि दिण्णउ सुललियभुयाउ
 अवरु वि तहु दिण्णउं अद्धरञ्जु
 अण्णहिं दिणि सागरसेणसूरि
 अण्णहिं दिणि चारणभुयणचंद
 मणहरवणि आया वणिवरेण
 परिपुच्छिय धम्मु विसुद्धभाव
 धरि धम्मु होइ प्यारहंगु
 किं वण्णमि विद्धंसियअणंगु
 खममह्वाइगुणगणणिहाणु
 भणु भणु भयवंत भवंतराइं
 ता भासइ रिउमइ मुणि विरोइ
 वंदिउ पुज्जिउ रापं जणेण
 इहु को वि मुयउ घल्लिउ णरेहिं
 वंफामि अज्जु ता गयइ लोइ
 दुक्कउ गोमाउ तुरंतु जामे
 चिरदुक्किण जायउ सियालु
 मुइ मुइ एवाहिं पाविट्ट पावु
 तं णिसुणिवि जंबुउ उवसमेण
 इसिणाहें चित्तिउं भव्णु पहु
 इय चित्तिवि भासिउ तेण तासु

घत्ता—लइ लइ वउ मइं दिण्णु

रत्तिहि किं पि म खाइ जइ वि सुट्टु भुक्खालुउ ॥ १५ ॥

कण्णाइ समेउ वसुंधराइ ।
 बावीस तासु वणिवरसुयाउ ।
 पुण्णेण कासु सिज्झइ ण कज्जु ।
 मुउ संणासेण अणंगवेरि ।
 रिउ विउलमइ त्ति महामुणिंइ । 5
 जाइवि वंदिवि मउलियकरेण ।
 रिज्जुमइ भासइ भो गलियगाव ।
 दंसणवयसामाइयपसंगु ।
 जइधम्मु वि वज्जियसव्वसंगु ।
 ता पभणइ वणिवइ भावभाणु । 10
 महुं चरियइं पेरितोसियणराइं ।
 गुरु सायरसेणु तवंतु जोइ ।
 पहुपडहसंखकयणीसणेण ।
 पुरवरबाहिरि भेरीसरेहिं ।
 णिहें णिच्चलु मुणि वि समंतजोइ । 15
 मुणिणा मुयैजोएं वुत्तु ताम् ।
 तुहुं अज्जु वि दुण्णयभावणालु ।
 मा पावें पावहि तिक्खतावु ।
 थिउ परियाणियणाणकमेण ।
 सिज्झेसइ होसइ लहु अदेहु । 20
 तुहुं मुइवि ण सक्कहि किं पि मासु ।
 धम्मसद्धालुउ ॥

15 १ A धरधम्मु. २ AP परिओसिय°. ३ A फंफाविय अज्जु. ४ AP थिउ णिच्चलु मुणि सम्मत्तजोइ. ५ A ताम; A adds after this: सुय मणुयचरणि आलगु जाम. ६ A गयजोएं. ७ A adds after this: मा णासहि जम्मु पलासणेण.

15 1 a °सा स° धान्यम्; 'वसुंधराइ भूमिसमया. 5 b रिउ वि उलमइ त्ति ऋजुमति-
 विं पुलम ति श्र. 10 b भाव भाणु पदार्थप्रकाशकः. 12 a विरोइ रागरहितः. 13 a वंफामि
 ईषदास्वादयामि; b समंत जोइ समन्तादवलोक्री शृगालः. 20 b अदेहु अशरीरः सिद्धः.

16

तं णिसुणिवि कय मासहु णिविच्छि
 वंदिउ गुरु दिण्णपयाहिणेण
 णिउ कालु तेण तिब्बे तवेण
 एक्कहिं दिणि सुक्खाहारु भुत्तु
 अत्थवणकालि कूयंतैरालु
 ता पेच्छइ णउ रविकिरणभारु
 णिग्गउ पुणु पेच्छिंवि सूरदिच्छि
 कूयइ पइसइ णीसरइ जाम
 अत्थमिउ भाणु संजाय कालि
 मुउ तण्हइ सुद्धइ भावणाइ
 एवं कुबेरंदैत्तइ सुचक्खु
 तं णिसुणिवि रइणिव्विण्णवेइ
 णियसिरि णियणयणाणंदणासु
 मग्गहेसरपुरुवरु एउं आउ
 संजमभरउड्डियकंधरेण

पडिषण्ण तेण तव रणाधिच्छि ।
 संखीणु वणासइभोयणेण ।
 परिणामे सुद्धे णवणवेण ।
 तहु तण्हइ सोसिउ सब्बु गत्तु ।
 किर पइसइ जा तिसियउ सियालु । 5
 अवलोइउ तेण घणंधयारु ।
 कूवइ पइट्टु पुणु णियइ रत्ति ।
 दो तिण्णि पंच वाराउ ताम ।
 णिज्जियतमालि पसरियतमालि ।
 संचियसुद्धाइ खंचियमणाइ । 10
 धणमित्तिहि सुउ पीङ्करक्खु ।
 वयहल्लु मण्णिवि आयउ सग्गेहु ।
 संदिण्ण वसुंधरणंदणासु ।
 सहुं बंधुहुं वंदिउ वीयराउ ।
 वउ लइयउं सिरिपीङ्करेण । 15

घत्ता—भरहु व चरमंगु वयहलेण अइसोहिउ ।
 जंबुउ संजाउ पुष्पदंततेयाहिउ ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिय
 महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे पीङ्करकलाणं णाम
 संयमेकोत्तरं परिच्छेयाणं समत्तं ॥ १०१ ॥

16 १ AP सुक्काहारु. २ AP अत्थवणयालि. ३ AP कूवंतरालु. ४ AP पेक्खिवि.
 ५ AP रत्ति. ६ A पसरियउ महारयतिमिरथत्ति; P पसरिय तमालणिह तिमिरथत्ति. ७ A कुबेरदेवहो.
 ८ A जंबूउ; P जंबू. ९ AP एकोत्तरसइमो परिच्छेओ समत्तो.

16 2 b वणा सइ° वनस्पतिः. 5 a कूयंत रा लु कूपमध्चे. 6 b घणंधयारु निविडान्धकारः.
 7 b णियइ पइयति. 9 a कालि रात्रिः; b ° तमालि तमःपंक्तिः.

बहुजाणउ राणउ पुणु भणइ सोणउ गोत्तम अम्हं ॥
अवसप्पिणि वयंणइ सप्पिणि व दरिसणि भावैइ तुम्हं ॥ भुवकं ।

ओसप्पिणि पैवहि भणु मुणिवर	गणियं भणइ हो णिसुणि महाणर ।
भो वसारकेसरि तुट्ठच्छर	जइयहुं थंति तिण्णि संवच्छर ।
तइयहुं आसोयंतइ ससिमुहु	सिद्धु होइ सिद्धत्थंहु तणुरुहु । 5
एकवीससहसइं सम्मत्तइं	दुस्समु कालु पहोसइ दुम्मइ ।
तहिं होहिंति णरिंद सतामस	सयवरिसाउस सयल वि माणुस ।
संसरयणितणु छायावज्जिय	पेम्मपरव्वस इंवियणिज्जिय ।
ताहं भुक्ख रसु लोहिउं सोसइ	तित्तिं ^० तिकालाहारै होसइ ।
पावकम्म बहुदोसभयंकर	दीसिहिंति चउवण्ण ससंकर । 10
सुंद्ध ण राय ण वणिय ण वियवर	खल होहिंति सयल णिग्घिणयर ।
वरिससहसमाणइ गइ दुस्समि	पाडालिउत्तणयरि णरसंगमि ।

All Mss. give, at the beginning of this Samdhi, the following stanza :

वलिमङ्गि कम्पिततनु भरतयशः सकलपाण्डुरितकेशम् ।
अत्यन्तवृद्धमथ च भ्रमति महीं हन्त तच्चित्रम् ॥ १ ॥

A reads वलिमङ्ग^०; P reads the second line: अत्यन्तवृद्धिगतमपि भुवनं बभ्रमति तच्चित्रम्. K has a gloss: व लि भं गि पक्षे बलवत्तररचनम्; क म्पिततनु पक्षे रोमाञ्जजनकम्; ^०केशं पक्षे कस्य जलस्य ईशः समुद्रः, अथवा आत्मा स चासावीशः, निर्मलितात्मस्वरूपमित्यर्थः. For the praśasti stanzas see Introduction to Vol I, pp. xvi-xxviii. This stanza also occurs at the beginning of XVII for which see Vol I, p. 283.

1 १ A णयणहे. २ AP दीसइ. ३ A भणु एवहिं. ४ A गणि पभणइ. ५ A तुट्ठच्छर. ६ AP सिद्धत्थयतणुरुहु. ७ AP ^०सहसइं जिणु भासइ. ८ AP वरिसहो दुस्समु कालु पहोसइ. ९ A धम्महीण सुहस्राणविवज्जिय. १० AP तित्ति वि क्वलाहारै. ११ AP पावयम्म. १२ A सुहु.

1 1-2 अम्हं इत्यादि उक्तप्रकारा अवसर्पिणी वयणहु दरिसणि तुम्हं युष्माकं वचनस्य दर्शने श्रवणेऽस्माकं सर्पिणीव प्रतिभासते आयुराद्यपकर्षहेतुत्वात्. 3 a ओसप्पिणि उत्सर्पिणी. 4 a दसारकेसरि दशाहं कुलकेसरिन्; तुट्ठच्छर अप्सरोमनोरञ्जन; b जइयहुं इत्यादि यदा चतुर्थकालस्य त्रयः संवत्सराः सार्वाष्टमासास्तिष्ठन्ति. 5 a आसोयंतइ दक्षिणापथापेक्षया, कार्तिककृष्णचतुर्दश्यां दीपालिकाचतुर्दश्याम्; b सिद्धु होइ मोक्षं याति वीरः. 6 a सम्मत्तइं समाप्तानि भविष्यन्ति. 8 a सत्तरयणि. तणु समस्तप्रमाणशरीराः; छायावज्जिय विशिष्टकान्त्या विशिष्टमाहारभ्येन च वर्जिता रहिताः. 9 b तिकालाहारै त्रीन् वारान् भोजनेन. 11 a राय राजानः; b णिग्घिणयर निर्घृणतराः.

सिसुपाले पुहईमहपविहि

होसइ पुँसु खुहु सियसेविहि ।

घत्ता—अइदुम्मुहु चउमुहु णाम सुउ सयल पुहइ भुंजेसइ ॥

सामरिसहं वरिसइ पीणैभुउ सो सत्तरि जीवेसइ ॥ १ ॥

15

सो चालीस वरिस रज्जेसरु
 वसि णेसइ सयलइं पासंडइं
 दरिसियमोक्खमहापुरपंथइं
 वसि ण होंति किं मज्झु वियंबर
 केरभोयण गिरिकंदरमंदिर
 एयहं पाणिपत्तदिण्णोयणु
 तं णिसुणेवि सारिच्छ जमवेसें
 ते हरिहिति गासु भयवंतहं
 तं पेच्छिवि अधम्मु णिच्छयगुणि
 जाइवि गाँवपावसंघायहु
 देव दुइ णिग्गंथ तुहाणइ
 तं णिसुणिवि दंडहुं जैणरवइ
 मुक्कधम्मु खगें दारेव्वउ
 समयपहावण गुण सुंअरेंते
 पढमणरयगुरुविवरि पडेसइ
 खद्धउ पावें सो किं किज्जइ
 तहु पुत्ते अजियंजयणामें
 जिणसम्मत्तु तच्चु पडिवण्णउं
 रक्खिउ देवें लक्खिउ भल्लउ

तीस वरिस कुमरसें सुंदर ।
 मासगासमहरारससौंडइं ।
 पडिकूलउ होसइ णिग्गंथइं ।
 मंति भणंति देव कयसंवर ।
 पभणइ णइं णवंतु महुं मुणिवर । 5
 हिप्पइ परंघरलद्धउं भोयणु ।
 भडै जाहिति सरायापसें ।
 णिब्भयाहं परघरि भुंजंतहं ।
 भुंजिहिति णउ भोज्जु महासुणि ।
 किंकरेहिं अक्खिउ णियरायहु । 10
 णउ जीवति सगुरुसंताणइ ।
 तिक्खदंडु जाएसइ णरवइ ।
 सो केण वि असुरें मारेव्वउ ।
 जिणसासणभत्ते असहंतें ।
 पक्कु समुहोवमु जीवेसइ । 15
 किह जिणसासणु णउ पणविज्जइ
 वडियसुद्धबुद्धिपरिणामें ।
 अभयदाणु बहुजीवहुं दिण्णउं ।
 थिउ माहि भुंजमाणु णीसल्लउ ।

घत्ता—पुणु होसइ घोसइ गर्णपवरु मइ चउमुहि कयहरिसहं ॥ 20

जलमंथणु दुज्जणु अवरु पहु वीसहं सहसहं वरिसहं ॥ २ ॥

१३ AP खुहु पुत्तु. १४ AP दुइमइ.

२ १ A कयभोयण. २ AP परघरे दिण्णउं. ३ AP जड. ४ AP पावगाव°. ५ AP जइ-वरवइ. ६ A गुणपवरु.

15 सामरिसहं अक्षमादियुक्तानाम् .

२ 2 b °मइरा° मयम्; °सोंडइं मत्ताः. 5 b णइं णवंतु मा मां नमन्तु. 7 b सराया-
 पसें स्वराजादेशेन. 10 a गाव° गर्वः. 11 a तुहाणइ तवाज्ञया; b सगुरुसंताणइ गुरुर्महान्
 समीचीनः तानो रक्षणं, सह तेन वर्तमानया तवाज्ञया, अथवा स्वगुरुणां संतानः परंपरा तस्य रक्षणम्.
 12 a जइणरवइ जैनान् रान्ति य्क्कन्ति जैनरास्तेषां पतिः. 20 मुइ मृते सति. 21 जलमंथणु
 अन्तिमकल्की.

पच्छिमसूरि णाम धीरंगउ
संजइ सव्वसिरि त्ति मुणेज्जसु
फग्गुसेण सावइ अइसुव्वय
दुस्समंति होहिंति णिरुत्तउ
जइयहुं थक्कइ पंचमकालउ
अण्णु वि तहिं पण्णारइ वासर
कत्तियमासपढमपक्खंतइ
संणासणेण मुएवि कलेवरु
वत्तारि वि जणाइं धम्मिट्ठं
मज्झण्हइ पत्थिउ णासेसइ
चाउवण्णु कुलधम्मु गलेसइ

घत्ता—पासांडि तिदंडि ण तवसि तहिं णउ तहिं कत्तियसासणु ॥
अवरण्हइ उण्हइ मंदिरहु णासइ श्च त्ति इयासणु ॥ ३ ॥

होसइ तवसिहि हुंणिवि अणंगउ ।
अग्गिल्लु सावउ हियइ धरेज्जसु ।
कोसलणयरिणिवासि णिरावय ।
एवं सम्मइणाहें वुत्तउ ।
वउयालीसमाससंख्खालउ । 5
तइयहुं भो^१ सेणिय माणियघर ।
साइरिक्खि दिणयरि उव्वसंतइ ।
समभावेण णिज्झाइवि जिणवरु ।
पढमसग्गु जाहिंति वरिट्ठइ ।
बंभणधम्मु खयहु जापसइ । 10
देसैधम्मु णिम्मूलु हवेसइ ।

4

तइयहुं अइदुस्समु पइसेसइ
भणिउ तिअद्धहत्थमाणंगउ
णरयतिरिक्खहं होंतउ आवइ
कालें जंतें माणवसत्थें
परिहेव्वउं तरुपल्लवणिवसणु
भो भूवइ भविस्सपरमेसर
वीरिउ बल्लु आउ वि ओहट्ठइ
असुहहं दुब्भगदुस्सरैरुक्खहं
खंचियभोयहं पसरियरोयहं
जइयहुं छट्टकालपरमावहि

माणुसु धीसवरिस जीवेसइ ।
बहुवेलासणु पावपसंगउ ।
मुउ तहिं जि पुणु संभउ पावइ ।
विणु कप्पासविणिम्मियवत्थें ।
फलभोयणु अवरु वि णग्गत्तणु ।
अइदुस्समकालंति णरेसर ।
सोलहवरिसइं जीविउं वट्टइ ।
कसणसररीरहं दीणहं मुक्खहं ।
इत्थमेसु तणु होसइ लोयहं ।
तइयहुं फरुसत्तें फुट्टइ महि । 10

3 १ AP °हुणियाणंगउ. २ AP अगव्वय. ३ AP एहउं. ४ AP हो. ५ A उवयंतए; P उदयंतए. ६ A वेउ धम्म; P एउ धम्म. ७ K records a p: अथवा हेउधम्म युक्तिस्वरूपम्.

4 १ K पावसपसंगउ. २ AP °दुस्सरदुक्खहं.

3 1 a वीरंगउ अयोध्यायां भविष्यति. 2 a संजइ आर्या. 3 b णिरावय निरापद्. 11 b देसधम्म देशाचाराः.

4 2 a तिअद्धहत्थमाणंगउ त्रयाणामर्धे सार्धहस्तः तत् प्रमाणं शरीरस्य यस्य. 3 b संभउ जन्म. 6 a भविस्सपरमेसर भविष्यतीर्थेकर श्रेणिक; b °कालंति अवसाने.

महिरहवेल्लिजालु उच्छिञ्जइ
सुरसिंधुहि सिंधुहि खयरहुहु
जीविहिंति णर पावसरीरें
णट्टायार हीण जड माणव
के वि खुहविवरइं पइसेप्पिणु
विससमाणु जलहरु वरसेसइं
सत्त सत्त दियहइं जइ भासइ
अवसप्पिणि किर पत्थु समप्पइ

घत्ता—अइदुस्समु दुग्गमु पइसरइ ओसप्पिणिहि पवेसइ ॥

मणुयाउं वि काउ वि मइं भणिउं चिरसंखाइ समासइ ॥ ४ ॥ 20

जीवहु पलयकालु संपज्जइ ।
आसंधिवि वेइय वेयहुहु ।
सरिजलसंभवजीवाहारें ।
दुत्थिय बाहत्तरिकुलसंभव ।
अच्छिहिंति अप्पाणु भरेप्पिणु । 15
खारु तिक्खु पाणिउ वरिसेसइ ।
चित्ता णाम भूमि सम वीसइ ।
पुणु वि भडारउ भणइ वियप्पइ ।

5

वरिसिहिंति पुणु खीरपंओहर
अमयमेह सिंचांति धरायलु
रसवरिसें रसु धराणि धरेसइ
कमपंहुट्ठि पुणु दुस्समि पावइ
तिरयणियद्धरयणिदेहुल्लुउ
पहिलउ चउहंत्थुणइ काएं
अंतिमु सत्तहत्थपरिमाणें
पढमु कणउ बीयउ कणयप्पहु
अवरु कणयपुंगमु णलिंगंकउ
णलिणराउ अवरु वि णलिणद्धउ
राउ णलिणपुंगमु पउमक्खउ
पउमराय पउमद्धउ राणउ
अवरु महापउमु वि सोलहमउ

तेत्थिय दियहइं जणवयदुहहर ।
होसइ सयलु सयलु संवियफलु ।
णीरणियरुं विवरहु णिग्गोसइ ।
वरिसइं वीस जाम ता जीवइ ।
कालें जंतें होसइ भल्लउ । 5
कुलयरु भासिउ वियलियराएं ।
दिट्ठु ण चुक्कइ केवलणारणें ।
कणयराउ कणयद्धउ णरपहु ।
णलिणप्पहु कुलगयणससंकउ ।
रुवें णावइ सइं मयरद्धउ । 10
पउमप्पहु वंसंतु पच्चक्खउ ।
णिवइ पउमपुंगमु बहुजाणउ ।
कहइ महामुणि दूरुज्झियमउ ।

३ P उच्छजइ. ४ AP विरसेसइ.

5 १ AP छीर°. २ AP णरणियरउ. ३ P कमे पवुट्ठि. ४ A °हत्थेणें काएं; P °हत्थूणें काएं. ५ AP पसणपंचक्खउ.

12 a सुरसिंधुहि गङ्गायाः; b वेइय वेदी. 14 a णट्टायार आचाररहिताः; b बाहत्तरिकुल°
द्वासप्ततिमनुष्यादियुगलानि. 16 a विससमाणु इत्यादि सरसं विरसं तीक्ष्णं रूक्षं उष्णं विषं विषं क्षारमेघाः;
क्षरिष्यन्ति सप्त सप्त दिनानि अलम्; तथा क्षीरमेघाश्च अमृतमेघाश्च वर्षिष्यन्ति. 18 a समप्पइ समाप्तिं
गच्छति; b वियप्पइ विकल्पयति भेदेन प्ररूपयति, विशेषेण वार्षयति समर्पयति तत्प्रतिपत्तिं कारयतीत्यर्थः.

5 2 b सयलु कलायुक्तम्; 3 a रस° जलम्. 6 a पहिलउ कुलकरः. 13 a सोलहमउ
ननु चतुर्दश कुलकराः कथं षोडशेति चेत् प्रथमतीर्थकरचक्रवर्तिनोरपि कुलकरत्वेन परिगणनात्.

पयहुं कालि कालि पंदइ पय गरणाहहं परिवहुइ संपय ।
 जणवउ होसइ सब्ब सुसीलउ सिद्धिसिद्धणं भोयणयालउ 15
 घत्ता—सुहमेलइ कालइ तइयइ संपत्तइ सउ अहहं ॥
 णौउ जीउ धरंति मरंति ण वि वयणुण्णडइं जिणिंदहं ॥ ५ ।

6

जे होहिंति तेत्थु तित्थंकर वृद्धप्प कंदप्पखयंकर ।
 बद्धउं जेहिं कम्मु जगखोहणु अरहंतत्तणु मोक्खारोहणु ।
 ताहं महापुरिसहं मणि मण्ह णामइं चउवीसहं आयण्ह ।
 सेणिउ पडु सुपासु उययंकउ पोट्टिलु कडंचंचु वि हयसंकउ ।
 खत्तिउ सँट्टु णाम संखालउ गंदणु पुणु सुणंदु सुगुणालउ । 5
 पुणु ससंकु केसउ धम्मंकिउ पेम्मकम्मु तोरणसण्णंकिउ ।
 रेवउ वासुएउ बलु अवरु वि भँगलि विगलि दीवायणु णररवि ।
 कणयक्खउ पायंतउ णारउ चारुपाउ सच्चइसुउ सारउ ।
 आइजिणेसरु तहिं महु भावइ सउ वरिसहं सोलुत्तरु जीवइ ।
 जाणमि सत्तरयणिमाणंगउ छेइल्लउ दूरुज्झियसंगउ । 10
 पचसयाइ तुंगु धणुदडहं दिहि हरंतु मयरद्धयकंडहं ।
 पुव्वहं कोडि देउ जीवेसइ णामावलिय ताहं जइ घोसइ ।

घत्ता—धुउ पउमु महापउमु जि पढमु पुणु सुरदेउ सुसासणु
 हयपासु सुपासु सयंपडु वि सब्बे भूइ मलणासणु ॥ ६

६ AP तइयए कालए. ७ AP णर. ८ AP वयणु ण ढलइ. ९ AP रिसिदहं.

6 १ A कडयवु; P कवडचंचु. २ AP सेट्टु; K सट्टु and gloss पट्टः. ३ AP संख-
 णामालउ. ४ AP भगिलि विगिलि. ५ AP सच्च.

15 b सि हि सि ढ्ढणं अग्निपक्कान्येन भोजनम्. 16 त इ य इ उत्सर्पिण्यपेक्षया तृतीये; अ इहं वर्षाणाम्.
 17 ण उ जी उ ध रं ति न जीवं मारयन्ति, नात्मघातं कुर्वन्ति; व य णु ण्ण ड इ व च नानि प्रवर्तन्ते.

6 2 a क म्मु तीर्यंकरगोत्रम्. 4 a से णि उ इत्यादि भविष्यज्जिनजीवनामानि कथयति;
 उ य यं क उ उदंकरः; b क ड चंचु कटपुः. 6 b पेम्म क म्मु प्रेमकः. 7 a रे व उ रे व तः. 8 a पा यं त उ
 पादान्तः. 9 a आ इ जि णे सरु महापद्मः श्रेणिकचरः. 13 धु उ प उ मु शाश्वतश्रीक इति विशेषणम्;
 म हा प उ मु इति भविष्यज्जिननामानि कथयति; सुर दे उ सुरदेवः; सब्ब सर्वांतः; भू इ भूताख्यः.

7

देवउत्तु कुलउत्तु उअंकउ
मुणिसुव्वउ पावारि विरायउ
चित्तगुत्तु जिणु विरइयसंवरु
अणियत्ति वि णामे रिसिसारउ
चरमु अणंतवीरु वंदिजइ
भरहु दीहवंतु वि पुणु बीयउ
गुदु चउत्थउ पुणु सिरिसेणउ
पउमु महापउमंकु संसंतणु
विमलबाहु णरणाहु सुखंतितउ
णिर्व भविस्ससीरि वि णव भासमि

पोट्टिलु जयकित्ति वि गयपंकउ ।
णिक्कसाउ सुविउलु हयमायउ ।
अरुहु समाहिगुत्तु ससयंवरु ।
विमलु वि जउ सुरैपाउ भडारउ¹ ।
चक्कवट्टिणामावलि गिजइ । 5
लंबवंतु पहु भणिउ तईयउ ।
सिरिभूइ वि सिरिकंतु अदीणउ ।
अवरु वि चित्तपुव्वु भणु वाहणु ।
णिर्वैइ अरिट्टसेणु सव्वंतितउ ।
चंदु महाचंदु वि विण्णासमि । 10

घत्ता—चक्कहरु मिहंरु णं उग्गमिउ हउं अक्खमि मइमंदु वि ॥
हरिचंदु सीहचंदु वि अवरु पुण्णिमचंदु सुचंदु वि ॥ ७ ॥

8

सिरिचंदु वि ए भासिय हलहर
णंदि णंदिमित्तुं वि जाणिजइ
णंदिभूइ हरि होइ चउत्थउ
छट्टु महाबलु सत्तमु अइबलु
णवमु दुविट्टु विट्टु णरकेसरि
कालसमइ तइयम्मि समत्तइ
चावहं पंचसयइ देहुण्णइ
पंचहं धणुसैयाहं वहेसइ

णव होहिंति मणोहर सिरिहर ।
णंदिसेणु तिज्जउ भौणिजइ ।
पंचमु बलु संगामसमत्थउ ।
अट्टमु भू तिविट्टु पालियछलु ।
ताहं वइरि तेत्तिय ते पडिहरि । 5
सुसमदुसमकालइ संपत्तइ ।
एवं भडारउ भासइ सम्मइ ।
साहिय पुव्वकोडि जीवेसइ ।

घत्ता—असरालइ कालइ आइयइ जीवेसइ पल्लोवमु ॥

फुडु होसइ दीसइ पत्थु जणु अहमभोयसुहसंगमु ॥ ८ ॥ 10

7 १ A वियारउ; P वियराउ. २ P रिसिसायरु. ३ A सुरयाउ. ४ A ०णामालि वि;
P ०णामोलि वि. ५ AP सुसंतणु. ६ AP सुखत्तिउ. ७ A वृवइ. ८ A वृव. ९ AP मिहिरु.

8 १ A णंदुमित्तु. २ A पभणिजइ. ३ A धणुसयाहं.

7 1 a उअंकउ उदक्कः. 3 b ससयंवरु स्वयंवरः. 4 a अणियत्ति अनिवर्ती. 8 b चित्त-
पुव्वु भणु वाहणु चित्रवाहनः. 10 b विण्णासमि प्रतिपादयामि. 12 अवरु जयचन्द्रः.

8 4 b भू भविष्यति. 5 a विट्टु विण्णुः; b ताहं वइरि तेषां शत्रवः. 6 a तइयम्मि
उत्तरपिण्यपेक्षया तृतीये.

9

पंचमि मज्झिम छट्टइ उत्तिम
इह जिह तिह णिव णवहिं मि खेत्तहिं
कालु विदेहहिं एक्क जि दीसइ
जिणवर चक्कवट्टि हरि हलहर
होति सट्ट सउ तेत्थु बहुत्तं

सउ सत्तारेजुत्तउ
चउगइ अणुहवंति तहिं थिरकर
कम्मभूमिजाया मिगमाणुस
आइकप्पजुयलइ जणमणहरि
भोयभूमिणर होति मरेप्पिणु
पवर सलायपुरिस मयरद्धय
छट्टइ कालि दुट्ट सुकणिट्ठा

यत्ता—एक्कोरुय णीरुय मूय णर सक्कलिकण्णा अण्ण वि ॥

कर्णाच्चिय भाविय जिणवरिण लंबकण्ण ससकण्ण वि

भोयभूमि धुउ होसइ णित्तम ।
भरहेरावयणामविहत्तहिं ।
धणुसयपंचु णं उण्णइ णासइ ।
छिण्णाछिण्णजयसिरिपसरियकर ।
वीस वियाणहि अइतुच्छत्तं । 5

सव्वभूर्भवाजिणहं पवुत्तउ ।
होति पंचगइगामिय णरवर ।
होति भोर्यभूमिसु णियकयवस ।
भावणवाणामरजोइसघरि ।
कम्मभूमिरुह कहमि गणेप्पिणु । 10
विज्जाहरसुरैवरपुज्जियपय ।
माणव वीरजिणिं दे विट्ठा ।

10

आससीहमहिसयकोलाण
मक्कडमुह थहमुह मसिणिहमुह
आदंसणमुह लंगूलंकिय
एए अंतरदीवणिवासिय
अंततित्थणाहु वि महि विहरिवि
पावापुँवरु पत्तउ मणहरि

वग्घउत्थयवयण सुहमाणण ।
गयमुह गोमुह घणमुह तडिमुह ।
वेसाणिय कुमणुय जिणपुँक्किय ।
गोत्तमेण मगहेसहु भासिय ।
जणदुरियाइं दुलंगइं पहरिवि ।
णवतरुपल्लवि वणि बहुसरवरि ।

9 १ A सउण्णइ; P णिउण्णइ. २ AP सच्चभूमिभव. ३ AP मुअ हवंति. ४ AP भोय-
भूमिहि. ५ AP °सुरवर°. ६ P एए भासिय णिव जिणवरेण.

10 १ A मक्कडमुह बहमुह मसिणिहमुह; P मक्कडमच्छयमुह मसिणिहमुह. २ A जिणचुक्किय.
३ A अंतिमु तित्थणाहु महि. ४ AP °पुरवरि.

9 1 a पंचमि पञ्चमे काले प्राप्ते सति; मज्झिम म मध्यमा भोगभूमिः; b णित्तम हे निःक्रोध.
3 b णउण्णइ णासइ न उन्नतिर्नश्यति. 4 b छिण्ण छिण्ण° क्षेत्रविभागेन पृथक् पृथक्. 5 a सहु
सउ षष्ठ्यधिकं शतम्. 9 b °वाणामर° व्यन्तराः. 11 a सलायपुरिस शलाकापुरुवाः. 13 मूय
मूकाः. 14 कण्णाच्चिय कर्णप्रावरणाः.

10 2 a यह° स्तभो मेघः; मसिणिहमुह मपीवर्णमुत्ताः. 3 a वेसाणिय शृङ्गसहिताः;
°पुक्किय पूक्कता उच्चैः कथिताः.

संठिउ पविमलरयणसिलायलि रायहंसु णावर पंकयदलि ।
 दोण्णि दियहं पविहारु मुपप्पिणु सुंक्कसाणु तिज्जउ झापप्पिणु ।
 यत्ता—णिव्वत्तिइ कत्तिई तमकसणि पक्खि चउइसिवासरि ॥
 थिइ ससहरि दुहंहरि साइवर पच्छिमरयणिहि अवसरि ॥१०॥ 10

11

कयतिजोयसुंणिरोहु अणिट्टउ किरियांछिण्णइ झाणि परिट्टिउ ।
 णिहयौघाइचउक्कु अदेहउ वसुसमगुणसरिउ णिणेहउ ।
 रिसिसहसेण समउं रयंछिंदणु सिद्धउ जिणु सिद्धत्थहु णंदणु ।
 तियंसविलासिणि णच्चिउ तालहिं अमरिंदहिं णवकुवलयमालहिं ।
 णिव्वुइ वीरि गलियमयरायउ इंदभूइ गणि केवलि जायउ । 5
 सो चिउलइरिहि गउ णिब्वाणहु कम्मविमुक्कउ सासयटाणहु ।
 तहिं वासरि उप्पणउं केवलु मुणिहि सुधम्मइ पक्खालियमलु ।
 तण्णिब्वाणइ जंबूणामहु पंचमु दिव्वणाणु हयकामहु ।
 णंदि सु णंदिमित्तु अवरु वि मुणि गोवद्धणु चउत्थु जलहरझुणि ।
 ए पच्छइ समत्थ सुयपारय णिरसियमिच्छीयम णिरु णीरय । 10
 पुणुं वि विसहजइ पोट्टिलु खत्तिउ जउ णाउ वि सिद्धत्थु हयत्तिउ ।
 दिहिसेणकु विजउ बुद्धिल्लउ गंगु धम्मसेणु वि णीसल्लउ ।
 पुणु णक्खत्तउ पुणु जसवालउ पंडु णाम धुवसेणु गुणालउ ।
 यत्ता—अणुकंसउ अप्पउ जिणिवि थिउ पुणु सुहंहु जणसुहयरु
 जसभहु अखुहुं अमंदमइ णाणे णावइ गणहरु ॥ ११ ॥ 15

५ AP सुक्कसाणु तइयउ. ६ A कत्तियतमणिसिहि. ७ A दुहसरि.

11 १ A °सुणिरोहु अणिट्टिउ; P °सुणिरोहेऽणिट्टिउ. २ AP किरियाञ्जणए. ३ AP णिहयअघाइ°. ४ A अरिच्छिंदणु. ५ AP अग्गिंदहिं अंचिउ सिहिजालहिं. ६ A °मिच्छामयभय णीरय; P °मिच्छामय भव णीरय. ७ A पुणु विसाहु जयपोट्टिलु खत्तिउ. ८ A अणुकंपउ. ९ A सुहइजिणु सुअहरु. १० A अखहु मंदगइ णाणे.

10 सा इ व इ स्वातिपदे स्वातिस्थाने.

11 1 a अणिट्टउ अमुक्कस्वरूपः अक्रियो वा. 2 b वसुसम° सम्यक्त्वाद्यष्टगुणस्वरूपः. 10 a सुयपारय भुतकेवलिनः. 11 a विसहजइ एते दशपूर्विणः. 13 a णक्खत्तउ एकादशाङ्गा एते. 14 सुहहु एकाङ्गशातारः एते.

महबाहु लोहंकु भडारउ
 पर्यहि सव्यु सत्यु मणि माणुउ
 जिणसेणेण वीरसेणेण वि
 पुव्वयालि सुइ णिसुणिय भरहे
 पुणु सयरेण सच्चवीरकं
 भावमित्तमित्तार्थवीरं
 धम्मदाणवीरहिं मघवंतं
 सीमंधरराएण तिविट्ठे
 पुणु सयंभु पुरिसुत्तमु णामं
 पुरिदंत्तपत्थिवेण कुणालं
 णिवंसुभोमणामं विक्खापं
 उगसेण महेसेणं इच्छइ
 एवं रायपरिवाडिइ णिसुणुउ
 सेणियराउ धम्मसोयारहं
 ताहं वि पच्छइ बहुरसणडियइ
 पढिवि सुणिवि आयण्णिवि णिर्ममलि
 कम्मकखयकारणु गणिदिट्ठुं
 पत्थु जिणिदमग्गि उणाहिउं
 तं महु खमहु तिलोयहु सारी
 चउवीस वि महुं कलुसखयंकर

घत्ता—दुहुं छिंदउ णंदउ भुयणयलि णिरुवमु कण्णरसायणु ॥

आयण्णउ मण्णउ ताम जणु जाम चंदु तारायणु ॥ १२ ॥

आयारंगघारि जगंसारउ ।
 सेसहिं पक्ख देसु परियाणुउ ।
 जिणसासणु सेवि वि मय ते ण वि ।
 रापं रिउवहुंदावियविरहं ।
 पुहईसेणं सगोत्तससंकं । 5
 जमजुइणा वि सुहु गंभीरं ।
 जुज्जवीरणरंणाह हसंतं ।
 अरुहवयणु आयण्णुउं इहं ।
 पुरिसपुंडरीपं जयंणामं । 10
 गोविदेण णंदगोवालं ।
 अजियंजएण वि जपं वि महापं ।
 अजिपं सेणिएण पइं पच्छइ ।
 धम्मु महासुणिणाहहिं पिसुणुउ ।
 पाच्छिल्लउ वज्जियंभयभारहं ।
 भरहं काराविउ पद्धडियइ । 15
 पयाडिउं मोंमइएं इय महियलि ।
 एवं महापुराणु मइं सिट्ठुं ।
 बुद्धिविहीणं जं मइं साहिउं ।
 अरुहुंगय सुयएवि भडारी ।
 वेतु समाहि बोहि तित्थंकर । 20

12 १ A एयारंगघारि. २ A जयसारउ; P जससारउ. ३ AP सेविउ मयणिरिपवि.
 ४ A पुव्वयालि णिसुणुउं सुइभरहे; P पुव्वयालि णिसुणुउं सइं भरहे. ५ A बहुरिउं. ६ A सच्छ-
 वीरकं. ७ A पुहई सेसं. ८ K मित्ताइविवीरं and gloss मित्रवीर्यः. ९ AP णरणहं संतं.
 १० AP जयकामं. ११ A पुरिसदत्तणामेण; P पुरिसदत्तपत्थिवेण. १२ A omits this line.
 १३ A महसेण हियथं. १४ A णिच्चलमाणसेहिं पुणु पत्थं. १५ A भवभारहं. १६ A भवकलि;
 P हयकले. १७ A धम्ममइए; P मम्मइए. १८ A अरुहंगय.

12 4 b °वहुं वधूः. 5 a सच्चवीरकं सत्यवीर्येण; b पुहई सेण पृथ्वीस्वामिना.
 6 b जमजुइणा यमद्युतिना. 8 b इहं द्विपृष्ठेन. 8 b जयणामं जगति नाम्ना प्रसिद्धेन. 11 b महापं
 महधिकेन. 12 a इच्छइ निजेच्छया. 14 a धम्मसोयारहं पुराणश्रोतृणाम्. 16 b मामइएं
 कविवरस्य नामेदम्. 18 a उणाहिउं हीनाधिकम्. The margin of page 731 b of K is
 broken and contains the following:—

NOTES

LXXXI

1. 2 भंडणु मुरारिजरसंधं—The narrative of Nemi, the twenty-second तीर्थंकर of the Jainas, contains an important episode, viz., the fight of कृष्ण and जरासंध. According to the भागवतपुराण the fight of कंस and कृष्ण is regarded as the most important feature of the life of कृष्ण, while जरासंध is killed by भीम. कृष्ण is mentioned as having run away from the battlefield and founded द्वारका in order to escape the attacks by जरासंध. In MP the word जरासंध appears in three different forms, जरसंध, जरसिंध and जरसैंध. Of these the first two are promiscuously used in my text and the third almost ignored as there is no consistency in Mss.

2. The poet states, as in MP I, that he does not possess necessary qualifications to undertake the composition of हरिवंश. 1 *b* देसिलेसु, fragmentary or elementary knowledge of देशी words or lexicons. 6 *a* सुवंतु तिवंतु (सुवन्त, तिडन्त) noun inflexion and verbal inflexion. 11-12 The poet feels confident that his fame as poet will place her feet on the necks of the wicked and wander beyond the three worlds.

3. सीहउरि णराहिउ अरुहदासु—It will be better if the reader remembers that the poet is giving here the narrative of the previous births of नेमि, not in their chronological order but in the order of strikingness. These previous births chronologically are:—मिल्ल, इभ्यकेतु, सौधर्मदेव, चिन्तागति, चतुर्थ-स्वर्गदेव, अपराजित, अच्युतेन्द्र, सुप्रतिष्ठ and जयन्तदेव. The poet starts with the life of अपराजित here. He then takes up the story of चिन्तागति and his two brothers. Then he proceeds to हरिवंश proper to give the parentage of नेमि.

4. 11 केसरिपुरि, i. e., सिंहपुर. 13 तुह जणणु means अर्हदास.

5. 7 यसणंगहं, च+अशनाङ्गानाम्; अशनाङ्ग means articles of food. 10 अपुण्णह कालि, before his destined time of death, premature death.

6. 5 णहयलि सुण्णिद—The चारणसुणिस are those who are able to travel through space as a result of their spiritual powers. They are his brothers of the previous birth.

8. 2 *a-b* णीसेस वि णियपयमूलि षित्त विजाहर—She, i. e., प्रीतिमती, trampled under her foot or humbled down the pride of all विद्याधरस as they came to woe her, but were unable to complete the three प्रदक्षिणास of मेघ.

9. 1 *b* तुह here stands for तुहुं. 10 जीवद् दुखसिहि, etc. The fire of sufferings of the poor etc. is extinguished if they cling to the lotus-like feet of the revered Jinās.

10. 3 *a* सिरीवियप्पि goes with माहिंदकप्पि and means heaven as T says. 13 दूरिल्लं, stationed at a distance; this word is to be construed with ण्यणं.

12. 5 *b* अण्णु, food.

14. 12 इयरु, the merchant सुयुद्.

18. 14 पिय, i. e., father.

19. 4 बहुवरु, the couple सिंहकेतु or मार्केड and विद्युन्माला. 12 Note how the narrative runs over to the next Saṃdhi.

LXXXII

1. 4 *b* सुउ ताइ, the children of सुभद्रा and अन्धकवृष्णि are enumerated here. They had ten sons and two daughters. 9 *b*-13*b* These lines enumerate the lives of the first nine sons of अन्धकवृष्णि. वसुदेव is the youngest and his narrative is continued later.

2. 8 *a* मच्छउल्लायसुय सच्चवइ—According to the Jain version, सत्यवती, the wife of पाराशर, is a princess of the मत्स्य country and not a fisherman's daughter. Note the difference in the accounts of births of the पाण्डवस and कौरवस as given here and in the महाभारत.

3. 8 *a* पुण्डरिय, white or bright like a blooming lotus.

5. 1 *a* कुंडलजुयलउं etc. Note how the first born son of कुन्ती was disposed off. He had a pair of ear-rings, a gold armour and a letter containing information about his parentage. He became the adopted son of king आदित्य and queen राधा of चम्पा and seems to have succeeded his father to the throne of अङ्गदेश.

6. 5 *b* सुयजमलहु, to अन्धकवृष्णि and नरपतिवृष्णि.

9. 8 *a* रुद्दत्त, the name of a Brahmin priest of the family.

16. 1 *a* वसुदेवायरणु, the previous births of वसुदेव. 4 *a* णियमाउलउ, his maternal uncle. 8 *a* गुरुसिहरारुडउ, ascending the lofty peak of the mountain from which he wanted to throw himself down. 9 *b* संखणाम जिण्णाम सुणि—These are destined to be कृष्ण and बलराम in the subsequent birth. 11 *a* कायञ्जाय णरहु, the shadow of a human being.

17. 11 *b* डुरिउं दिसाबलि दिजइ—If you practise penance according to Jain principles, you can scattter your miseries in different directions. दिसाबलि, offering to or scattering in दिशाs, i. e., quarters or cardinal points.

LXXXIII

1. 5 *a* अखार सलवणु रयणायर, ocean, not saltish, yet beautiful. Note the double meaning of सलवणु.

3. 1-2 Note how a lady, looking at वसुदेव, put under her arms a cat instead of her own child, and thus supplied to the people a comic situation.

4. 6 *b* अजुत्तउं, his improper conduct.

6. 1 *b* बालें, by young वसुदेव.

7. 10 *b* पइं आपेक्खि वि मयणु वि दूहउ—Compared with you, even god of love looked ugly (दूहउ, दुर्भगः). 14 *b* मीणावल्लिमाणुं, water respected or used by a mass of fish, i. e., fresh running water of a stream.

8. 13 पहियपुण्णसामर्ये etc.—Fresh and young leaves came out or appeared on old and withered trees as if on account of the prowess of the merit of the visitor (पथिक), viz., वसुदेव.

11. 6 *b* बहिवहिसहे, by shouting “ get out. ”

12. 4 *b* दुहियावर, the husband of your daughter. 13 समरसएहिं अभग्गी, सामरि who never knew defeat in hundred battles.

13. 8 वासुपुज्जिणजम्मणरिद्धी—The town of चम्पा became famous as the birthplace of वासुपूज्य, the 12th तीर्थंकर.

16. 14 सवणहं सीसग्गि जणउच्छिद्धउं धित्तउं—He threw on the heads of monks the leavings of food of people who were fed at the sacrifice. The story of बलि and his conquest by the monk विष्णु by asking him to give him earth measured by three steps will remind the reader of the corresponding story as found in Hindu mythology.

21. 14 *b* देसिउ, a traveller or foreigner.

22. 3 *b* अवियारिय (अविदारिताः), without being killed.

LXXXIV.

1. 8 *b* महिणीडय, resting or living in soil. 17 हउं जि करेसमि भोयणु, I myself shall feed this monk by giving him alms. Although the king said so, he did not give him alms and the monk had to go without food.

2. 1 *b* हुयासु ल्गु, fire broke out in the city in the first month, a maddened elephant teased the people in the second month, and a threatening letter from king जरासंध was received by king उग्रसेन in the third month. 6 *a* पर वारह सई णाहार देइ—He prevents others giving alms to the monk but he himself does not give food to the monk.

3. 8 *b* कल्लालयत्रालियाइ, by a young lady of a wine-shop keeper. (कल्लाल). 12 *a* वसुएवसीसु—कंस became a pupil of वसुदेव who is frequently referred to as प्रहरणसुरि, उज्जाय, चावसुरि etc. 19 मेरी सुय सो माणइ, he will win (the hand of) my daughter.

5. 1 *a* सउहदेएं, by वसुदेव who was the son of सुभद्रा.

6. 5 *b* रणि णियगुंदअंतरि पइसरेवि—When वसुदेव and सिंहरथ were fighting, कंस stood between them and captured सिंहरथ.

12. 7 *a* पिउबंधणि चिर पावइउ वीर—अतिमुक्तक, brother of कंस, renounced the world when their father उग्रसेन was imprisoned by कंस.

14. 1 *b* वरु दिण्णउ—वसुदेव was pleased with the exploit of his pupil कंस when the latter caught सिंहरथ and gave him a boon which कंस kept in reserve. अवसर तासु अजु, to-day is the time to get the boon fulfilled.

17. 11 *a* णिण्णामणामु जो आसि कालि, the god from महाशुक्र heaven, who, in his previous birth, was a monk named निर्गाम.

18. 10 *a* भइइउ, one of the frequently used names of कृष्ण or विष्णु.

LXXXV

1. 5 *a* कण्हु मासि सत्तमि संजायउ—कृष्ण was born in the seventh month after conception, he had a premature birth, and hence कंस was not watchful to put him to death as soon as born.

2. Note the poetic beauty of this कडवक, nay, of the whole संधि, which is one of the finest compositions of the Poet.

3. 3 *a* महु कंतइ etc.—नन्द says that his wife यशोदा begged a son of a deity, but she gave her a girl. He wanted to return the girl to the deity; if the deity would give him a son, the desire of his wife would be fulfilled.

4. 5 चप्पिवि णासिय दिळ्ळिदिल्लियहि, having crushed the nose of the girl and thus deformed her, कंस put her into a cellar.

8. 10 *b* ता तहि देवयाउ संपत्तउ—The deities which now came to कंस were the same, as, when in his previous birth as a monk, had appeared

before him. For reference see LXXXIV. 2. 9-14. It is these deities which assumed different forms such as पूतना and made attempts to kill कृष्ण at कंस's bidding.

12. 15-16 ओहामियधवल etc.—कृष्ण who had just vanquished the bull (i. e., demon अरिष्ट), was glorified in the cowherds' colony in songs styled धवल. • Who will not praise the most glorified member of the house, the bright among the brightest ? धवल is a kind of folk-songs composed in a metre which is named धवल. The theme of these songs is usually the glorification of कृष्ण and they are sung by गोपीस. हेमचन्द्र in his छन्दोनुशासन V. 46, mentions some four types of धवल and names them as यशोधवल, कीर्तिधवल, गुणधवल etc. Some of these are अर्धसम, with first and third line and 2nd & fourth agreeing, while there is one more type in which first and second are similar and third and fourth are again similar. Among the महानुभाव poets these धवलः, or ढवळे as they are called, seem to be well-known, and those of महदंबा, are now edited and published by Y. K. Deshpande under the title " आद्य मराठी कवयित्री ". The type of her ढवळे agrees with the last named scheme, viz.,

1st and 3rd line : 6+4+4+4=18, + 2 or 3

3rd and 4th. : 4+4+4+4+4=20, + 2 or 3

13.10—15. 9 These lines describe a secret visit of वसुदेव and देवकी to कृष्ण.

16. A fine description of the rainfall.

17.11-12 णायामिज्ज etc. Astrologer वरुण says to कंस that he who is not frightened by sleeping on the bed of a snake, blows a conch with his own breath and strings the bow, will show to कंस the city of the god of death; and that he will release उग्रसेन and kill जरासंध.

20. 8-9 हउं मि जामि etc. कृष्ण says he would also go to मथुरा and do all the three things; whether he will marry कंस's daughter, he could not say; for a cowherd-boy (हालिक) may not care for the princess.

22. 3 a अग्नि व अंबरेण ढंकेप्पिणु, having covered fire in clothes. भानु and सुभानु, the sons of जरासंध, brothers-in-law and allies of कंस, took कृष्ण with them to मथुरा.

23. 10 b अपसिद्धेण सुभाणुहि भिच्चै, by कृष्ण, who was taken to be some unknown servant of सुभानु.

LXXXVI

1. 23 *a* उर्विदु, i. e., कृष्ण. The name of कृष्ण is expressed here by all synonyms of विष्णु. Compare पुरिसोत्तम and महुस्यण below.

3. 4 *b* णउ वीहइ सप्यहु गरुडकेउ—कृष्ण, with his emblem of गरुड, is not frightened by सर्प. The enmity between गरुड and सर्प is well-known.

5. 10 उम्बगणसंचालियधरु, the crowd of cowherd boys caused the earth to tremble on account of mutual clashing.

7. 19 *a* सो वि सो वि, both कृष्ण and चाणूर.

10. 3 *a* भंजिवि णियलहं, having broken or removed the fetters which कंस had put on उग्रसेन and पद्मावती.

11. 2 *b* इहजम्महु महुं तुहुं ताय ताउ—Addressing नन्द, कृष्ण says to him that नन्द is his father in this birth because he fostered him.

LXXXVII

1. 9 *a* कंचिविवजिय उत्तरमहि विव—Like Northern India, where there is no town bearing the name of काञ्ची (Canjeevaram of South India), जीवजसा, having lost her husband कंस, did not put on काञ्ची, girdle, which is used only by those ladies whose husband is alive.

2. 1-12 जीवजसा describes to her father जरासंध the various exploits of कृष्ण.

4. 14 छायालीसइं तिण्णि सयइं—अपराजित, a son of जरासंध, made three hundred and fortysix attacks or attempts on कृष्ण, but was defeated.

5. 14 *b* देसगमणु, leaving the country or going to another country. कालयवन being very powerful, the advisers of कृष्ण proposed to him not to give a straight fight to कालयवन, but to withdraw from मथुरा and go towards the western ocean.

6. 13 *a* हरिकुलदेवविसेसहिं रइयइं—Certain guardian deities of हरिवंश played a trick on कालयवन. They set fire to a region where dead bodies were seen burning, and the deities cried bewailing the loss of यादवस. कालयवन then thought that कृष्ण and other यादवस were dead and returned to his father.

7. 15 आहवि सउहुं भिडेवि महं जसु जिणिवि ण लद्धउं—कालयवन regrets that यादवस died of fire and that he lost the opportunity of obtaining fame by vanquishing them in a face-to-face fight.

10. 6 थियउं सेणु etc.—This was the site on which द्वावती was built by कुवेर as it was to be the birth-place of नेमि, the twenty-second तीर्थकर.

13. 4 पउरंदरियइ आणइ, at the command of पुरंदर, i. e., इन्द्र.

17. 2 गेमि सदिओ—The would-be तीर्थकर was named नेमि, because he was the नेमि, the rim, that protects the great chariot of Law.

LXXXVIII

1. . This कडवक summarizes events since कृष्ण left मथुरा down to his founding द्वावती.

2. 10 a दुव्वाएं जलजाणु ण भग्गउं, fortunately my ship did not wreck although it met a stormy wind (दुर्वात).

3. a णवरज्ज = णवर + अज्ज.

4. 10 b दे आएसु—कृष्ण asks the permission of his elder brother बलराम before he starts.

5. 16 a-b जो सुहडहं etc.—The poet says that the dust raised in the sky was the smoke of the fire of rivalry of warriors. Note a fine set of fancies on the dust raised on the battle-field in the next कडवक as well.

9. 11 a गोवाल—जरासंध addresses कृष्ण as गोपाल. See the spirited answer of कृष्ण below in lines 15 and 16, पइं मारिवि etc. गोमंडलु पालमि, गोउ हउं, I protect the earth (गोमण्डल), and so I am a गोप.

16. 13-14. These lines give the list of seven gems which a वासुदेव possesses.

17. 3 b तेत्तियइं सहासइं विलयइं—कृष्ण had sixteen thousand wives. 8 This line mentions the four gems which a बलदेव possesses. 13 a कंसमहुवहरिउ—कृष्ण is called here the enemy of कंस and महु, i. e., जरासंध.

19. 15 होसि होसि etc.—सत्यमामा says to नेमि “ I know you are my husband's brother, but are you दामोदर ? ”

22. 10 a णिव्वेयहु कारणु—If नेमि sees some cause which would create in him disgust for संसार, he would practise penance, and become a तीर्थकर. 12-13 रायमइ or राजीमती is said to be the daughter of उग्रसेन and जयवती. Elsewhere she is said to be the daughter of भोगराज or भोजराज. Compare अहं च भोगरायस्स in the उत्तराध्ययन, 24. 43. कंस is mentioned as her brother, but this कंस and his father उग्रसेन seem to be different from कंस, the enemy कृष्ण, as T suggests.

LXXXIX

1. 3-4 एकदु तित्ति णिविसु etc.—I do not like to eat flesh because, one (the eater) gets only a momentary satisfaction by eating flesh, while the other (animal killed) loses its life. भवविहुरकारि, eating flesh causes the loss of spiritual life in one, while the other actually loses its present life, 9 a णिवेयदु कारणि दरिसियाहं, these creatures were placed on the way of नेमि in order to cause in him disgust for life.

6. 15 गेमी सीरिणा is to be construed with पुच्छित्त in the second line of the next कडवक.

8. 7 a एत्थंतरि etc.—The portion beginning with this line and ending with this samdhi deals with the previous lives of देवकी, बलदेव and कृष्ण. 7 b वरदत्तु, the first गणधर of नेमि.

9. 15 मंगिया—The narrative of मंगिया, the wife of वज्रमुष्टि, is interesting. She was very badly treated by her mother-in-law. Her husband loved her dearly, but she ultimately proved to be faithless.

18. 9 a सो संखु वि सहुं णिण्णामएण—These two monks were born later as बलदेव and कृष्ण.

XC

1.5 to 3.9 This portion narrates the previous lives of सत्यमामा, the most proud and inpetuous wife of कृष्ण. The narrative contains a small episode of सुण्डसायाण, a Brahmin, who abused the Jain doctrine and recommended to people the Brahmanic practices such as gifts of earth, cows etc.

2. 10 b डोडु is definitely a Kannada word which the Poet has used. Those who want to argue that the poet lived in South, say, at काञ्ची, should note that this word does not occur in Tamil or in any other South Indian languages except Kannada. It is natural that the poet who lived under a mixed influence of महाराष्ट्र and कर्णाटक, should use occasionally a word or two from either language, and words from a weaker language would be those that are most commonly known words. I stick to my view that the poet came from Northern India, probably from Berar, as suggested by Pandit Nathuram Premi.

3.10 to 7.14. Past lives of रुक्मिणी.

4. 4 *b* उंबरकुड्ढ, with leprosy. उंबरकुड्ढ is one of the 18 types of कुष्ठ in which the body gets the colour of the ripe fruit of उदुम्बर, fig. 18 संभारंभे, with spiced waters.

7.15 to 10.12. Previous births of जाम्बवती.

10.13 to 12.10. Past lives of सुसीमा.

12.11 to 14.2. Past lives of लक्ष्मणा.

14.3 to 15.9. The same of गान्धारी.

15.10 to 16.11. The same of गौरी.

16.11 to 19. 9. The same of पद्मावती. 10 *b* अविद्याणियतरुहलहु अवगाहु, a vow not to eat a fruit the name of which is not known. See how the lady died as she could not get fruits of known names in a famine.

19. 10 *a* जहिं संसारहु आइ ण दीसइ etc.—How can I narrate to you the series of births when the संसार is beginningless. The soul dances like an actor on the stage, taking different roles.

XCII

2. 10 *a* तो सणागारहु पढमु सग्गु—If persons who kill animals would go to heaven, then, the butcher should be the first man to go to heaven.

6. 6 *b* तियसोएं, on account of grief at the loss of his wife. 12 *a* महु संभूयउ पञ्जुणु णामु—मधु, in his previous births, was अग्निभूति, पुण्यभद्र or पूर्णभद्र, and became प्रद्युम्न, the son of रुक्मिणी. He was taken away by कनकरथ whose wife had been abducted by मधु. प्रद्युम्न was handed over to his queen काञ्चनमाला by कनकरथ. This काञ्चनमाला later fell in love with प्रद्युम्न, who rejected her love. The queen thereupon raised a false alarm that she was insulted by her so-called son.

16. 7 *a* हरिपुत्तहु, to प्रद्युम्न the son of कृष्ण. 8 *a-b* These are the names of the five arrows of god of love whose incarnation प्रद्युम्न was.

21. 9 *a* भाणुमायदेवीणिकेउ, to the house of सत्यभामा, the mother of prince मातु. 12 *b* बंभणु होइवि रक्खसु पइहु—The Brahmin who has visited our house is in reality, a demon; that is why he eats so much and is not still satiated.

XCIII

1. 12-13 जइयहुं etc—Both रुक्मिणी and सत्यभामा gave birth to sons at one and the same time. The maids of both went to कृष्ण to announce the

birth, but as कृष्ण was sleeping, one maid sat on the side of his head and the other on the side of his feet. कृष्ण got up and saw the maid who was sitting at his feet; that maid (of रुक्मिणी) then announced the birth of a son to रुक्मिणी, and कृष्ण said that that son would be the heir-apparent.

6. 1 नेमि informs बलदेव how द्वावावती would be burnt and how कृष्ण would meet his death.

8-10. The story of the पाण्डवस in outline, and of the द्रौपदीस्वयंवर.

14-15. Previous births of the पाण्डवस.

18. 6 Previous births of नेमि, beginning with that of a भिल्ल.

21. 7 a The story of ब्रह्मदत्त, the twelfth and last चक्रवर्तिन्.

XCIII

1. 8 a असुरो अही—The wicked demon is no other than कमठ, who caused several उपसर्गस to मरुभूति, destined to be पार्श्व. The chronological order through which the souls of मरुभूति, and कमठ passed must be noted, and it is मरुभूति, वज्रघोषहस्ती, सहस्रारदेव, रुक्मिणिवेग or अग्निवेग अन्युतदेव, वज्रनाभि, त्रैवेयकदेव, आनन्द, आनतेन्द्र, and पार्श्व; कमठ, कुक्कुटसर्प, पञ्चमनारक, अजगर, भिल्ल, षष्ठनारक, सिंह, नारक and महीपाल. Of these only first two births of each are treated in this संधि.

XCIV

1. 12 अण्णेकु, the other, i. e., the elephant वज्रघोष.

4. 2 b अवस्त्वूरिड, plucked by another, or fallen from tree; as the elephant had taken the vows, he does not do injury even to trees.

12. 12-13 The narrative of पार्श्वनाथ begins with this line.

XCV

1. 15 a ण पेम्मे णिसण्णो—According to the Digambaras, महावीर did not marry and hence the Poet says that he did not fall in love with beautiful ladies.

2. 6 b होंतउ आसि पुरूउ गामें—महावीर in his earliest known birth, was a forester named पुरूवस्.

5. 3 b सवरामरु—पुरूवस् was first a शबर and after death became a god. 12 b पंचवीस तच्चदं, the twenty-five principles of the सांख्य system.

8. 16 भरहेसरणंदणु i. e., मरीचि.

14. This कडवक recapitulates some of the previous births of the lion who was to be तीर्थंकर महावीर.

XCVI

1. 13 a जित्तजीहु, lion who controlled his tongue.

10. 9 a सम्मइ कोक्किउ—महावीर was named सन्मति by gods. 15 वीरणाहु—संगमदेव gave to वर्धमान another name, viz., वीर, because he was found to be fearless in the presence of a huge snake.

11. 1 सिमुदंसणेण, on seeing a young boy, i. e., वर्धमान महावीर.

XCVII

3. 7 The poet gives here the story of चन्दना, the daughter of king चेटक.

4. 4 a पडिवक्खगुणेहि विमदियइ—सुभद्रा, the wife of the merchant, became jealous of चन्दना as she possessed all the qualities such as beauty, youth etc. of a rival. She suspected that चन्दना would soon be her rival.

XCVIII

1. 14 b अणु किं धम्महु मत्थइ सिंगइ—The monk gave to the forester all rules of conduct and told him that there were no other rules of conduct than those mentioned by him. Horns on the head is regarded as most prominent characteristic of an object. Compare the शृङ्गग्रहिकान्याय.

2. 10 a रिडुयपलणिवित्तिफलसारे—The forester took a vow that he would not eat the flesh of a crow.

8. 6 a मच्छंघिणिहि ब्रासु उप्पणउ—According to Hindu mythology व्यास is the son of पराशर from a fisherwoman; but according to Jain view he is the son of a princess of the मत्स्यदेश.

9. According to this कडवक, king चेटक of वैशाली had several sons and seven daughters. Of these daughters, चन्दना was the eldest and most beautiful. Her sisters were married to famous kings, e. g., प्रियकारिणी was married to सिद्धार्थ of कुण्डपुर and was the mother of महावीर; मृगावती was

given to शतानीक; सुप्रभा was married to दशरथ; and प्रभावती was married to उदायण of सिंधुधौवीर country; and चेल्लणा was married to king श्रेणिक.

10. 10 *a* वोह is probably the Sother outh Indian word used by the Poet. It means a bull.

IC

The whole Samdhi is devoted to the life-story of जीवंधर.

3. 3 *a* पहुदोहउ, प्रमुद्रोहकः, hating the king. 5 *b* ब्रह्मिउ, an instance of insertion of रेफ, where it is not to be found in the original Sk. word. Compare हेम. अभूतोपि क्वचित् IV. 399.

C

The whole Samdhi is devoted to the story of जम्बू, the pupil of सुधर्मस्वामिन्.

8. 3 *b* दहगुणियहं चत्तारि, four hundred years.

CI

The life-story of प्रीतिकर forms the subject of this Samdhi.

CII

The dark future to be followed by a golden age is the subject-matter of this Samdhi.

13. The text of the last कडवक, particularly after 5 *b*, is somewhat confused. I think पुष्पदन्त's first version is as given in the printed text, and is supported by my best ms. K. The portion in A and P is clearly a later addition, of course by the poet himself, but the order of lines is not quite logical. I propose the following version of the amplified text from line 5 :—

पडिवण्णियपरिपालणसूरहु
होउ संति बहुगुणहिं महल्लहो
एउं महापुराणु रयणुजलि
चउविहदाणुजयकयचित्तहो

होउ संति भरहहु वरवीरहु ।
तागु जि पुत्तहो सिरिदेविल्लहो ।
जे पयडेव्वउं सयलि धरायलि ।
भरह परमसन्भावसुमित्तहो ।

भोगल्लहो जयजसवित्थरियहो
 होउ संति णण्हो गुणवंतहो
 णिच्चमेव पालियजिणधम्महं
 होउ संति संतहु दंगइयहु
 होउ संति बहुगुणगणवंतहं
 जिणपयपणमणवियलियगव्वहं

होउ संति णिह णिरुवमच्चरियहो ।
 कुलवच्छलसामत्थमहंतहो ।
 होउ संति सोहणगुणवम्महं ।
 होउ संति सुयणहु संतइयहु ।
 संतहं दयवंतहं भयवंतहं ।
 होउ संति णीसेसहं भव्वहं ।

This passage now conveys to us the following information:—देविल्ल was the son of भरत and was charged by his father to publish the महापुराण. भोगल्ल, the second son of भरत, looked to the charitable establishment of the king or of भरत, and was a sincere friend of the poet. णण्ह is the son of भरत who held the responsibilities of the family and so naturally succeeded his father. शोभन and गुणवर्मन् are णण्ह's sons and had pious tendencies. दंगइय and संतइय are probably the poet's assistants. Lastly comes a general mention of the noble and pious men.

14. 12 *b* My Ms. P reads छसय छडोत्तर कयसामत्थे, but is not supported by K, nor by A, which latter, in my opinion, is the youngest of the three versions known to me. It is likely that there may be still younger Mss. of the work as mentioned by Pandit Premi in his article : महाकवि पुष्पदन्त.

ADDENDA ET CORRIGENDA

Page	Kadavaka	Line	Incorrect	Correct
8	9	1	वुह	वुहं .
26	13	13	धम्मरुइ जुत्तेहिं	धम्मरुइजुत्तेहिं
34	Foot-Notes	last	°णिणिउं	°माणिउं
40	16	2	करह	करइ
40	Foot-Notes	4	मारणावाञ्छकेन	मारणवाञ्छकेन
42	19	4	°भाइसहोयरु	°भाइ सहोयरु
48	2	10	भणति	भणंति
48	Foot-Notes	last	अस्ताघ	अस्ताधे
51	7	2	°जसजस°	°जस जस°
55	12	10	जरसंधकंसजस°	जरसंध कंस जस°
63	5	2	अलियल्लहिं	अलियल्लहि
65	6	13	जसोएं	जसोए
76	19	1	विसकंधर	विसकंधर
82	1	1	°छिण्णउ	°छिण्णउं
112	12	8	कणहे	कणहें
120	23	1	°वइधरु	°वइधरु
129	10	8	बहरिणीइ	बहरिणीइ
133	15	17	बंधव	बंधव
192	11	10	अच्छेडिओ	अच्छोडिओ
196	1	12	अणेक्कु	अणेक्कु
198	5	12	गेहिणी	गेहिणि
288	16	11	कुवेरंदत्तहु	कुवेरदत्तहु

